

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

क्रम संख्या

2

8092

काल सं०

2/18

व्यण्ड

31 नवम्बर को शनिवार

श्री स्वामी मंदिर 29 दरियावाड़ा दिना.

श्री स्वामी मंदिर 29 दरियावाड़ा दिना.

श्री स्वामी मंदिर (श्री स्वामी)

20-3-64

SHREE DIG. JAIN SWADHYAYA MANDIR TRUST
SONGADH. (SAURASHTRA)

श्री स्वामी मंदिर

भगवान श्री कुन्दकुन्द-कहान जैन शास्त्रमाला पुष्प ८७



* सर्वज्ञवीतरागाय नमः *

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत
श्री प्रवचनसार

मूल गाथा. संस्कृत ज्ञाया, श्री अमृतचन्द्राचार्य देव विरचित
तत्त्वप्रदीपिका नामक संस्कृत टीका और उमके
गुजराती अनुवादके हिन्दी अनुवाद सहित



गुजराती अनुवादकः -

श्री हिमन्तलाल जेटालाल शाह, बी. एम. ला
मोनागढ़ (मौराष्ट्र)



हिन्दी अनुवादकः -

श्री पं० परमेशीदासजी स्वयंतीर्थ
ललितपुर (कांसी)



प्रकाशक -

श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट
मोनागढ़ (मौराष्ट्र)

प्रथमावृत्ति श्री पाटनी दि० जैन ग्रन्थमाला मारोठ द्वारा १०००
द्वितीयावृत्ति श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़ द्वारा २२००
इस संघमें पृष्ठ ४०२ कार्म ५६ में ३० × ४० = ७० पीछे साइजका ऑफसेट प्रिंटिंग (कागज) ७० रीम लगे हैं।

* आभार *

इस शास्त्रका विशेष संख्यामें धर्म जिज्ञासु लाभ ले सकें
इस हेतु से मूल्य कम करनेके लिये धर्मप्रेमियों द्वारा
निम्न प्रकार रकम ज्ञान प्रचार में आई है।

- २२०१) श्री दीपचन्द्रजी मेठिया द्वारा नारायण परिवार, भरदार, जहद
- १११०) श्री दिगम्बर जैन सुगुलु भंडार, भोपाल
- २४१) श्री कालीदास वीरचन्द्र कु० ह०-साम्बन्ध भाई, जलोद
- १०१) श्री जवाहरलालजी जैन, विदिशा
- १०१) श्री गदनालालजी राजमलजी, गुन्ना
- १००) श्री रत्नमाला बहिन, दिल्ली
- ०१३) गुटकर रकम (१००) से जीचेकी

(४०७६)

द्वितीयावृत्ति
२२००

भगवान महावीर दीक्षा (तप) कल्याणक दिवस
संगसर कृष्णा ६ वी० सि० सं० २४६१
दिसम्बर १६६४ वि० सं० २०२१

मूल्य
४)

मुद्रकः—नेमीचन्द्र बाकलीवाल, कमल प्रिन्टर्स, मदनगंज ।

अर्पण



जिनका इस पामर पर महान् महान् उपकार है, जो जिन प्रवचन
के परम भक्त श्रीर मर्मज्ञ हैं, जो जिन प्रवचनके सारको
अनुभव करके अपने निर्मल भेदविज्ञानके द्वारा सच्चे जैन
धर्मका प्रकाश कर रहे हैं तथा भव्य जीवोंको कल्याण
के मार्गमें ले जा रहे हैं, जिनके प्रसादसे इस
अपूर्व ग्रन्थराजका यह अनुवाद तैयार
हुवा है. उन परमोपकारी, प्रवचनसार
के सुदृ अर्थके प्रकाशक, अध्यात्म-
मूर्ति पूज्य श्री कानजी स्वामी
के कर कमलों में यह
महान प्रकाशन अनन्य
भक्तिपूर्वक सादर
स म र्प ण
करना
हूँ।

—नेमीचन्द पाटनी

अर्पण



जिनका हम पामर पर महान् महान् उपकार है, जो जिन प्रवचन
के परम भक्त और मर्मज्ञ है, जो जिन प्रवचनके सारका
अनुभव करके अपने निर्मल भेदविज्ञानके द्वारा गन्ते जैन
धर्मका प्रकाश कर रहे हैं तथा भव्य जीवोंको कल्याण
के मार्गमें ले जा रहे हैं, जिनके प्रसादसे हम
अपूर्व अन्वयज्ञका यह अनुवाद तैयार
हवा है उन परमोपकारी, प्रवचनगार,
के गृह अथक प्रकाशक, अध्यात्म-
मति पूज्य श्री कानजी स्वामी
के कर कमलों में यह
महान प्रकाशन अनन्त
भक्तिपूर्वक सादर
स म र्प ण
करना
है।

—नेमीचन्द्र पाटनी

प्रकाशकीय निवेदन

(प्रथमावृत्ति)

आज मुझे अत्यन्त हर्ष हो रहा है कि इस श्री प्रवचनसार परमागमकी तत्त्वदीपिका नामकी टीकाके प्रक्षरशः अनुवाद द्वारा श्री कुंबकुंदाचार्य्य देव एवं श्री अमृतचन्द्राचार्य्य देवके अन्तर हृदयको पहिचानकर, अपने आपको पहिचान सकनेका सौभाग्य हिंदी भाषाभाषियोंको आज प्राप्त होरहा है ।

आजसे अनुमानतः २००० वर्ष पूर्व भगवान् श्री कुंबकुंदाचार्य्य द्वारा सूत्ररूपमें श्री प्रवचनसारकी गाथाओंकी रचना हुई, उसके अनुमानतः १००० वर्ष पीछे ही उन सूत्रों पर श्री अमृतचन्द्राचार्य्य देव द्वारा तत्त्वदीपिका टीका रची गई, उसके आज १००० वर्ष पीछे ही उसकी प्रक्षरशः टीका—जो अमृतचन्द्र देवके हृदयमें छिपे अमृतको स्पष्ट रूपसे सरल भाषामें प्रकाशित करती है—उसकी रचना हुई व अपूर्व शैलीसे विशद और स्पष्ट विवेचन परमपूज्य श्री कानजी स्वामीके द्वारा सोनगढ़में अविच्छिन्न रूपसे होरहा है व हजारों मुमुक्षु निरंतर लाभ लेरहे हैं । इसप्रकार यह परम अध्यात्मका प्रवाह अत्रूटरूपसे, क्रम परम्परासे, यथार्थ मोक्षमार्गका प्रकाशन करता हुआ चलता आरहा है व भविष्यमें भी इसीप्रकार चलता रहेगा तथा इसके साधक जीव भी होते रहे हैं, वर्तमानमें हैं व आगामी भी होते रहेंगे ।

इस ग्रन्थराज की रचनाके सम्बन्धमें, ग्रन्थके विषयके बाबतमें, गुजराती भाषामें अनुवाद करनेका कारण एवं अनुवादमें कौन २ ग्रन्थोंका आधार आदि लिया गया आदि २ अनेक विषयोंको भाई श्री हिममलाल भाई ने अपने 'उपोद्घात' में सुन्दर रीतिसे स्पष्ट किया है वह पाठकोंको जरूर पढ़ने योग्य है ।

श्रीयुत् भाई श्री हिममलाल भाई के विषयमें तो क्या लिखा जावे ? उनको जितना भी धन्यवाद दिया जावे थोड़ा है । उनके विषयमें श्रीयुत् भाई श्री रामजीभाई माणकचन्दजी बोशी प्रमुख श्री जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़ भी गुजराती प्रवचनसारके प्रकाशकीय निवेदनमें लिखते हैं जो कि प्रक्षरशः सत्य है किः—

“भाई श्री हिममलाल भाई अध्यात्मरसिक, शांत, विवेकी, गम्भीर और वंराग्यशाली सज्जन हैं, इसके अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त और संस्कृतमें प्रवीण हैं । इसके पहले ग्रन्थाधिराज श्री समयसारका गुजराती अनुवाद भी उन्होंने ही किया है और अब नियमसारका अनुवाद भी वे ही करनेवाले हैं । इसप्रकार कुंबकुन्द भगवानके समयसार, प्रवचनसार और नियमसार जैसे सर्वोत्कृष्ट परमागम शास्त्रोंके अनुवाद करनेका परम सौभाग्य उनको मिला है, इसलिये वे यथार्थ रूपसे धन्यवाद के पात्र हैं ।”

“इस शास्त्रका गुजराती अनुवाद इनने इतना सुन्दर किया है कि इसके लिये यह ट्रस्ट उनका जितना उपकार माने उतना कम है । इस कार्यसे तो समस्त जैन समाजके ऊपर उनका उपकार है ।

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो यह काम उनसे हाथमें नहीं लिया होता तो अपन यह सर्वोत्कृष्ट शास्त्र अपनी मातृभाषामें प्राप्त नहीं कर सकते थे-ऐसा यह संस्था विश्वासपूर्वक कहती है। भाई श्री हिममलाल भाईने किसी भी प्रकारकी आर्थिक सहायता लिये बिना ही, मात्र जिनवाणी माताके प्रति भक्तिसे प्रेरित होकर ही यह कार्य किया है, इस कार्यके लिये संस्था उनकी ऋणी है, इस अनुवादमें श्री हरिगीतिका छन्दों में तो उन्होंने अपनी आत्माका संपूर्ण रस भर दिया है, उनके लिखे हुवे उपोद्घातमें उनके अंतर का प्रतिबिम्ब दिखाई दे जाता है, वे लिखते हैं कि 'यह अनुवाद मैंने प्रवचनसारके प्रति भक्तिसे और अध्यात्ममूर्ति श्री कानजीस्वामीकी प्रेरणासे, अपने कल्याणके लिये, भव-भयसे डरते डरते किया है।'

इसप्रकार भाई श्री हिममलाल भाईका समस्त जैन समाज पर महान् उपकार है।

इस परमागमका गुजराती अनुवाद होकर जब यह प्रेसमें छप रहा था तब सोनगढ़में इसके दर्शन करके पढ़ने पर एवं पूज्य श्री कानजी स्वामीके मुखसे इसके अनुवादकी प्रशंसा सुनकर मेरे हृदयमें तीव्र भावना उत्पन्न हुई कि इसका लाभ हिन्दी भाषा भाषी भी ले सकें तो बहुत ही अच्छा हो, इसी भावनाको लेकर मैंने उसका हिन्दी अनुवाद करनेकी श्रियुत् पं० परमेश्वरीदासजी न्यायतीर्थसे प्रेरणा की, जिन्होंने इसको सहर्ष स्वीकार कर इसका परिश्रमसे यह सुन्दर अनुवाद तैयार किया है, जिसके लिये पंडितजीको अनेक २ धन्यवाद है।

यह अनुवाद तैयार होजाने पर इसको अक्षरशः मिलान करके जांचनेके लिये अपना असूत्य समय देनेके लिये श्रियुत् माननीय भाई श्री रामजीभाई माणकचन्दजी दोशीको बहुत २ धन्यवाद है तथा श्रियुत् भाई श्री खेमचन्द भाई एवं ब्रह्मचारी श्री चंदूभाई भी धन्यवादके पात्र हैं कि जिन्होंने अपना असूत्य समय इस कार्यमें लगाया।

इस ग्रंथराजकी सुन्दर व आकर्षक छपाईके लिये प्रेस मनेजर श्री नेमीचन्दजी बाकलीवाल धन्यवाद के पात्र हैं तथा इसका प्रूफरीडिंग, शुद्धिपत्र तैयार करने, विषयसूची आदि तैयार करनेका कार्य बहुत भक्ति एवं सावधानीसे पं० महेन्द्रकुमारजी काव्यतीर्थ मदनगंज (किशनगढ़) ने किया है अतः उन्हें भी धन्यवाद है।

सबके अंतमें परमपूज्य परम उपकारी अध्यात्म मूर्ति श्री कानजी स्वामीके प्रति अत्यंत २ भक्ति पूर्वक नमस्कार है कि जिनकी यथार्थ तत्व प्ररूपणासे अनंतकालमें नहीं प्राप्त किया ऐसे यथार्थ मोक्षमार्गको समझनेका अवसर प्राप्त हुवा है तथा इस ओरकी रुचि प्रगटी है। अब आंतरिक हृदयसे यह भावना है कि आपका उपदेशित मार्ग मेरे अन्तरमें जयवन्त रहे तथा उस पर अप्रतिहत भावसे चलनेका बल मेरेमें प्राप्त हो।

द्वि० आपाद् शुक्ला ८

वीर नि० सं० २४७६

नेमीचन्द पाटनी

प्रधान मन्त्री—

श्री मगनमल हीरालाल पाटनी दि० जैन पारमार्थिक ट्रस्ट
मारोठ (मारवाड़)

प्रकाशकीय निवेदन

(दूसरी आवृत्ति)

आज विशेष प्रसन्नताका विषय है कि हमारे द्वाराध्य मूल ग्रन्थकर्ता परमगुरु श्री सर्वज्ञदेव, उत्तर ग्रन्थकर्ता श्री गणधरदेव—प्रतिगणधरदेव के वचनानुसार प्राप्त जो निर्मल तत्त्वज्ञान सहित मोक्षमार्गका उपदेश उनमें सारभूत जो परमागम शास्त्र हैं उनमें से भगवान् श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव विरचित श्री प्रवचनसारजी शास्त्रका दूसरीबार सुन्दर ढंगसे प्रकाशन हुआ ।

यह शास्त्र श्री अमृतचंद्राचार्यदेवकृत तत्त्वप्रदीपिका टीका सहित है, जिसका गुजराती भाषामें अक्षरशः अनुवाद भाई श्री पं० हिमंतलाल जेठालाल शाह, बी., एस सी. (सोनगढ़) के द्वारा हुआ है, उसीका यह हिन्दी अनुवाद है ।

[इसकी प्रथमावृत्ति श्री पाटनी ग्रन्थमाला, मारोठके द्वारा वि० सं० २००६ में छपी थी उसका प्रकाशकीय निवेदन साथमें है उसको अवश्य पढ़ लीजिये ताकि आत्मारथी पं० भाई श्री हिमंतलालजी का भी परिचय मिलेगा ।]

इस ग्रन्थमें सर्वज्ञ बीतराग कथित ज्ञान-ज्ञेयका स्वरूप, द्रव्य, गुण और पर्यायोंका स्वरूप तथा मोक्षमार्गका स्वरूप अत्यन्त निखरे हुए ज्ञानवैभव के द्वारा बतलाया गया है, उसे सुसंगत नय-प्रमाणरूप युक्ति और अनुभव प्रमाणके द्वारा आत्महितार्थ समझना चाहिये ।

सच्चा मोक्षमार्ग तो एक ही प्रकारका है, दो प्रकारका है ही नहीं, ऐसा भगवान् श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव प्रवचनसार ज्ञान अधिकार गा० ८२; ज्ञेय अधिकार गा० १९९ में तथा चरणानुयोग सूत्रक चूलिका गा० २३८ में कहते हैं और इन गाथाओंकी टीका में श्री अमृतचंद्राचार्य तथा श्री जयसेनाचार्य भी यही बात कहते हैं । अतः दो मोक्षमार्ग हैं ऐसी मान्यता असत्य है किन्तु जिनागममें कथन दो नयाश्रित होनेसे मोक्षमार्गका निरूपण उपादान-निमित्तका ज्ञान कराने के लिए दो नयोंके आश्रित किया है । एक नय उपादानका और एक नय निमित्तका ज्ञान कराते हैं । दोनों नयोंका ज्ञान किये बिना प्रमाणज्ञान हो सकता नहीं ।

श्री अमृतचंद्राचार्यने तत्त्वार्थसार अ० ६ गा० २ में कहा है कि—“निश्चयव्यवहारान्यां मोक्षमार्गो द्विधा स्थितः । तत्राद्यः साध्यरूपः स्याद् द्वितीयस्तस्य साधनम् ।” वहाँ साधनका अर्थ निश्चय साधन नहीं है किन्तु व्यवहारनयका कथन होनेसे व्यवहार साधन है । व्यवहार साधनका अर्थ निमित्त, बहिरंगसाधन, बाह्यसाधन, बाह्य सहकारी कारण, अभूतार्थ कारण आदि है । निश्चय साधन अर्थात् उपादान कारण तो अपने आत्माका आश्रय ही है ।

स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा गा० २३० में कहा है कि “अनंतर पूर्व परिणाम से युक्त द्रव्य उपादान कारणरूपसे प्रवर्तित होता है और वही द्रव्य जब अनंतर उत्तरवर्ती परिणामसे युक्त होता है तब नियमसे कार्यरूप होता है ।” जब साधक आत्मा स्वसन्मुखताका तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तब

अपना पूर्व परिणाम जो प्रांशिक शुद्धिसे युक्त जीव द्रव्य उपादान कारण है और अनंतर क्षणवर्ती विशेष शुद्ध परिणामसे युक्त वही जीव द्रव्य नियमसे उपादेय अर्थात् कार्यरूप है। इसलिये तत्त्वार्थसारकी इस गाथाका अर्थ ऐसा है कि निश्चय मोक्षमार्ग तो उपादानका शुद्ध कार्यरूप है और व्यवहार मोक्षमार्ग उसका निमित्तमात्र है। अतः वास्तवमें मोक्षमार्ग एक ही है।

जनाचार्योंके कथन परस्पर विरुद्ध हैं ही नहीं। समयसार तथा प्रवचनसारमें श्री अमृतचन्द्राचार्य “एक ही मोक्षमार्ग है, अन्य नहीं है” ऐसा कहें और वही आचार्य तत्त्वार्थसारमें “मोक्षमार्ग दो प्रकारके हैं” ऐसा वास्तवमें कहे—ऐसा मानना अनुचित है। इसलिये हरेक स्थानपर नयविभाग द्वारा किस अपेक्षासे कथन है वह स्याद्वादोको समझना चाहिये। जो जीव व्यवहाररूप मोक्षमार्गसे शुद्धि मानते हैं वह निज शक्तिरूप उपादानसे शुद्धि न मानकर निमित्तसे अर्थात् रागसे शुद्धि मानते हैं। वह उपादान और निमित्त दोनोंको एक ही मानते हैं जो मिथ्या है।

निमित्तरूप कारण उपादानरूप द्रव्यमें कुछ कर सकता नहीं है ऐसा प्रवचनसार गाथा १६६ की टीकामें कहा है। वहाँ कहा है कि “कर्मरूप परिणमित होनेकी शक्तिवाले पुद्गलस्कंध, तुल्य क्षेत्रावगाही जीवके परिणाम मात्रका—जो कि बहिरंग साधन है, उमका-आश्रय लेकर, जीव उनको परिणमानेवाला नहीं होने पर भी, स्वयमेव कर्मभावसे परिणमित होते हैं।” अतः सिद्ध होता है कि निमित्तसे उपादानमें कुछ भी विशेषता—अतिशयता आती नहीं।

विल्ली से प्रकाशित मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३६५-६६ में लिखा है कि “सो मोक्षमार्ग दोय नहीं, मोक्षमार्गका निरूपण दोय प्रकार है। जहाँ सांचा मोक्षमार्ग का मोक्षमार्ग निरूपण सो निश्चयमोक्षमार्ग है और जहाँ जो मोक्षमार्ग तो है नहीं, परन्तु मोक्षमार्गका निमित्त है वा सहचारी है, ताका उपचारकरि मोक्षमार्ग कहिए सो व्यवहार मोक्षमार्ग है जातें निश्चय व्यवहारका सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सांचा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार, तातें निरूपण अपेक्षा दोय प्रकार मोक्षमार्ग जानना। एक निश्चयमोक्षमार्ग है, एक व्यवहारमोक्षमार्ग है; ऐसं दोय मोक्षमार्ग मानना मिथ्या है। बहुरि निश्चय-व्यवहार दोऊनिकू उपादेय माने है, सो भी भ्रम है। जातें निश्चय व्यवहारका स्वरूप तो परस्पर विरोध लिए है। जातें समयसार विषे ऐसा कहा है—

“व्यवहारोऽभूदर्थो भूदर्थो देसिऊण सुद्धणओ” गा० ११

अर्थ—व्यवहार अभूतार्थ है। सत्यस्वरूपको न निरूपे है। किसी अपेक्षा उपचारकरि अन्यथा निरूपे है। बहुरि शुद्धनय जो निश्चय है सो भूतार्थ है। जैसा वस्तुका स्वरूप है तैसा निरूपे है, ऐसं इनि दोऊनिका (—निश्चय-व्यवहार दोनोंका) स्वरूप तो विरुद्धता लिए है।”

अतः दोनों नय आश्रय करने योग्य नहीं हैं कारण कि दोनोंका स्वरूप, लक्षण, विषय और आश्रय भिन्न भिन्न है। निश्चयनय और व्यवहारनय दोनों नय सम्यक् भूतज्ञान प्रमाणके

भेद होनेसे दोनों साथ साथ होते हैं, किन्तु प्रथम व्यवहार और बादमें निश्चय ऐसा कभी नहीं होता ।

व्यवहारनय और उसके विषय—(शुद्धि-अशुद्धिके भेद) साधक दशामें भूमिकानुसार आते हैं, वे जानने के लिये प्रयोजनवान हैं किन्तु आश्रय करने योग्य नहीं हैं । क्योंकि व्यवहारनयके आश्रयका फल संसार है; अतः आश्रय करने योग्य तो नित्य एकरूप पूर्ण विज्ञानघन ज्ञायक स्वरूप ही है जो शुद्ध निश्चयनयका विषय है ।

शास्त्रमें सर्वत्र शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, प्रागमार्थ और हेय—उपादेय सहित भावार्थको समझकर परमार्थको ग्रहण करनेका विधान है । चारों अनुयोगमय जैन शास्त्रोंका तात्पर्य वीतरागता ही है । तीनोंकाल सर्वज्ञदेव कथित वीतराग विज्ञानमय रत्नत्रयसे ही आत्महित की प्राप्ति होती है किन्तु मरागता (शुभाशुभभाव) से आत्मद्वितकी प्राप्ति कभी भी, किंचित् भी नहीं होती ऐसा (अस्ति नास्ति सहित) निःसंदेह निर्णय प्रथमसे ही करना चाहिये ।

शुभाशुभ राग जानीको भी अमुक भूमिका तक आते हैं, किन्तु उससे परमार्थतः शुद्धिके अंशरूप सवर-निजरा कभी भी नहीं होती, कारण कि वह आस्रवतत्त्व है, बंधका कारण है । प्रवचनसार गा० १२४ की टीकामें धर्मी जीवके शुभभावरूप कर्म चेतनाका फल निम्नप्रकार कहा है “तस्यफलं सौख्यलक्षणाभावद्विकृतिभूतदुःखम् । अर्थात् उसका फल विकृति (-विभाव) भूत दुःख है, क्योंकि वहाँ सुखके लक्षणका अभाव है ।” इसलिये जिसका फल दुःख हो वह धर्म या धर्मका कारण कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता ।

जहाँ चरणानुयोगमें धर्मीजीवके व्यवहाररत्नत्रयरूप शुभ रागको परंपरा मोक्षका कारण व्यवहारनयसे कहा हो या सहचर-निमित्तकारण कहा हो वहाँ ऐसा समझना चाहिये कि पर्याय अपेक्षा पूर्ण शुद्धिका साक्षात् कारण तो वर्तमान स्वप्नव्याश्रित निश्चय अपूर्ण शुद्धता ही है किन्तु सर्वज्ञ वीतरागदेवने जिसप्रकारके व्यवहाररत्नत्रय आदि कहे हैं उसको उपचारसे (असद्भूत-व्यवहारनयसे) परम्परा मोक्षका कारण इसलिये कहा है कि इस ही प्रकारके शुभराग शुद्धताके उसकालमें निमित्त होते हैं, और उसीका अभाव करते करते मोक्षदशा तककी शुद्धता स्वाश्रयरूप निश्चयसे ही प्रगट होगी ।

किसी भी दिगम्बर जेनाचार्यके कथनमें परस्पर विरोध नहीं है । नय विभाष और प्रयोजन समझकर सर्वत्र वीतरागता, यथार्थता और स्वतंत्रता ही ग्रहण करनी चाहिये ।

इस ग्रन्थके गुजराती प्रकाशनमें संस्कृत टीकाका संशोधन तो पूर्वमें हो चुका था किन्तु फिर जांचनेके कायमें ‘जैन साहित्य शोध संस्था’ श्री महावीर भवन (जयपुर) की संशोधितप्रतिका उपयोग किया है अतः उस संस्थाके व्यवस्थापक श्री डॉ० कस्तूरचंदजी काशलोवाल आदिका हम

आभार मानते हैं। आगरा-जयपुर निवासी श्री नेमीचन्दजी पाटनी, प्रधानमंत्री श्री मगनमल हीरालाल दि० जैन पारमार्थिक ट्रस्ट मारोठने अपनी ग्रन्थमालाके प्रवचनसाराबि सब ग्रन्थ छापनेकी अनुमति प्रदान की है अतः आपका आभार मानता हूँ।

इस ग्रन्थका अच्छी तरह संशोधन करनेमें अपना अमूल्य समय देनेवाले श्री पं० हिमतलाल भाईका हम आभार मानते हैं। यह ग्रन्थ तैयार होनेमें खास श्रम द्वारा शुद्ध प्रेस मंटर तैयार करके आदि से अंत तक की सब व्यवस्थामें संपूर्ण सहयोग देनेवाले ब्र० गुलाबचंदजी जैनका भी मैं आभार मानता हूँ। श्री नेमीचन्दजी बाकलीवाल तथा श्री पांचूलालजी मालिक श्री कमल प्रिन्टर्स, मदनगंज-किशनगढ़ का भी इस प्रकाशन में उत्तम सहयोग के लिये आभार मानता हूँ।

इस शास्त्रका विशेष प्रचार हो उस हेतुसे ज्ञानवानमें जो रकम जिन बाताओंकी ओर से आई है उन सबका आभार मानता हूँ।

अंतमें नम्र प्रार्थना है कि इस शास्त्रका विनय-बहुमान आदि ज्ञानाचार सहित सब जीव अभ्यास करें और निर्मल भेद विज्ञानके बलद्वारा स्वसन्मुख होकर निज आत्महित करें।

वीर निर्वाण सं० २४६१

मंगसर १०

भगवान महावीर दीक्षा कल्याणक दिवस

नवनीतलाल सी० झवेरी

प्रमुख—

श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट
सोनगढ़ (सौराष्ट्र)



— श्री वीतरागगुरवेनमः —

उषोद्घात

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत यह प्रवचनसार नामक शास्त्र 'द्वितीय श्रुतस्कंध' के सर्वोत्कृष्ट आगमोंमें से एक है ।

द्वितीय श्रुतस्कंधकी उत्पत्ति कैसे हुई यह पट्टावलियोंके आधारसे संक्षेपमें हम सब विचार करें:—

आजसे २४७४ वर्ष पूर्व इस भरतक्षेत्रकी पुण्य भूमिमें जगत्पूज्य परम भट्टारक भगवान् महावीरस्वामी मोक्षमार्गका प्रकाश करनेके लिये समस्त पदार्थोंका स्वरूप अपनी सातिशय दिव्यध्वनि के द्वारा प्रगट करते थे । उनके निर्वाणके बाद पांच श्रुतकेवली हुये, जिनमेंसे अन्तिम श्रुतकेवली श्री भद्रबाहु थे । वहाँ तक तो द्वादशांग शास्त्रकी प्ररूपणासे निश्चय—व्यवहारात्मक मोक्षमार्ग यथार्थरूपमें प्रवर्तित रहा । तत्पश्चात् काल दोषसे क्रमशः अंगोंके ज्ञानकी व्युच्छिन्नि होती गई और इसप्रकार अपार ज्ञानसिंधुका बहुभाग विच्छिन्न होनेके बाद दूसरे भद्रबाहुस्वामी-आचार्यकी परिपाटी (परम्परा) में दो समर्थ मुनि हुये । उनमेंसे एकका नाम श्रीधरसेनाचार्य और दूसरेका श्री गुणधराचार्य था । उनसे प्राप्त ज्ञानके द्वारा उनकी परम्परामें होनेवाले आचार्योंने शास्त्रोंकी रचना की और वीर भगवान्के उपदेशका प्रवाह चालू रखा ।

श्रीधरसेनाचार्यको अग्रायणीपूर्वके पंचम वस्तुअधिकारके महाकर्म प्रकृति नामक चौथे प्राभृतका ज्ञान था । उस ज्ञानामृतमेंसे क्रमशः उनके बादके आचार्यों द्वारा पट्खण्डागम, धवल, महाधवल, जयधवल, गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणासार आदि शास्त्रोंकी रचना हुई । इसप्रकार प्रथम श्रुतस्कंधकी उत्पत्ति हुई । उसमें जीव और कर्मके संयोगसे होनेवाली आत्माकी संसार पर्यायका,—गुणस्थान, मार्गणा आदिका-वर्णन है, पर्यायाधिक नयको प्रधान करके कथन है । इस नयको अशुद्ध द्रव्याधिक भी कहते हैं, और अध्यात्म भाषामें अशुद्ध निश्चयनय अथवा व्यवहार कहते हैं ।

श्रीगुणधर आचार्यको ज्ञानप्रवादपूर्वके दशमवस्तुके तीसरे प्राभृतका ज्ञान था । उस ज्ञानमें से बादके आचार्योंने क्रमशः सिद्धान्त-रचना की । इसप्रकार सर्वज्ञ भगवान् महावीरसे चला आनेवाला ज्ञान आचार्य परम्परासे भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवको प्राप्त हुआ । उन्होंने पचास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, नियमसार, अष्टपाहुड़ आदि शास्त्रोंकी रचना की । इसप्रकार द्वितीय श्रुतस्कंधकी

उत्पत्ति हुई। उसमें ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे कथन है,—आत्माके शुद्धस्वरूपका वर्णन है।

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य विक्रम संवत्के प्रारंभमें हुये हैं। दिगम्बर जैन परम्परामें भ० कुन्दकुन्दाचार्यका स्थान सर्वोत्कृष्ट है।

मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी ।

मंगलं कुन्दकुन्दाचार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ॥

यह श्लोक प्रत्येक दिगम्बर जैन, शास्त्रस्वाध्यायके प्रारंभमें मंगलाचरणके रूपमें बोलता है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वज्ञ भगवान् श्री महावीर स्वामी और श्री गौतम-गणधरके पश्चात् तत्काल ही भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यका स्थान है। दिगम्बर जैन साधु अपनेको कुन्दकुन्दाचार्यकी परम्पराका कहलानेमें गौरव मानते हैं। भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यके शास्त्र साक्षात् गणधर देवके वचन जितने ही प्रमाणभूत माने जाते हैं। उनके बाद होनेवाले ग्रंथकार आचार्य अपने किसी कथन को सिद्ध करनेके लिये कुन्दकुन्दाचार्यके शास्त्रोंका प्रमाण देते हैं, इसलिये वह कथन निर्विवाद सिद्ध हो जाता है। उनके बादके लिखे गये ग्रंथोंमें उनके शास्त्रोंमें से बहुतसे अवतरण लिये गये हैं। वास्तवमें भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यने अपने परमागमोंमें तीर्थंकर देवोंके द्वारा प्ररूपित उत्तमोत्तम सिद्धान्तोंको सुरक्षित कर रखा है, और मोक्षमार्गको स्थिर रखा है।

विक्रम संवत् ६६० में होनेवाले श्री देवसेनाचार्यने अपने दर्शनसार नामक ग्रंथमें कहा है कि—❁ “विदेह क्षेत्रके वर्तमान तीर्थंकर सीमंधर स्वामीके समवसरणमें जाकर श्री पद्मनन्दिनाथ (कुन्दकुन्दाचार्य) ने स्वयं प्राप्त किये गये ज्ञानके द्वारा बोध न दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्गको कैसे जानते ?” एक दूसरा उल्लेख है, जिसमें कुन्दकुन्दाचार्यको ‘कलिकाल सर्वज्ञ’ कहा गया है। श्री श्रुतसागरसूरिकृत षट्प्राभृत टीकाके अंतमें लिखा है कि-पद्मनन्दि, कुन्दकुन्दाचार्य, वक्रप्रीवाचार्य, एलाचार्य और गृध्रपिच्छाचार्य,—इन पांच नामोंसे युक्त, तथा जिन्हें चार अंगुल ऊपर आकाशमें चलनेकी ऋद्धि प्राप्त थी और जिन्होंने पूर्व विदेहमें जाकर सीमंधर भगवानकी वंदना की थी तथा उनके पाससे प्राप्त श्रुतज्ञानके द्वारा भारतवर्षके भव्यजीवोंको प्रति बोधित किया था, उन श्री जिनचन्द्रसूरि भट्टारकके पट्टके आभरणरूप कलिकाल सर्वज्ञ (भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव) के द्वारा रचित इस षट्प्राभृत ग्रंथमें……सूरीश्वर श्री श्रुतसागरके द्वारा रचोगई मोक्षप्राभृतकी टीका समाप्त हुई।”

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यकी महत्ताको प्रदर्शित करनेवाले ऐसे अनेकानेक उल्लेख जैन साहित्यमें मिलते हैं। कई शिलालेखों— में भी उल्लेख पाया जाता है। इसप्रकार हम देखते हैं कि सनातन जैन संप्रदायमें कलिकाल सर्वज्ञ भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यका अद्वितीय स्थान है।

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा रचित अनेक शास्त्र हैं, जिनमें से थोड़े से वर्तमानमें विद्यमान हैं। त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञदेवके मुखसे प्रवाहित श्रुतामृतकी सरितामेंसे भर लिये गये अमृतभाजन वर्तमानमें भी अनेक आत्माथियोंको आत्मजीवन प्रदान करते हैं। उनके समयसार, पंचास्तिकाय और प्रवचनसार नामक तीन उत्तमोत्तम शास्त्र 'नाटक त्रय' अथवा 'प्राभृत त्रय' कहलाते हैं। इन तीन परमागमोंमें हजारों शास्त्रोंका सार आजाता है। भ० कुन्दकुन्दाचार्यके बाद लिखे गये अनेक ग्रन्थोंके बीज इन तीन परमागमोंमें विद्यमान हैं, —ऐसा सूक्ष्म दृष्टिसे अभ्यास करने पर स्पष्ट ज्ञात होता है। श्री समयसार इस भरतक्षेत्रका सर्वोत्कृष्ट परमागम है। उसमें नवतत्त्वोंका शुद्धनयकी दृष्टिसे निरूपण करके जीवका शुद्ध स्वरूप सब प्रकारसे—आगम, युक्ति, अनुभव और परम्परासे—अति विस्तारपूर्वक समझाया है। पंचास्तिकायमें छह द्रव्यों और नव तत्त्वोंका स्वरूप संक्षेपमें कहा गया है। प्रवचनसारमें उसके नामानुसार जिन प्रवचनका सार संगृहीत किया गया है। जैसे समयसारमें मुख्यतया दर्शनप्रधान निरूपण है उसीप्रकार प्रवचनसारमें मुख्यतया ज्ञानप्रधान कथन है।

श्री प्रवचनसारके प्रारंभमें ही शास्त्रकर्तानि दीतरागचारित्रके लिये अपनी तीव्र आकांक्षा व्यक्त की है। बारंबार भीतर ही भीतर (अंतरमें) डुबकी लगाते हुये आचार्यदेव निरंतर भीतर ही समाये रहना चाहते हैं। किन्तु जब तक उस दशाको नहीं पहुँचा जाता तब तक अंतर अनुभवसे छूटकर बारंबार बाहर भी आना हो जाता है। इस दशामें जिन अमूल्य वचन मोक्तिकोंकी माला गुँथ गई वह यह प्रवचनसार परमागम है। सम्पूर्ण परमागममें दीतराग चारित्रकी तीव्रआकांक्षाकी मुख्यध्वनि गूँज रही है।

ऐसे इस परम पवित्र शास्त्रके मध्य तीन श्रुतस्कंध हैं। प्रथम श्रुतस्कंधका नाम ज्ञानतत्त्व प्रज्ञापन है। अनादिकालसे परोन्मुख जीवोंको कभी ऐसी श्रद्धा नहीं हुई कि 'मैं ज्ञानस्वभाव हूँ और मेरा सुख मुझमें ही है।' इसीलिये उसकी परमुखापेक्षी-परोन्मुखवृत्ति कभी नहीं टलती। ऐसे दोन दुखी जीवों पर आचार्यदेवने करुणा करके इस अधिकारमें जीवका ज्ञानानंदस्वभाव विस्तारपूर्वक समझाया है; उसीप्रकार केवलीके ज्ञान और सुख प्राप्त करनेकी प्रचुर उत्कृष्ट भावना बहाई है। "क्षायिक ज्ञान ही उपादेय है, क्षायोपशमिकज्ञानवाले तो कर्मभारको ही भोगते हैं; प्रत्यक्षज्ञान ही ऐकान्तिक सुख है, परोक्षज्ञान तो अत्यंत आकुल है; केवलीका अतीन्द्रिय सुख ही सुख है, इंद्रियजनित सुख तो दुःख ही है; सिद्ध भगवान् स्वयमेव ज्ञान, सुख और देव हैं, घातिकर्म रहित भगवानका सुख सुनकर भी जिन्हें उनके प्रति श्रद्धा नहीं होती वे अभव्य (दूरभव्य) हैं" यों अनेकानेक प्रकारसे आचार्यदेवने केवलज्ञान और अतीन्द्रिय, परिपूर्ण सुखके लिये पुकार की है। केवलीके ज्ञान और आनंदके लिये आचार्यदेवने ऐसी भाव भरी धुन मचाई है कि जिसे सुनकर-पढ़कर सहज ही ऐसा लगने लगता है कि विदेहवासी सीमंधर भगवानके निकटसे, केवली भगवंतोंके भुंडमेंसे भरतक्षेत्रमें आकर तत्काल ही कदाचित् आचार्यदेवने यह अधिकार रचकर अपनी हृदयोर्मियाँ व्यक्त की हों इसप्रकार ज्ञान और सुखका अनुपम निरूपण करके इस अधिकारमें आचार्यदेवने मुमुक्षुओंको अतीन्द्रिय ज्ञान और

सुखकी रुचि तथा श्रद्धा कराई है, और अंतिम गाथाओंमें मोह-राग-द्वेषको निर्मूल करनेका जिनोक्त पथाथं उपाय संक्षेपमें बताया है ।

द्वितीय श्रुतस्कंधका नाम ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापन है । अनादिकालसे परिभ्रमण करता हुआ जीव सब कुछ कर चुका है, किन्तु उसने स्व-परका भेद विज्ञान कभी नहीं किया । उसे कभी ऐसी सानुभव श्रद्धा नहीं हुई कि 'बंध मार्गमें तथा मोक्षमार्गमें जीव अकेला ही कर्ता, कर्म, करण और कर्मफल बनता है, उसका परके साथ कभी भी कुछ भी संबंध नहीं है ।' इसलिये हजारों मिथ्या उपाय करने पर भी वह दुःख मुक्त नहीं होता । इस श्रुतस्कंधमें आचार्यदेवने दुःखकी जड़ छेदनेका साधन-भेदविज्ञान-समझाया है । 'जगतका प्रत्येक सत् अर्थात् प्रत्येक द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यके अतिरिक्त या गुण-पर्याय समूहके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है । सत् कहो, द्रव्य कहो, उत्पाद व्यय ध्रौव्य कहो या गुणपर्यायपिण्ड कहो, -यह सब एक ही हैं 'यह' त्रिकालज्ञ जिनेन्द्रभगवानके द्वारा साक्षात् दृष्ट वस्तुस्वरूपका मूलभूत सिद्धान्त है । वीतरागविज्ञानका यह मूलभूत सिद्धांत प्रारंभकी बहुतसी गाथाओंमें अत्यधिक सुन्दर रीतिसे, -किसी लोकोत्तर वैज्ञानिक के ढंगसे समझाया गया है । उसमें, द्रव्यसामान्यका स्वरूप जिस अलौकिक शैलीसे सिद्ध किया है उसका ध्यान पाठकको यह भाग स्वयं ही समझपूर्वक पढ़े बिना आना अशक्य है ।

वास्तवमें प्रवचनसारमें वर्णित यह द्रव्यसामान्य निरूपण अत्यन्त अबाध्य और परम प्रतीतिकर है । इसप्रकार द्रव्यसामान्यकी ज्ञानरूपी सुदृढ़ भूमिका रचकर, द्रव्य विशेषका असाधारण वर्णन, प्राणादिसे जीवकी भिन्नता, जीव देहादिका-कर्ता कारयिता, अनुमोदक नहीं है-यह वास्तविकता, जीवको पुद्गलपिण्डका अकलृत्व, निश्चयबंधका स्वरूप, शुद्धात्माकी उपलब्धिका फल, एकाग्र संचेतनलक्षण ध्यान इत्यादि अनेक विषय अति स्पष्टतया समझाये गये हैं । इन सबमें स्व-परका भेद विज्ञान ही स्पष्ट तैरता दिखाई दे रहा है । सम्पूर्ण अधिकारमें वीतराग प्रणीत द्रव्यानुयोगका सत्त्व खूब घांस घांस कर (ठूस ठूस कर) भरा है, जिनशासनके मौलिक सिद्धान्तोंको अबाध्यरूपसे सिद्ध किया है । यह अधिकार जिनशासनके स्तंभ समान है । इसका गहराईसे अभ्यास करनेवाले मध्यस्थ सुपात्र जीवको ऐसी प्रतीति हुये बिना नहीं रहती कि 'जैन दर्शन ही वस्तुदर्शन है ।' विषयका प्रतिपादन इतना बौद्ध, अगाध गहराई युक्त, मर्मस्पर्शी और चमत्कृतिमय है कि वह मुमुक्षुके उपयोगको तीक्ष्ण बनाकर श्रुतरत्नाकरकी गंभीर गहराईमें ले जाता है । किसी उच्चकोटिके मुमुक्षुको निजस्वभाववर्तनकी प्राप्ति कराता है, और यदि कोई सामान्य मुमुक्षु वहाँ तक न पहुँच सके तो उसके हृदयमें भी इतनी महिमा तो अवश्य ही घर कर लेती है कि 'श्रुतरत्नाकर अद्भुत और अपार है ।' ग्रंथकार श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव और टीकाकार श्री अमृतचन्द्राचार्यदेवके हृदयसे प्रवाहित श्रुतगंगाने तीर्थकरके और श्रुतकेवलियोंके विरहको भुला दिया है ।

तीसरे श्रुतस्कंधका नाम चरणानुयोगसूचक चूलिका है । शुभोपयोगी मुनिको अंतरंग दशाके अनुरूप किस प्रकारका शुभोपयोग वर्तता है और साथ ही साथ सहजतया बाहरकी कैसी क्रियायें स्वयं वर्तती होती हैं, यह इसमें जिनेन्द्र कथनानुसार समझाया गया है दीक्षा ग्रहण करनेकी

जिनोक्त विधि, अंतरंग सहज दशाके अनुरूप बहिरंगयथाजातरूपत्व, अट्टाईस मूलगुण अंतरंग-बहिरंग छेद, उपधिनिषेध, उत्सर्गअपवाद, युक्ताहार विहार, एकाग्रतारूप मोक्षमार्ग, मुनिका अन्य मुनियोंके प्रतिका व्यवहार, इत्यादि अनेक विषय इसमें युक्ति सहित समझाये गये हैं। ग्रंथकार और टीकाकार आचार्ययुगलने चरणानुयोग जैसे विषयका भी आत्म द्रव्यको मुख्य करके, शुद्धद्रव्यावलम्बी अंतरंग दशाके साथ उन उन क्रियाओंका अथवा शुभ भावोंका संबंध दिखलाते हुये, निश्चय व्यवहारकी संघिपूर्वक ऐसा चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है कि आचरणप्रज्ञापन जैसे अधिकारमें भी मानों कोई शांतरस भरता हुआ अध्यात्मगीत गाया जा रहा हो,—ऐसा ही लगता रहता है। आत्मद्रव्यको मुख्य करके ऐसा मधुर, ऐसा सयुक्तिक, ऐसा प्रमाणभूत, साद्यंत शांतरस भरता हुआ चरणानुयोगका प्रतिपादन अन्य किसी शास्त्रमें नहीं है। हृदयमें भरे हुये अनुभवामृतमें ओतप्रोत होकर निकलती हुई दोनों आचार्यों देवोंकी वाणीमें कोई ऐसा चमत्कार है कि वह जिस जिस विषयको स्पर्श करती है उस उस विषयको परम रसमय, शीतल-शीतल और सुधास्यंदी बना देती है।

इसप्रकार तीन श्रुतस्कंधोंमें विभाजित यह परम पवित्र परमागम मुमुक्षुओंको यथार्थ वस्तुस्वरूपके समझनेमें महानिमित्तभूत है। इस शास्त्रमें जिनशासनके अनेक मुख्य मुख्य सिद्धांतोंके बीज विद्यमान हैं। इस शास्त्रमें प्रत्येक पदार्थकी स्वतंत्रताकी घोषणा की गई है तथा दिव्यध्वनिके द्वारा विनिर्गत अनेक प्रयोजनभूत सिद्धांतोंका दोहन है।

परमपूज्य कानजी स्वामी अनेकबार कहते हैं कि—“श्री समयसार, प्रवचनसार, नियमसार आदि शास्त्रोंकी गाथा गाथामें दिव्यध्वनिका संदेश है। इन गाथाओंमें इतनी अपार गहराई है कि उसका माप करनेमें अपनी ही शक्तिका माप होजाता है। यह सागर गंभीर शास्त्रोंके रचयिता परमकृपालु आचार्यदेवका कोई परम अलौकिक सामर्थ्य है। परम अद्भुत सातिशय अन्तर्वाह्य योगोंके बिना इन शास्त्रोंका रचा जाना शक्य नहीं है। इन शास्त्रोंकी वाणी तरंगित हुये पुरुषकी वाणी है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। इसकी प्रत्येक गाथा छट्टे—सातवें गुणस्थानमें भूलते हुये महामुनिके आत्मानुभवसे निकली हुई है। इन शास्त्रोंके कर्ता भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेव महाविदेह क्षेत्रमें सर्वज्ञ वीतराग श्री सीमंघर भगवान्के समवसरणमें गये थे, और वहाँ वे आठ दिन रहे थे, यह बात यथातथ्य है, अक्षरशा सत्य है, प्रमाणसिद्ध है। उन परमोपकारी आचार्यदेवके द्वारा रचित समयसार, प्रवचनसार, आदि शास्त्रोंमें तीर्थंकर देवकी ऊँकारध्वनिमेंसे ही निकला हुआ उपदेश है।”

भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यकृत इस शास्त्रकी प्राकृत गाथाओंकी ‘तत्त्वदीपिका’ नामक संस्कृत टीका श्री अमृतचन्द्राचार्य (जो कि लगभग विक्रम संवत् की १० व शताब्दीमें होगये हैं) ने रची है। जैसे इस शास्त्रके मूलकर्ता अलौकिक पुरुष हैं वैसे ही इसके टीकाकार भी महा समर्थ आचार्य हैं। उन्होंने समयसार तथा पंचास्तिकायकी टीका भी लिखी है और तत्त्वार्थसार, पुरुषार्थसिद्धयुपाय आदि स्वतंत्र ग्रंथोंकी भी रचना की है। उन जैसी टीकायें अभी तक किसी अन्य जैनशास्त्रकी नहीं हुई है। उनकी टीकाओं के पाठको उनकी अष्ट्यात्मरसिकता, आत्मानुभव, प्रसर विद्वता,

वस्तुस्वरूपको न्यायपूर्वक सिद्ध करनेकी असाधारण शक्ति, जिनशासनका अत्यन्त गंभीर ज्ञान, निश्चय व्यवहारका संघिबद्ध निरूपण करनेकी विरलशक्ति और उत्तम काव्य शक्तिका पूरा पता लग जाता है। गंभीर रहस्योंको अत्यन्त संक्षेपमें भर देनेकी उनकी शक्ति विद्वानोंको आश्चर्यचकित कर देती है। उनकी दैवी टोकार्थे श्रुतकेवलीके वचनों जैसी हैं। जैसे मूल शास्त्रकारके शास्त्र अनुभव-युक्ति आदि समस्त समृद्धियोंसे समृद्ध हैं वैसे ही टोकाकारकी टोकार्थे भी उन उन सब समृद्धियोंसे विभूषित हैं। शासन मान्य भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवने इस कलिकालमें अगद्गुरु तीर्थंकरदेव जैसा कार्य किया है और श्री अमृतचन्द्राचार्यदेवने मानों कि वे कुन्दकुन्दभगवान्के हृदयमें बैठ गये हों इसप्रकारसे उनके गंभीर आशयोंको यथार्थतया व्यक्त करके उनके गणधर जैसा कार्य किया है।

श्री अमृतचन्द्राचार्य द्वारा रचित काव्य भी अध्यात्मरस और आत्मानुभवकी मस्तीसे भरपूर है। श्री समयसारकी टोकामें आनेवाले काव्यों (कलशों) ने श्री पद्मप्रभदेव जैसे समर्थ मुनिवरों पर गहरी छाप जमाई है, और आज भी तत्त्वज्ञान तथा अध्यात्मरससे भरे हुवे वे मधुर कलश अध्यात्मरसिकोंके हृदयके तारको झनझना डालते हैं। अध्यात्मकविके रूपमें श्री अमृतचन्द्रा-चार्यदेवका स्थान अद्वितीय है।

प्रवचनसारमें भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवने २७५ गाथाओंकी रचना प्राकृतमें की है। उनपर श्री अमृतचन्द्राचार्यने तत्त्वदीपिका नामक तथा श्री जयसेनाचार्यने तात्पर्यवृत्तिनामक संस्कृत टोका की रचना की है। श्री पांडे हेमराजजी ने तत्त्वदीपिकाका भावार्थ हिन्दीमें लिखा है, जिसका नाम 'बालावबोध भाषा टोका' रखा है। विक्रम संवत् १९६९ में श्री परमश्रुतप्रभावक मण्डल बम्बई द्वारा प्रकाशित हिन्दी प्रवचनसारमें मूल गाथायें, दोनों संस्कृत टोकार्थे, और श्री हेमराजजी कृत हिन्दी बालावबोध भाषा टोका मुद्रित हुई है। अब इस प्रकाशित गुजराती प्रवचनसारमें मूल गाथायें, उनका गुजराती पद्यानुवाद (जो परिशिष्टरूपमें इस ग्रन्थके अंतमें दिया है), संस्कृत तत्त्वदीपिका टोका और उस गाथा व टोकाका अक्षरशः गुजराती अनुवाद (जिसका यह हिन्दी अनुवाद श्रीयुत् पंडित परमेशीदासजी जैन न्यायतीर्थने किया है) प्रगट किया गया है। जहाँ कुछ विशेष स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई है वहाँ कोष्ठकमें अथवा 'भावार्थ' में या फुटनोटमें स्पष्टता की गई है। उस स्पष्टता करनेमें बहुत सी जगह श्री जयसेनाचार्य की तात्पर्यवृत्ति अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है और कहीं कहीं श्री हेमराजजी कृत बालावबोध भाषा टोका का भी आधार लिया है। श्री परमश्रुत प्रभावक मण्डलद्वारा प्रकाशित प्रवचनसारमें मुद्रित संस्कृत टोका को हस्तलिखित प्रतियोंसे मिलान करने पर कहीं कहीं जो अल्प अशुद्धियाँ मालूम हुईं वे इसमें ठीक करली गई हैं।

यह अनुवाद करनेका महाभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, जो कि मेरे लिये अत्यन्त हर्षका कारण है। परमपूज्य अध्यात्ममूर्ति श्री कानजी स्वामीके आश्रयमें इस महान् शास्त्रका अनुवाद हुआ है। अनुवाद करनेकी सम्पूर्ण शक्ति मुझे पूज्यपाद महाराज श्री से ही प्राप्त हुई है। परमोपकारी श्री

गुरुदेवके पवित्र जीवनके प्रत्यक्ष परिचयके बिना और उनके आध्यात्मिक उपदेशके बिना इस पामर को जिनवाणीके प्रति लेशमात्र भी भक्ति या श्रद्धा कहाँ से प्रगट होती ? भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेव और उनके शास्त्रोंकी रचमात्र महिमा कहाँसे आती ? तथा उन शास्त्रोंका अर्थ ढूँढ निकालनेकी लेश मात्र शक्ति कहाँसे आती ? इसप्रकार अनुवादकी समस्त शक्तिका मूल श्री गुरुदेव ही होनेसे वास्तवमें तो महाराज श्री की अमृतवाणीका प्रवाह ही—उनसे प्राप्त अमूल्य उपदेश ही—यथा समय इस अनुवादके रूपमें परिणत हुआ है। जिनके द्वारा सिंचित शक्तिसे और जिनका पोषण बल होनेसे इस गहन शास्त्रके अनुवाद करनेका मैंने अति साहस किया और जिनकी कृपासे वह निर्विघ्न समाप्त हुआ उन परमपूज्य परमोपकारी श्री गुरुदेव (श्री कानजी स्वामी) के चरणारविन्दमें अति भक्तिभावसे मैं वन्दना करता हूँ।

पूज्य ब्हेन श्री चम्पाब्हेन तथा पूज्य ब्हेन शान्ताब्हेनके प्रति भी इस अनुवादको पूर्ण करते हुये उपकारवशताकी उग्रभावनाका अनुभव हो रहा है जिनका पवित्र जीवन और बोध इस पामरको श्री प्रवचनसारके प्रति, प्रवचनसारके महान् कर्ताके प्रति और प्रवचनसारमें उपदिष्ट वीतरागविज्ञानके प्रति बहुमान वृद्धिका विशिष्ट निमित्त हुआ है ऐसे उन पूज्य ब्हेनोंके प्रति यह हृदय अत्यंत नम्रीभूत है।

इस अनुवादमें अनेक भाइयोंसे हार्दिक सहायता मिली है। माननीय श्री वकील रामजी भाई माणिकचन्द दोशीने अपने भरपूर धार्मिक व्यवसायोंमेंसे समय निकालकर सारा अनुवाद बारीकीसे जाँच लिया है, यथोचित सलाह दी है और अनुवादमें आनेवाली छोटी—बड़ी कठिनाइयोंका अपने विशाल शास्त्र ज्ञानसे हल किया है। भाई श्री खीमचन्द जेठालाल शेठने भी पूरा अनुवाद सावधानीपूर्वक जाँचा है, और अपने संस्कृत भाषाके तथा शास्त्रज्ञानके आधारसे उपयोगी सूचनायें दी हैं। भाई श्री ब्रह्मचारी चन्दूलाल खीमचन्द भोबालियाने हस्तलिखित प्रतियोंके आधारसे संस्कृत टीकामें सुधार किया है, अनुवादका कितना ही भाग जाँचा है, शुद्धिपत्र, अनुक्रमणिका और गाथा सूची तैयार की है तथा प्रूफसंशोधनका कार्य किया है। इन सब भाइयोंका मैं अन्तःकरण पूर्वक आभार मानता हूँ। उनकी सहृदय सहायताके बिना अनुवादमें अनेक श्रुटियाँ रह जातीं। इनके अतिरिक्त अन्य जिन जिन भाइयोंकी इसमें सहायता मिली है मैं उन सबका ऋणी हूँ।

मैंने यह अनुवाद प्रवचनसारके प्रति अत्यन्त भक्ति होनेसे और गुरुदेवकी प्रेरणासे प्रेरित होकर निज कल्याणके हेतु भवभयसे डरते डरते किया है। अनुवाद करते हुये शास्त्रोंके मूल आशयमें कोई अन्तर न पड़ने पाये, इस और मैंने पूरी पूरी सावधानी रखी है, तथापि अल्पज्ञताके कारण कहीं कोई आशय बदल गया हो या कोई भूल होगई हो तो उसके लिये मैं शास्त्रकार श्री कुन्दकुन्दा-चार्यदेव, टीकाकार श्री अमृतचन्द्राचार्यदेव और मुमुक्षु पाठकोंसे अन्तःकरण पूर्वक क्षमायाचना करता हूँ।

मेरी आंतरिक भावना है कि यह अनुवाद भक्तजनोंको जिनकथित वस्तुविज्ञानका निर्णय कराकर, अतीन्द्रिय ज्ञान और सुखकी श्रद्धा कराकर, प्रत्येक द्रव्यका संपूर्ण स्वातंत्र्य समझाकर,

द्रव्यसामान्यमें लीन होनेरूप शाश्वत सुखका पंथ दिखाये । 'परमानन्दरूपी सुधारसके पिपाशु भव्य-जीवोंके हितार्थ' श्री अमृतचन्द्राचार्यदेवने इस महाशास्त्रकी व्याख्या की है । जो जीव इसमें कथित परमकल्याणकारी भावोंको हृदयंगम करेंगे वे अवश्य परमानन्दरूपी सुधारसके भाजन होंगे । जब तक ये भाव हृदयंगम न हों तब तक निश-दिन यही भावना, यही विचार, यही मंथन और यही पुरुषार्थ कर्तव्य है । यही परमानन्द प्राप्तिका उपाय है । श्री अमृतचन्द्राचार्य देव द्वारा तत्त्वदीपिका की पूर्णाहुति करते हुये भावित भावनाको भाकर यह उपोद्घात पूर्ण करता है—“आनन्दामृतके पूरसे परिपूर्ण प्रवाहित कैवल्यसरितामें जो निमग्न है, जगत्को देखनेके लिये समर्थ महाज्ञानलक्ष्मी जिसमें मुख्य है, जो उत्तम रत्न किरणोंके समान स्पष्ट है, और जो इष्ट है—ऐसे प्रकाशमान स्वतस्व को जीव स्यात्कारलक्षणसे लक्षित जिनेन्द्रशासनके वश प्राप्त हों ।”

श्रुत पंचमी
वि० सं० २००४

—हिममलाल जेठालाल शाह,



हिन्दी भाषाका गौरव !

अनुवादक की ओरसे !



मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे परमश्रुत-प्रवचनसारका यह हिन्दी अनुवाद करनेका सुयोग प्राप्त हुआ है। हिन्दी भाषाके लिये यह गौरवकी बात है कि लगभग १००० वर्षके बाद श्री अमृतचन्द्राचार्यकी तत्त्वप्रदीपिका नामक संस्कृत टीकाका यह शब्दशः अनुवाद (भले ही गुजरातीके द्वारा) हुआ है। यद्यपि पंडे हेमराजजी ने भी हिन्दी अनुवाद किया था, किन्तु वह केवल भावानुवाद ही था। यह मेरे मित्र श्री हिमंतलालभाई की ही बौद्धिक हिम्मत है कि उन्होंने ही सर्वप्रथम प्रवचनसारकी तत्त्वप्रदीपिका का अक्षरशः भाषानुवाद (गुजराती भाषामें) किया है, जिसका हिन्दी अनुवाद करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है।

सौराष्ट्रके सन्त पुरुष पूज्य श्री कानजीस्वामी स्वर्णपुरी (सोनगढ़) में बैठकर भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यके सत् साहित्यका जिस रोचक ढंगसे प्रचार और प्रसार कर रहे हैं वैसा गत कई शताब्दियोंमें नहीं हुआ। सौराष्ट्र के सैकड़ों-हजारों नर-नारी उनकी अध्यात्मवाणीको बड़े चावसे सुनते हैं, और अध्यात्मोपदेशामृतका पान करते समय गद्गद हो जाते हैं। पूज्य कानजी स्वामीका अद्भुत प्रभाव है। उन्हींके उपदेशोंसे प्रेरित होकर श्री हिमंतभाईने प्रवचनसारकी गुजराती टीका की है। उन्होंने इस कार्यमें भारी परिश्रम किया है। मैंने तो केवल उनके गुजराती शब्दोंकी साधारण हिन्दीमें परिवर्तित कर दिया है। अतः मैं श्री हिमंतभाईका आभार मानता हूँ कि आपके द्वारा निमित्त प्रशस्त मार्ग पर सरलतापूर्वक चलनेका मुझे भी सौभाग्य प्राप्त होगया है।

जैनेन्द्रप्रेस, ललितपुर }
श्रुतपंचमी, वीर सं. २४७६ }

परमेष्ठीदास जैन
न्यायतीर्थ



विषयानुक्रमणिका

(१) ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन



विषय	गाथा	विषय	गाथा
मंगलाचरणपूर्वक भगवान् ग्रंथकर्ताकी प्रतिज्ञा	१	आत्मा ज्ञानप्रमाण है और ज्ञान सर्वगत है,	
बीतरागचारित्र उपादेय है और सरागचारित्र		ऐसा कथन	२३
हेय है ऐसा कथन	६	आत्माको ज्ञानप्रमाण न माननेमें दो पक्ष	
चारित्रका स्वरूप	७	उपस्थित करके दोष बताते हैं	२४
चारित्र और आत्माकी एकताका कथन	८	ज्ञानकी भाँति आत्माका भी सर्वगतत्व	
आत्माका शुभ, अशुभ और शुद्धत्व	९	न्यायसिद्ध है ऐसा कहते हैं	२६
परिणाम वस्तुका स्वभाव है	१०	आत्मा और ज्ञानके एकत्व-अन्यत्व	२७
आत्माके शुद्ध और शुभादि भावोंका फल	११	ज्ञान और ज्ञेयके परस्पर गमनका निषेध	
शुद्धोपयोग अधिकार		करते हैं	२८
शुद्धोपयोगके फलकी प्रशंसा	१३	आत्मा पदार्थोंमें प्रवृत्त नहीं होता तथापि	
शुद्धोपयोगपरिणत आत्माका स्वरूप	१४	जिससे उसका पदार्थोंमें प्रवृत्त होना सिद्ध	
शुद्धोपयोगकी प्राप्तिके बाद तत्कालही होनेवाली		होता है उस शक्तिवंचिन्मयका वर्णन	२९
शुद्ध आत्मस्वभावप्राप्तिकी प्रशंसा	१५	ज्ञान पदार्थोंमें प्रवृत्त होता है ऐसा दृष्टांत	
शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्ति अन्य कारकोंसे निरपेक्ष		द्वारा स्पष्ट करते हैं	३०
होनेसे अत्यंत आत्माधोन है, उसकानिरूपण	१६	पदार्थ ज्ञानमें वर्तते हैं यह व्यक्त करते हैं	३१
स्वयंभू-आत्माके शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके		आत्माकी पदार्थोंके साथ एक दूमरेमें प्रवृत्ति	
अत्यंत अविनाशीपना और कथंचित्		होने पर भी वह परका ग्रहण-त्याग किये	
उत्पादव्यय-ध्रौव्ययुक्तता	१७	बिना तथा पररूप परिणामित हुए बिना	
पूर्वोक्त स्वयंभू-आत्माके इन्द्रियोंके बिना ज्ञान		सबको देखना जानता है इसलिये उसके	
और आनन्द कैसे होता है ? इस संदेहका		अत्यन्त भिन्नता है, यह बतलाते हैं	३२
निराकरण	१९	केवलज्ञानीको और श्रुतज्ञानीको अविशेषरूपसे	
अतीन्द्रियताके कारण शुद्धात्माके शारीरिक		दिखाकर विशेष आकांक्षाके क्षोभका क्षय	
सुख दुःख नहीं है	२०	करते हैं	३३
ज्ञान अधिकार		ज्ञानके श्रुत-उपाधिकृत भेदको दूर करते हैं	३४
अतीन्द्रियज्ञानरूप परिणामित होनेसे केवली		आत्मा और ज्ञानका कर्तृत्व कर्णत्वकृत भेद	
भगवानके सब प्रत्यक्ष है	२१	दूर करते हैं	३५

विषय	गाथा	विषय	गाथा
ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है, यह व्यक्त करते हैं	३६	ज्ञानीके ज्ञप्तिक्रियाका सद्भाव होने पर भी उसके क्रियाके फलरूप बन्धका निषेध करते हुए ज्ञान-अधिकारका उपसंहार करते हैं	५२
द्रव्योंकी अतीत और अनागत पर्यायों भी तात्कालिक पर्यायोंकी भाँति पृथक् रूपसे ज्ञानमें वर्तती हैं	३७	सुख अधिकार	
अविद्यमान पर्यायोंकी कथंचित् विद्यमानता अविद्यमान पर्यायोंकी ज्ञानप्रत्यक्षताको दृढ़ करते हैं	३८	ज्ञानसे अभिन्न ऐसे सुखका स्वरूप विस्तार-पूर्वक वर्णन करते हुए कौनसा ज्ञान और सुख उपादेय है तथा कौनसा हेय है, उसका विचार करते हैं	५३
इन्द्रियज्ञानको ही नष्ट और अनुत्पन्नका जानना अशक्य है, यह न्यायसे निश्चित करते हैं	४०	अतीन्द्रियसुखका साधनभूत अतीन्द्रियज्ञान उपादेय है, इसप्रकार उसकी प्रशंसा करते हैं	५४
अतीन्द्रिय ज्ञानके लिये जो जो कहा जाता है वह (सब) संभव है ऐसा स्पष्ट करते हैं	४१	इन्द्रियसुखका साधनभूत इन्द्रियज्ञान हेय है, इसप्रकार उसकी निन्दा करते हैं	५५
ज्ञेयार्थपरिणामनस्वरूप क्रिया ज्ञानमेंसे नहीं होती, ऐसी श्रद्धा व्यक्त करते हैं	४२	इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है ऐसा निश्चय करते हैं	५७
ज्ञेयार्थपरिणामनस्वरूप क्रिया और उसका फल कहांसे उत्पन्न होता है, यह विवेचन करते हैं	४३	परोक्ष और प्रत्यक्षके लक्षण बतलाते हैं	५८
केवली भगवानको क्रिया भी क्रियाफल उत्पन्न नहीं करती	४४	प्रत्यक्षज्ञानको पारमार्थिक सुखरूप बतलाते हैं	५९
तीर्थंकरोंके पुण्यका विपाक अकिंचित्कर है	४५	‘केवलज्ञानको भी परिणामके द्वारा खेद का संभव है, इसलिये केवलज्ञान ऐकांतिक सुख नहीं है’ ऐसे अभिप्रायका खंडन करते हैं	६०
केवलीभगवानकी भाँति समस्त जीवोंके स्वभावविघातका अभाव होनेका निषेध करते हैं	४६	‘केवलज्ञान सुखस्वरूप है’ यह निरूपण करते हुए उपसंहार करते हैं	६१
अतीन्द्रियज्ञानको सर्वज्ञरूपसे अभिनन्दन करते हैं	४७	केवलज्ञानियोंको ही पारमार्थिक सुख होता है, ऐसी श्रद्धा कराते हैं	६२
सबको नहीं जाननेवाला एकको भी नहीं जानता	४८	परोक्षज्ञानवालोंके अपारमार्थिक इन्द्रियसुखका विचार	६३
एकको नहीं जाननेवाला सबको नहीं जानता	४९	जहाँ तक इन्द्रियाँ हैं वहाँ तक स्वभावसे ही दुःख है, यह न्यायसे निश्चित करते हैं	६४
क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञानकी सर्वगतता सिद्ध नहीं होती	५०	मुक्त आत्माके सुखकी प्रसिद्धिके लिये, शरीर सुखका साधन है, इसका खंडन करते हैं	६५
युगपत् प्रवृत्तिके द्वारा ही ज्ञानका सर्वगतत्व सिद्ध होता है	५१		

विषय	गाथा
आत्मा स्वयं ही सुखपरिणामकी शक्तिवाला है इसलिये विषयोंकी अकिंचित्करता	६७
आत्माका सुखस्वभावत्व दृष्टांत देकर हृद करते हुवे भ्रानन्द-अधिकार पूर्ण करते हैं	६८

शुभपरिणाम अधिकार

इन्द्रियसुखस्वरूप सम्बन्धी विचारको लेकर, उसके साधनका स्वरूप	६९
इन्द्रियसुखको शुभोपयोगके साध्यके रूपमें कहते हैं	७०
इन्द्रियसुखको दुःखरूपमें सिद्ध करते हैं	७१
इन्द्रियसुखके साधनभूत पुण्यको उत्पन्न करनेवाले शुभोपयोगकी दुःखके साधनभूत पापको उत्पन्न करनेवाले अशुभोपयोगसे अविशेषता प्रगट करते हैं	७२
पुण्य दुःखके बीजके कारण हैं, इसप्रकार न्यायसे प्रगट करते हैं	७४
पुण्यजन्य इन्द्रियसुखको अनेकप्रकारसे दुःखरूप प्रकाशित करते हैं	७६
पुण्य और पापकी अविशेषताका निश्चय करते हुए (इस विषयका) उपसंहार करते हैं	७७
शुभ और अशुभ उपयोगकी अविशेषता अवधारित करके समस्त रागद्वेषके द्वैतको दूर करते हुए, अशेष दुःखका क्षय करनेका मनमें हृद निश्चय करने वाला शुद्धोप-पयोगमें निवास करता है	७८
मोहादिके उन्मूलनके प्रति सर्वात्म्य पूर्वक कटिबद्ध होता है	७९
'मुझे मोहकी सेनाको कैसे जीतना चाहिये' यह उपाय सोचता है	८०
मेने चिंतामणि-रत्न प्राप्त कर लिया है तथापि	

विषय	गाथा
भ्रमाद चोर विद्यमान है, यह विचार कर जागृत रहता है	८१
पूर्वोक्त गाथाओंमें वर्णित यही एक, भगवन्तोंके द्वारा स्वयं अनुभव करके प्रगट किया हुआ निःश्रेयसका पारमार्थिकपन्थ है—इसप्रकार मतिको निश्चित करते हैं	८२
शुद्धात्माके शत्रु-मोहका स्वभाव और उसके प्रकारोंको व्यक्त करते हैं	८३
तीनों प्रकारके मोहको अनिष्ट कार्यका कारण कहकर उसका क्षय करने को कहते हैं	८४
रागद्वेषमोहको इन चिह्नोंके द्वारा पहिचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना योग्य है	८५
मोह क्षय करनेका दूसरा उपाय विचारते हैं	८६
जिनेन्द्रके शब्द ब्रह्ममें अर्थोंकी व्यवस्था किस प्रकार है सो विचारते हैं	८७
मोहक्षयके उपायभूत जिनेश्वरके उपदेशकी प्राप्ति होनेपर भी पुरुषार्थ अर्थक्रिया-कारी है	८८
स्व-परके विवेककी सिद्धिसे ही मोहका क्षय हो सकता है इसलिये स्व-परके विभाग की सिद्धि के लिये प्रयत्न करते हैं	८९
सबप्रकारसे स्वपरके विवेककी सिद्धि आगमसे करने योग्य है, इसप्रकार उपसंहार करते हैं	९०
जिनेंद्रोक्त अर्थोंके श्रद्धान बिना धर्मलाभ नहीं होता	९१
आचार्य भगवान साम्यका धर्मत्व सिद्ध करके 'मैं स्वयं साक्षात् धर्म ही हूँ' ऐसे भावमें निश्चल रहते हैं	९२

(२) ज्ञेयतत्त्व प्रज्ञापन

विषय	गाथा	विषय	गाथा
द्रव्यसामान्य अधिकार		द्रव्यके सत्-उत्पाद और असत्-उत्पाद होनेमें	
पदार्थोंका सम्यक् द्रव्यगुणपर्यायस्वरूप	६३	अविरोध सिद्ध करते हैं	१११
स्वसमय-परसमयकी व्यवस्था निश्चित करके		सत्-उत्पादको और असत्-उत्पादको अनन्य-	
उपसंहार करते हैं	६४	स्वके द्वारा निश्चित करते हैं	११२
द्रव्यका लक्षण	६५	एक ही द्रव्यके अन्यत्व और अनन्यत्व	
स्वरूपअस्तित्वका वर्णन	६६	होनेमें अविरोध बतलाते हैं	११४
सादृश्य-अस्तित्वका कथन	६७	समस्त विरोधोंको दूर करनेवाली सप्तभंगी	
द्रव्योंसे द्रव्यान्तरकी उत्पत्ति होनेका और		प्रगट करते हैं	११५
द्रव्य से सत्ताका अर्थान्तरत्व होनेका		जीवकी मनुष्यादि पर्यायों क्रियाकी फल हैं	
खण्डन करते हैं	६८	इसलिये उनका अन्यत्व प्रकाशित	
उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक होनेपर भी द्रव्य		करते हैं	११६
'सत्' है, यह बतलाते हैं	६९	मनुष्यादि पर्यायोंमें जीवके स्वभावका पराभव	
उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यका परस्पर		किस कारणसे होता है, उसका निर्णय	११८
अविनाभाव दृढ़ करते हैं	१००	जीवकी द्रव्यरूपसे अवस्थितता होने पर भी	
उत्पादादिका द्रव्यसे अर्थान्तरत्वको नष्ट		पर्यायोंसे अनवस्थितता	११९
करते हैं	१०१	परिणामात्मक संसारमें किस कारणसे	
उत्पादादिका क्षणभेद निराकृत करके यह		पुद्गलका संबन्ध होता है कि जिससे वह	
समझाते हैं कि वे द्रव्य हैं	१०२	(संसार) मनुष्यादि पर्यायात्मक होता है	
द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यको अनेकद्रव्य-		इसका समाधान	१२१
पर्याय तथा एक द्रव्यपर्यायके द्वारा		परमार्थसे आत्माके द्रव्यकर्मका अकर्तृत्व	१२२
विचारते हैं	१०३	आत्मा जिसरूप परिणामित होता है वह	
सत्ता और द्रव्य अर्थान्तर नहीं हैं, इस		कौनसा स्वरूप है	१२३
सम्बन्ध में युक्ति	१०५	ज्ञान, कर्म और कर्मफलका स्वरूप वर्णन	
पृथक्त्व और अन्यत्वका लक्षण	१०६	कर उनको आत्मारूपसे निश्चित	
अतद्भावको उदाहरणपूर्वक स्पष्ट बतलाते हैं	१०७	करते हैं	१२४
सर्वथाअभाव अतद्भावका लक्षण नहीं है	१०८	शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धिका अभिनन्दन	
सत्ता और द्रव्यका गुण-गुणित्व सिद्ध		करते हुए द्रव्यसामान्यके वर्णनका	
करते हैं	१०९	उपसंहार करते हैं	१२६
गुण और गुणोंके अनेकत्वका खण्डन	११०		

विषय	गाथा
द्रव्यविशेष अधिकार	
द्रव्यके जीवाजीवस्वरूप विशेषका निश्चय करते हैं	१२७
द्रव्यके लोकालोकस्वरूप भेदका निश्चय करते हैं	१२८
'क्रिया' रूप और 'भाव' रूप जो द्रव्यके भाव हैं उनकी अपेक्षासे द्रव्यका भेद निश्चित करते हैं	१२९
गुण-विशेषसे द्रव्य-विशेष होता है, ऐसा बतलाते हैं	१३०
मूतं और अमूतं गुणोंके लक्षण तथा संबंध कहते हैं	१३१
मूतं पुद्गलद्रव्यका गुण	१३२
अमूतं द्रव्योंके गुण	१३३
द्रव्यका प्रदेशत्व और अप्रदेशत्वस्वरूप विशेष प्रदेशी और अप्रदेशी द्रव्य कहाँ रहे हुवे हैं, यह बतलाते हैं	१३६
प्रदेशत्व और अप्रदेशत्व किसप्रकारसे संभव है सो कहते हैं	१३७
'कालाणु अप्रदेशी ही है' यह नियम बतलाते हैं	१३८
काल पदार्थके द्रव्य और पर्याय	१३९
आकाशके प्रदेशका लक्षण	१४०
तिर्यक्प्रचय तथा ऊर्ध्वप्रचय	१४१
कालपदार्थका ऊर्ध्वप्रचय निरन्वय है, इसका खण्डन	१४२
सर्व वृत्त्योंमें कालपदार्थ उत्पादव्ययध्रौव्य वाला है, यह सिद्ध करते हैं	१४३
कालपदार्थका प्रदेशमात्रत्व सिद्ध करते हैं	१४४

विषय	गाथा
ज्ञानज्ञेयविभाग अधिकार	
आत्माको विभक्त करनेके लिये व्यवहार-जीवत्वके हेतुका विचार करते हैं	१४५
प्राण कौनसे हैं, सो बतलाते हैं	१४६
व्युत्पत्ति द्वारा प्राणोंको जीवत्वका हेतुत्व और उनका पौद्गलिकत्व	१४७
प्राणोंके पौद्गलिक कर्मका कारणत्व प्रगट करते हैं	१४९
पौद्गलिक प्राणोंकी संततिकी प्रवृत्तिका अंतरंगहेतु	१५०
पौद्गलिक प्राणोंकी संततिकी निवृत्तिका अंतरंगहेतु	१५१
आत्माकी अत्यन्त विभक्तता सिद्ध करनेके लिये, व्यवहारजीवत्वकी हेतुभूत गति-विशिष्ट पर्यायोंका स्वरूप कहते हैं	१५२
पर्यायके भेद	१५३
अर्थनिश्चायक अस्तित्वको स्व-पर विभागके हेतुके रूपमें समझाते हैं	१५४
आत्माको अत्यन्त विभक्त करनेके लिये पर-द्रव्यके संयोगके कारणका स्वरूप	१५५
शुभोपयोग और अशुभोपयोगका स्वरूप	१५७
परद्रव्यके संयोगके कारणके विनाशका अभ्यास करते हैं	१५९
शरीरादि परद्रव्यके प्रति भी मध्यस्थता प्रगट करते हैं	१६०
शरीर, वाणी और मनका परद्रव्यत्व	१६१
आत्माको परद्रव्यत्वका अभाव और परद्रव्यके कर्तृत्वका अभाव	१६२
परमाणुद्रव्योंको पिंडपर्यायरूप परिणतिका कारण	१६३

विषय	गाथा	विषय	गाथा
प्रात्माको, पुद्गलोंके पिण्डके कर्तृत्वका अभाव	१६७	'पुद्गल परिणाम आत्माका कर्म क्यों नहीं है ?' इस सदेहको दूर करते हैं	१८५
प्रात्माको शरीरत्वका अभाव निश्चित करते हैं	१७१	आत्मा किसप्रकार पुद्गल कर्मोंके द्वारा ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है ? इसका निरूपण	१८६
जीवका असाधारण स्वलक्षण	१७२	पुद्गलकर्मोंकी विचित्रताको कौन करता है ? इसका निरूपण	१८७
अमूर्त आत्माको, स्निग्धरूक्षत्वका अभाव होनेसे बंध कैसे हो सकता है ? ऐसा पूर्वपक्ष	१७३	अकेला ही आत्मा बन्ध है	१८८
उपरोक्त पूर्वपक्षका उत्तर	१७४	निश्चय और व्यवहारका अविरोध	१८९
भावबन्धका स्वरूप	१७५	अशुद्ध नयसे अशुद्ध प्रात्माकी प्राप्ति	१९०
भावबन्धकी युक्ति और द्रव्यबन्धका स्वरूप	१७६	शुद्ध नयसे शुद्ध प्रात्माकी प्राप्ति	१९१
पुद्गलबन्ध, जीवबन्ध और उन दोनोंके बन्धका स्वरूप	१७७	घृत्वके कारण शुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य है	१९२
द्रव्यबन्धका हेतु भावबन्ध	१७८	शुद्धात्माकी उपलब्धिसे क्या होता है यह निरूपण करते हैं	१९४
भावबन्ध है सो निश्चयबन्ध है	१७९	मोहग्रंथिके टूटनेसे क्या होता है सो कहते हैं	१९५
परिणामका द्रव्यबन्धके साधकतम रागसे विशिष्टत्व	१८०	एकाग्रसंचेतनलक्षणध्यान प्रात्माको अशुद्धता नहीं लाता है	१९६
विशिष्ट परिणामके भेदको तथा अविशिष्ट परिणामको, कारणमें कार्यका उपचार करके कार्यरूपसे बतलाते हैं	१८१	सकलज्ञानी क्या ध्याते हैं ?	१९७
जीवकी स्वद्रव्यमें प्रवृत्ति और परद्रव्यसे निवृत्तिकी सिद्धिके लिये स्व-परका विभाग	१८२	उपरोक्त प्रश्नका उत्तर	१९८
जीवकी स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त और परद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त स्व-परके विभागका ज्ञान-अज्ञान है	१८३	शुद्धात्माकी उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसा मोक्षका मार्ग—उसको निश्चित करते हैं	१९९
आत्माका कर्म क्या है उसका निरूपण	१८४	आचार्यदेव पूर्वप्रतिज्ञाका निर्वाह करते हुए,—मोक्षमार्गभूत शुद्धात्म प्रवृत्ति करते हैं	२००

(३) चरणानुयोगसूचक चूलिका

विषय	गाथा	विषय	गाथा
आचरण प्रज्ञापन		अनिषिद्ध शरीर मात्र उपधिके पालनकी विधि	
दुःखोंसे मुक्त होनेके लिये श्रामण्यको अंगी- कार करनेकी प्रेरणा	२०१	युक्ताहारविहारी साक्षात् अनाहारविहारी ही है	२२६ २२७
श्रमण होनेका इच्छुक क्या क्या करता है यथाजातरूपघरत्वके बहिरंग और अंतरंग दो लिंगोंका उपदेश	२०२ २०५	श्रमणके युक्ताहारित्वकी सिद्धि युक्ताहारका विस्तृत स्वरूप	२२८ २२९
श्रामण्य संबन्धी भवतिक्रियामें इतनेसे श्रामण्यकी प्राप्ति होती है	२०७	उत्सर्ग और अपवादकी मैत्रो द्वारा आचरण की सुस्थितता	२३०
अविच्छिन्न सामायिकमें आरूढ़ हुआ होने पर भी श्रमण कदाचित् छेदोप- स्थापना के योग्य है	२०८	उत्सर्ग और अपवादके विरोधसे आचरणकी दुःस्थितता; तथा आचरण प्रज्ञापनकी समाप्ति	२३१
आचार्यके भेद	२१०	मोक्षमार्ग प्रज्ञापन	
छिन्नसंयमके प्रतिसंधानकी विधि	२११	मोक्षमार्गके मूलसाधनभूत आगममें व्यापार आगमहीनको मोक्ष नामसे कहा जानेवाला	२३२
श्रामण्यको छेदके आयतन होनेसे परद्रव्य- प्रतिबन्ध निषेध करने योग्य है	२१३	कर्मक्षय नहीं होता, ऐसा प्रतिपादन	२३३
श्रामण्यकी परिपूर्णताका आयतन होनेसे स्वद्रव्यमें ही प्रतिबन्ध करने योग्य है	२१४	मोक्षमार्ग पर चलनेवालोंको आगम ही एक चक्षु है	२३४
मुनिजनको निकटका सूक्ष्मपरद्रव्यप्रतिबन्ध भी निषेध्य है	२१५	आगमचक्षुमें सब कुञ्ज दिखाई देता ही है	२३५
छेद क्या है, उसका उपदेश करते हैं	२१६	आगमज्ञान, तत्पूर्वक तत्त्वार्थश्रद्धान और तदु- भयपूर्वक संयतत्वकी युगपत्ताको मोक्ष- मार्गत्व होनेका नियम	२३६
छेदके अंतरंग और बहिरंग दो भेद	२१७	आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान और संयतत्वकी अयुगपत्ताको मोक्षमार्गत्व घटित नहीं होता	२३७
सर्वथा अंतरंग छेद निषेध्य है	२१८	आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वका युगपद- त्व होनेपर भी, आत्मज्ञान मोक्षमार्गका साधकतम है	२३८
उपधि अंतरंग छेदकी भाँति त्याज्य है	२१९	आत्मज्ञानशून्यके सर्व आगमज्ञान, तत्त्वार्थ- श्रद्धान तथा संयतत्वकी युगपत्ता भी	
उपधिका निषेध अंतरंग छेदका ही निषेध है	२२०		
'किसीको कहीं कभी किसीप्रकारसे कोई एक उपधि अनिषिद्ध भी है'	२२२		
अनिषिद्ध उपधिका स्वरूप	२२३		
'उत्सर्ग ही वस्तुधर्म है, अपवाद नहीं'	२२४		
अपवादके विशेष	२२५		

विषय	गाथा	विषय	गाथा
अर्कचित्कर है	२३६	श्रमणाभासोंके प्रति समस्त प्रवृत्तियोंका निषेध करते हैं	२६३
आगमज्ञान—तत्त्वार्थश्रद्धान—संयतत्वका युग-पदत्व और आत्मज्ञानका युगपदत्व	२४०	श्रमणाभास कैसा जीव होता है सो कहते हैं	२६४
संयतका लक्षण	२४१	जो श्रामण्यसे समान हैं उनका अनुमोदन न करने वालेका विनाश	२६५
संयतता है वही मोक्षमार्ग है	२४२	जो श्रामण्यसे अधिक हो उसके प्रति जैसे कि वह श्रामण्यमें हीन हो ऐसा आचरण करने वालेका विनाश	२६६
अनेकाग्रताके मोक्षमार्गत्व घटित नहीं होता	२४३	जो श्रमण श्रामण्यमें अधिक हो वह अपनेसे हीन श्रमणके प्रति, समान जैसा आचरण करे तो उसका विनाश	२६७
एकाग्रता मोक्षमार्ग है यह निश्चित करते हुए मोक्षमार्ग—प्रज्ञापनका उपसंहार करते हैं	२४४	असत्संग निषेध्य है	२६८
शुभोपयोग प्रज्ञापन		लौकिक जनका लक्षण	२६९
शुभोपयोगियोंको श्रमणरूपमें गौणतया बतलाते हैं	२४५	सत्संग करने योग्य है	२७०
शुभोपयोगी श्रमणोंका लक्षण	२४६	पंचरत्न प्रज्ञापन	
शुभोपयोगी श्रमणोंकी प्रवृत्ति	२४७	संसार तत्त्व	२७१
सभी प्रवृत्तियाँ शुभोपयोगियोंकी ही होती हैं	२४९	मोक्ष तत्त्व	२७२
प्रवृत्तिके संयमके विरोधी होनेका निषेध	२५०	मोक्षतत्त्वका साधनतत्त्व	२७३
प्रवृत्तिके विषयके दो विभाग	२५१	मोक्षतत्त्वके साधनतत्त्वको सर्व मनोरथके स्थान के रूपमें अभिनन्दन करते हैं	२७४
प्रवृत्तिके कालका विभाग	२५२	शिष्यजनको शास्त्रके फलके साथ जोड़ते हुए शास्त्रकी समाप्ति	२७५
लोगोंके साथ बातचीतकी प्रवृत्ति उसके निमित्तके विभाग सहित बतलाते हैं	२५३	परिशिष्ट	
शुभोपयोगका गौण-मुख्य विभाग	२५४	पृष्ठ	
शुभोपयोगको कारणकी विपरीततासे फलकी विपरीतता	२५५	४७ नवों द्वारा आत्मद्रव्यका कथन आत्म-द्रव्यकी प्राप्तिका प्रकार	३२६
अविपरीत फलका कारण ऐसा जो 'अविपरीत कारण' उसको बतलाते हैं	२५६		
अविपरीत फलका कारण जो 'अविपरीत कारण' उसकी उपासनारूप प्रवृत्ति सामान्य-विशेषतया करने योग्य है	२६१		



परम उपकारी पूज्य कानजी स्वामी के आध्यात्मिक प्रवचनों का
अपूर्व यथार्थ लाभ लेने के लिये निम्नोक्त ग्रन्थों का
अवश्य स्वाध्याय करें

समयसार शास्त्र	५)	अष्टप्रवचन (ज्ञानसमुच्चयसार) १)	५०
प्रवचनसार शास्त्र	४)	जैन बाल पोथी) २५
नियमसार	५) ५०	छहढाला बड़ा टाइप (मूल)) १५
पंचास्तिकाय	४) ५०	छहढाला (नई सुबोध टी० ब०)) ८७
आत्मप्रसिद्धि	४)	ज्ञानस्वभाव ज्ञेयस्वभाव	२) ५०
मोक्षशास्त्र बड़ी टीका (तृ०)	५)	सम्यग्दर्शन (तीसरी आ०)	१) ८५
स्वयंभू स्तोत्र) ६०	जैन तीर्थयात्रा पाठ संग्रह	१) ४५
मुक्ति का मार्ग) ६०	अपूर्व अवसर प्र० और श्री	
समयसार प्रवचन भाग १	४) ७५	कुन्दकुन्दाचार्य द्वादशानुप्रेक्षा) ८५
समयसार प्रवचन भाग २	४) ७५	भेदविज्ञानसार	२)
समयसार प्रवचन भाग ३	४) २५	अध्यात्म पाठ संग्रह पक्की जिल्द	५)
समयसार प्रवचन भाग ४		" " कच्ची जिल्द	२) २५
[कर्ताकर्म अधि० पृ. ५६३]	४)	भक्ति पाठ संग्रह	१)
मोक्षमार्गप्रकाशकी किरण प्र०	१)	वैराग्य पाठ संग्रह	१)
" " द्वि० भाग	२)	निमित्तनैमित्तिक सम्बन्ध क्या है) १५
जैनसिद्धांत प्रश्नोत्तरमाला प्र०) ६०	स्तोत्रत्रयी) ५०
भाग २ ०) ६० भाग ३) ६०	लघु जैन मिद्धान्त प्रवेशिका) २५
योगसार-निमित्त उपादान दोहा) १२	आत्मधर्म (मासिक) वार्षिक चन्दा	३)
अनुभव प्रकाश) ३५	" फाइल सजिल्द	३) ७५
पंचमेरु पूजा आदि संग्रह	१)	शासन प्रभाव तथा स्वामीजी	
दसलक्षण धर्मव्रत उद्यापन		की जीवनी) १२
वृ० पूजा भाषा) ७५	जैन तत्त्व मीमांसा	१)
हाक व्यय अलग		मिलने का पता—	

श्री दि० जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट
सोनगढ़ (सौराष्ट्र)

शास्त्रका अर्थ करनेकी पद्धति



व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको तथा उसके भावोंको एवं कारण-कार्यादिको किसीके किसीमें मिलाकर निरूपण करता है, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, अतः इसका त्याग करना चाहिये । और निश्चयनय उसीको यथावत् निरूपण करता है, तथा किसीको किसीमें नहीं मिलाता, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, अतः उसका श्रद्धान करना चाहिये ।

प्रश्न—यदि ऐसा है तो, जिनमार्गमें दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा है, उसका क्या कारण ?


उत्तर—जिनमार्गमें कहीं तो निश्चयनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे तो “सत्यार्थ इसीप्रकार है” ऐसा समझना चाहिये, तथा कहीं व्यवहारनयकी मुख्यता लेकर कथन किया गया है, उसे “ऐसा नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे यह उपचार किया है” ऐसा जानना चाहिये; और इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोंका ग्रहण है । किन्तु दोनों नयोंके व्याख्यान (कथन-विवेचन) को समान सत्यार्थ जानकर “इसप्रकार भी है और इसप्रकार भी है” इसप्रकार भ्रमरूप प्रवर्तनेसे तो दोनों नयोंका ग्रहण करना कहा नहीं है ।

प्रश्न—यदि व्यवहारनय असत्यार्थ है तो जिनमार्गमें उसका उपदेश क्यों दिया है ? एक मात्र निश्चयनयका ही निरूपण करना चाहिये था ।

उत्तर—ऐसा ही तर्क श्री समयसारमें किया है, वहाँ यह उत्तर दिया है कि—जैसे किसी अनार्य-म्लेच्छको म्लेच्छ भाषाके बिना अर्थ ग्रहण करानेमें कोई समर्थ नहीं है, उसीप्रकार व्यवहारके बिना परमार्थका उपदेश अशक्य है इसलिये व्यवहारका उपदेश है । और फिर इसी सूत्रकी व्याख्यामें ऐसा कहा है कि— इसप्रकार निश्चयको अंगीकार करानेके लिये व्यवहारके द्वारा उपदेश देते हैं, किन्तु व्यवहारनय है वह अंगीकार करने योग्य नहीं है ।

THE HISTORY OF THE UNITED STATES





ભગવાન શ્રી કુંદકુંદાચાર્યદેવ વનમાં તાડપત્ર ત્રિપર શાસ્ત્ર લખેછે.



भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेवकं

सम्बन्धमे

उल्लेख

ॐ

कन्यो विभुर्देवि न केरिह कौण्डकुन्दः

कुन्द प्रभा-प्रणयि कीर्ति-विभूषितामः ।

यश्चर-चाण कर्माभ्युत्तचञ्चरीक-

उत्तवं भ्रमस्य भवते प्रयतः प्रतिष्ठाम् ॥

यन्मतिरिति पदेन का शिवायाम् ।

यदेतत् कुन्दकुन्दकृतं प्रभावा-दानं च कुन्दकुन्दार्णव-विजयका-कीर्तये-
त्तत्तद्वदन्तु देवयोग-सुखे-त-
त-
त-
त-
त-
त-
त-
त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-
त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-
त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-
त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-
त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-
त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-
त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-
त-त-त-त-त-त-त-त-त-त-
त-त-त-त-त-त-त-त-त-
त-त-त-त-त-त-त-त-
त-त-त-त-त-त-त-
त-त-त-त-त-त-
त-त-त-त-त-
त-त-त-त-
त-त-त-
त-त-
त-
त-

* * *

कोण्डकुन्दो यतान्द्रः ॥

रजोभिरभ्युत्तमन्वमन्त

वाशिष्ठापि संख्यद्वयितुं यतीशः ।

रजःपदं भूमितलं चिदाय

चचार मन्ये चतुर्गुणं मः ॥

[१२०] यतीशः - [यतीशः]

अर्थ—यतीश्वर (श्री कुन्दकुन्दस्वामी) रजःस्थानको-भूमितलको-छोड़कर चार अंगुल ऊपर आकाशमें गमन करते थे, उसके द्वारा मैं ऐसा समझता हूँ कि वे अन्तरमें तथा बाह्यमें रजसे (अपनी) अत्यन्त अस्पृष्टता व्यक्त करते थे (अन्तरमें वे रागादिक मलसे अस्पृष्ट थे और बाह्यमें धूलसे अस्पृष्ट थे ।)



जइ पउमणंदिणाहो सीमंधरसामिदिच्चणारेण ।
ण बिबोहइ तो समणा कहं सुमग्गं पयाणांति ॥

[दर्शनमार]

अर्थ—(महाविदेह क्षेत्रके वर्तमान तीर्थकरदेव) श्री सीमंधर स्वामीसे प्राप्त हुए दिव्यज्ञानके द्वारा श्री पद्मनन्दिनाथने (श्री कुन्दकुन्दाचार्य-देवने) बोध न दिया होता तो मुनिजन मच्चे मार्गको कैस जानने ?



हे कुन्दकुन्दादि आचार्यों ! आपके वचन भी स्वल्पानुमथानमें इस गामर को परम उपकारभूत हुये हैं । उसके लिये मैं आपको अत्यन्त भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ ।

[श्रीमद् राजचन्द्र]





जिनजीकी वाणी

सीमंधर मुखसे फुलवा खिरे ।

जीकी कुन्दकुन्द गूँथे माल रे,

जिनजीकी वाणी भली रे ।

वाणी प्रभू मत लागे भली,

जिसमें मार-ममय गिरताज रे,

जिनजीकी वाणी भली रे ।.....सीमंधर०

गूँथा पाहुँड ग्रह गूँथा पंचास्ति,

गूँथा जो प्रवचनमार रे,

जिनजीकी वाणी भली रे ।

गूँथा नियममार, गूँथा रयणमार,

गूँथा ममयका मार रे,

जिनजीकी वाणी भली रे ।.....सीमंधर०

स्याद्वादरूपी सुगर्धी भरा जो,

जिनजी का ओकारनाद रे,

जिनजीकी वाणी भली रे ।

बंदू जिनेश्वर, बंदू में कुन्दकुन्द,

बंदू यह ओकारनाद रे,

जिनजीकी वाणी भली रे ।.....सीमंधर०

हृदय रहो मेरे भावों रहो,

मेरे ध्यान रहो जिनवाण रे,

जिनजीकी वाणी भली रे ।

जिनेश्वरदेवकी वाणीकी गूँज,

मेरे गुंजती रहो दिन रात रे,

जिनजीकी वाणी भली रे ।.....सीमंधर०



—* श्री सर्वतर्वातरागाय नमः *—

शास्त्र-स्वाध्यायका प्रारंभिक मंगलाचरण

ॐ

ओंकारं विन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः ।
कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो नमः ॥ १ ॥
अविभक्तशब्दशरीरवशात्कृतमकलभूतलस्यकलङ्कितं ।
सुनिमित्तप्रामित्तोया परम्यतो हरत नो हरिनाम ॥ २ ॥
अज्ञाननिर्मिगन्धानां ज्ञानाभ्रनशयकया ।
अक्षुरुर्माहितं जेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥ ३ ॥

॥ श्रीपरमगुरुवे नमः परंपराचार्यगुरुवे नमः ॥

सकलकलुषविध्वंसकं, श्रेयसा परिदधकं, धर्मसम्बन्धकं, अत्यजोषमनः प्रोक्तं
बोधकारकं, पुण्यप्रकाशकं, पापप्रणाशकमित्दं शस्त्रं श्रीप्रवचनशास्त्रामुष्यं
अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदशाम्बुनन्दनप्रन्थकर्तारः श्रीगणेशदेवः प्रलि-
खणश्रुतेशम्नेयां प्रचनानुसारभाषाय आचार्यश्रीकृष्णकृष्णदेवदेवविर्गितम्,
श्रीनारः सावधानतया शृण्वन्तु ॥

मंगले भगवान् वीरा, मंगले शीतलो गणा,

संज्ञकं कृन्दतुन्दारो जैतधर्मीऽस्तु मंगलम् ॥ १ ॥

सर्वसंगलभागत्ये सर्वकल्याणकारके ।

प्रधानं सर्वधर्माणां जेन जयतु शासनम् ॥ २ ॥



* * * नमोऽनेकान्ताय * * *

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यप्रणीत

श्री

प्रवचनसार



— १ —

ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन



श्रीमदमृतचन्द्रसूरिकृततत्त्वप्रदीपिकावृत्तिः

(मङ्गलाचरणम्)

सर्वव्याप्येकचिद्रूपस्वरूपाय परात्मने ।

स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः ॥ १ ॥

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यकृत मूल गाथाओं और श्रीमद्

अमृतचन्द्रसूरिकृत तत्त्वप्रदीपिका नामक टीकाका

हिन्दी भाषानुवाद

[सर्व प्रथम, ग्रंथके प्रारंभमें श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवविरचित प्राकृत गाथाबद्ध श्री प्रवचनसार नामक शास्त्रकी 'तत्त्वप्रदीपिका' नामक संस्कृत टीकाके रचयिता श्री अमृतचन्द्राचार्यदेव उपरोक्त श्लोकोंके द्वारा मङ्गलाचरण करते हुए ज्ञानानन्दस्वरूप परमात्माको नमस्कार करते हैं:—]

हेलोन्लुप्तमहामोहतमस्तोमं जयत्यदः ।

प्रकाशयज्ञगत्त्वमनेकान्तमयं महः ॥ २ ॥

परमानन्दसुधारसपिपासितानां हिताय भव्यानाम् ।

क्रियते प्रकटितत्त्वा प्रवचनसारस्य वृत्तिरियम् ॥ ३ ॥

अथ खलु कश्चिदासन्नसंसारपारावारपारः समुन्मीलितसातिशयविवेकज्योतिरस्तमित-
समप्तैकान्तवादविद्याभिनिवेशः पारमेश्वरीमनेकान्तवादविद्यामुपगम्य मुक्तसमस्तपक्षपरिग्रहतया-
त्यन्तमध्यस्थो भूत्वा सकलपुरुषार्थसारतया नितान्तमात्मनो हिततमां भगवत्पंचपरमेष्ठिप्रसादो-
पजन्यां परमार्थसत्यां मोक्षलक्ष्मीमक्षयामुपादेयत्वेन निश्चिन्वन् प्रवर्तमानतीर्थनायकपुरःसरान्

अर्थः—सर्वव्यापी (सबका ज्ञाता-दृष्टा) एक चैतन्यरूप (मात्र चैतन्य ही)
जिसका स्वरूप है और जो स्वानुभव प्रसिद्ध है (अर्थात् शुद्ध आत्मानुभवसे प्रकृष्टतया
सिद्ध है) उस ज्ञानानन्दात्मक (ज्ञान और आनन्दस्वरूप) उत्कृष्ट आत्माको
नमस्कार हो ।

[अब अनेकान्तमय ज्ञानकी मंगलके लिये श्लोक द्वारा स्तुति करते हैं:—]

अर्थः—जो महामोहरूपी अंधकारसमूहको लीलामात्रमें नष्ट करता है, और
जगतके स्वरूपको प्रकाशित करता है ऐसा अनेकान्तमय तेज सदा जयवंत है ।

[अब श्री अमृतचंद्राचार्यदेव (तीसरे श्लोक द्वारा) अनेकान्तमय जिन-
प्रवचनके सारभूत इस 'प्रवचनसार' शास्त्रकी टीका करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं—]

अर्थः—परमानन्दरूपी सुधारसके पिपासु भव्य जीवोंके हितार्थ तत्त्वको
(वस्तुस्वरूपको) प्रकट करनेवाली प्रवचनसारकी यह टीका रची जा रही है ।

[इसप्रकार मंगलाचरण और टीका रचनेकी प्रतिज्ञा करके, भगवान् कुन्द-
कुन्दाचार्यदेवविरचित प्रवचनसारकी पहली पांच गाथाओंके प्रारम्भमें श्री अमृतचन्द्रा-
चार्यदेव उन गाथाओंकी उत्थानिका करते हैं ।]

अब, जिनके संसार समुद्रका किनारा निकट है, मानिषय (उत्तम) विवेकज्योति
प्रकट होगई है (अर्थात् परम भेदविज्ञानका प्रकाश उत्पन्न होगया है) तथा समस्त
एकान्तवादविद्याका अभिनिवेश* अस्त होगया है ऐसे कोई (आमन्नभव्य महात्मा—

* अभिनिवेश - अभिप्राय; निश्चय; आग्रह ।

भगवतः पंचपरमेष्ठिनः प्रणमनवन्दनोपजनितनमस्करणेन संभाव्य सर्वारम्भेण मोक्षमार्गं संप्रति-
पद्यमानः प्रतिजानीते—

अथ सूत्रावतारः

एस सुरासुरमण्डिमिदवंदिदं धौदघाडकम्ममलं ।
पणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मम्म कत्तारं ॥१॥
सेसे पुण तित्थयरं ममव्वमिद्धं विमुद्धमव्भावे ।
समाणे य णाणदंभणचरित्तवयीरियायारे ॥ २ ॥

श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्य), पारमेश्वरी (परमेश्वर जिनेन्द्रदेवकी) अनेकान्तवाद-
विद्याको प्राप्त करके, समस्त पक्षका परिग्रह (शत्रुमित्रादिका समस्त पक्षपात) त्याग
देनेसे अत्यन्त मध्यस्थ होकर, सर्व पुरुषार्थमें सारभूत होनेसे आत्माके लिये अत्यन्त
हिततम भगवन्त पंचपरमेष्ठीके प्रसादसे उत्पन्न होने योग्य, परमार्थसत्य (पारमार्थिक
रीतिसं मत्य), अक्षय मोक्षलक्ष्मीको उपादेयरूपसे निश्चित करते हुए, प्रवर्तमान
तीर्थके नायक (श्री महावीरस्वामी) पूर्वक भगवन्त पंचपरमेष्ठीको प्रणमन और
वन्दनसे होनेवाले नमस्कारके द्वारा मन्मान करके सर्वारम्भसे (उद्यमसे) मोक्षमार्गका
आश्रय करते हुए, प्रतिज्ञा करते हैं ।

अब, यहाँ (भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यविरचित) गाथासूत्रोंका अवतरण किया जाता है ।

गाथा १-४

अन्वयार्थः—[एषः] यह मैं [सुरासुरमण्डयेन्द्रवंदितां] जो 'सुरेन्द्रों, असुरेन्द्रों
और नरेन्द्रोंसे वन्दित हैं तथा जिन्होंने [धौतघातिकर्ममलं] घाति कर्ममलको धो डाला
है ऐसे [तीर्थ] तीर्थरूप और [धर्मस्य कर्तारं] धर्मके कर्ता [वर्धमानं] श्री वद्धमान-
स्वामीको [प्रणमामि] नमस्कार करता हूँ ।

[पुनः] और [विशुद्धसद्भावान्] विशुद्ध मत्तावाले [शेषान् तीर्थकरान्]

१. पुरुषार्थ—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष; इन चार पुरुषार्थोंमेंसे मोक्ष ही सारभूत श्रेष्ठ पुरुषार्थ
है । २. हिततम—उत्कृष्ट हितस्वरूप । ३. प्रसाद—प्रसन्नता, कृपा । ४. उपादेय—प्रहण करने योग्य,
मोक्षलक्ष्मी हिततम, यथार्थ और अविनाशी होनेसे उपादेय है । ५. प्रणमन—देहसे नमस्कार करना ।
वन्दन—वचनसे स्तुति करना । नमस्कारमें प्रणमन और वन्दन दोनोंका समावेश होता है । ६. सुरेन्द्र—
ऊर्ध्वलोकवासी देवोंके इन्द्र । ७. असुरेन्द्र—अधोलोकवासी देवोंके इन्द्र । ८. नरेन्द्र—(मध्यलोकवासी)
मनुष्योंके अधिपति, राजा । ९. सत्ता—अस्तित्व ।

ते ते मव्वे समगं ममगं पत्तेगमेव पत्तेगं ।
 वंदामि य वट्टंते अरहंतं माणुमे खेत्ते ॥ ३ ॥
 किच्चा अरहंताणं सिद्धाणं तह णमो गणहराणं ।
 अज्जावयवग्गाणं माहूणं चेदि मव्वेसिं ॥ ४ ॥
 तेमिं विमुद्धदंसणणाणपहाणाममं ममामेज्ज ।
 उवमंपयामि मम्मं जत्तो णिव्वाण संपत्ती ॥ ५ ॥ [पणगं]

एष सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितं धौतघातिकर्ममलम् ।
 प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धर्मस्य कर्तारम् ॥ १ ॥
 शेषान् पुनस्तौर्थाकगान् समर्वसिद्धान् विशुद्धमद्भवान् ।
 श्रमणांश्च ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारान् ॥ २ ॥
 तांस्तान् सर्वान् समकं समकं प्रत्येकमेव प्रत्येकम् ।
 वन्दे च वर्तमानानर्हतो मानुषे क्षेत्रे ॥ ३ ॥
 कृत्वाहर्द्दयः सिद्धेभ्यस्तथा नमो गणधरेभ्यः ।
 अध्यापकवर्गेभ्यः साधुभ्यश्चेति सर्वेभ्यः ॥ ४ ॥

शेष तीर्थंकरोंको [समर्वसिद्धान्] सर्व सिद्धभगवन्तोंके साथ ही, [च] और [ज्ञानदर्शन-
 चारित्रतपोवीर्याचारान्] ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचार
 युक्त [श्रमणान्] श्रमणोंको नमस्कार करता हूँ ।

[तान् तान् सर्वान्] उन उन सबको [च] तथा [मानुषे क्षेत्रे वर्तमानान्]
 मनुष्य क्षेत्रमें विद्यमान [अर्हतः] अरहन्तोंको [समकं समकं] साथ ही साथ—समुदाय-
 रूपसे और [प्रत्येकं एव प्रत्येकं] प्रत्येक प्रत्येकको—व्यक्तिगत [वंदे] वन्दना
 करता हूँ ।

[इति] इसप्रकार [अर्हद्भ्यः] अरहन्तोंको [सिद्धेभ्यः] सिद्धोंको [तथा
 गणधरेभ्यः] आचार्योंको [अध्यापकवर्गेभ्यः] उपाध्यायवर्गका [च] और [सर्वेभ्यः
 साधुभ्यः] सर्व साधुओंको [नमः कृत्वा] नमस्कार करके [तेषां] उनके [विशुद्धदर्शन-
 ज्ञानप्रधानाश्रमं] विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधान आश्रमको [समासाद्य] प्राप्त करके [साम्यं

१. श्रमण—आचार्य उपाध्याय और साधु । २. विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधान—विशुद्ध दर्शन और ज्ञान
 जिसमें प्रधान हैं, ऐसे ।

तेषां विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधानाश्रमं समासाद्य ।

उपसंपद्ये साम्यं यतो निर्वाणसंप्राप्तिः ॥ ५ ॥ [पंचकम्]

एष स्वसंवेदनप्रत्यक्षदर्शनज्ञानसामान्यात्माहं सुरासुरमनुष्येन्द्रवन्दितत्वात्त्रिलोकैकगुरुं, धौतघातिकर्ममलत्वाज्जगदनुग्रहसमर्थानन्तशक्तिपारमैश्वर्यं, योगिनां तीर्थत्वाचारणसमर्थं, धर्मकर्तृत्वाच्छुद्धस्वरूपवृत्तिविधातारं, प्रवर्तमानतीर्थनायकत्वेन प्रथमत एव परमभट्टारकमहादेवाधिदेवपरमेश्वरपरमपूज्यसुगृहीतनामश्रीवर्धमानदेवं प्रणमामि ॥ १ ॥ तदनु विशुद्धसद्भावत्वादुपात्तपाकोत्तीर्णजात्यकार्तस्वरस्थानीयशुद्धदर्शनज्ञानस्वभावान् शेषानतीततीर्थनायकान्, सर्वान् सिद्धांश्च, ज्ञानदर्शनचारित्र्यतपोवीर्याचारयुक्तत्वात्संभावितपरमशुद्धोपयोगभूमिकानाचार्योपाध्यायसाधुत्वविशिष्टान् श्रमणांश्च प्रणमामि ॥ २ ॥ तदन्वेतानेव पंचपरमेष्ठिनस्तत्तद्व्यक्तिव्यापिनः सर्वानेव सांप्रत-

उपसंपद्ये] मैं 'साम्यको प्राप्त करता हूँ [यतः] जिससे [निर्वाण संप्राप्तिः] निर्वाणकी प्राप्ति होती है ।

टीका:—जो सुरेन्द्रों, असुरेन्द्रों और नरेन्द्रोंके द्वारा वन्दित होनेसे तीन लोकके एक (अनन्य सर्वोत्कृष्ट) गुरु हैं, जिनमें घातिकर्ममलके धो डालनेसे जगत पर अनुग्रह करनेमें समर्थ अनन्तशक्तिरूप परमेश्वरता है, जो तीर्थताके कारण योगियोंको तारनेमें समर्थ हैं, धर्मके कर्ता होनेसे जो शुद्ध स्वरूपरिणतिके कर्ता हैं, उन परम भट्टारक, महादेवाधिदेव, परमेश्वर, परमपूज्य, जिनका नामग्रहण भी अच्छा है ऐसे श्री वर्द्धमानदेवको प्रवर्तमान तीर्थकी नायकताके कारण प्रथम ही यह 'स्वसंवेदनप्रत्यक्ष दर्शनज्ञानसामान्यस्वरूप मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥

तत्पश्चात् जो विशुद्ध सत्तावान् होनेसे तापसे उत्तीर्ण हुए (अन्तिम ताव दिये हुए अग्निमेंसे बाहर निकले हुए) उत्तम सुवर्णके समान शुद्धदर्शनज्ञानस्वभावको प्राप्त हुए हैं, ऐसे शेष अतीत तीर्थकरोंको और सर्वसिद्धोंको तथा ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचारयुक्त होनेसे जिन्होंने परम शुद्ध उपयोगभूमिकाको प्राप्त किया है, ऐसे श्रमणोंको— जो कि आचार्यत्व, उपाध्यायत्व और साधुत्वरूप विशेषोंसे विशिष्ट (भेदयुक्त) हैं उन्हें— नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥

१. साम्य = समता, समभाव । २. स्वसंवेदनप्रत्यक्ष = स्वानुभवसे प्रत्यक्ष (दर्शनज्ञानसामान्य स्वानुभवसे प्रत्यक्ष है) । ३. दर्शनज्ञानसामान्यस्वरूप = दर्शनज्ञानसामान्य अर्थात् चेतना जिसका स्वरूप है ऐसा । ४. अतीत = गत, भूतकालीन ।

मेतत्क्षेत्रसंभवतीर्थकरासंभवान्महाविदेहभूमिसंभवत्वे सति मनुष्यक्षेत्रप्रवर्तिभिस्तीर्थनायकैः सह वर्तमानकालं गोचरीकृत्य युगपद्युगपत्प्रत्येकं प्रत्येकं च मोक्षलक्ष्मीस्वयंवरायमाणपरमनैर्ग्रन्थ्य-दीक्षाक्षणोचितमंगलाचारभूतकृतिकर्मशास्त्रोपदिष्टवन्दनाभिधानेन संभावयामि ॥ ३ ॥ अथैवमर्ह-त्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधूनां प्रणतिवन्दनाभिधानप्रवृत्तद्वैतद्वारेण भाव्यभावकभावविबृम्भितासि-निर्भरेतरैतरसंबलनबलविलीननिखिलस्वपरविभागतया प्रवृत्ताद्वैतं नमस्कारं कृत्वा ॥ ४ ॥ तेषा-मेवार्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधूनां विशुद्धज्ञानदर्शनप्रधानत्वेन सहजशुद्धदर्शनज्ञानस्वभावात्म-तत्त्वश्रद्धानावबोधलक्षणसम्यग्दर्शनज्ञानसंपादकमाश्रमं समासाद्य सम्यग्दर्शनज्ञानसंपन्नो भूत्वा, जीवत्कषायकणतया पुण्यबन्धसंप्राप्तिहेतुभूतं सरागचारित्रं क्रमापतितमपि दूरमुत्क्रम्य सकलकषाय-कलिकलङ्कविविक्ततया निर्वाणसंप्राप्तिहेतुभूतं वीतरागचारित्रारूपं साम्यमुपसंपद्ये । सम्यग्दर्शनज्ञान-

तत्पश्चात् इन्हीं पंचपरमेष्ठियोंको, उस उस व्यक्तियमें (पर्यायमें) व्याप्त होने-वाले सभीको, वर्तमानमें इस क्षेत्रमें उत्पन्न तीर्थकरोंका अभाव होनेसे और महाविदेह-क्षेत्रमें उनका सद्भाव होनेसे मनुष्यक्षेत्रमें प्रवर्तमान तीर्थनायकयुक्त वर्तमानकालगोचर करके, (महाविदेहक्षेत्रमें वर्तमान श्री सीमंधरादि तीर्थकरोंकी भाँति मानों सभी पंच परमेष्ठी भगवान वर्तमानकालमें ही विद्यमान हों, इसप्रकार अत्यन्त भक्तिके कारण भावना भाकर—चितवन करके उन्हें) युगपद् युगपद् अर्थात् समुदायरूपसे और प्रत्येक प्रत्येकको अर्थात् व्यक्तिगतरूपसे 'संभावना करता हूँ । किस प्रकारसे संभावना करता हूँ ? मोक्षलक्ष्मीके स्वयंवर समान जो परम निर्ग्रन्थताकी दीक्षाका उत्सव (आनन्दमय प्रसंग) है उसके उचित मंगलाचरणभूत ^१कृतिकर्मशास्त्रोपदिष्ट वन्दनोच्चार (कृतिकर्मशास्त्रमें उपदेशे हुए स्तुतिवचन) के द्वारा ^३संभावना करता हूँ ॥ ३ ॥

अब इस प्रकार अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा सर्व साधुओंको प्रणाम और वन्दनोच्चारसे प्रवर्तमान द्वैतके द्वारा, ^५भाव्यभावक भावसे उत्पन्न अत्यन्त

१. संभावना — सन्मान; आराधना । २. कृतिकर्म — अंगबाह्य १४ प्रकीर्णकोमें छट्टा प्रकीर्णक कृतिकर्म है जिसमें नित्यनैमित्तिक क्रियाका वर्णन है । ३. सम्भावना — संभावना करना, सन्मान करना, आराधन करना । ४. भाव्य — भाने योग्य; चितवन करने योग्य; ध्यान करने योग्य अर्थात् ध्येय । भावक = भावना करनेवाला, चितवन करनेवाला, ध्यान करनेवाला अर्थात् ध्याता ।

चारित्र्यैक्यात्मकैकाग्र्यं गतोऽस्मीति प्रतिज्ञार्थः । एवं तावदयं साक्षान्मोक्षमार्गं संप्रतिपन्नः ॥ ५ ॥

अथायमेव वीतरागसरागचारित्र्योरिष्टानिष्टफलत्वेनोपादेयहेयत्वं विवेचयति—

संपज्जदि णिन्वाणं देवासुरमणुयरायविहवेहिं ।
जीवस्स चरित्तादो दंसणणाणप्पहाणादो ॥ ६ ॥

गाढ़ इतरेतर मिलनके कारण समस्त स्वपरका विभाग विलीन होजानेसे जिसमें अद्वैत प्रवर्तमान है ऐसा नमस्कार करके, उन्हीं अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व-साधुओंके आश्रमको,—जो कि (आश्रम) विशुद्धज्ञानदर्शनप्रधान होनेसे सहजशुद्ध-दर्शनज्ञानस्वभाववाले आत्मतत्त्वका श्रद्धान और ज्ञान जिसका लक्षण है ऐसे सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका सम्पादक है उसे—प्राप्त करके, सम्यग्दर्शनज्ञानसम्पन्न होकर, जिसमें कषायकण विद्यमान होनेसे जीवको जो पुण्यबन्धकी प्राप्ति का कारण है ऐसे सराग चारित्र्यको—वह (सराग चारित्र्य) क्रमसे आ पड़ने पर भी (गुणस्थान-आरोहणके क्रममें बलात् अर्थात् चारित्र्यमोहके मन्द उदयसे आ पड़ने पर भी)—दूर उल्लंघन करके, जो समस्त कषायक्लेशरूपी कलंकसे भिन्न होनेसे निर्वाणप्राप्तिका कारण है ऐसे वीतरागचारित्र्य नामक साम्यको प्राप्त करता हूँ । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यकी ऐक्यस्वरूप एकाग्रताको मैं प्राप्त हुआ हूँ, यह इस प्रतिज्ञाका अर्थ है । इस प्रकार तब इन्होंने (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवने) साक्षात् मोक्षमार्गको अंगीकार किया ॥ ४-५ ॥

अब वे ही (कुन्दकुन्दाचार्यदेव) वीतरागचारित्र्य इष्ट फलवाला है इसलिये उसकी उपादेयता और सरागचारित्र्य अनिष्ट फलवाला है इसलिये उसकी हेयताका विवेचन करते हैं:—

१. इतरेतरमिलन = एक दूसरेका परस्पर मिल जाना अर्थात् मिश्रित हो जाना । २. अद्वैत — पंच परमेष्ठीके प्रति अत्यंत आराध्य भावके कारण आराध्यरूप पंच परमेष्ठी भगवान् और आराधकरूप अपने भेदका विलय होजाता है । इस प्रकार नमस्कारमें अद्वैत पाया जाता है । यद्यपि नमस्कारमें प्रणाम और बंदनोरुचर दोनोंका समावेश होता है इसलिये उसमें द्वैत कहा है, तथापि तीव्र भक्तिभावसे स्वपरका भेदविलीन हो जानेकी अपेक्षासे उसमें अद्वैत पाया जाता है । ३. सहजशुद्धदर्शनज्ञानस्वभाववाले — सहज शुद्ध दर्शन और ज्ञान जिनका स्वभाव है वे । ४. संपादक — प्राप्त करानेवाला, उत्पन्न करनेवाला । ५. कषायकण — कषायका सूक्ष्मांश ।

संपद्यते निर्वाणं देवासुरमनुजराजविभवैः ।

जीवस्य चरित्रादर्शनज्ञानप्रधानात् ॥ ६ ॥

संपद्यते हि दर्शनज्ञानप्रधानाचारित्राद्वीतरागान्मोक्षः । तत एव च सरागाद्देवासुरमनु-
जराजविभवक्लेशरूपो बन्धः । अतो मुमुक्षुष्येष्टफलत्वाद्द्वीतरागचारित्रमुपादेयमनिष्टफलत्वा-
त्सरागचारित्रं हेयम् ॥ ६ ॥

अथ चारित्रस्वरूपं विभावयति—

चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सों ममो त्ति णिद्धिट्ठो ।

मोहक्खोह विहीणो परिणामो अप्पणो हु ममो ॥ ७ ॥

चारित्रं खलु धर्मो धर्मो यस्तत्साम्यमिति निर्दिष्टम् ।

मोहक्षोभविहीनः परिणाम आत्मनो हि साम्यम् ॥७॥

गाथा ६

अन्वयार्थः—[जीवस्य] जीवको [दर्शनज्ञानप्रधानात्] दर्शनज्ञानप्रधान
[चारित्रात्] चारित्रसे [देवासुरमनुजराजविभवैः] देवेन्द्र, असुरेन्द्र और नरेन्द्रके वैभवोंके
साथ [निर्वाणं] निर्वाण [संपद्यते] प्राप्त होता है । (जीवको सराग चारित्रसे
देवेन्द्र इत्यादिके वैभवोंकी और वीतराग चारित्रसे निर्वाणकी प्राप्ति होती है ।)

टीकाः—दर्शनज्ञानप्रधान चारित्रसे, यदि वह (चारित्र) वीतराग हो तो मोक्ष
प्राप्त होता है, और उससे ही, यदि वह सराग हो तो देवेन्द्र-असुरेन्द्र-नरेन्द्रके वैभवक्लेशरूप
बन्धकी प्राप्ति होती है । इसलिये मुमुक्षुओंको इष्ट फलवाला होनेसे वीतरागचारित्र
ग्रहण करने योग्य (उपादेय) है, और अनिष्ट फलवाला होनेसे सरागचारित्र त्यागने
योग्य (हेय) है ॥ ६ ॥

अब चारित्रका स्वरूप व्यक्त करते हैंः—

गाथा ७

अन्वयार्थः—[चारित्रं] चारित्र [खलु] वास्तवमें [धर्मः] धर्म है । [यः
धर्मः] जो धर्म है [तत् साम्यम्] वह साम्य है [इति निर्दिष्टम्] ऐसा (शास्त्रोंमें) कहा
है । [साम्यं हि] साम्य [मोहक्षोभविहीनः] मोहक्षोभरहित [आत्मनः परिणामः]
आत्माका परिणाम (भाव) है ।

स्वरूपे चरणं चारित्रं । स्वसमयप्रवृत्तिरित्यर्थः । तदेव वस्तुस्वभावत्वाद्धर्मः । शुद्धचैतन्य-
प्रकाशनमित्यर्थः । तदेव च यथावस्थितात्मगुणत्वात्साम्यम् । साम्यं तु दर्शनचारित्रमोहनीयो-
दयापादितसमस्तमोहभोधाभावादादत्यन्तनिर्विकारो जीवस्य परिणामः ॥ ७ ॥

अज्ञात्मनश्चारित्रत्वं निश्चिनोति—

परिणमदि जेण द्रव्यं तत्कालं तन्मयं ति पणणत्तं ।
तम्हा धम्मपरिणतो आदा धम्मो मुणोयव्वो ॥ ८ ॥

परिणमति येन द्रव्यं तत्कालं तन्मयमिति प्रज्ञप्तम् ।
तस्माद्धर्मपरिणत आत्मा धर्मो मन्तव्यः ॥ ८ ॥

यत्खलु द्रव्यं यस्मिन्काले येन भावेन परिणमति तत् तस्मिन् काले किलौष्ण्यपरि-

टीका:—स्वरूपमें चरण करना (रमना) सो चारित्र है । स्वसमयमें प्रवृत्ति
करना (अपने स्वभावमें प्रवृत्ति करना) ऐसा इसका अर्थ है । यही वस्तुका स्वभाव
होनेसे धर्म है । शुद्ध चैतन्यका प्रकाश करना यह इसका अर्थ है । वही यथावस्थित
आत्मगुण होनेसे (विषमतारहित मुस्थित आत्माका गुण होनेसे) साम्य है । और साम्य,
दर्शनमोहनीय तथा चारित्रमोहनीयके उदयसे उत्पन्न होनेवाले समस्त मोह और क्षोभके
अभावके कारण अत्यन्त निर्विकार ऐसा जीवका परिणाम है ।

भावार्थः—शुद्ध आत्माके श्रद्धारूप सम्यक्त्वसे विरुद्ध भाव (मिथ्यात्व) वह
मोह है और निर्विकार निश्चल चैतन्यपरिणतिरूप चारित्रसे विरुद्ध भाव (अस्थिरता)
वह क्षोभ है । मोह और क्षोभ रहित परिणाम, साम्य, धर्म और चारित्र यह सब
पर्यायवाची हैं ॥ ७ ॥

अब आत्माकी चारित्रता (अर्थात् आत्मा ही चारित्र है ऐसा) निश्चय करते हैं:—

गाथा ८

अन्वयार्थः—[द्रव्यं] द्रव्य जिस समय [येन] जिस भावरूपसे [परिणमति]
परिणमन करता है [तत्कालं] उस समय [तन्मयं] उस मय है [इति] ऐसा
[प्रज्ञप्तं] (जिनेन्द्र देवने) कहा है; [तस्मात्] इसलिये [धर्मपरिणतः आत्मा]
धर्मपरिणत आत्माको [धर्मः मन्तव्यः] धर्म समझना चाहिये ।

टीका:—वास्तवमें जो द्रव्य जिस समय जिस भावरूपसे परिणमन करता है,

णतायःपिण्डवत्तन्मयं भवति । ततोऽयमात्मा धर्मेण परिणतो धर्म एव भवतीति सिद्धमात्म-
नञ्चारित्रत्वम् ॥ ८ ॥

अथ जीवस्य शुभाशुभशुद्धत्वं निश्चिनोति—

जीवो परिणमदि जदा सुहेण असुहेण वा सुहो असुहो ।
सुद्धेण तदा सुद्धो ह्वदि हि परिणामस्वभावो ॥ ९ ॥

जीवः परिणमति यदा शुभेनाशुभेन वा शुभोऽशुभः ।

शुद्धेन तदा शुद्धो भवति हि परिणामस्वभावः ॥ ९ ॥

यदाऽयमात्मा शुभेनाशुभेन वा रागभावेन परिणमति तदा जपातापिच्छरागपरि-

वह द्रव्य उस समय उष्णतारूपसे परिणमित लोहेके गोलेकी भाँति उस मय है, इसलिये यह आत्मा धर्मरूप परिणमित होनेसे धर्म ही है । इसप्रकार आत्माकी चारित्रता सिद्ध हुई ।

भावार्थः—सातवीं गाथामें कहा गया है कि चारित्र आत्माका ही भाव है । और यहाँ आठवीं गाथामें अभेदनयसे यह कहा है कि जैसे उष्णतारूप परिणमित लोहेका गोला स्वयं ही उष्णता है—लोहेका गोला और उष्णता पृथक् नहीं है, इसी प्रकार चारित्रभावसे परिणमित आत्मा स्वयं ही चारित्र है ॥ ९ ॥

अब यहाँ जीवका शुभ, अशुभ और शुद्धत्व निश्चित करते हैं; अर्थात् यह बतलाते हैं कि जीव ही शुभ, अशुभ और शुद्ध है—

गाथा ९

अन्वयार्थः—[जीवः] जीव [परिणामस्वभावः] परिणामस्वभावी होनेसे [यदा] जब [शुभेन वा अशुभेन] शुभ या अशुभ भावरूप [परिणमति] परिणमन करता है [शुभः अशुभः] तब शुभ या अशुभ (स्वयं ही) होता है, [शुद्धेन] और जब शुद्धभावरूप परिणमित होता है [तदा शुद्धः हि भवति] तब शुद्ध होता है ।

टीकाः—जब यह आत्मा शुभ या अशुभ राग भावसे परिणमित होता है तब जवा कुमुम या तमाल पुष्पके लाल या काले रंगरूप परिणमित स्फटिककी भाँति,

णतस्फटिकवत् परिणामस्वभावः सन् शुभोऽशुभश्च भवति । यदा पुनः शुद्धेनारागभावेन परिणमति तदा शुद्धारागपरिणतस्फटिकवत्परिणामस्वभावः सन् शुद्धो भवतीति सिद्धं जीवस्य शुभाशुभशुद्धत्वम् ॥ ९ ॥

अथ परिणामं वस्तुस्वभावत्वेन निश्चिनोति—

परिणामस्वभाव होनेसे शुभ या अशुभ होता है (उस समय आत्मा स्वयं ही शुभ या अशुभ है); और जब वह शुद्ध अरागभावसे परिणमित होता है तब शुद्ध अरागपरिणत (रंग रहित) स्फटिककी भाँति, परिणामस्वभाव होनेसे शुद्ध होता है । (उस समय आत्मा स्वयं ही शुद्ध है) । इस प्रकार जीवका शुभत्व, अशुभत्व और शुद्धत्व सिद्ध हुआ ।

भावार्थः—आत्मा सर्वथा कूटस्थ नहीं है किन्तु स्थिर रहकर परिणमन करना उसका स्वभाव है, इसलिये वह जैसे जैसे भावोंसे परिणमित होता है वैसा वैसा ही वह स्वयं हो जाता है । जैसे स्फटिकमणि स्वभावसे निर्मल है तथापि जब वह लाल या काले फूलके संयोगनिमित्तसे परिणमित होता है तब लाल या काला स्वयं ही हो जाता है । इसीप्रकार आत्मा स्वभावसे शुद्ध-बुद्ध-एकस्वरूपी होने पर भी व्यवहारसे जब गृहस्थदशामें सम्यक्त्व पूर्वक दानपूजादि शुभ अनुष्ठानरूप शुभोपयोगमें और मुनिदशामें मूलगुण तथा उत्तरगुण इत्यादि शुभ अनुष्ठानरूप शुभोपयोगमें परिणमित होता है तब स्वयं ही शुभ होता है, और जब मिथ्यात्वादि पाँच प्रत्ययरूप अशुभोपयोगमें परिणमित होता है तब स्वयं ही अशुभ होता है और जैसे स्फटिकमणि अपने स्वाभाविक निर्मल रंगमें परिणमित होता है तब स्वयं ही शुद्ध होता है, उसीप्रकार आत्मा भी जब निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोगमें परिणमित होता है तब स्वयं ही शुद्ध होता है ।

सिद्धान्त ग्रन्थोंमें जीवके असंख्य परिणामोंको मध्यम वर्णनसे चौदह गुणस्थान-रूप कहा गया है । उन गुणस्थानोंको संक्षेपसे 'उपयोग'रूप वर्णन करते हुए, प्रथम तीन गुणस्थानोंमें तारतम्य पूर्वक (घटता हुआ) अशुभोपयोग, चौथेसे छठे गुणस्थान तक तारतम्य पूर्वक (बढ़ता हुआ) शुभोपयोग, सातवेंसे बारहवें गुणस्थान तक तारतम्य पूर्वक शुद्धोपयोग और अन्तिम दो गुणस्थानोंमें शुद्धोपयोगका फल कहा गया है,—ऐसा वर्णन कथंचित् हो सकता है ॥ ९ ॥

अब परिणाम वस्तुका स्वभाव है यह निश्चय करते हैं:—

णत्थि विणा परिणामं अत्थो अत्थं विणेह परिणामो ।
द्व्यगुणपज्जयत्थो अत्थो अत्थित्तणिव्वत्तो ॥ १० ॥

नास्ति विना परिणाममर्थोऽर्थं विनेह परिणामः ।

द्रव्यगुणपर्यायस्थोऽर्थोऽस्तित्वनिर्घृतः ॥ १० ॥

न खलु परिणाममन्तरेण वस्तु सत्तामालम्बते । वस्तुनो द्रव्यादिभिः परिणामात् पृथगुपलम्भाभावान्निःपरिणामस्य खरभृङ्गकल्पत्वाद् दृश्यमानगोरसादिपरिणामविरोधाच्च । अन्तरेण वस्तु परिणामोऽपि न सत्तामालम्बते । स्वाश्रयभूतस्य वस्तुनोऽभावे निराश्रयस्य परिणामस्य शून्यत्वप्रसङ्गात् । वस्तु पुनरुद्ध्वतासामान्यलक्षणे द्रव्ये सहभाविविशेषलक्षणेऽपि गुणेषु क्रमभावि-

शाखा १०

अन्वयार्थः—[इह] इमं लोकमें [परिणामं विना] परिणामके विना [अर्थः नास्ति] पदार्थ नहीं है, [अर्थं विना] पदार्थके विना [परिणामः] परिणाम नहीं है; [अर्थः] पदार्थ [द्रव्यगुणपर्यायस्थः] द्रव्य-गुण-पर्यायमें रहनेवाला और [अस्तित्वनिर्घृतः] (उत्पादव्ययध्रौव्यमय) अस्तित्वमे बना हुआ है ।

टीकाः—परिणामके विना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती, क्योंकि वस्तु द्रव्यादिके द्वारा (द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे) परिणामसे भिन्न अनुभवमें (देखनेमें) नहीं आती, क्योंकि (१) परिणाम रहित वस्तु गधेके मींगके समान है, (२) तथा उसका, दिखाई देनेवाले गोरस इत्यादि (दूध, दही वगैरह) के परिणामोंके साथ विरोध आता है । (जैसे—परिणामके विना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती उसीप्रकार) वस्तुके विना परिणाम भी अस्तित्वको धारण नहीं करता, क्योंकि स्वाश्रयभूत वस्तुके अभावमें (अपने आश्रयरूप जो वस्तु है वह न हो तो) निराश्रय परिणामको शून्यताका प्रसंग आता है ।

१. यदि वस्तुको परिणाम रहित माना जावे तो गोरस इत्यादि वस्तुओंके दूध, दही आदि जो परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उनके साथ विरोध आयेगा ।

विशेषलक्षणेषु पर्यायेषु व्यवस्थितमुत्पादव्ययध्रौव्यमयास्तित्वेन निर्वर्तितनिर्वृत्तिमच्च । अतः परिणामस्वभावमेव ॥ १० ॥

अथ चारित्रपरिणामसंपर्कसम्भवतोः शुद्धशुभपरिणामयोरुपादानहानाय फलमालोचयति—

और वस्तु तो ऊर्ध्वतासामान्यस्वरूप द्रव्यमें, सहभावी विशेषस्वरूप (साथ ही साथ रहनेवाले विशेष-भेद जिनका स्वरूप है ऐसे) गुणोंमें तथा क्रमभावी विशेषस्वरूप पर्यायोंमें रही हुई और उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमय अस्तित्वसे बनी हुई है; इसलिये वस्तु परिणाम-स्वभाववाली ही है ।

भावार्थः—जहाँ जहाँ वस्तु दिखाई देती है वहाँ वहाँ परिणाम दिखाई देता है । जैसे—गोरम अपने दूध, दही, घी, छाछ इत्यादि परिणामोंसे युक्त ही दिखाई देता है । जहाँ परिणाम नहीं होता वहाँ वस्तु भी नहीं होती । जैसे कालापन, स्निग्धता इत्यादि परिणाम नहीं हैं तो गंधके सींगरूप वस्तु भी नहीं है । इससे सिद्ध हुआ कि वस्तु परिणाम रहित कदापि नहीं होती । जैसे वस्तु परिणामके बिना नहीं होती उसीप्रकार परिणाम भी वस्तुके बिना नहीं होते, क्योंकि वस्तुरूप आश्रयके बिना परिणाम किसके आश्रयसे रहेंगे ? गोरमरूप आश्रयके बिना दूध, दही इत्यादि परिणाम किसके आश्रयसे होंगे ?

और फिर वस्तु तो द्रव्य-गुण-पर्यायमय है । उसमें त्रैकालिक ऊर्ध्व प्रवाह सामान्य द्रव्य है, और साथ ही साथ रहनेवाले भेद गुण हैं, तथा क्रमशः होनेवाले भेद पर्याय हैं । ऐसे द्रव्य, गुण और पर्यायकी एकतासे रहित कोई वस्तु नहीं होती । दूसरी रीतिसे कहा जाय तो, वस्तु उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमय है अर्थात् वह उत्पन्न होती है, नष्ट होती है और स्थिर रहती है । इसप्रकार वह द्रव्य-गुण-पर्यायमय और उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमय होनेसे उसमें क्रिया (परिणमन) होती ही रहती है । इसलिये परिणाम वस्तुका स्वभाव ही है ॥ १० ॥

अब जिनका चारित्र परिणामके साथ सम्पर्क (सम्बन्ध) है ऐसे जो शुद्ध और शुभ (दो प्रकारके) परिणाम हैं उनके ग्रहण तथा त्यागके लिये (शुद्ध परिणामके ग्रहण और शुभ परिणामके त्यागके लिये) उनका फल विचारते हैंः—

१—कालकी अपेक्षासे स्थिर होनेको अर्थात् कालापेक्षित प्रवाहको ऊर्ध्वता अथवा ऊँचाई कहा जाता है । ऊर्ध्वतासामान्य अर्थात् अनादि-अनन्त उच्च (कालापेक्षित) प्रवाहसामान्य द्रव्य है ।

धर्मेण परिणदप्त्वा अप्त्वा जदि शुद्धसंप्रयोगजुदो ।
पावदि णिब्वाणसुहं सुहोवजुत्तो व सग्गसुहं ॥ ११ ॥

धर्मेण परिणतात्मा आत्मा यदि शुद्धसंप्रयोगयुतः ।
प्राप्नोति निर्वाणसुखं शुभोपयुक्तो वा स्वर्गसुखम् ॥ ११ ॥

यदायमात्मा धर्मपरिणतस्वभावः शुद्धोपयोगपरिणतिमुद्ब्रहति तदा निःप्रत्यनीकशक्ति-
तया स्वकार्यकरणसमर्थचारित्रः साक्षान्मोक्षमवाप्नोति । यदा तु धर्मपरिणतस्वभावोऽपि शुभोपयोग-
परिणत्या संगच्छते तदा सप्रत्यनीकशक्तितया स्वकार्यकरणासमर्थः कथंचिद्विरुद्धकार्यकारिचारित्रः
शिक्षितस्रष्टृतोपसिक्तपुरुषो दाहदुःखमिव स्वर्गसुखबन्धमवाप्नोति । अतः शुद्धोपयोग उपादेयः
शुभोपयोगो हेयः ॥ ११ ॥

भाषा ११

अन्वयार्थः—[धर्मेण परिणतात्मा] धर्मसे परिणमित स्वरूपवाला [आत्मा]
आत्मा [यदि] यदि [शुद्धसंप्रयोगयुतः] शुद्ध उपयोगमें युक्त हो तो [निर्वाण सुखं]
मोक्ष सुखको [प्राप्नोति] प्राप्त करता है [शुभोपयुक्तः वा] और यदि शुभोपयोगवाला
हो तो [स्वर्गसुखं] स्वर्गके सुखको (बन्धको) प्राप्त करता है ।

टीकाः—जब यह आत्मा धर्मपरिणत स्वभाववाला होता हुआ शुद्धोपयोग
परिणतिको धारण करता है—बनाये रखता है तब, जो विरोधी शक्तिसे रहित होनेके
कारण अपना कार्य करनेके लिये समर्थ है ऐसा चारित्रवान होनेमें, (वह) साक्षात्
मोक्षको प्राप्त करता है; और जब वह धर्मपरिणत स्वभाववाला होनेपर भी
शुभोपयोग परिणतिके साथ युक्त होता है तब जो विरोधी शक्ति सहित होनेसे
स्वकार्य करनेमें असमर्थ है और कथंचित् विरुद्ध कार्य करनेवाला है ऐसे चारित्रमे
युक्त होनेसे, जैसे अग्निसे गर्म किया हुआ घी किसी मनुष्य पर डाल दिया जावे
तो वह उसकी जलनसे दुखी होता है, उसीप्रकार वह स्वर्ग सुखके बन्धको प्राप्त होता
है, इसलिये शुद्धोपयोग उपादेय है और शुभोपयोग हेय है ।

(१) दान, पूजा, पंच- महाव्रत, देवगुरुधर्म प्रति राग इत्यादिरूप जो शुभोपयोग है वह चारित्रका
विरोधी है—इसलिये सराग (शुभोपयोगवाला) चारित्र विरोधी शक्ति सहित है और वीतराग चारित्र
विरोधी शक्ति रहित है ।

अथ चारित्रपरिणामसंपर्कासंभवादत्यन्तहेयस्याशुभपरिणामस्य फलमालोचयति-

असुहोदयेण आदा कुणरो तिरियो भवीय णेरइयो ।

दुःखसहस्सेहिं सदा अभिद्रुतो भमदि अच्चंतं ॥ १२ ॥

अशुभोदयेनात्मा कुनरस्तिर्यग्भूत्वा नैरयिकः ।

दुःखसहस्रैः सदा अभिद्रुतो भ्रमत्यत्यन्तम् ॥ १२ ॥

यदायमात्मा मनागपि धर्मपरिणतिमनासादयन्नशुभोपयोगपरिणतिमालम्बते तदा कुमनुष्यतिर्यङ्नारकभ्रमणरूपं दुःखसहस्रबन्धमनुभवति । ततश्चारित्रलवस्याप्यभावादत्यन्तहेय एवायमशुभोपयोग इति ॥१२॥ एवमयमपास्तसमस्तशुभाशुभोपयोगवृत्तिः शुद्धोपयोगवृत्तिमात्मसात्कुर्वाणः शुद्धोपयोगाधिकारमारभते ।

भावार्थः—जैसे घी स्वभावतः शीतलता उत्पन्न करनेवाला है तथापि गर्म घीसे जल जाते हैं, इसीप्रकार चारित्र स्वभावसे मोक्ष दाता है, तथापि सराग चारित्रसे बन्ध होता है । जैसे ठंडा घी शीतलता उत्पन्न करता है इसीप्रकार वीतराग चारित्र साक्षात् मोक्षका कारण है ॥ ११ ॥

अब चारित्र परिणामके साथ सम्पर्क रहित होनेसे जो अत्यन्त हेय है ऐसे अशुभ परिणामका फल विचारते हैं:—

गाथा १२

अन्वयार्थः—[अशुभोदयेन] अशुभ उदयसे [आत्मा] आत्मा [कुनरः] कुमनुष्य [तिर्यग्] तिर्यच [नैरयिकः] और नारकी [भूत्वा] होकर [दुःख सहस्रैः] हजारों दुःखोंसे [सदा अभिद्रुतः] सदा पीड़ित होता हुआ [अत्यंतं भ्रमति] (संसारमें) अत्यन्त भ्रमण करता है ।

टीकाः—जब यह आत्मा किंचित् मात्र भी धर्मपरिणतिको प्राप्त न करता हुआ अशुभोपयोग परिणतिका अवलम्बन करता है, तब वह कुमनुष्य, तिर्यच और नारकीके रूपमें परिभ्रमण करता हुआ (तद्रूप) हजारों दुःखोंके बन्धनका अनुभव करता है; इसलिये चारित्रके लेशमात्रका भी अभाव होनेसे यह अशुभोपयोग अत्यन्त हेय ही है ॥ १२ ॥

तत्र शुद्धोपयोगफलमात्मनः प्रोत्साहनार्थमभिष्टौति—

अइसयमादसमुत्थं विसयातीदं अणोवममाणंतं ।

अव्युच्छिन्नं च सुखं सुद्धुवओगप्पसिद्धानं ॥ १३ ॥

अतिशयमात्मसमुत्थं विषयातीतमनौपम्यमनन्तम् ।

अव्युच्छिन्नं च सुखं शुद्धोपयोगप्रसिद्धानाम् ॥ १३ ॥

आसंसारोऽपूर्वपरमाद्भुताह्लादरूपत्वादात्मानमेवाश्रित्य प्रवृत्तत्वात्पराश्रयनिरपेक्षत्वादत्यन्तविलक्षणत्वात्समस्तायतिनिरपायित्वान्नैरन्तर्यप्रवर्तमानत्वाच्चातिशयवदात्मसमुत्थं विषयातीतमनौपम्यमनन्तमव्युच्छिन्नं च शुद्धोपयोगनिःपन्नानां सुखमतस्तत्सर्वथा प्रार्थनीयम् ॥ १३ ॥

इसप्रकार यह (भगवान् कुन्दकुन्दाचार्य देव) समस्त शुभाशुभोपयोगवृत्तिको (शुभउपयोगरूप और अशुभ उपयोगरूप परिणतिको) अपास्त कर (हेय मानकर, तिरस्कार करके, दूर करके) शुद्धोपयोगवृत्तिको आत्मसात् (आत्मरूप, अपनेरूप) करते हुए शुद्धोपयोग अधिकार प्रारम्भ करते हैं। उसमें (पहले) शुद्धोपयोगके फलकी आत्माके प्रोत्साहनके लिये प्रशंसा करते हैं।

गाथा १३

अन्वयार्थः—[शुद्धोपयोगप्रसिद्धानां] शुद्धोपयोगसे 'निष्पन्न' हुए आत्माओंका (केवली और सिद्धोंका) [सुखं] सुख [अतिशयं] अतिशय [आत्मसमुत्थं] आत्मोत्पन्न [विषयातीतं] विषयातीत (अतीन्द्रिय) [अनौपम्यं] अनुपम [अनन्तं] अनन्त (अविनाशी) [अव्युच्छिन्नं च] और अविच्छिन्न (अटूट) है।

टीकाः—(१) अनादि संसारसे जो पहले कभी अनुभवमें नहीं आया ऐसे अपूर्व, परम अद्भुत आह्लादरूप होनेसे 'अतिशय', (२) आत्माका ही आश्रय लेकर (स्वाश्रित) प्रवर्तमान होनेसे 'आत्मोत्पन्न', (३) पराश्रयसे निरपेक्ष होनेसे (स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दके तथा संकल्पविकल्पके आश्रयकी अपेक्षासे रहित होनेसे) 'विषयातीत', (४) अत्यन्त विलक्षण होनेसे (अन्य सुखोंसे सर्वथा भिन्न लक्षणवाला

१. निष्पन्न होना = उत्पन्न होना; फलरूप होना; सिद्ध होना। शुद्धोपयोगसे निष्पन्न हुए अर्थात् शुद्धोपयोग कारणसे कार्यरूप हुए।

अथ शुद्धोपयोगपरिणतात्मस्वरूपं निरूपयति—

सुविदितपदार्थसुतो संयमतवसंयुतो विगतरागो ।
समणो समसुखदुःखो भणितो सुद्धोपयोगो ति ॥ १४ ॥

सुविदितपदार्थसूत्रः संयमतपःसंयुतो विगतरागः ।

श्रमणः समसुखदुःखो भणितः शुद्धोपयोग इति ॥ १४ ॥

सप्रार्थज्ञानबलेन स्वपरद्रव्यविभागपरिज्ञानश्रद्धानविधानसमर्थत्वात्सुविदितपदार्थसूत्रः ।
सकलषड्जीवनिकायनिशुम्ननविकल्पार्थंचेन्द्रियाभिलाषविकल्पाच्च व्यावर्त्यात्मनः शुद्धस्वरूपे संय-

होनेसे) 'अनुपम', (५) समस्त आगामी कालमें कभी भी नाशको प्राप्त न होनेसे 'अनन्त' और (६) विना ही अन्तरके प्रवर्तमान होनेसे 'अविच्छिन्न' सुख शुद्धोपयोगसे निष्पन्न हुए आत्माओंके होता है, इसलिये वह (सुख) सर्वथा प्रार्थनीय (वाञ्छनीय) है ॥ १३ ॥

अथ शुद्धोपयोगपरिणत आत्माका स्वरूप कहते हैं:—

गाथा १४

अन्वयार्थः— [सुविदितपदार्थसूत्रः] जिन्होंने (निज शुद्ध आत्मादि) पदार्थोंको और सूत्रोंको भली भाँति जान लिया है, [संयमतपःसंयुतः] जो संयम और तपयुक्त हैं, [विगतरागः] जो वीतराग अर्थात् राग रहित हैं [समसुखदुःखः] और जिन्हें सुख-दुःख समान हैं, [श्रमणः] ऐसे श्रमणको (मुनिवरको) [शुद्धोपयोगः इति भणितः] 'शुद्धोपयोगी' कहा गया है ।

टीका:—सूत्रोंके अर्थके ज्ञानबलसे स्वद्रव्य और परद्रव्यके विभागके परिज्ञानमें श्रद्धानमें और विधानमें (आचरणमें) समर्थ होनेसे (स्वद्रव्य और परद्रव्यकी भिन्नताका ज्ञान, श्रद्धान और आचरण होनेसे) जो श्रमण पदार्थोंको और (उनके प्रतिपादक) सूत्रोंको जिन्होंने भलीभाँति जान लिया है ऐसे हैं, समस्त छह जीवनिकायके हननके विकल्पसे और पंचेन्द्रिय सम्बन्धी अभिलाषाके विकल्पसे

मनात्, स्वरूपविश्रान्तनिस्तरङ्गचैतन्यप्रतपनाच्च संयमतपःसंयुतः । सकलमोहनीयविपाकविवेक-
भावनासौष्ठवस्फुटीकृतनिर्विकारात्मस्वरूपत्वाद्भिगतरागः । परमकलावलोकनानुभूयमानसातासात-
वेदनीयविपाकनिर्वर्तितसुखदुःखजनितपरिणामवैषम्यत्वात्समसुखदुःखः श्रमणः शुद्धोपयोग
इत्यभिधीयते ॥ १४ ॥

अथ शुद्धोपयोगलाभान्तरभाविशुद्धात्मस्वभावलाभमभिनन्दति—

उपयोगविशुद्धो जो विगदावरणंतरायमोहरञ्चो ।

भूदो सयमेवादा जादि पारं णेयभूदाणं ॥ १५ ॥

उपयोगविशुद्धो यो विगतावरणान्तरायमोहरजाः ।

भूतः स्वयमेवात्मा याति पारं ज्ञेयभूतानाम् ॥ १५ ॥

आत्माको ^१व्यावृत्त करके आत्माका शुद्धस्वरूपमें संयमन करनेसे, और ^२स्वरूपविश्रान्त
^३निस्तरंग ^४चैतन्यप्रतपन होनेसे जो संयम और तपयुक्त हैं, सकल मोहनीयके
विपाकसे भेदकी भावनाकी उत्कृष्टतासे (समस्त मोहनीय कर्मके उदयसे भिन्नत्वकी
उत्कृष्ट भावनासे) निर्विकार आत्मस्वरूपको प्रगट किया होनेसे जो वीतराग है,
और परमकलाके अवलोकनके कारण साता वेदनीय तथा असाता वेदनीयके विपाकसे
उत्पन्न होनेवाले जो सुख-दुःख उन सुख-दुःख जनित परिणामोंकी विषमताका अनुभव
नहीं होनेसे (परम सुखरसमें लीन निर्विकार स्वसंवेदनरूप परमकलाके अनुभवके
कारण इष्टानिष्ट संयोगोंमें हर्ष शोकादि विषम परिणामोंका अनुभव न होनेसे)
जो "समसुखदुःख हैं, ऐसे श्रमण शुद्धोपयोगी कहलाते हैं ॥ १४ ॥

अब, शुद्धोपयोगकी प्राप्तिके बाद तत्काल (अन्तर पड़े बिना) ही होनेवाली
शुद्ध आत्मस्वभाव (केवलज्ञान) प्राप्तिकी प्रशंसा करते हैं:—

गाथा १५

अन्वयार्थः—[यः] जो [उपयोगविशुद्धः] उपयोग विशुद्ध (शुद्धोपयोगी)

१ व्यावृत्त करके = हटाकर; रोककर; अलग करके । २ स्वरूपविश्रान्त = स्वरूपमें स्थिर हुना । ३.
निस्तरंग = तरंग रहित; चंचलता रहित; विकल्प रहित; शान्त । ४. प्रतपन होना = प्रतापमान होना, प्रकाशित
होना, दैदीप्यमान होना । ५. समसुखदुःख = जिन्हें सुख और दुःख (इष्टानिष्ट संयोग) दोनों समान हैं ।

यो हि ज्ञान चैतन्यपरिणामलक्षणेनोपयोगेन यथाशक्ति विशुद्धो भूत्वा वर्तते स खलु प्रतिपदमुद्दिद्यमानविशिष्टविशुद्धिशक्तिरुद्ग्रन्थितासंसारबद्धदृढतरमोहग्रन्थितयात्यंतनिर्विकारचैतन्यो निरस्तप्रमस्तज्ञानदर्शनावरणान्तरायतया निःप्रतिघविजृम्भितात्मशक्तिश्च स्वयमेव भूतो ज्ञेयत्वमापन्नानामन्तमवाप्नोति । इह किलात्मा ज्ञानस्वभावो ज्ञानं तु ज्ञेयमात्रं ततः समस्तज्ञेयान्तर्वर्तिज्ञानस्वभावमात्मानमात्मा शुद्धोपयोगप्रसादादेवासादयति ॥ १५ ॥

अथ शुद्धोपयोगजन्यस्य शुद्धात्मस्वभावलाभस्य कारणान्तरनिरपेक्षतयाऽत्यन्तमात्मा-यत्त्वं द्योतयति—

है [आत्मा] वह आत्मा [त्रिगतावरणान्तरायमोहरजाः] ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय और मोहरूप रजसे रहित [स्वयमेव भूतः] स्वयमेव होता हुआ [ज्ञेयभूतानां] ज्ञेयभूत पदार्थोंके [पारं याति] पारको प्राप्त होता है ।

टीकाः—जो (आत्मा) चैतन्य परिणामस्वरूप उपयोगके द्वारा यथाशक्ति विशुद्ध होकर वर्तता है, वह (आत्मा), जिसे पद पद पर (प्रत्येक पर्यायमें) 'विशिष्ट विशुद्ध शक्ति प्रगट होती जाती है, ऐसा होनेसे, अनादि संसारसे बँधी हुई दृढतर मोहग्रन्थि छूट जानेसे अत्यन्त निर्विकार चैतन्यवाला और समस्त ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अन्तरायके नष्ट हो जानेसे निर्विघ्न विकसित आत्मशक्तिवान स्वयमेव होता हुआ ज्ञेयताको प्राप्त (पदार्थों) के अन्तको पा लेता है ।

यहाँ (यह कहा है कि) आत्मा ज्ञानस्वभाव है, और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है; इसलिये समस्त ज्ञेयोंके भीतर प्रवेशको प्राप्त (ज्ञाता) ज्ञान जिसका स्वभाव है ऐसे आत्माको आत्मा शुद्धोपयोगके ही प्रसादसे प्राप्त करता है ।

भावार्थः—शुद्धोपयोगी जीव प्रतिक्षण अत्यन्त शुद्धिको प्राप्त करता रहता है, और इसप्रकार मोहका क्षय करके निर्विकार चेतनावान होकर बारहवें गुणस्थानके अन्तिम समयमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायका युगपद् क्षय करके समस्त ज्ञेयोंको जाननेवाले केवलज्ञानको प्राप्त करता है । इसप्रकार शुद्धोपयोगसे ही शुद्धात्मस्वभावका लाभ होता है ॥ १५ ॥

अब, शुद्धोपयोगसे होनेवाली शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्ति अन्य कारणोंसे

तह सो लद्धसहावो सब्बग्हू सब्बलोगपदिमहिदो ।
भूदो सयमेवादा हवदि सयंभु ति णिदिट्ठो ॥ १६ ॥

तथा स लब्धस्वभावः सर्वज्ञः सर्वलोकपतिमहितः ।

भूतः स्वयमेवात्मा भवति स्वयम्भूरिति निर्दिष्टः ॥ १६ ॥

अयं खन्वात्मा शुद्धोपयोगभावनानुभावप्रत्यस्तमितसमस्तघातिकर्मतया समुपलब्ध-
शुद्धानन्तशक्तित्त्वभावः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञायकस्वभावेन स्वतन्त्रत्वाद्गृहीतकर्तृत्वाधिकारः, शुद्धा-

निरपेक्ष (स्वतंत्र) होनेसे अत्यन्त आत्माधीन है (लेशमात्र पराधीन नहीं है)
मह प्रगट करते हैं:—

गाथा १६

अन्वयार्थः—[तथा] इसप्रकार [सः आत्मा] वह आत्मा [लब्धस्वभावः]
स्वभावको प्राप्त [सर्वज्ञः] सर्वज्ञ [सर्वलोकपतिमहितः] और सर्व (तीन) लोकके
'अधिपतियोंसे पूजित [स्वयमेव भूतः] स्वयमेव हुआ होनेसे [स्वयंभूः भवति]
'स्वयंभू' है [इति निर्दिष्टः] ऐसा जिनेन्द्रदेवने कहा है ।

टीका:—शुद्ध उपयोगकी भावनाके प्रभावसे समस्त घातिकर्मोंके नष्ट होनेसे
जिसने शुद्ध अनन्तशक्तिवान चैतन्य स्वभावको प्राप्त किया है, ऐसा यह (पूर्वोक्त)
आत्मा—, (१) शुद्ध अनन्तशक्तियुक्त ज्ञायक स्वभावके कारण स्वतंत्र होनेसे जिसने
कर्तृत्वके अधिकारको ग्रहण किया है ऐसा, (२) शुद्ध अनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपसे
परिणमित होनेके स्वभावके कारण स्वयं ही प्राप्य होनेसे (स्वयं ही प्राप्त होता
होनेसे) कर्मत्वका अनुभव करता हुआ, (३) शुद्ध अनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपसे
परिणमित होनेके स्वभावसे स्वयं ही साधकतम (उत्कृष्ट साधन) होनेसे करणताको
धारण करता हुआ, (४) शुद्ध अनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपसे परिणमित होनेके
स्वभावके कारण स्वयं ही कर्म द्वारा समाश्रित होनेसे (अर्थात् कर्म स्वयंको ही
देनेमें आता होनेसे) सम्प्रदानताको धारण करता हुआ, (५) शुद्ध अनन्तशक्तिमय
ज्ञानरूपसे परिणमित होनेके समय पूर्वमें प्रवर्तमान विकलज्ञानस्वभावका नाश होने

१. सर्वलोकके अधिपति = तीनोंलोकके स्वामी-सुरेन्द्र, असुरेन्द्र और चक्रवर्ति । २. विकलज्ञान --
अपूर्ण (मति श्रुतादि) ज्ञान ।

नन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन प्राप्यत्वात् कर्मत्वं कलयन्, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमन-
स्वभावेन साधकतमत्वात् करणत्वमनुविभ्रानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेन कर्मणा
समाश्रियमाणत्वात् संप्रदानत्वंदधानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविपरिणमनसमये पूर्वप्रवृत्तिकलज्ञान-
स्वभावापगमेऽपि सहजज्ञानस्वभावेन ध्रुवत्वालम्बनादपादानत्वमुपाददानः, शुद्धानन्तशक्तिज्ञानविप-

पर भी सहज ज्ञानस्वभावसे स्वयं ही ध्रुवताका अवलम्बन करनेसे अपादानताको
धारण करता हुआ, और (६) शुद्ध अनन्तशक्तियुक्त ज्ञानरूपसे परिणमित होनेके
स्वभावका स्वयं ही आधार होनेसे अधिकरणताको आत्मसात् करता हुआ—(इसप्रकार)
स्वयमेव छह कारकरूप होनेसे अथवा उत्पत्ति अपेक्षासे द्रव्य-भावभेदसे भिन्न
घातिकर्मोंको दूर करके स्वयमेव आविर्भूत होनेसे 'स्वयंभू' कहलाता है ।

यहाँ यह कहा गया है कि—निश्चयसे परके साथ आत्माका कारकताका
सम्बन्ध नहीं है, कि जिससे शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके लिये सामग्री (बाह्य साधन)
ढूँढनेकी व्यग्रतासे जीव (व्यर्थ ही) परतंत्र होते हैं ।

भावार्थः—कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, और अधिकरण नामक
छह कारक हैं । जो स्वतंत्रतया-स्वाधीनतासे करता है वह कर्ता है; कर्ता जिसे
प्राप्त करता है वह कर्म है; साधकतम अर्थात् उत्कृष्ट साधनको करण कहते हैं; कर्म
जिसे दिया जाता है, अथवा जिसके लिये किया जाता है वह सम्प्रदान है; जिसमेंसे
कर्म किया जाता है, वह ध्रुववस्तु अपादान है, और जिसमें अर्थात् जिसके आधारसे
कर्म किया जाता है वह अधिकरण है । यह छह कारक व्यवहार और निश्चयके
भेदसे दो प्रकारके हैं । जहाँ परके निमित्तसे कार्यकी सिद्धि कहलाती है वहाँ व्यवहार
कारक है, और जहाँ अपने ही उपादान कारणसे कार्यकी सिद्धि कही जाती है वहाँ
निश्चय कारक है ।

व्यवहार कारकोंको इसप्रकार घटित किया जाता है—कुम्हार कर्ता है;
घड़ा कर्म है; दंड, चक्र, चीवर इत्यादि करण हैं; कुम्हार जल भरनेवालेके लिये
घड़ा बनाता है, इसलिये जल भरनेवाला सम्प्रदान है; टोकरीमेंसे मिट्टी लेकर घड़ा

१: द्रव्य-भावभेदसे भिन्न घातिकर्म = द्रव्य और भावके भेदसे घातिकर्म दो प्रकारके हैं, द्रव्यघाति-
कर्म और भावघातिकर्म ।

रिणमनस्वभावस्याधारभूतत्वादधिकरणत्वमात्मसात्कुर्वाणः, स्वयमेव षट्कारकीरूपेणोपजायमानः, उत्पत्तिव्यपेक्षया द्रव्यभावभेदभिन्नघातिकर्माण्यपास्य स्वयमेवाविर्भूतत्वाद्वा स्वयंभूरिति निर्दिश्यते ।

बनाता है, इसलिये टोकरी अपादान है, और पृथ्वीके आधार पर घड़ा बनाता है, इसलिये पृथ्वी अधिकरण है। यहाँ सभी कारक भिन्न भिन्न हैं। अन्य कर्ता है; अन्य कर्म है; अन्य करण है; अन्य सम्प्रदान; अन्य अपादान; अन्य अधिकरण है। परमार्थतः कोई द्रव्य किसीका कर्ता—हर्ता नहीं हो सकता, इसलिये यह छहों व्यवहार कारक असत्य हैं। वे मात्र उपचरित असद्भूत व्यवहार नयसे कहे जाते हैं। निश्चयसे किसी द्रव्यका अन्य द्रव्यके साथ कारणताका सम्बन्ध है ही नहीं।

निश्चय कारकोंको इसप्रकार घटित करते हैं—मिट्टी स्वतंत्रतया घटरूप कार्यको प्राप्त होती है इसलिये मिट्टी कर्ता है और घड़ा कर्म है। अथवा, घड़ा मिट्टीसे अभिन्न है इसलिये मिट्टी स्वयं ही कर्म है। अपने परिणमन स्वभावसे मिट्टीने घड़ा बनाया इसलिये मिट्टी स्वयं ही करण है। मिट्टीने घड़ारूप कर्म अपनेको ही दिया इसलिये मिट्टी स्वयं सम्प्रदान है। मिट्टीने अपनेमेंसे पिंडरूप अवस्था नष्ट करके घट रूप कर्म किया और स्वयं ध्रुव बनी रही इसलिये वह स्वयं ही अपादान है। मिट्टीने अपने ही आधारसे घड़ा बनाया इसलिये स्वयं ही अधिकरण है। इसप्रकार निश्चयसे छहों कारक एक ही द्रव्यमें हैं। परमार्थतः एक द्रव्य दूसरेकी सहायता नहीं कर सकता और द्रव्य स्वयं ही, अपनेको, अपनेसे, अपने लिये, अपनेमेंसे, अपनेमें करता है इसलिये निश्चय छह कारक ही परम सत्य हैं।

उपरोक्त प्रकारसे द्रव्य स्वयं ही अपनी अनन्त शक्तिरूप सम्पदासे परिपूर्ण है इसलिये स्वयं ही छह कारकरूप होकर अपना कार्य करनेके लिये समर्थ है, उसे बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती। इसलिये केवलज्ञान प्राप्तिके इच्छुक आत्माको बाह्य सामग्रीकी अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। शुद्धोपयोगमें लीन आत्मा स्वयं ही छह कारकरूप होकर केवलज्ञान प्राप्त करता है। वह आत्मा स्वयं अनन्तशक्तिवान् जायकस्वभावसे स्वतंत्र है इसलिये स्वयं ही कर्ता है; स्वयं अनन्तशक्तिवाले केवलज्ञानको प्राप्त करनेसे केवलज्ञान कर्म है, अथवा केवलज्ञानसे स्वयं अभिन्न होनेसे आत्मा स्वयं ही कर्म है; अपने अनन्त शक्तिवाले परिणमन स्वभावरूप उत्कृष्ट साधनसे केवलज्ञानको प्रगट करता है, इसलिए आत्मा स्वयं ही

अतो न मिरचयतः परेण सहात्मनः कारकत्वसम्बन्धोऽस्ति, यतः शुद्धात्मस्वभावलाभाय सामग्री-
मार्गज्यव्यग्रतया परतंत्रैर्भूयते ॥ १६ ॥

अथ स्वायम्भुवस्यास्य शुद्धात्मस्वभावलाभस्यात्यन्तमनपायित्वं कथंचिदुत्पादव्यय-
ध्रौव्ययुक्तत्वं चालोचयति—

भंगविहीणो य भवो संभवपरिवर्जितो विनाशो हि ।
विज्जदि तस्सेव पुणो ठिदिसंभवणाससमवायो ॥ १७ ॥

मङ्गविहीनश्च भवः संभवपरिवर्जितो विनाशो हि ।
विद्यते तस्यैव पुनः स्थितिसंभवनाशसमवायः ॥ १७ ॥

करण है; अपनेको ही केवलज्ञान देता है, इसलिये आत्मा स्वयं ही सम्प्रदान है; अपनेमेंसे मति श्रुतादि अपूर्ण ज्ञान दूर करके केवलज्ञान प्रगट करता है इसलिये और स्वयं सहज ज्ञान स्वभावके द्वारा ध्रुव रहता है इसलिये स्वयं ही अपादान है, अपनेमें ही अर्थात् अपने ही आधारसे केवलज्ञान प्रगट करता है, इसलिये स्वयं ही अधिकरण है। इसप्रकार स्वयं छह कारकरूप होता है, इसलिये वह 'स्वयंभू' कहलाता है। अथवा, अनादिकालसे अति दृढ़ बंधे हुए (ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतरायरूप) द्रव्य तथा भाव घातिकर्मोंको नष्ट करके स्वयमेव आविर्भूत हुआ, अर्थात् किसीकी सहायताके बिना अपने आप ही स्वयं प्रगट हुआ इसलिये 'स्वयंभू' कहलाता है ॥ १६ ॥

अब इस स्वयंभूके शुद्धात्मस्वभावकी प्राप्तिके अत्यन्त अविनाशीपना और कथंचित् (कोई प्रकारसे) उत्पाद-व्यय-ध्रौव्ययुक्तताका विचार करते हैं:—

गाथा १७

अन्वयार्थः—[भंगविहीनः च भवः] उसके (शुद्धात्मस्वभावको प्राप्त आत्माके) विनाश रहित उत्पाद है, और [संभवपरिवर्जितः विनाशः हि] उत्पाद रहित विनाश है [तस्य एव पुनः] उसके ही फिर [स्थितिसंभवनाशसमवायः विद्यते] ध्रौव्य, उत्पाद और विनाशका समवाय (एकत्रित समूह) विद्यमान है ।

अस्य स्रज्वात्मनः शुद्धोपयोगप्रसादात् शुद्धात्मस्वभावेन यो भवः स पुनस्तेन रूपेण प्रलयाभावाद्भङ्गविहीनः । यस्त्वशुद्धात्मस्वभावेन विनाशः स पुनरुत्पादाभावात्संभवपरिवर्जितः । अतोऽस्य सिद्धत्वेनानपायित्वम् । एवमपि स्थितिसंभवाशसमवायोऽस्य न विप्रतिषिध्यते, भङ्गरहितोत्पादेन संभववर्जितविनाशेन तद्द्रव्याधारभूतद्रव्येण च समवेतत्वात् ॥ १७ ॥

अथोत्पादादित्रयं सर्वद्रव्यसाधारणत्वेन शुद्धात्मनोऽप्यवश्यंभावीति विभावयति—

टीका:—वास्तवमें इस (शुद्धात्मस्वभावको प्राप्त) आत्माके शुद्धोपयोगके प्रसादसे हुआ जो शुद्धात्मस्वभावसे (शुद्धात्मस्वभावरूपसे) उत्पाद है, वह पुनः उसरूपसे प्रलयका अभाव होनेसे विनाश रहित है; और (उस आत्माके शुद्धोपयोगके प्रसादसे हुआ) जो अशुद्धात्मस्वभावसे विनाश है वह पुनः उत्पत्तिका अभाव होनेसे, उत्पाद रहित है । इससे (यह कहा है कि) उस आत्माके सिद्धरूपसे अविनाशीपन है । ऐसा होनेपर भी उस आत्माके उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यका समवाय विरोधको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह विनाश रहित उत्पादके साथ, उत्पाद रहित विनाशके साथ और उन दोनोंके आधारभूत द्रव्यके साथ समवेत (तन्मयतासे युक्त— एकमेक) है ।

भावार्थ:—स्वयंभू सर्वज्ञ भगवानके जो शुद्धात्म स्वभाव उत्पन्न हुआ वह कभी नष्ट नहीं होता, इसलिये उनके विनाशरहित उत्पाद है; और अनादि अविद्या जनित विभाव परिणाम एक बार सर्वथा नाशको प्राप्त होनेके बाद फिर कभी उत्पन्न नहीं होते, इसलिये उनके उत्पाद रहित विनाश है । इसप्रकार यहाँ यह कहा है कि वे सिद्धरूपसे अविनाशी हैं । इसप्रकार अविनाशी होनेपर भी वे उत्पाद, व्यय ध्रौव्ययुक्त हैं; क्योंकि शुद्ध पर्यायकी अपेक्षासे उनके उत्पाद है, अशुद्ध पर्यायकी अपेक्षासे व्यय है और उन दोनोंके आधारभूत आत्मत्वकी अपेक्षासे ध्रौव्य है ॥१७॥

अब, उत्पाद आदि तीनों (उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य) सर्व द्रव्योंके साधारण है इसलिये शुद्धआत्मा (केवली भगवान और सिद्ध भगवान)के भी 'अवश्यम्भावी है, यह व्यक्त करते हैं:—

उत्पादो य विनासो विज्जदि सब्वस्स अट्टजादस्स ।
पज्जाएण दु केणवि अट्टो खलु होदि सब्भूदो ॥ १८ ॥

उत्पादश्च विनाशो विद्यते सर्वस्यार्थजातस्य ।

पर्यायेण तु केनाप्यर्थः खलु भवति सद्भूतः ॥ १८ ॥

यथाहि जात्यजाम्बूनदस्याङ्गदपर्यायेणोत्पत्तिर्दृष्टा । पूर्वव्यवस्थितांगुलीयकादिपर्यायेण च विनाशः । पीततादिपर्यायेण तुभयत्राप्युत्पत्तिविनाशावनासादयतः ध्रुवत्वम् । एवमखि-

गाथा १८

अन्वयार्थः—[उत्पादः] किसी पर्यायसे उत्पाद [विनाशः च] और किसी पर्यायसे विनाश [सर्वस्य] सर्व [अर्थजातस्य] पदार्थमात्रके [विद्यते] होता है; [क्व अपि पर्यायेण तु] और किसी पर्यायसे [अर्थः] पदार्थ [सद्भूतः खलु भवति] वास्तवमें ध्रुव है ।

टीकाः—जैसे उत्तम स्वर्णकी बाजूबन्दरूप पर्यायसे उत्पत्ति दिखाई देती है, पूर्व अवस्थारूपसे वर्तनेवाली अँगूठी इत्यादिक पर्यायसे विनाश देखा जाता है, और पीलापन इत्यादि पर्यायसे दोनोंमें (बाजूबन्द और अँगूठीमें) उत्पत्ति-विनाशको प्राप्त न होनेसे ध्रौव्यत्व दिखाई देता है । इसप्रकार सर्व द्रव्योंके किसी पर्यायसे उत्पाद, किसी पर्यायसे विनाश और किसी पर्यायसे ध्रौव्य होता है, ऐसा जानना चाहिये । इससे (यह कहा गया है कि) शुद्ध आत्माके भी द्रव्यका लक्षणभूत उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यरूप अस्तित्व अवश्यम्भावी है ।

भावार्थः—द्रव्यका लक्षण अस्तित्व है, और अस्तित्व उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यरूप है । इसलिये किसी पर्यायसे उत्पाद, किसी पर्यायसे विनाश और किसी पर्यायसे ध्रौव्यत्व प्रत्येक पदार्थके होता है ।

प्रश्नः—द्रव्यका अस्तित्व उत्पादादिक तीनोंसे क्यों कहा है ? एकमात्र ध्रौव्यसे ही कहना चाहिये, क्योंकि जो ध्रुव रहता है वह सदा बना रह सकता है ?

उत्तरः—यदि पदार्थ ध्रुव ही हो तो मिट्टी सोना दूध इत्यादि समस्त पदार्थ एक ही सामान्य आकारसे रहना चाहिये; और बड़ा, कुंडल, दही इत्यादि भेद कभी न होना चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं होता, अर्थात् भेद तो अवश्य दिखाई देते हैं ।

लद्रव्याणां केनचित्पर्यायेणोत्पादः केनचिद्विनाशः केनचिद्ध्रौव्यमित्यवबोद्धव्यम् । अतः शुद्धा-
त्मनोऽप्युत्पादादित्रयरूपं द्रव्यलक्षणभूतमस्तिस्वमवश्यंभावि ॥ १८ ॥

अथास्यात्मनः शुद्धोपयोगालुभावात्स्वयंभ्रुवो भूतस्य कथमिन्द्रिवैविना ज्ञानानन्दाविति
संदेहमुदस्यति—

पक्खीणघादिकम्मो अणंतवरवीरिओ अधिकतेजो ।

जादो अदिदिओ सो णाणं सोक्खं च परिणमदि ॥ १९ ॥

प्रक्षीणघातिकर्मा अनन्तवरवीर्योऽधिकतेजाः ।

जातोऽतीन्द्रियः स ज्ञानं सौख्यं च परिणमति ॥ १९ ॥

इसलिये पदार्थ सर्वथा ध्रुव न रहकर किसी पर्यायसे उत्पन्न और किसी पर्यायसे नष्ट
भी होते हैं । यदि ऐसा न माना जाये तो संसारका ही लोप हो जाये ।

इसप्रकार प्रत्येक द्रव्य उत्पाद, व्यय ध्रौव्यमय है, इसलिये मुक्त आत्माके भी
उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य अवश्य होते हैं । यदि स्थूलतासे देखा जाये तो सिद्ध पर्यायिका
उत्पाद और संसार पर्यायिका व्यय हुआ, तथा आत्मत्व ध्रुव बना रहा । इस अपेक्षासे
मुक्त आत्माके भी उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य होता है । अथवा मुक्त आत्माका ज्ञान ज्ञेय
पदार्थोंके आकाररूप हुआ करता है, इसलिये समस्त ज्ञेय पदार्थोंमें जिस जिस प्रकारसे
उत्पादादिक होता है उस उस प्रकारसे ज्ञानमें उत्पादादिक होता रहता है, इसलिये
मुक्त आत्माके समय समय पर उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य होता है । अथवा, अधिक
सूक्ष्मतासे देखा जाये तो अगुरुलघुगुणमें होनेवाली पटगुनी हानि वृद्धिके कारण मुक्त
आत्माके समय समयपर उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य वर्तता है । यहाँ जैसे सिद्धभगवानके
उत्पादादि कहे हैं उसीप्रकार केवली भगवानके भी यथायोग्य समझ लेना
चाहिये ॥ १८ ॥

अब, शुद्धोपयोगके प्रभावसे स्वयंभू हो चुके इस (पूर्वोक्त) आत्माके इन्द्रियोंके
बिना ज्ञान और आनन्द कैसे होता है ? इस संदेहका निवारण करते हैं:—

गाथा १९

अन्वयार्थः—[प्रक्षीणघातिकर्मा] जिसके घातिकर्म क्षय हो चुके हैं; [अती-
न्द्रियः जातः] जो अतीन्द्रिय होगया है, [अनन्तवरवीर्यः] अनन्त जिसका उत्तम

अयं खन्वात्मा शुद्धोपयोगसामर्थ्यात् प्रक्षीणघातिकर्मा, क्षायोपशमिकज्ञानदर्शना-
संपृक्तत्वादतीन्द्रियो भूतः सन्निखिलान्तरायक्षयादनन्तवरवीर्यः, कृत्स्नज्ञानदर्शनावरणप्रलयाद-
धिककेवलज्ञानदर्शनाभिधानतेजाः, समस्तमोहनीयाभावादत्यन्तनिर्विकारशुद्धचैतन्यस्वभावमात्मान-
मासादयन् स्वयमेव स्वपरप्रकाशकत्वलक्षणं ज्ञानमनाकुलत्वलक्षणं सौख्यं च भूत्वा परिणमते ।
एवमात्मनो ज्ञानानन्दौ स्वभाव एव । स्वभावस्य तु परानपेक्षत्वादिन्द्रियैर्विनाप्यात्मनो ज्ञाना-
नन्दौ संभवतः ॥ १९ ॥

अथातीन्द्रियत्वादेव शुद्धात्मनः शारीरं सुखदुःखं नास्तीति विभावयति—

वीर्यं है, और [अधिकतेजाः] 'अधिक जिसका (केवलज्ञान और केवलदर्शनरूप)
तेज है [सः] वह (स्वयंभू आत्मा) [ज्ञानं सौख्यं च] ज्ञान और सुखरूप
[परिणमति] परिणमन करता है ।

टीकाः—शुद्धोपयोगके सामर्थ्यसे जिसके घातिकर्म क्षयको प्राप्त हुए हैं,
क्षायोपशमिक ज्ञान-दर्शनके साथ असंपृक्त (संपर्क रहित) होनेसे जो अतीन्द्रिय
होगया है, समस्त अन्तरायका क्षय होनेसे अनन्त जिसका उत्तम वीर्य है, समस्त
ज्ञानावरण और दर्शनावरणका प्रलय हो जानेसे अधिक जिसका केवलज्ञान और
केवलदर्शन नामक तेज है, ऐसा यह (स्वयंभू) आत्मा समस्त मोहनीयके अभावके
कारण अत्यन्त निर्विकार शुद्ध चैतन्य स्वभाववाले आत्माका (अत्यन्त निर्विकार शुद्ध
चैतन्य जिसका स्वभाव है ऐसे—आत्माको) अनुभव करता हुआ स्वयमेव स्वपर
प्रकाशकता लक्षणज्ञान और अनाकुलता लक्षण सुख होकर परिणमित होता है ।
इसप्रकार आत्माका ज्ञान और आनन्द स्वभाव ही है । और स्वभाव परसे अनपेक्ष
है इसलिये इन्द्रियोंके बिना भी आत्माके ज्ञान आनन्द होता है ।

भावार्थः—आत्माको ज्ञान और सुखरूप परिणमित होनेमें इन्द्रियादिक पर
निमित्तोंकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि जिसका लक्षण अर्थात् स्वरूप स्वपर
प्रकाशकता है ऐसा ज्ञान और जिसका लक्षण अनाकुलता है ऐसा सुख आत्माका
स्वभाव ही है ॥ १९ ॥

अब अतीन्द्रियताके कारण ही शुद्ध आत्माके (केवली भगवानके) शारीरिक
सुख दुःख नहीं है यह व्यक्त करते हैंः—

१. अधिक = उत्कृष्ट; असाधारण; अत्यन्त । २. अनपेक्ष = स्वतंत्र; उदासीन; अपेक्षा रहित ।

सौख्यं वा पुण दुःखं केवलाणामिह गतिं देहगतं ।
जम्हा अदिन्दियत्तं जादं तम्हा दु तं ऐयं ॥ २० ॥

सौख्यं वा पुनर्दुःखं केवलज्ञानिनो नास्ति देहगतम् ।
यस्मादतीन्द्रियत्वं जातं तस्मात् तु तज्ज्ञेयम् ॥ २० ॥

यत एव शुद्धात्मनो जातवेदस इव कालायसगोलोत्कूलितपुद्गलाशेषविलासकम्पो नास्तीन्द्रियग्रामस्तत एव घोरघनघाताभिघातपरम्परास्थानीयं शरीरगतं सुखदुःखं न स्यात् ॥ २० ॥

अथ ज्ञानस्वरूपप्रपञ्चं सौख्यस्वरूपप्रपञ्चं च क्रमप्रवृत्तप्रबन्धद्वयेनाभिदधाति । तत्र केवलिनोऽतीन्द्रियज्ञानपरिणतत्वात्सर्वं प्रत्यक्षं भवतीति विभावयति—

गाथा २०

अन्वयार्थः—[केवलज्ञानिनः] केवलज्ञानीके [देहगतं] शरीरसम्बन्धी [सौख्यं] सुख [वा पुनः दुःखं] या दुःख [नास्ति] नहीं है, [यस्मात्] क्योंकि [अतीन्द्रियत्वंजातं] अतीन्द्रियता उत्पन्न हुई है [तस्मात् तु तद ज्ञेयम्] इसलिये ऐसा जानना चाहिये ।

टीकाः—जैसे अग्निको लोहेके तप्त पुद्गलोंका समस्त विलास नहीं है (अर्थात् अग्नि लोहेके गोलेके पुद्गलोंके विलाससे—उनकी क्रियासे भिन्न है) उसीप्रकार शुद्ध आत्माके (अर्थात् केवलज्ञानी भगवानके) इन्द्रिय-समूह नहीं है; इसीलिये जैसे अग्निको घनके घोर आघातोंकी परम्परा नहीं है (लोहेके गोलेके संसर्गका अभाव होने पर घनके लगातार आघातोंकी भयंकर मार अग्निपर नहीं पड़ती) इसीप्रकार शुद्ध आत्माके शरीर सम्बन्धी सुख दुःख नहीं हैं ।

भावार्थः—केवली भगवानके शरीर सम्बन्धी क्षुधादिजन्य दुःख या भोजनादिकी प्राप्तिका सुख नहीं होता इसलिये उनके कवलाहार नहीं होता ॥ २० ॥

अब, ज्ञानके स्वरूपका विस्तार और सुखके स्वरूपका विस्तार क्रमशः प्रवर्तमान दो अधिकारोंके द्वारा कहते हैं । इनमेंसे (पहले) अतीन्द्रिय ज्ञानरूप परिणमित होनेसे केवली भगवानके सब प्रत्यक्ष है यह प्रगट करते हैंः—

परिणमदो खलु एाणं पञ्चक्खा सव्वदव्वपज्जाया ।
सो एव ते विजाणदि उग्गहपुव्वाहिं किरियाहिं ॥ २१ ॥

परिणममानस्य खलु ज्ञानं प्रत्यक्षाः सर्वद्रव्यपर्यायाः ।

स नैव तान् विजानात्यवग्रहपूर्वाभिः क्रियाभिः ॥ २१ ॥

यतो न खन्विन्द्रियाण्यालम्ब्यावग्रहेहावायपूर्वकप्रक्रमेण केवली विजानाति, स्वयमेव समस्तावरणभयभण एवानाद्यनन्ताहेतुकासाधारणभूतज्ञानस्वभावमेव कारणत्वेनोपादाय तदुपरि प्रविकसत्केवलज्ञानोपयोगीभूय विपरिणमते, ततोऽस्याक्रमसमाक्रान्तसमस्तद्रव्यक्षेत्रकालभावतया समक्षसंवेदनालम्बनभूताः सर्वद्रव्यपर्यायाः प्रत्यक्षा एव भवन्ति ॥ २१ ॥

गाथा २१

अन्वयार्थः—[खलु] वास्तवमें [ज्ञानं परिणममानस्य] ज्ञानरूपसे (केवल-ज्ञानरूपसे) परिणमित होते हुए केवली भगवानके [सर्वद्रव्यपर्यायाः] सर्व द्रव्य-पर्यायों [प्रत्यक्षाः] प्रत्यक्ष हैं [सः] वे [तान्] उन्हें [अवग्रहपूर्वाभिः क्रियाभिः] अवग्रहादि क्रियाओंसे [नैव विजानाति] नहीं जानते ।

टीकाः—केवली भगवान इन्द्रियोंके आलम्बनसे अवग्रह-ईहा-अवाय पूर्वक क्रमसे नहीं जानते, (किन्तु) स्वयमेव समस्त आवरणके क्षयके क्षण ही, अनादि अनन्त, अहेतुक और असाधारण ज्ञानस्वभावको ही कारणरूपसे ग्रहण करनेसे तत्काल ही प्रगट होनेवाले केवलज्ञानोपयोगरूप होकर परिणमित होते हैं; इसलिये उनके समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावका अक्रमिक ग्रहण होनेसे समक्ष संवेदनकी (प्रत्यक्ष ज्ञानकी) आलम्बनभूत समस्त द्रव्य-पर्यायों प्रत्यक्ष ही हैं ।

भावार्थः—जिसका न आदि है और न अंत है, तथा जिसका कोई कारण नहीं और जो अन्य किसी द्रव्यमें नहीं है, ऐसे ज्ञान स्वभावको ही उपादेय करके, केवलज्ञानकी उत्पत्तिके बीजभूत शुक्लध्यान नामक स्वसंवेदन ज्ञानरूपसे जब आत्मा परिणमित होता है तब उसके निमित्तसे सर्व घातिकर्मोंका क्षय हो जाता है, और उस क्षय होनेके समय ही आत्मा स्वयमेव केवलज्ञानरूप परिणमित होने लगता है । वे केवलज्ञानी भगवान क्षायोपशमिक ज्ञानवाले जीवोंकी भाँति अवग्रह-ईहा-अवाय और धारणारूप क्रमसे नहीं जानते, किन्तु सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको युगपत् जानते हैं । इसप्रकार उनके सब कुछ प्रत्यक्ष होता है ॥ २१ ॥

अथास्य भगवतोऽतीन्द्रियज्ञानपरिणतत्वादेव न किञ्चित्परोक्षं भवतीत्यभिप्रेति—

णत्थि परोक्खं किञ्चि वि समंत सव्वक्खगुणसमिद्धस्स ।

अक्खातीदस्स सदा स्वयमेव हि णाणजादस्स ॥ २२ ॥

नास्ति परोक्षं किञ्चिदपि समन्ततः सर्वाङ्गगुणसमृद्धस्य ।

अक्षातीतस्य सदा स्वयमेव हि ज्ञानजातस्य ॥ २२ ॥

अस्य खलु भगवतः समस्तावरणक्षयक्षण एव सांसारिकपरिच्छिन्निष्पत्तिबलाधान-
हेतुभूतानि प्रतिनियतविषयग्राहीण्यक्षाणि तैरतीतस्य, स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दपरिच्छेदरूपैः समरसतया

अब, अतीन्द्रिय ज्ञानरूप परिणमित होनेसे ही भगवानके कुछ भी परोक्ष नहीं है, ऐसा अभिप्राय प्रगट करते हैं:—

गाथा २२

अन्वयार्थः—[सदा अक्षातीतस्य] जो सदा इन्द्रियातीत हैं, [समन्ततः सर्वाङ्गगुण-
समृद्धस्य] जो सर्व ओरसे (सर्व आत्मप्रदेशोंसे) सर्व इन्द्रिय गुणोंसे समृद्ध हैं,
[स्वयमेव हि ज्ञानजातस्य] और जो स्वयमेव ज्ञानरूप हुए हैं उन (केवली भगवान) को
[किञ्चित् अपि] कुछ भी [परोक्षं नास्ति] परोक्ष नहीं है ।

टीका:—समस्त आवरणके क्षयके क्षण ही जो (भगवान) सांसारिक ज्ञानको उत्पन्न करनेके बलको कार्यरूप देनेमें हेतुभूत अपने अपने निश्चित विषयोंको ग्रहण करनेवाली इन्द्रियोंसे अतीत हुए हैं, जो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्दके ज्ञानरूप सर्व-इन्द्रिय गुणोंके द्वारा सर्व ओरसे समरसरूपसे समृद्ध हैं (अर्थात् जो भगवान स्पर्श, रस, गंध, वर्ण तथा शब्दको सर्व आत्मप्रदेशोंसे समानरूपसे जानते हैं) और जो स्वयमेव समस्तरूपसे स्वपरके प्रकाश करनेमें समर्थ अविनाशी लोकोत्तर ज्ञानरूप हुए हैं, ऐसे इन (केवली) भगवानको समस्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावका अक्रमिक ग्रहण होनेसे कुछ भी परोक्ष नहीं है ।

भावार्थः—इन्द्रियोंका गुण, स्पर्शादिक एक एक गुणको ही जानना है, जैसे चक्षु इन्द्रियका गुण रूपको ही जानना है, अर्थात् रूपको ही जाननेमें निमित्त होना है । और इन्द्रिय ज्ञान क्रमिक है । केवली भगवान इन्द्रियोंके निमित्तके बिना समस्त

समन्ततः सर्वैरेवेन्द्रियगुणैः समृद्धस्य, स्वयमेव सामस्त्येन स्वपरप्रकाशनसममनश्चरं लोकोत्तरज्ञान-
ज्ञातस्य, अक्रमसमाक्रान्तसञ्चरतद्रव्यक्षेत्रकालभावतया न किञ्चनापि परोक्षमेव स्यात् ॥ २२ ॥

अथात्मनो ज्ञानप्रमाणत्वं ज्ञानस्य सर्वगतत्वं चोद्योतयति—

आदा णाणपमाणं णाणं णेयप्पमाणमुद्दिट्ठं ।
णेयं लोयालोयं तम्हा णाणं तु सब्वगयं ॥ २३ ॥

आत्मा ज्ञानप्रमाणं ज्ञानं ज्ञेयप्रमाणमुद्दिष्टम् ।
ज्ञेयं लोकालोकं तस्माज्ज्ञानं तु सर्वगतम् ॥ २३ ॥

आत्मा हि 'समगुणपर्यायं द्रव्यम्' इति वचनात् ज्ञानेन सह हीनाधिकत्वरहितत्वेन
परिणतत्वात्तत्परिमाणः, ज्ञानं तु ज्ञेयनिष्ठत्वादाह्यनिष्ठदहनवत्तत्परिमाणं; ज्ञेयं तु लोकालोक-

आत्म प्रदेशोंसे स्पर्शादि सर्व विषयोंको जानते हैं, और जो समस्तरूपसे स्व-पर प्रकाशक
है ऐसे लोकोत्तर ज्ञानरूप (लौकिक ज्ञानसे भिन्न केवलज्ञानरूप) स्वयमेव परिणमित
हुआ करते हैं; इसलिये समस्त द्रव्य क्षेत्र काल और भावको अवग्रहादि क्रम रहित
जानते हैं इसलिये केवली भगवानके कुछ भी परोक्ष नहीं है ॥ २२ ॥

अब, आत्माका ज्ञानप्रमाणपना और ज्ञानका सर्वगतपना उद्योत करते हैं:—

भाष्या २३

अन्वयार्थः—[आत्मा] आत्मा [ज्ञानप्रमाणं] ज्ञान प्रमाण है [ज्ञानं] ज्ञान
[ज्ञेयप्रमाणं] ज्ञेय प्रमाण [उद्दिष्टं] कहा गया है [ज्ञेयं लोकालोकं] ज्ञेय लोकालोक
है [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं तु] ज्ञान [सर्वगतं] सर्वगत—सर्व व्यापक है ।

टीकाः—'समगुणपर्यायं द्रव्यं' (गुण-पर्यायं अर्थात् युगपद् सर्वगुण और पर्यायं
ही द्रव्य है) इस वचनके अनुसार आत्मा ज्ञानसे हीनाधिकता रहित रूपसे परिणमित
होता है इसलिये ज्ञानप्रमाण है, और ज्ञान 'ज्ञेयनिष्ठ होनेसे, दाह्यनिष्ठ-^१दहनकी

१. ज्ञेयनिष्ठ = ज्ञेयोंका अवलम्बन करनेवाला; ज्ञेयोंमें तत्पर । २. दहन = जलाना; अग्नि ।

विभागविभक्तानन्तपर्यायमालिकालीढस्वरूपसूचिता बिच्छेदोपदर्शितध्रौव्या षड्द्रव्यी सर्वमिति यावत् । ततो निःशेषावरणक्षयक्षण एव लोकालोकविभागविभक्तसमस्तवस्त्वाकारपारमुपगम्य तथैवाप्रच्युतत्वेन व्यवस्थितत्वात् ज्ञानं सर्वगतम् ॥ २३ ॥

अथात्मनो ज्ञानप्रमाणत्वानभ्युपगमे द्वौ पक्षावुपन्यस्य दूषयति—

णाणप्पमाणमादा ण हवदि जस्मेह तस्स मां आदा ।
 हीणो वा अहिओ वा णाणादो हवदि धुवमेव ॥ २४ ॥
 हीणो जदि मां आदा तरणाणमचेदणं ण जाणादि ।
 अहिओ वा णाणादो णाणेण विणा कहं णादि ॥२५॥ जुगलं ।

भाँति ज्ञेय प्रमाण है । ज्ञेय तो लोक और अलोकके विभागसे 'विभक्त', 'अनन्त पर्यायमालासे आलिगित स्वरूपसे सूचित (प्रगट, ज्ञान), नाशवान दिखाई देता हुआ भी ध्रुव ऐसा षट्द्रव्य समूह, अर्थात् सब कुछ है । (ज्ञेय छहों द्रव्योंका समूह अर्थात् सब कुछ है) इसलिये निःशेष आवरणके क्षयके समय ही लोक और अलोकके विभागसे विभक्त समस्त वस्तुओंके आकारोंके पारको प्राप्त करके इसीप्रकार अच्युतरूपसे रहता है, इसलिये ज्ञान सर्वगत है ।

भावार्थः— गुण-पर्यायोंसे द्रव्य अनन्य है, इसलिये आत्मा ज्ञानसे हीनाधिक न होनेसे ज्ञान जितना ही है; और जैसे दाह्य (जलने योग्य पदार्थ)का अवलम्बन करनेवाला दहन दाह्यके बराबर ही है, उसीप्रकार ज्ञेयका अवलम्बन करनेवाला ज्ञान ज्ञेयके बराबर ही है । ज्ञेय तो समस्त लोकालोक अर्थात् सब ही है । इसलिये सर्व आवरणका क्षय होते ही (ज्ञान) सबको जानता है और फिर कभी भी सबके जाननेसे च्युत नहीं होता इसलिये ज्ञान सर्वव्यापक है ॥ २३ ॥

अब, आत्माको ज्ञान प्रमाण न माननेमें दो पक्ष उपस्थित करके दोष बतलाते हैं:—

१. विभक्त = विभागवाला । (षट्द्रव्योंके समूहमें लोक-अलोकरूप दो विभाग हैं) । २. अनन्त पर्यायें द्रव्यको आलिगित करती हैं (द्रव्यमें होती हैं) ऐसे स्वरूपवाला प्रत्येक द्रव्य ज्ञात होता है ।

ज्ञानप्रमाणमात्मा न भवति यस्येह तस्य स आत्मा ।
 हीनो वा अधिको वा ज्ञानाद्भवति ध्रुवमेव ॥ २४ ॥
 हीनो यदि स आत्मा तत् ज्ञानमचेतनं न जानाति ।
 अधिको वा ज्ञानात् ज्ञानेन विना कथं जानाति ॥ २५ ॥ युगलम् ।

यदि खन्वयमात्मा हीनो ज्ञानादित्यभ्युपगम्यते, तदात्मनोऽतिरिच्यमानं ज्ञानं स्वाश्रय-
 भूतचेतनद्रव्यसमवायाभावादचेतनं भवद्रूपादिगुणकल्पतामापन्नं न जानाति । यदि पुनर्ज्ञानादधिक

शाखा २४-२५

अन्वयार्थः—[इह] इस जगतमें [यस्य] जिसके मतमें [आत्मा] आत्मा [ज्ञानप्रमाणं] ज्ञान प्रमाण [न भवति] नहीं है [तस्य] उसके मतमें [सः आत्मा] वह आत्मा [ध्रुवम् एव] अवश्य [ज्ञानात् हीनः वा] ज्ञानसे हीन [अधिकः वा भवति] अथवा अधिक होना चाहिये ।

[यदि] यदि [सः आत्मा] वह आत्मा [हीनः] ज्ञानसे हीन हो [तत्] तो वह [ज्ञानं] ज्ञान [अचेतनं] अचेतन होनेसे [न जानाति] नहीं जानेगा, [ज्ञानात् अधिकः वा] और यदि (आत्मा) ज्ञानसे अधिक हो तो (वह आत्मा) [ज्ञानेन विना] ज्ञानके बिना [कथं जानाति] कैसे जानेगा ?

टीकाः—यदि यह स्वीकार किया जाये कि यह आत्मा ज्ञानसे हीन है, तो आत्मासे आगे बढ़ जानेवाला ज्ञान (आत्माके क्षेत्रसे आगे बढ़कर उससे बाहर व्याप्त होनेवाला ज्ञान) अपने आश्रयभूत चेतन द्रव्यका समवाय (सम्बन्ध) न रहनेसे अचेतन होता हुआ रूपादि गुण जैसा होनेसे नहीं जानेगा; और यदि ऐसा पक्ष स्वीकार किया जाये कि यह आत्मा ज्ञानसे अधिक है तो अवश्य ही (आत्मा) ज्ञानसे आगे बढ़ जानेसे (ज्ञानके क्षेत्रसे बाहर व्याप्त होनेसे) ज्ञानसे पृथक् होता हुआ घटपटादि जैसा होनेसे ज्ञानके बिना नहीं जानेगा । इसलिये यह आत्मा ज्ञान प्रमाण ही मानना योग्य है ।

भावार्थः—आत्माका क्षेत्र ज्ञानके क्षेत्रसे कम माना जाये तो आत्माके क्षेत्रसे बाहर वर्तनेवाला ज्ञान चेतन द्रव्यके साथ सम्बन्ध न होनेसे अचेतन गुण जैसा ही

इति पक्षः कक्षीक्रियते तदावश्यं ज्ञानादतिरिक्तत्वात् पृथग्भूतो भवन् घटपटादिस्थानीयतामापन्नो ज्ञानमन्तरेण न जानाति । ततो ज्ञानप्रमाण एवायमात्माभ्युपगन्तव्यः ॥ २४ । २५ ॥

अथात्मनोऽपि ज्ञानवत् सर्वगतत्वं न्यायायातमभिनन्दति—

सर्वगतो जिणवसहो मव्वे वि य तग्गया जगदि अट्ठा ।

णाणमयादो य जिणो विमयादो तस्स ते भणिया ॥ २६ ॥

सर्वगतो जिनवृषभः सर्वेऽपि च तद्गता जगत्यर्थाः ।

ज्ञानमयत्वाच्च जिनो विषयत्वात्तस्य ते भणिताः ॥ २६ ॥

ज्ञानं हि त्रिसमयावच्छिन्नसर्वद्रव्यपर्यायरूपव्यवस्थितविश्वज्ञेयाकारानाक्रामत् सर्वगत-
मुक्तं तथाभूतज्ञानमयीभूय व्यवस्थितत्वाद्भगवानपि सर्वगत एव । एवं सर्वगतज्ञानविषयत्वात्सर्वेऽर्था

होगा, इसलिये वह जाननेका काम नहीं कर सकेगा; जैसे कि वर्ण, गंध, रस इत्यादि अचेतनगुण जाननेका काम नहीं कर सकते । यदि आत्माका क्षेत्र ज्ञानके क्षेत्रसे अधिक माना जाये तो ज्ञानके क्षेत्रसे बाहर वर्तनेवाला ज्ञानशून्यआत्मा ज्ञानके बिना जाननेका काम नहीं कर सकेगा; जैसे कि ज्ञानशून्य घट, पट इत्यादि पदार्थ जाननेका काम नहीं कर सकते । इसलिये आत्मा न तो ज्ञानसे हीन है और न अधिक है, किन्तु ज्ञान जितना ही है । २४-२५ ।

अब, ज्ञानकी भाँति आत्माका भी सर्वगतत्व न्यायसिद्ध है, यह बतलाते हैं:—

गाथा २६

अन्वयार्थः—[जिनवृषभः] जिनवर [सर्वगतः] सर्वगत है [च] और [जगति] जगतके [सर्वे अपि अर्थाः] सर्व पदार्थ [तद्गताः] जिनवरगत (जिनवरमें प्राप्त) हैं; [जिनः ज्ञानमयत्वात्] क्योंकि जिन ज्ञानमय हैं [च] और [ते] वे सब पदार्थ [विषयत्वात्] ज्ञानके विषय हैं इसलिये [तस्य] जिनके विषय [भणिताः] कहे गये हैं ।

टीका:—ज्ञान त्रिकालके सर्वद्रव्य—पर्यायरूप प्रवर्तमान समस्त ज्ञेयाकारोंको पहुँच जानेसे (जानता होनेसे) सर्वगत कहा गया है; और ऐसे (सर्वगत) ज्ञानमय होकर रहनेसे भगवान भी सर्वगत ही हैं । इसप्रकार सर्व पदार्थ भी सर्वगत

अपि सर्वगतज्ञानाव्यतिरिक्तस्य भगवतस्तस्य ते विषया इति भणितत्वात्प्रकृता एव भवन्ति । तत्र निश्चयनयेनानाकुलत्वलक्षणसौख्यसंवेदनत्वाधिष्ठानत्वावच्छिन्नात्मप्रमाणज्ञानस्वतस्वापरित्यागेन विश्वज्ञेयाकाराननुपगम्यावबुध्यमानोऽपि व्यवहारनयेन भगवान् सर्वगत इति व्यपदिश्यते । तथा नैमित्तिकभूतज्ञेयाकारानात्मस्थानवलोक्य सर्वेऽर्थास्तद्रता इत्युपचर्यन्ते, न च तेषां परमार्थतोऽन्योन्यगमनमस्ति, सर्वद्रव्याणां स्वरूपनिष्ठत्वात् । अयं क्रमो ज्ञानेऽपि निश्चयेः ॥ २६ ॥

ज्ञानके विषय होनेसे सर्वगतज्ञानसे भिन्न उन भगवानके वे विषय हैं, ऐसा (शास्त्रमें) कहा है; इसलिये सर्व पदार्थ भगवानगत ही, (अर्थात् भगवानमें प्राप्त) हैं ।

वहाँ (ऐसा समझना कि) निश्चयनयसे अनाकुलता लक्षण सुखका जो संवेदन उस सुखसंवेदनके 'अधिष्ठानता जितना ही आत्मा है, और उस आत्माके बराबर ही ज्ञान स्वतत्त्व है; उस निज-स्वरूप आत्मप्रमाण ज्ञानको छोड़े बिना समस्त ज्ञेयाकारोंके निकट गये बिना, भगवान (सर्व पदार्थोंको) जानते हैं । निश्चयनयसे ऐसा होनेपर भी व्यवहारनयसे यह कहा जाता है कि भगवान सर्वगत हैं । और नैमित्तिकभूत ज्ञेयाकारोंको आत्मस्थ (आत्मामें रहे हुए) देखकर उपचारसे ऐसा कहा जाता है कि सर्व पदार्थ आत्मगत हैं; परन्तु परमार्थतः उनका एक दूसरेमें गमन नहीं होता, क्योंकि सर्व द्रव्य स्वरूपनिष्ठ (अर्थात् अपने अपने स्वरूपमें निश्चल अवस्थित) हैं ।

यही क्रम ज्ञानमें भी निश्चित करना चाहिये (अर्थात् आत्मा और ज्ञेयोंके सम्बन्धमें निश्चयव्यवहारसे कहा गया है, उसीप्रकार ज्ञान और ज्ञेयोंके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये) ॥ २६ ॥

१. अधिष्ठान = आधार, रहनेका स्थान । (आत्मा सुखसंवेदनका आधार है । जितनेमें सुखका वेदन होता है, उतना ही आत्मा है ।) २. ज्ञेयाकार = पर पदार्थोंके द्रव्य-गुण-पर्याय, जो कि ज्ञेय हैं । (यह ज्ञेयाकार परमार्थतः आत्मासे सर्वथा भिन्न है ।) ३. नैमित्तिकभूत ज्ञेयाकार = ज्ञानमें होनेवाले (ज्ञानकी अवस्थारूप) ज्ञेयाकार । (इन ज्ञेयाकारोंको ज्ञानाकार भी कहा जाता है, क्योंकि ज्ञान इन ज्ञेयाकाररूप परिणामित होते हैं । यह ज्ञेयाकार नैमित्तिक हैं और पर पदार्थोंके द्रव्य गुण पर्याय उनके निमित्त हैं । इन ज्ञेयाकारोंको आत्मामें देखकर 'समस्त परपदार्थ आत्मामें हैं' इसप्रकार उपचार किया जाता है । यह बात ३१ वीं गाथामें दर्पणका दृष्टान्त देकर समझाई गई है ।)

अथात्मज्ञानयोरेकत्वान्यत्वं चिन्तयति—

णाणं अप्प त्ति मदं वट्टदि णाणं विणा ण अप्पाणं ।
तम्हा णाणं अप्पा अप्पा णाणं व अण्णं वा ॥ २७ ॥

ज्ञानमात्मेति मतं वर्तते ज्ञानं विना नात्मानम् ।

तस्मात् ज्ञानमात्मा आत्मा ज्ञानं वा अन्यद्वा ॥ २७ ॥

यतः शेषसमस्तचेतनाचेतनवस्तुसमवायसंबन्धनिरुक्ततयाऽनाद्यनन्तस्वभावसिद्धसम-
वायसंबन्धमेकमात्मानमाभिमुख्येनावलम्ब्य प्रवृत्तत्वात् तं विना आत्मानं ज्ञानं न धारयति, ततो
ज्ञानमात्मैव स्यात् । आत्मा त्वनन्तधर्माधिष्ठानत्वात् ज्ञानधर्मद्वारेण ज्ञानमन्यधर्मद्वारेणान्यदपि
स्यात् । किं चानेकान्तोऽत्र बलवान् । एकान्तेन ज्ञानमात्मेति ज्ञानस्याभावोऽचेतनत्वमात्मनो

अब, आत्मा और ज्ञानके एकत्व-अन्यत्वका विचार करते हैं:—

गाथा २७

अन्वयार्थः—[ज्ञानं आत्मा] ज्ञान आत्मा है [इति मतं] ऐसा जिनदेवका
मत है । [आत्मानं विना] आत्माके बिना (अन्य किसी द्रव्यमें) [ज्ञानं न वर्तते]
ज्ञान नहीं होता, [तस्मात्] इसलिये [ज्ञानं आत्मा] ज्ञान आत्मा है; [आत्मा]
और आत्मा [ज्ञानं वा] (ज्ञान गुण द्वारा) ज्ञान है [अन्यत् वा] अथवा (सुखादि
अन्य गुण द्वारा) अन्य है ।

टीका:—क्योंकि शेष समस्त चेतन तथा अचेतन वस्तुओंके साथ 'समवाय-
सम्बन्ध नहीं है, इसलिये जिसके साथ अनादि अनन्त स्वभावसिद्ध समवायसम्बन्ध है,
ऐसे एक आत्माका अति निकटतया (अभिन्न प्रदेशरूपसे) अवलम्बन करके प्रवर्तमान
होनेसे ज्ञान आत्माके बिना अपना अस्तित्व नहीं रख सकता; इसलिये ज्ञान आत्मा
ही है । और आत्मा अनन्त धर्मोंका अधिष्ठान (आधार) है, इसलिये ज्ञानधर्मके द्वारा
ज्ञान है और अन्य धर्मके द्वारा अन्य भी है ।

१. समवाय सम्बन्ध = जहाँ गुण होते हैं, वहाँ गुणी होता है, और जहाँ गुणी होता है, वहाँ गुण
होते हैं । जहाँ गुण नहीं होते वहाँ गुणी नहीं होता और जहाँ गुणी नहीं होता वहाँ गुण नहीं होते,—इस
प्रकार गुण-गुणीका अभिन्न प्रदेशरूप सम्बन्ध, तादात्म्य सम्बन्ध है ।

विशेषगुणामावाद्भावो वा स्यात् । सर्वथात्मा ज्ञानमिति निराश्रयत्वात् ज्ञानस्याभाव आत्मनः
शेषपर्यायाभावस्तद्विनाभाविनस्तस्याप्यभावः स्यात् ॥ २७ ॥

अथ ज्ञानज्ञेययोः परस्परगमनं प्रतिहन्ति—

णाणी णाणसद्भावो अट्टा णेयप्पगा हि णाणिस्स ।
रूपाणि व चक्खूणं णेवाण्णोण्णेषु वट्टंति ॥ २८ ॥

ज्ञानी ज्ञानस्वभावोऽर्था ज्ञेयात्मका हि ज्ञानिनः ।
रूपाणीव चक्षुषोः नैवान्योन्येषु वर्तन्ते ॥ २८ ॥

श्रीर फिर, इसके अतिरिक्त (विशेष समझना कि) यहाँ अनेकान्त बलवान है । यदि यह माना जाये कि एकान्तसे ज्ञान आत्मा है तो, (ज्ञानगुण आत्मद्रव्य हो जानेसे) ज्ञानका अभाव हो जायेगा, और (ऐसा होनेसे) आत्माके अचेतनता आजायेगी, अथवा विशेषगुणका अभाव होनेसे आत्माका अभाव हो जायेगा । यदि यह माना जाये कि सर्वथा आत्मा ज्ञान है तो, (आत्म द्रव्य एक ज्ञानगुणरूप हो जायेगा इसलिये, ज्ञानका कोई आधारभूत द्रव्य नहीं रहेगा अतः) निराश्रयताके कारण ज्ञानका अभाव हो जायेगा, अथवा (आत्मद्रव्यके एक ज्ञानगुणरूप हो जानेसे) आत्माकी शेष पर्यायोंका (सुख, वीर्यादि गुणोंका) अभाव हो जायेगा, और उनके साथ ही अविनाभावी सम्बन्धवाले आत्माका भी अभाव हो जायेगा । (क्योंकि सुख, वीर्य इत्यादि गुण न हों तो आत्मा भी नहीं हो सकता) ॥ २७ ॥

अब, ज्ञान और ज्ञेयके परस्पर गमनका निषेध करते हुए (ज्ञान और ज्ञेय एक दूसरेमें प्रवेश नहीं करते) कहते हैं कि:—

गाथा २८

अन्वयार्थः—[ज्ञानी] आत्मा [ज्ञानस्वभावः] ज्ञान स्वभाव है [अर्थाः हि]
और पदार्थ [ज्ञानिनः] आत्माके [ज्ञेयात्मकाः] ज्ञेय स्वरूप हैं [रूपाणि इव चक्षुषोः]
जैसे कि रूप (रूपी पदार्थ) नेत्रोंका ज्ञेय होता है वैसे ही । [अन्योन्येषु] वे एक
दूसरेमें [न एव वर्तन्ते] नहीं वर्तते ।

ज्ञानी चार्थाश्च स्वलक्षणभूतपृथक्त्वतो न मिथो वृत्तिमासादयन्ति किंतु तेषां ज्ञानज्ञेय-
स्वभावसंबन्धसाधितमन्योन्यवृत्तिमात्रमस्ति चक्षुरूपवत् । यथा हि चक्षुषि तद्विषयभूत-
रूपिद्रव्याणि च परस्परप्रवेशमन्तरेणापि ज्ञेयाकारग्रहणसमर्पणप्रवणान्येवमात्माऽर्थाश्चान्योन्यवृत्ति-
मन्तरेणापि विश्वज्ञेयाकारग्रहणसमर्पणप्रवणाः ॥ २८ ॥

अर्थार्थेष्ववृत्तस्यापि ज्ञानिनस्तद्वृत्तिसाधकं शक्तिवैचित्र्यमुद्योतयति—

ण पविट्टो णाविट्टो णाणी णेयेसु रूवमिव चक्खू ।

जाणदि पस्सदि णियदं अक्खातीदो जगमसेसं ॥ २९ ॥

टीका:—आत्मा और पदार्थ स्वलक्षणभूत पृथक्त्वके कारण एक दूसरेमें नहीं
वर्तते परन्तु उनके मात्र नेत्र और रूपी पदार्थकी भाँति ज्ञानज्ञेयस्वभाव-सम्बन्धसे
होनेवाली एक दूसरेमें प्रवृत्ति पाई जाती है । (प्रत्येक द्रव्यका लक्षण अन्य द्रव्योंसे
भिन्नत्व है, इसलिये आत्मा और पदार्थ एक दूसरेमें नहीं मिलते किन्तु आत्माका
ज्ञानस्वभाव है और पदार्थोंका ज्ञेय स्वभाव है, इसलिये ऐसे ज्ञानज्ञेयस्वभावरूप
सम्बन्धके कारण ही मात्र उनका एक दूसरेमें होना नेत्र और रूपी पदार्थोंकी भाँति
उपचारसे कहा जा सकता है) । जैसे नेत्र और उनके विषयभूत रूपी पदार्थ परस्पर
प्रवेश किये बिना ही ज्ञेयकारोंको ग्रहण और समर्पण करनेके स्वभाववाले हैं, उसी
प्रकार आत्मा और पदार्थ एक दूसरेमें प्रविष्ट हुए बिना ही समस्त ज्ञेयाकारोंके
ग्रहण और समर्पण करनेके स्वभाववाले हैं । (जिस प्रकार आँख रूपीपदार्थोंमें नहीं
प्रवेशती और रूपीपदार्थ आँखमें नहीं प्रवेशते तो भी आँख रूपीपदार्थोंके ज्ञेयाकारोंके
ग्रहण करने-जाननेके स्वभाववाली है और रूपी पदार्थ स्वयंके ज्ञेयाकारोंको अर्पण
करने-जाननेके स्वभाववाले हैं, उसीप्रकार आत्मा भी पदार्थोंमें नहीं प्रवेश करता
और पदार्थ आत्मामें नहीं प्रवेश करते तो भी आत्मा पदार्थोंके समस्त ज्ञेयाकारोंको
ग्रहण करलेने-जानलेनेके स्वभाववाला है और पदार्थ स्वयंके समस्त ज्ञेयाकारोंको
अर्पण करदेने-जानानेके स्वभाववाले हैं ।) ॥ २९ ॥

अब, आत्मा पदार्थोंमें प्रवृत्त नहीं होता तथापि जिससे उसका पदार्थोंमें
प्रवृत्त होना सिद्ध होता है उस शक्तिवैचित्र्यको उद्योत करते हैं:—

न प्रविष्टो नाविष्टो ज्ञानी ज्ञेयेषु रूपमिव चक्षुः ।

जानाति पश्यति नियतमभातीतो जगदशेषम् ॥ २९ ॥

यथाहि चक्षु रूपिद्रव्याणि स्वप्रदेशैरसंस्पृशदप्रविष्टं परिच्छेद्यमाकारमात्मसात्कुर्वन्न
चाप्रविष्टं जानाति पश्यति च, एवमात्माप्यभातीतत्वात्प्राप्यकारिताविचारगोचरदूरतामवाप्तो
ज्ञेयतामापन्नानि समस्तवस्तूनि स्वप्रदेशैरसंस्पृशन्न प्रविष्टः शक्तिवैचित्र्यवशतो वस्तुवर्तिनः

गाथा २९

अन्वयार्थः—[चक्षुः रूपं इव] जैसे चक्षु रूपको (जेयोमें अप्रविष्ट रहकर तथा अप्रविष्ट न रहकर जानती-देखती है) उसीप्रकार [ज्ञानी] आत्मा [अभातीतः] इन्द्रियातीत होता हुआ [अशेषं जगत्] अशेष जगतको (समस्त लोकालोकको) [ज्ञेयेषु] जेयोमें [न प्रविष्टः] अप्रविष्ट रहकर [न अविष्टः] तथा अप्रविष्ट न रहकर [नियतं] निरन्तर [जानाति पश्यति] जानता-देखता है ।

टीकाः—जिसप्रकार चक्षु रूपीद्रव्योंको स्वप्रदेशोंके द्वारा अस्पर्श करता हुआ अप्रविष्ट रहकर (जानता-देखता है) तथा जेयाकारोंको आत्मसात् (निजरूप) करता हुआ अप्रविष्ट न रहकर जानता-देखता है; उसीप्रकार आत्मा भी इन्द्रियातीतताके कारण 'प्राप्यकारिताकी विचारगोचरतासे दूर होता हुआ ज्ञेयभूत समस्त वस्तुओंको स्वप्रदेशोंसे अस्पर्श करता है, इसलिये अप्रविष्ट रहकर (जानता-देखता है), तथा शक्तिवैचित्र्यके कारण वस्तुमें वर्तते समस्त जेयाकारोंको मानों मूलमेंसे ही उखाड़कर ग्राम कर लेनेसे अप्रविष्ट न रहकर जानता-देखता है । इसप्रकार इस विचित्र शक्तिवाले आत्माके पदार्थोंमें अप्रवेशकी भाँति प्रवेश भी सिद्ध होता है ।

भावार्थः—यद्यपि आँख अपने प्रदेशोंसे रूपी पदार्थोंको स्पर्श नहीं करती इसलिये वह निश्चयसे जेयोमें अप्रविष्ट है, तथापि वह रूपी-पदार्थोंको जानती देखती है, इसलिये व्यवहारसे यह कहा जाता है कि मेरी आँख बहुतसे पदार्थोंमें जा पहुँचती है । इसीप्रकार यद्यपि केवलज्ञानप्राप्त आत्मा अपने प्रदेशोंके द्वारा ज्ञेय पदार्थोंको स्पर्श नहीं करता इसलिये वह निश्चयसे तो जेयोमें अप्रविष्ट है, तथापि ज्ञायकदर्शक

१. प्राप्यकारिता = ज्ञेय विषयोंको स्पर्श करके ही कार्य कर सकना—जान सकना । (इन्द्रियातीत हुये आत्मामें प्राप्यकारिताके विचारका भी अवकाश नहीं है) ।

समस्तज्ञेयाकारानुन्मूल्य इव कवलयञ्ज चाप्रविष्टो जानाति पश्यति च । एवमस्य विचित्रशक्ति-
योगिनो ज्ञानिनोऽर्थेष्वप्रवेश इव प्रवेशोऽपि सिद्धिमवतरति ॥ २६ ॥

अथैवं ज्ञानमर्थेषु वर्तते इति संभावयति—

रयणमिह इन्द्रणीलं दुग्धज्ज्मियं जहा मभासाए ।

अभिभूय तं पि दुग्धं वद्वि तह णाणमत्थेसु ॥ ३० ॥

रत्नमिहेन्द्रनीलं दुग्धाध्युषितं यथा स्वभासा ।

अभिभूय तदपि दुग्धं वर्तते तथा ज्ञानमर्थेषु ॥ ३० ॥

यथा किलेन्द्रनीलरत्नं दुग्धमधिवसत्स्वप्रभाभारेण तदभिभूय वर्तमानं दृष्टं, तथा संवेदन-

शक्तिकी किसी परम अद्भुत विचित्रताके कारण (निश्चयसे दूर रहकर भी) वह समस्त ज्ञेयाकारोंको जानता-देखता है, इसलिये व्यवहारसे यह कहा जाता है कि आत्मा सर्वद्रव्य-पर्यायोंमें प्रविष्ट हो जाता है । इसप्रकार व्यवहारसे ज्ञेय पदार्थोंमें आत्माका प्रवेश सिद्ध होता है ॥ २६ ॥

अब यहाँ इसप्रकार (दृष्टांत पूर्वक) यह स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान पदार्थोंमें प्रवृत्त होता है:—

गाथा ३०

अन्वयार्थः—[यथा] जैसे [इह] इस जगत्में [दुग्धाध्युषितं] दूधमें पड़ा हुआ [इन्द्रनीलं रत्नं] इन्द्रनील रत्न [स्वभासा] अपनी प्रभाके द्वारा [तदपि दुग्धं] उस दूधमें [अभिभूय] व्याप्त होकर [वर्तते] वर्तता है, [तथा] उसी प्रकार [ज्ञानं] ज्ञान (अर्थात् ज्ञातृद्रव्य) [अर्थेषु] पदार्थोंमें व्याप्त होकर वर्तता है ।

टीका:— जैसे दूधमें पड़ा हुआ इन्द्रनील रत्न अपने प्रभासमूहसे दूधमें व्याप्त होकर वर्तता हुआ दिखाई देता है, उसीप्रकार 'संवेदन (ज्ञान) भी आत्मासे अभिन्न होनेसे कर्ता-अंशसे आत्मताको प्राप्त होता हुआ ज्ञानरूप करण-अंशके द्वारा कारणभूत पदार्थोंके कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारोंमें व्याप्त हुआ वर्तता है, इसलिये

१. प्रमाणदृष्टिसे संवेदन अर्थात् ज्ञान कहने पर अनन्त गुणपर्यायोंका पिंड समझमें आता है । उसमें यदि कर्ता, करण आदि अंश किये जायें तो कर्ता-अंश अखंड आत्मद्रव्य है और करण-अंश ज्ञानगुण है । २. पदार्थ कारण हैं, और उनके ज्ञेयाकार (द्रव्य-गुण पर्याय) कार्य हैं ।

मप्यात्मनोऽभिभवात् कर्त्रशेनात्मतामापन्नं करणांशेन ज्ञानतामापन्नेन कारणभूतानामर्शानां कार्यभूतान् समस्तज्ञेयाकारानभिव्याप्य वर्तमानं कार्यकारणत्वेनोपचर्य ज्ञानमर्शानभिभूय वर्तत इत्युच्यमानं न विप्रतिषिध्यते ॥ ३० ॥

अर्थैवमर्शा ज्ञाने वर्तन्त इति संभावयति—

जदि ते ए संति अट्टा णाणे णाणं ण होदि सब्बगयं ।

मब्बगयं वा णाणं क्हं ण णाणट्टिया अट्टा ॥ ३१ ॥

यदि ते न सन्त्यर्था ज्ञाने ज्ञानं न भवति सर्वगतम् ।

सर्वगतं वा ज्ञानं कथं न ज्ञानस्थिता अर्थाः ॥ ३१ ॥

कार्यमें कारणका (ज्ञेयाकारोंमें पदार्थोंका) उपचार करके यह कहनेमें विरोध नहीं आता कि ज्ञान पदार्थोंमें व्याप्त होकर वर्तता है ।

भावार्थः—जैसे दूधसे भरे हुए पात्रमें पड़ा हुआ इन्द्रनील रत्न (नीलमणि) सारे दूधको अपनी प्रभासे नीलवर्ण कर देता है, इसलिये व्यवहारसे रत्न और रत्नकी प्रभा सारे दूधमें व्याप्त कही जाती है; इसीप्रकार ज्ञेयोंसे भरे हुए विश्वमें रहनेवाला आत्मा समस्त ज्ञेयोंको (लोकालोकको) अपनी ज्ञानप्रभाके द्वारा प्रकाशित करता है, अर्थात् जानता है, इसलिये व्यवहारसे आत्माका ज्ञान और आत्मा सर्वव्यापी कहलाता है । (यद्यपि निश्चयसे वे अपने असंख्य प्रदेशोंमें ही रहते हैं, ज्ञेयोंमें प्रविष्ट नहीं होते) ॥ ३० ॥

अब, यह व्यक्त करते हैं कि इसप्रकार पदार्थ 'ज्ञानमें वर्तते हैं:—

गाथा ३१

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [ते अर्थाः] वे पदार्थ [ज्ञाने न संति] ज्ञानमें न हों तो [ज्ञानं] ज्ञान [सर्वगतं] सर्वगत [न भवति] नहीं हो सकता, [वा] और यदि [ज्ञानं सर्वगतं] ज्ञान सर्वगत है तो [अर्थाः] पदार्थ [ज्ञानस्थिताः] ज्ञानस्थित [कथं न] कैसे नहीं हैं ? (अर्थात् अवश्य हैं)

१. इस गाथामें भी 'ज्ञान' शब्दसे अनन्त गुण-पर्यायोंका पिंडरूप ज्ञातृद्रव्य समझना चाहिये ।

यदि खलु निखिलात्मीयज्ञेयाकारसमर्पणद्वारेणावतीर्णाः सर्वेऽर्था न प्रतिभान्ति ज्ञाने तदा तन्न सर्वगतमभ्युपगम्येत । अभ्युपगम्येत वा सर्वगतम् । तर्हि साक्षात् संवेदनमुकुरुन्दभूमिका-वतीर्णप्रतिबिम्बस्थानीयस्वीयस्वीयसंवेद्याकारकारणानि परम्परया प्रतिबिम्बस्थानीयसंवेद्याकार-कारणानीति कथं न ज्ञानस्थायिनोऽर्था निश्चीयन्ते ॥ ३१ ॥

टीकाः—यदि समस्त स्वज्ञेयाकारोंके समर्पण द्वारा (ज्ञानमें) अवतरित होते हुए समस्त पदार्थ ज्ञानमें प्रतिभासित न हों तो वह ज्ञान सर्वगत नहीं माना जाता । और यदि वह (ज्ञान) सर्वगत माना जाये तो फिर (पदार्थ) साक्षात् ज्ञानदर्पण भूमिकामें अवतरित 'बिम्बकी भाँति अपने अपने ज्ञेयाकारोंके कारण (होनेसे) और 'परम्परासे प्रतिबिम्बके समान ज्ञेयाकारोंके कारण होनेसे पदार्थ कैसे ज्ञानस्थित निश्चित नहीं होते ? (अवश्य ही ज्ञानस्थित निश्चित होते हैं)

भावार्थः—दर्पणमें मयूर, मन्दिर, सूर्य, वृक्ष इत्यादिके प्रतिबिम्ब पड़ते हैं । वहाँ निश्चयसे तो प्रतिबिम्ब दर्पणकी ही अवस्थायें हैं, तथापि दर्पणमें प्रतिबिम्ब देखकर 'कार्यमें कारणका उपचार करके व्यवहारसे यह कहा जाता है कि मयूरादिक दर्पणमें हैं । इसीप्रकार ज्ञान दर्पणमें भी सर्व पदार्थोंके समस्त ज्ञेयाकारोंके प्रतिबिम्ब पड़ते हैं, अर्थात् पदार्थोंके ज्ञेयाकारोंके निमित्तसे ज्ञानमें ज्ञानकी अवस्थारूप ज्ञेयाकार होते हैं, (क्योंकि यदि ऐसा न हो तो ज्ञान सर्व पदार्थोंको नहीं जान सकेगा) । वहाँ निश्चयसे ज्ञानमें होनेवाले ज्ञेयाकार ज्ञानकी ही अवस्थायें हैं, पदार्थोंके ज्ञेयाकार कहीं ज्ञानमें प्रविष्ट नहीं हैं । निश्चयसे ऐसा होनेपर भी व्यवहारसे देखा जाये तो ज्ञानमें होनेवाले ज्ञेयाकारोंके कारण पदार्थोंके ज्ञेयाकार हैं, और उनके कारण पदार्थ हैं,—इसप्रकार परम्परासे ज्ञानमें होनेवाले ज्ञेयाकारोंके कारण पदार्थ हैं; इसलिये उन (ज्ञानकी अवस्थारूप) ज्ञेयाकारोंको ज्ञानमें देखकर, कार्यमें कारणका उपचार करके व्यवहारसे ऐसा कहा जा सकता है कि पदार्थ ज्ञानमें हैं ॥ ३१ ॥

१. बिम्ब—जिसका दर्पणमें प्रतिबिम्ब पड़ा हो वह । (ज्ञानको दर्पणकी उपमा दी जाये तो, पदार्थोंके ज्ञेयाकार बिम्ब समान हैं और ज्ञानमें होनेवाले ज्ञानकी अवस्थारूप ज्ञेयाकार प्रतिबिम्ब समान हैं) । २. पदार्थ साक्षात् स्वज्ञेयाकारोंके कारण हैं (पदार्थ अपने अपने द्रव्य-गुण-पर्यायोंके साक्षात् कारण हैं) और परम्परासे ज्ञानकी अवस्थारूप ज्ञेयाकारोंके (ज्ञानाकारोंके) कारण हैं । ३. प्रतिबिम्ब नैमित्तिक कार्य हैं, और मयूरादि निमित्त कारण हैं ।

अथैवं ज्ञानिनोऽर्थैः सहान्योन्यवृत्तिमत्त्वेऽपि परग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावेन सर्वं पश्यतोऽध्यवस्यतथात्यन्तविविक्तत्वं भावयति—

गेहहृदि एव ण मुंचदि ण परं परिणमदि केवली भगवं ।
पेच्छदि ममंतदो सो जाणदि सव्वं णिरवसेसं ॥ ३२ ॥

गृह्णाति नैव न मुञ्चति न परं परिणमति केवली भगवान् ।
पश्यति समन्ततः स जानाति सर्वं निरवशेषम् ॥ ३२ ॥

अयं खल्व्वात्मा स्वभावत एव परद्रव्यग्रहणमोक्षणपरिणमनाभावात्स्वतत्त्वभूतकेवलज्ञान-

अब, इसप्रकार (व्यवहारसे) आत्माकी पदार्थोंके साथ एक दूसरेमें प्रवृत्ति होनेपर भी (निश्चयसे) वह परका ग्रहण-त्याग किये बिना तथा पररूप परिणमित हुए बिना सबको देखता-जानता है इसलिये उसे (पदार्थोंके साथ) अत्यन्त भिन्नता है, यह बतलाते हैं—

गाथा ३२

अन्वयार्थः—[केवली भगवान्] केवली भगवान् [परं] परको [न एव गृह्णाति] ग्रहण नहीं करते, [न मुंचति] छोड़ते नहीं, [न परिणमति] पररूप परिणमित नहीं होते; [सः] वे [निरवशेषं सर्वं] निरवशेषरूपसे सबको (सम्पूर्ण आत्माको, सर्व जेयोंको) [समन्ततः] सर्व ओरसे (सर्व आत्म प्रदेशोंसे) [पश्यति जानाति] देखते-जानते हैं ।

टीकाः—यह आत्मा स्वभावसे ही परद्रव्यके ग्रहण-त्यागका तथा परद्रव्यरूपसे परिणमित होनेका (उसके) अभाव होनेसे स्वतत्त्वभूत केवलज्ञानरूपसे परिणमित होकर निष्कंप निकलनेवाली ज्योतिवाला उत्तम मणि जैसा होकर रहता हुआ, (१) जिसके सर्व ओरसे (सर्व आत्म प्रदेशोंसे) दर्शनज्ञानशक्ति स्फुरित है ऐसा होता हुआ, निःशेषरूपसे परिपूर्ण आत्माको आत्मासे आत्मामें संचेतता-जानता-अनुभव करता है; अथवा (२) एक साथ ही सर्व पदार्थोंके समूहका साक्षात्कार करनेसे

१. निःशेषरूपसे = कुछ भी किंचित् मात्र शेष न रहे इसप्रकार से । २. साक्षात्कार करना = प्रत्यक्ष जानना ।

स्वरूपेण विपरिणम्य निष्कम्पोन्मज्ज्योतिर्जात्यमणिकम्पो भूत्वाऽवतिष्ठमानः समन्ततः स्फुरितदर्शनज्ञानशक्तिः, समस्तमेव निःशेषतयात्मानमात्मनात्मनि संश्लेषयते । अथवा युगपदेव सर्वार्थसार्थसाक्षात्करणेन ज्ञप्तिपरिवर्तनाभावात् संभावितग्रहणमोक्षणलक्षणक्रियाविरामः प्रथममेव समस्तपरिच्छेद्याकारपरिणतत्वात् पुनः परमाकारान्तरमपरिणममानः समन्ततोऽपि विश्वमशेषं पश्यति जानाति च एवमस्यात्यन्तविविक्तत्वमेव ॥ ३२ ॥

अथ केवलज्ञानिश्रुतज्ञानिनोरविशेषदर्शनेन विशेषाकांक्षाक्षोभं क्षपयति—

ज्ञप्तिपरिवर्तनका अभाव होनेसे जिसके 'ग्रहणत्यागरूप क्रिया विरामको प्राप्त हुई है' ऐसा होता हुआ, पहलेसे ही समस्त ज्ञेयाकाररूप परिणमित होनेसे फिर पररूपसे— 'आकारान्तररूपसे नहीं परिणमित होता हुआ सर्व प्रकारसे अशेष विश्वको (मात्र) देखता-जानता है । इसप्रकार (पूर्वोक्त दोनों प्रकारसे) उसका (आत्माका पदार्थोंसे) अत्यन्त भिन्नत्व ही है ।

भावार्थः—केवली भगवान् सर्व आत्मप्रदेशोंसे अपनेको ही अनुभव करने रहते हैं; इसप्रकार वे पर द्रव्योंसे सर्वथा भिन्न हैं । अथवा, केवली भगवान्को सर्व पदार्थोंका युगपत् जान होता है इसलिये उनका ज्ञान एक ज्ञेयमेंसे दूसरेमें और दूसरेसे तीसरेमें नहीं बदलता, तथा उन्हें कुछ भी जानना शेष नहीं रहता इसलिये उनका ज्ञान किसी विशेष ज्ञेयाकारको जाननेके प्रति भी नहीं जाता । इसप्रकार भी वे परसे सर्वथा भिन्न हैं । (यदि जाननेरूप क्रिया बदलती हो तो वह परिवर्तन विकल्पके बिना—पर निमित्तक रागद्वेषके बिना—नहीं हो सकता, इसलिये इतना परद्रव्यके साथका सम्बन्ध कहलाता है । किन्तु केवली भगवान्की ज्ञप्तिका परिवर्तन नहीं होता इसलिये वे परसे अत्यन्त भिन्न हैं ।) इसप्रकार केवलज्ञानप्राप्त आत्मा परसे अत्यन्त भिन्न होनेसे और प्रत्येक आत्मा स्वभावसे केवली भगवान् जैसा ही होनेसे यह सिद्ध हुआ कि निश्चयसे प्रत्येक आत्मा परसे भिन्न है ॥ ३२ ॥

१. ज्ञप्तिक्रियाका बदलते रहना अर्थात् ज्ञानमें एक ज्ञेयको ग्रहण करना और दूसरेको छोड़ना सो ग्रहण-त्याग है । इसप्रकारका ग्रहण-त्याग वो क्रिया है, ऐसी क्रियाका केवली भगवान्के अभाव हुआ है ।
२. आकारान्तर - अन्य आकार ।

जो हि मुद्रेण विजाणदि अप्पाणं जाणगं महावेण ।
तं सुयकेवल्लिमिणिणो भणंति लोयप्पदीवयरा ॥ ३३ ॥

यो हि श्रुतेन विजानात्यात्मानं ज्ञायकं स्वभावेन ।
तं श्रुतकेवल्लिनमृषयो भणन्ति लोकप्रदीपकराः ॥ ३३ ॥

यथा भगवान् युगपत्परिणतसमस्तचैतन्यविशेषशालिना केवलज्ञानेनानादिनिधननिष्कार-

अब केवलज्ञानीको और श्रुतज्ञानीको अविशेषरूपसे दिखाकर विशेष आकांक्षाके क्षोभका क्षय करते हैं (अर्थात् केवलज्ञानीमें और श्रुतज्ञानीमें अन्तर नहीं है यह दिखाकर विशेष जाननेकी इच्छाके क्षोभको नष्ट करते हैं) :—

गाथा ३३

अन्वयार्थः— [यः हि] जो वास्तवमें [श्रुतेन] श्रुतज्ञानके द्वारा [स्वभावेन ज्ञायकं] स्वभावसे ज्ञायक (ज्ञायकस्वभाव) [आत्मानं] आत्माको [विजानाति] जानता है [तं] उसे [लोकप्रदीपकराः] लोकके प्रकाशक [ऋषयः] ऋषीश्वरगण [श्रुतकेवल्लिनं भणन्ति] श्रुतकेवली कहते हैं ।

टीकाः— जैसे भगवान् युगपत् परिणमन करते हुए समस्त चैतन्यविशेषयुक्त केवलज्ञानके द्वारा, 'अनादिनिधन-^१निष्कारण-^२असाधारण-^३स्वसंवेद्यमान चैतन्यसामान्य जिसकी महिमा है तथा जो 'चेतक स्वभावसे एकत्व होनेसे केवल (अकेला, शुद्ध, अखंड) है ऐसे आत्माको आत्मासे आत्मामें अनुभव करनेके कारण केवली है, उसीप्रकार हम भी क्रमशः परिणमित होते हुए कितने ही चैतन्यविशेषोंसे युक्त श्रुतज्ञानके द्वारा, अनादिनिधन-निष्कारण-असाधारण-स्वसंवेद्यमान-चैतन्यसामान्य जिसकी महिमा है तथा जो चेतक स्वभावके द्वारा एकत्व होनेसे 'केवल (अकेला) है ऐसे

१. अनादिनिधन — अनादि-अनन्त (चैतन्यसामान्य, आदि तथा अन्त रहित है) । २. निष्कारण — जिसका कोई कारण नहीं है ऐसा; स्वयंसिद्ध; सहज । ३. असाधारण — जो अन्य किसी द्रव्यमें न हो, ऐसा । ४. स्वसंवेद्यमान — स्वतः ही अनुभवमें आनेवाला । ५. चेतक = चेतनेवाला; दर्शकज्ञायक । ६. आत्मा निश्चयसे परद्रव्यके तथा रागद्वेषादिके संयोगों तथा गुणपर्यायिके भेदोंसे रहित मात्र चेतक स्वभावरूप ही है, इसलिये वह परमार्थसे केवल (अकेला, शुद्ध, अखंड) है ।

णासाधारणस्वसंचेत्यमानचैतन्यसामान्यमहिम्नश्चेतकस्वभावेनैकत्वात् केवलस्यात्मन आत्मना-
त्मनि संचेतनात् केवली, तथायं जनोऽपि क्रमपरिणममाणकतिपयचैतन्यविशेषशालिना श्रुतज्ञानेना-
नादिनिधननिष्कारणासाधारणस्वसंचेत्यमानचैतन्यसामान्यमहिम्नश्चेतकस्वभावेनैकत्वात् केवल-
स्यात्मन आत्मनात्मनि संचेतनात् श्रुतकेवली । अलं विशेषाकांक्षाभोगेण, स्वरूपनिश्चलैरेवा-
वस्थीयते ॥ ३३ ॥

अथ ज्ञानस्य श्रुतोपाधिभेदमुदस्यति—

सुत्तं जिणोवदिट्ठं पोग्गलदव्वप्पगेहिं वयणेहिं ।

तं जाणणा हि णाणं सुत्तस्स य जाणणा भणिया ॥ ३४ ॥

आत्माको आत्मासे आत्मामें अनुभव करनेके कारण श्रुतकेवली हैं । (इसलिये)
विशेष आकांक्षाके क्षोभसे बस हो; (हम तो) स्वरूपनिश्चल ही रहते हैं ।

भावार्थः—भगवान् समस्त पदार्थोंको जानते हैं, मात्र इसलिये ही वे 'केवली'
नहीं कहलाते, किन्तु केवल अर्थात् शुद्ध आत्माको जानने-अनुभव करनेसे 'केवली'
कहलाते हैं । केवल (शुद्ध) आत्माको जानने-अनुभव करनेवाला श्रुतज्ञानी भी
'श्रुतकेवली' कहलाता है । केवली और श्रुतकेवलीमें इतना मात्र अन्तर है कि-जिसमें
चैतन्यके समस्त विशेष एक ही साथ परिणमित होते हैं ऐसे केवलज्ञानके द्वारा केवली
केवल आत्माका अनुभव करते हैं, और जिसमें चैतन्यके कुछ विशेष क्रमशः परिणमित
होते हैं ऐसे श्रुतज्ञानके द्वारा श्रुतकेवली केवल आत्माका अनुभव करते हैं; अर्थात्
केवली सूर्यके समान केवलज्ञानके द्वारा आत्माको देखते और अनुभव करते हैं, तथा
श्रुतकेवली दीपकके समान श्रुतज्ञानके द्वारा आत्माको देखते और अनुभव करते हैं,
इसप्रकार केवली और श्रुतकेवलीमें स्वरूपस्थिरताकी तरतमत्तरूप भेद ही मुख्य है,
कम-बढ़ (पदार्थ) जाननेरूप भेद अत्यन्त गौण है । इसलिये अधिक जाननेकी
इच्छाका क्षोभ छोड़कर स्वरूपमें ही निश्चल रहना योग्य है । यही केवलज्ञान प्राप्तिका
उपाय है ॥ ३३ ॥

अब, ज्ञानके श्रुत-उपाधिकृत भेदको दूर करते हैं, (अर्थात् यह दिखाते हैं
कि श्रुतज्ञान भी ज्ञान ही है, श्रुतरूप उपाधिके कारण ज्ञानमें कोई भेद नहीं होता) :—

सूत्रं जिनोपदिष्टं पुद्गलद्रव्यात्मकैर्वचनैः ।
तज्ज्ञप्तिर्हि ज्ञानं सूत्रस्य च ज्ञप्तिर्भणिता ॥ ३४ ॥

श्रुतं हि तावत्सूत्रम् । तच्च भगवदर्हत्सर्वज्ञोपज्ञं स्यात्कारकेतनं पौद्गलिकं शब्दब्रह्म । तज्ज्ञप्तिर्हि ज्ञानम् । श्रुतं तु तत्कारणत्वात् ज्ञानत्वेनोपचर्यत एव । एवं सति सूत्रस्य ज्ञप्तिः श्रुतज्ञान-मित्यायाति । अथ सूत्रमुपाधित्वाभाद्रियते ज्ञप्तिरेवावशिष्यते । सा च केवलिनःश्रुतकेवलिनश्चात्मसंवेतने तुल्यैवेति नास्ति ज्ञानस्य श्रुतोपाधिभेदः ॥ ३४ ॥

भाषा ३४

अन्वयार्थः—[पुद्गलद्रव्यात्मकैः वचनैः] पुद्गल द्रव्यात्मक वचनोंके द्वारा [जिनोपदिष्टं] जिनेन्द्र भगवानके द्वारा उपदिष्ट [सूत्रं] सूत्र है [तज्ज्ञप्तिः हि] उसकी जप्ति [ज्ञानं] ज्ञान है [च] और उसे [सूत्रस्य ज्ञप्तिः] सूत्रकी जप्ति (श्रुतज्ञान) [भणिता] कहा गया है ।

टीकाः—पहले तो श्रुत ही सूत्र है, और वह सूत्र भगवान अर्हत-सर्वज्ञके द्वारा स्वयं जानकर उपदिष्ट, 'स्यात्कार चित्तयुक्त, पौद्गलिक शब्दब्रह्म है । उसकी 'जप्ति (शब्दब्रह्मको जाननेवाली ज्ञानक्रिया) सो ज्ञान है । श्रुत (सूत्र) तो उसका (ज्ञानका) कारण होनेसे ज्ञानके रूपमें उपचारसे ही कहा जाता है (जैसे कि अन्नको प्राण कहा जाता है) । ऐसा होनेसे यह फलित हुआ कि सूत्रकी जप्ति सो श्रुतज्ञान है । यदि सूत्र तो उपाधि होनेसे उसका आदर न किया जाये तो जप्ति ही शेष रह जाती है; ('सूत्रकी जप्ति' कहने पर निश्चयसे जप्ति कहीं पौद्गलिक सूत्रकी नहीं किन्तु आत्माकी है; सूत्र जप्तिका स्वरूपभूत नहीं किन्तु विशेष वस्तु अर्थात् उपाधि है; क्योंकि सूत्र न हो तो वहाँ भी जप्ति तो होती ही है । इसलिये यदि सूत्रको न गिना जाय तो 'जप्ति' ही शेष रहती है ।) और वह (जप्ति) केवली और श्रुतकेवलीके आत्मानुभवनमें समान ही है । इसलिये ज्ञानमें श्रुत-उपाधिकृत भेद नहीं है ॥ ३४ ॥

१. स्यात्कार - 'स्यात्' शब्द । (स्यात् - कथंचित् ; किसी अपेक्षासे) २. ज्ञप्ति - जानना; जाननेकी क्रिया; जाननक्रिया ।

अथात्मज्ञानयोः कर्तृकरणताकृतं भेदमपनुदति—

जो जाणदि सो णाणं ण हवदि णाणेण जाणगो आदा ।
 णाणं परिणमदि मयं अट्टा णाणट्टिया सव्वे ॥ ३५ ॥

यो जानाति स ज्ञानं न भवति ज्ञानेन ज्ञायक आत्मा ।
 ज्ञानं परिणमते स्वयमर्था ज्ञानस्थिताः सर्वे ॥ ३५ ॥

अपृथग्भूतकर्तृकरणत्वशक्तिपारमैश्वर्ययोगित्वादात्मनो य एव स्वयमेव जानाति स एव
 ज्ञानमन्तर्लीनसाधकतमोष्णत्वशक्तेः स्वतंत्रस्य जातवेदसो दहनक्रियाप्रसिद्धेरुष्णव्यपदेशवत् ।

अब, आत्मा और ज्ञानका कर्तृत्व- कर्णत्वकृत भेद दूर करते हैं । (परमार्थतः
 अभेद आत्मामें, 'आत्मा ज्ञातृक्रियाका कर्ता है और ज्ञान करण है' इसप्रकार व्यवहारसे
 भेद किया जाता है, तथापि आत्मा और ज्ञान भिन्न नहीं हैं इसलिये अभेदनयसे 'आत्मा
 ही ज्ञान है' यह समझाते हैं) :—

गाथा ३५

अन्वयार्थः—[यः जानाति] जो जानता है [सः ज्ञानं] सो ज्ञान है (जो
 ज्ञायक है वही ज्ञान है) [ज्ञानेन] ज्ञानके द्वारा [आत्मा] आत्मा [ज्ञायकः भवति]
 ज्ञायक है [न] ऐसा नहीं है; [स्वयं] स्वयं ही [ज्ञानं परिणमते] ज्ञानरूप परिणमित
 होता है [सर्वे अर्थाः] और सर्व पदार्थ [ज्ञानस्थिताः] ज्ञानस्थित हैं ।

टीकाः—आत्मा अपृथग्भूत कर्तृत्व और करणत्वकी शक्तिरूप 'पारमैश्वर्यवान्
 है, इसलिये जो स्वयमेव जानता है (ज्ञायक है) वही ज्ञान है । जैसे—जिसमें
 'साधकतम उष्णत्वशक्ति अन्तरलीन है, ऐसी 'स्वतंत्र अग्निके 'दहनक्रियाकी प्रसिद्धि
 होनेसे उष्णता कही जाती है । परन्तु ऐसा नहीं है कि जैसे पृथग्वर्ती दाँतलीसे देवदत्त
 काटनेवाला कहलाता है उसीप्रकार (पृथग्वर्ती) ज्ञानसे आत्मा जाननेवाला (ज्ञायक)
 है । यदि ऐसा हो तो दोनोंके अचेतनता आजायेगी और दो अचेतनोंका संयोग होने
 पर भी ज्ञप्ति उत्पन्न नहीं होगी । आत्मा और ज्ञानके पृथग्वर्ती होने पर भी यदि

१. पारमैश्वर्य—परम सामर्थ्य; परमेश्वरता । २. साधकतम—उत्कृष्ट साधनबहु करण । ३. जो
 स्वतंत्र रूपसे करे वह कर्ता । ४. अग्नि जलानेकी क्रिया करती है, इसलिये उसे उष्णता कहा जाता है ।

न तु यथा पृथग्वर्तिना दात्रेण लावको भवति देवदत्तस्तथा ज्ञानेन ज्ञायको भवत्यात्मा । तथा सत्यु-
भयोरचेतनत्वमचेतनयोः संयोगेऽपि न परिच्छिच्चिनिष्पत्तिः । पृथक्त्ववर्तिनोरपि परिच्छेदाभ्युपगमे
परपरिच्छेदेन परस्य परिच्छिच्चिर्भूतिप्रमृतीनां च परिच्छिच्चिप्रसृतिरनङ्कुशा स्यात् । किंच-स्वतो
व्यतिरिक्तसमस्तपरिच्छेद्याकारपरिणतं ज्ञानं स्वयं परिणममानस्य कार्यभूतसमस्तज्ञेयाकारकारणी-
भूताः सर्वेऽर्था ज्ञानवर्तिन एव कथंचिद्भवन्ति, किं ज्ञातृज्ञानविभागकत्त्वेशकल्पनया ॥ ३५ ॥

अथ किं ज्ञानं किं ज्ञेयमिति व्यनक्ति—

तम्हा णाणं जीवो णेयं दब्बं तिहा समक्खादं ।

दब्बं ति पुणो आदा परं च परिणामसंबद्धं ॥ ३६ ॥

तस्मात् ज्ञानं जीवो ज्ञेयं द्रव्यं त्रिधा समाख्यातम् ।

द्रव्यमिति पुनर्गत्मा परश्च परिणामसंबद्धः ॥ ३६ ॥

आत्माके ज्ञप्ति होना माना जाये तो परज्ञानके द्वारा परको ज्ञप्ति होजायेगी और
इसप्रकार राख इत्यादिके भी ज्ञप्तिका उद्भव निरंकुश होजायेगा । ('आत्मा' और
ज्ञान पृथक् हैं किन्तु ज्ञान आत्माके साथ युक्त होजाता है इसलिये आत्मा जाननेका
कार्य करता है' यदि ऐसा माना जाये तो जैसे ज्ञान आत्माके साथ युक्त होता है,
उमीप्रकार राख, घड़ा, स्तंभ इत्यादि समस्त पदार्थोंके साथ युक्त होजाये और उससे
वे सब पदार्थ भी जाननेका कार्य करने लगें; किन्तु ऐसा नहीं होता, इसलिये आत्मा
और ज्ञान पृथक् नहीं हैं ।) और अपनेसे अभिन्न समस्त ज्ञेयाकाररूप परिणमित जो
ज्ञान है उसरूप स्वयं परिणमित होनेवालेको, कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारोंके कारणभूत
समस्त पदार्थ जानवर्ति ही कथंचित् हैं । (इसलिये) ज्ञाता और ज्ञानके विभागकी
क्लिष्ट कल्पनासे क्या प्रयोजन है ? ॥ ३५ ॥

अब, यह व्यक्त करते हैं कि ज्ञान क्या है, और ज्ञेय क्या है:—

गाथा ३६

अन्वयार्थः—[तस्मात्] इसलिये [जीवः ज्ञानं] जीव ज्ञान है [ज्ञेयं] और
ज्ञेय [त्रिधा समाख्यातं] तीन प्रकारसे वर्णित (त्रिकालस्पर्शी) [द्रव्यं] द्रव्य है
[पुनः द्रव्यं इति] (वह ज्ञेयभूत) द्रव्य अर्थात् [आत्मा] आत्मा (स्वआत्मा)
[परः च] और पर [परिणामसंबद्धः] परिणाम वाले हैं ।

यतः परिच्छेदरूपेण स्वयं विपरिणम्य स्वतंत्र एव परिच्छिनत्ति ततो जीव एव ज्ञान-मन्यद्रव्याणां तथा परिणन्तुं परिच्छेत्तुं चाशक्तेः । ज्ञेयं तु वृत्तवर्तमानवर्तिष्यमाणविचित्रपर्याय-परम्पराप्रकारेण त्रिधाकालकोटिस्पर्शित्वाद्नाद्यनन्तं द्रव्यं, तत्तु ज्ञेयतामापद्यमानं द्वेषात्मपरविकल्प्यात् । इष्यते हि स्वपरपरिच्छेदकत्वादवबोधस्य बोध्यस्यैवंविधं द्वैविध्यम् ।

ननु स्वात्मनि क्रियाविरोधात् कथं नामात्मपरिच्छेदकत्वम् । का हि नाम क्रिया कीदृशश्च विरोधः । क्रिया ह्यत्र विरोधिनी समुत्पत्तिरूपा वा जप्तिरूपा वा । उत्पत्तिरूपा हि तावन्नैकं स्वस्मात्प्रजायत इत्यागमाद्विरुद्धैव । जप्तिरूपायास्तु प्रकाशनक्रिययैव प्रत्यवस्थितत्वात् तत्र विप्रतिषेधस्यावतारः । यथा हि प्रकाशकस्य प्रदीपस्य परं प्रकाश्यतामापन्नं प्रकाशयतः स्वस्मिन् प्रकाश्ये न प्रकाशकान्तरं मृग्यं, स्वयमेव प्रकाशनक्रियायाः समुपलम्भात् ! तथा

टीका:—(पूर्वोक्त प्रकार) ज्ञानरूपसे स्वयं परिणमित होकर स्वतंत्रतया ही जानता है इसलिये जीव ही ज्ञान है, क्योंकि अन्य द्रव्य इसप्रकार (ज्ञानरूप) परिणमित होने तथा जाननेमें असमर्थ हैं । और ज्ञेय, वर्त चुकी, वर्त रही और वर्तनेवाली ऐसी विचित्र पर्यायोंकी परम्पराके प्रकारसे त्रिविध कालकोटिको स्पर्श करता होनेसे अनादि अनन्त द्रव्य है । (आत्मा ही ज्ञान है, और ज्ञेय समस्त द्रव्य हैं) वह ज्ञेयभूत द्रव्य आत्मा और पर (स्व और पर) ऐसे दो भेदसे दो प्रकारका है । ज्ञान स्वपर ज्ञायक है, इसलिये ज्ञेयकी ऐसी द्विविधता मानी जाती है ।

(प्रश्न):—अपनेमें क्रियाके हो सकनेका विरोध है, इसलिये आत्माके स्वज्ञायकता कैसे घटित होती है ?

(उत्तर):—कौनसी क्रिया है, और किस प्रकारका विरोध है ? जो यहाँ (प्रश्नमें) विरोधी क्रिया कही गई है वह या तो उत्पत्तिरूप होगी या जप्तिरूप होगी । प्रथम, उत्पत्तिरूप क्रिया 'कोई स्वयं अपनेमेंसे उत्पन्न नहीं हो सकना' इस आगम कथनसे विरुद्ध ही है; परन्तु जप्तिरूप क्रियामें विरोध नहीं आता क्योंकि वह प्रकाशन क्रियाकी भाँति उत्पत्ति क्रियासे विरुद्ध प्रकारसे (भिन्न प्रकारसे) होती है । जैसे जो प्रकाश्यभूत-परको प्रकाशित करता है ऐसे प्रकाशक दीपकको स्व प्रकाश्यको प्रकाशित करनेके संबन्धमें अन्य प्रकाशककी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसके स्वयमेव प्रकाशन क्रियाकी प्राप्ति है; इसीप्रकार जो ज्ञेयभूत परको जानता है ऐसे ज्ञायक आत्माको स्वज्ञेयके जाननेके संबन्धमें अन्य ज्ञायक की आवश्यकता नहीं होती,

परिच्छेदकस्यात्मनः परं परिच्छेद्यतामापन्नं परिच्छिन्दतः स्वस्मिन् परिच्छेद्ये न परिच्छेदकान्तरं मृग्यं, स्वयमेव परिच्छेदनक्रियायाः समुपलम्भात् ।

ननु कुत आत्मनो द्रव्यज्ञानरूपत्वं द्रव्याणां च आत्मज्ञेयरूपत्वं च । परिणामसंबन्धत्वात् । यतः खलु आत्मा द्रव्याणि च परिणामैः सह संबध्यन्ते, तत आत्मनो द्रव्यालम्बनज्ञानेन द्रव्याणां तु ज्ञानमालम्ब्य ज्ञेयाकारेण परिणतिरबाधिता प्रतपति ॥ ३६ ॥

क्योंकि स्वयमेव ज्ञान क्रिया की प्राप्ति 'है । (इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञान स्वको भी जान सकता) है ।

(प्रश्न)—आत्माको द्रव्योंकी ज्ञानरूपता और द्रव्योंको आत्माकी ज्ञेयरूपता, कैसे (किसप्रकार घटित) है ?

(उत्तर):—वे परिणामवाले होनेसे । आत्मा और द्रव्य परिणामयुक्त हैं, इसलिये आत्माके, द्रव्य जिसका 'आलम्बन हैं ऐसे ज्ञानरूपसे (परिणति) और द्रव्योंके, ज्ञानका 'अवलम्बन लेकर ज्ञेयाकाररूपसे परिणति अबाधितरूपसे तपती है—प्रतापवंत वर्तती है । (आत्मा और द्रव्य समय २ पर परिणमन किया करते हैं, वे कूटस्थ नहीं हैं; इसलिये आत्मा ज्ञान स्वभावसे और द्रव्य ज्ञेय स्वभावसे परिणमन करता है, इसप्रकार ज्ञान स्वभावमें परिणमित आत्मा ज्ञानके आलम्बनभूत द्रव्योंको

१. कोई पर्याय स्वयं अपनेमेंसे उत्पन्न नहीं हो सकती, किंतु वह द्रव्यके आधारसे—द्रव्यमेंसे उत्पन्न होती है; क्योंकि यदि ऐसा न हो तो द्रव्यरूप आधारके बिना पर्यायें उत्पन्न होने लगें और जलके बिना तरंगें होने लगें; किन्तु यह सब प्रत्यक्ष विरुद्ध है । इसलिये पर्यायके उत्पन्न होनेके लिये द्रव्यरूप आधार आवश्यक है । इसीप्रकार ज्ञान पर्याय भी स्वयं अपनेमेंसे उत्पन्न नहीं हो सकती; वह आत्मद्रव्यमेंसे उत्पन्न हो सकती है जो कि ठीक ही है । परन्तु ज्ञान पर्याय स्वयं अपनेसे ही ज्ञात नहीं हो सकती यह बात यथार्थ नहीं है । आत्म द्रव्यमेंसे उत्पन्न होनेवाली ज्ञान पर्याय स्वयं अपनेसे ही ज्ञात होती है । जैसे दीपकरूपी आधारमेंसे उत्पन्न होने वाली प्रकाश पर्याय स्व-परको प्रकाशित करती है, उसी प्रकार आत्मारूपी आधारमेंसे उत्पन्न होने वाली ज्ञान पर्याय स्वपरको जानती है । और यह अनुभव सिद्ध भी है कि ज्ञान स्वयं अपनेको जानता है । २. ज्ञानके ज्ञेयभूत द्रव्य आलम्बन अर्थात् निमित्त हैं । यदि ज्ञान ज्ञेयको न जाने तो ज्ञानका ज्ञानत्व क्या रहा ? ३. ज्ञेयका ज्ञान आलम्बन अर्थात् निमित्त है । यदि ज्ञेय ज्ञानमें ज्ञात न हो तो ज्ञेयका ज्ञेयत्व क्या हुआ ?

अथातिवाहितानागतानामपि द्रव्यपर्यायाणां तादात्विकवत् पृथक्त्वेन ज्ञाने वृत्तिमुद्योतयति-

तात्कालिगेव सर्वे सदसद्भूता हि पञ्जया तासिं ।
वदन्ते ते णाणे विसेसदो दव्वजादीणं ॥ ३७ ॥

तात्कालिका इव सर्वे सदसद्भूता हि पर्यायास्तासाम् ।

वदन्ते ते ज्ञानं विशेषतो द्रव्यजातीनाम् ॥ ३७ ॥

सर्वासामेव हि द्रव्यजातीनां त्रिसमयावच्छिन्नात्मलाभभूमिकत्वेन क्रमप्रतपत्स्वरूपसंपदः सद्भूतासद्भूततामायान्तो ये यावन्तः पर्यायास्ते तावन्तस्तात्कालिका इवात्यन्तसंकरेणाप्यवधारित-विशेषलक्षणा एकक्षण एवावबोधसौधस्थितिमवतरन्ति । न खल्वेतदयुक्तं-दृष्टाविरोधात् । दृश्यते

जानता है, और जेय स्वभावसे परिणमित द्रव्य जेयके आलम्बनभूत ज्ञानमें-आत्मानमें-ज्ञात होते हैं ।) ॥ ३६ ॥

अब, यह उद्योत करते हैं कि द्रव्योंकी अतीत और अनागत पर्यायों भी तात्कालिक पर्यायोंकी भाँति पृथक् रूपसे ज्ञानमें वर्तती हैं:—

गाथा ३७

अन्वयार्थः—[तासाम् द्रव्यजातीनाम्] उन (जीवादि) द्रव्यजातियोंकी [ते सर्वे] समस्त [सदसद्भूताः हि] विद्यमान और अविद्यमान [पर्यायाः] पर्यायों [तात्कालिकाः इव] तात्कालिक (वर्तमान) पर्यायोंकी भाँति [विशेषतः] विशिष्टता पूर्वक (अपने अपने भिन्न भिन्न स्वरूपमें) [ज्ञाने वर्तन्ते] ज्ञानमें वर्तती हैं ।

टीका:— (जीवादिक) समस्त द्रव्यजातियोंकी पर्यायोंकी उत्पत्तिकी मर्यादा तीनोंकालकी मर्यादा जितनी होनेसे (वे तीनोंकालमें उत्पन्न हुआ करती हैं इसलिये), उनकी (उन समस्त द्रव्य जातियोंकी), क्रम पूर्वक तपती हुई स्वरूप सम्पदा वाली (एकके बाद दूसरी प्रगट होनेवाली), विद्यमानता और अविद्यमानताको प्राप्त जो जितनी पर्यायों हैं, वे सब तात्कालिक (वर्तमान कालीन) पर्यायोंकी भाँति अत्यन्त 'मिश्रित होनेपर भी सब पर्यायोंके विशिष्टलक्षण स्पष्ट जात हों इसप्रकार, एक

१. ज्ञानमें समस्त द्रव्योंकी तीनोंकालकी पर्यायों एक ही साथ ज्ञात होने पर भी प्रत्येक पर्यायका विशिष्ट स्वरूप (प्रदेश, काल, आकार इत्यादि विशेषतायें) स्पष्ट ज्ञात होता है; संकर-व्यतिकर नहीं होते ।

हि द्रव्यस्थस्यापि वर्तमानमिव व्यतीतमनागतं वा वस्तु चिन्तयतः संविदालम्बितस्तदाकारः । किंच चित्रपटीस्थानीयत्वात् संबिदः । यथा हि चित्रपट्यामतिवाहितानामनुपस्थितानां वर्तमानानां च वस्तुनामालेख्याकाराः साक्षादेकक्षण एवावभासन्ते, तथा संबिद्धिचावपि । किंच सर्वज्ञेया-

क्षणमें ही ज्ञानमंदिरमें स्थितिको प्राप्त होती हैं । यह (तीनोंकालकी पर्यायोंका वर्तमान पर्यायोंकी भाँति ज्ञानमें ज्ञात होना) अयुक्त नहीं है; क्योंकि—

(१) उसका दृष्टके साथ (जगतमें जो दिखाई देता है—अनुभवमें आता है उसके साथ) अविरोध है । (जगतमें) दिखाई देता है कि छद्मस्थके भी, जैसे वर्तमान वस्तुका चितवन करते हुए ज्ञान उसके आकारका अवलम्बन करता है उसीप्रकार भूत और भविष्यत वस्तुका चितवन करते हुए (भी) ज्ञान उसके आकारका अवलम्बन करता है ।

(२) और ज्ञान चित्रपटके समान है । जैसे चित्रपटमें अतीत, अनागत और वर्तमान वस्तुओंके आलेख्याकार साक्षात् एक क्षणमें ही भासित होते हैं; इसीप्रकार ज्ञानरूपी भित्तिमें (ज्ञान भूमिकामें, ज्ञानपटमें) भी अतीत अनागत और वर्तमान पर्यायोंके ज्ञेयाकार साक्षात् एक क्षणमें ही भासित होते हैं ।

(३) और, सर्व ज्ञेयाकारोंकी तात्कालिकता (वर्तमानता, साम्प्रतिकता) अविरुद्ध है । जैसे नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओंके आलेख्याकार वर्तमान ही हैं, इसीप्रकार अतीत और अनागत पर्यायोंके ज्ञेयाकार वर्तमान ही हैं ।

भावार्थः—केवलज्ञान समस्त द्रव्योंकी तीनों कालकी पर्यायोंको युगपद् जानता है । यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि ज्ञान नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायोंको वर्तमान कालमें कैसे जान सकता है ? उसका समाधान है कि—जगतमें भी देखा जाता है कि अल्पज्ञ जीवका ज्ञान भी नष्ट और अनुत्पन्न वस्तुओंका चितवन कर सकता है, अनुमानके द्वारा जान सकता है, तदाकार हो सकता है, तब फिर पूर्ण ज्ञान नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायोंको क्यों न जान सकेगा ? ज्ञानशक्ति ही ऐसी है कि वह चित्रपटकी भाँति अतीत और अनागत पर्यायोंको भी जान सकती है । और

काराणां तादात्मिकत्वाविरोधात् । यथा हि प्रध्वस्तानामनुदितानां च वस्तुनामालेख्याकारा वर्तमाना एव, तथातीतानामनागतानां च पर्यायाणां ज्ञेयाकारा वर्तमाना एव भवन्ति ॥ ३७ ॥

अथासद्भूतपर्यायाणां कथंचित्सद्भूतत्वं विदधाति—

जे एव हि संजाया जे खलु णट्टा भवीय पज्जाया ।

ते होंति असद्भूता पज्जाया णाणपच्चक्खा ॥ ३८ ॥

ये नैव हि संजाता ये खलु नष्टा भूत्वा पर्यायाः ।

ते भवन्ति असद्भूताः पर्याया ज्ञानप्रत्यक्षाः ॥ ३८ ॥

ये खलु नाद्यापि संभूतिमनुभवन्ति, ये चात्मलाभमनुभूय विलयमृपगतास्ते किलासद्भूता

आलेख्यत्व शक्तिकी भाँति द्रव्योंकी ज्ञेयत्व शक्ति ऐसी है कि उनकी अतीत और अनागत पर्यायों भी ज्ञानमें ज्ञेयरूप होती हैं—ज्ञात होती हैं । इसप्रकार आत्माकी अद्भुत ज्ञान शक्ति और द्रव्योंकी अद्भुत ज्ञेयत्वशक्तिके कारण केवलज्ञानमें समस्त द्रव्योंकी तीनोंकालकी पर्यायोंका एक ही समयमें भासित होना अविरोद्ध है ॥ ३७ ॥

अब, अविद्यमान पर्यायोंकी (भी) कथंचित् (कोई प्रकारसे; कोई अपेक्षासे) विद्यमानता बतलाते हैं:—

गाथा ३८

अन्वयार्थः—[ये पर्यायाः] जो पर्यायों [हि] वास्तवमें [न एव संजाताः] उत्पन्न नहीं हुई हैं, तथा [ये] जो पर्यायों [खलु] वास्तवमें [भूत्वा नष्टाः] उत्पन्न होकर नष्ट होगई हैं, [ते] वे [असद्भूताः पर्यायाः] अविद्यमान पर्यायों [ज्ञानप्रत्यक्षाः भवन्ति] ज्ञान प्रत्यक्ष हैं ।

टीका:—जो (पर्यायों) अभी तक भी उत्पन्न नहीं हुई और जो उत्पन्न होकर नष्ट होगई हैं वे (पर्यायों) वास्तवमें अविद्यमान होने पर भी ज्ञानके प्रति नियत होनेसे (ज्ञानमें निश्चित-स्थिर-लगी हुई होनेसे, ज्ञानमें सीधी ज्ञात होनेसे) 'ज्ञानप्रत्यक्ष वर्तती हुई, पाषाण स्तम्भमें उत्कीर्ण, भूत और भावी देवों

१. प्रत्यक्ष = अज्ञके प्रति-अज्ञके सम्मुख-अज्ञके निकटमें-अज्ञके संबंधमें हो ऐसा । [अज्ञ = ज्ञान; आत्मा ।]

अपि परिच्छेदं प्रति नियतत्वात् ज्ञानप्रत्यक्षतामनुभवन्तः शिलास्तम्भोत्कीर्णभूतभाविदेवदप्रकम्पा-
पितस्वरूपाः सद्भूता एव भवन्ति ॥ ३८ ॥

अथैतदेवासद्भूतानां ज्ञानप्रत्यक्षत्वं दृढयति—

जदि पञ्चस्वमजायं पज्जायं पलइयं च णाणम्म ।
ण हवदि वा तं णाणं दिव्वं ति हि के परूवेति ॥ ३९ ॥

यदि प्रत्यक्षोऽजातः पर्यायः प्रलयितश्च ज्ञानस्य ।

न भवति वा तत् ज्ञानं दिव्यमिति हि के प्ररूपयन्ति ॥ ३९ ॥

यदि खन्वसंभावितभावं संभावितभावं च पर्यायजातमप्रतिघविजृम्भिताखण्डितप्रतापप्रभु-
शक्तितया प्रसमेनैव नितान्तमाक्रम्याक्रमसमर्पितस्वरूपसर्वस्वमात्मानं प्रतिनियतं ज्ञानं न करोति,

(तीर्थंकरदेवों) की भाँति अपने स्वरूपको अकम्पतया (ज्ञानको) अर्पित करती
हुई (वे पर्यायों) विद्यमान ही हैं ॥ ३८ ॥

अब, इन्हीं अविद्यमान पर्यायोंकी ज्ञानप्रत्यक्षताको दृढ़ करते हैं:—

गाथा ३९

अन्वयार्थः—[यदि वा] यदि [अजातः पर्यायः] अनुत्पन्न पर्याय [च]
तथा [प्रलयितः] नष्ट पर्याय [ज्ञानस्य] ज्ञानके (केवलज्ञानके) [प्रत्यक्षः न भवति]
प्रत्यक्ष न हो तो [तत् ज्ञानं] उस ज्ञानको [दिव्यं इति हि] दिव्य [के प्ररूपयन्ति]
कौन प्ररूपेगा ?

टीका:—जिसने अस्तित्वका अनुभव नहीं किया, और जिसने अस्तित्वका
अनुभव कर लिया है ऐसी (अनुत्पन्न और नष्ट) पर्याय मात्रको यदि ज्ञान अपनी
निर्विघ्न विकसित, अखंडित प्रतापयुक्त प्रभु शक्तिके द्वारा बलात् अत्यन्त आक्रमित
करे (प्राप्त करे); तथा वे पर्यायों अपने स्वरूपसर्वस्वको अक्रमसे अर्पित करें
(एकही साथ ज्ञानमें ज्ञात हों) इसप्रकार उन्हें अपने प्रति नियत न करे (अपनेमें
निश्चित न करे, प्रत्यक्ष न जाने), तो उस ज्ञानकी दिव्यता क्या है ? इससे (यह
कहा गया है कि) पराकाष्ठाको प्राप्त ज्ञानके लिये यह सब योग्य है ।

तदा तस्य कुतस्तानी दिव्यता स्यात् । अतः काष्ठाप्राप्तस्य परिच्छेदस्य सर्वमेतदुपपन्नम् ॥ ३९ ॥

अथेन्द्रियज्ञानस्यैव प्रलीनमनुत्पन्नं च ज्ञातुमशक्यमिति वितर्कयति—

अत्थं अक्षवणिवदिदं ईहापुव्वेहिं जे विजाणंति ।

तेसिं परोक्षभूदं णादुमसक्कं ति पणणत्तं ॥ ४० ॥

अर्थमक्षनिपतितमीहापूर्वैये विजानन्ति ।

तेषां परोक्षभूतं ज्ञातुमशक्यमिति प्रज्ञप्तम् ॥ ४० ॥

ये खलु विषयविषयिसन्निपातलक्षणमिन्द्रियार्थसन्निकर्षमधिगम्य क्रमोपजायमानेनेहादि-

भावार्थः—अनन्त महिमावान् केवलज्ञानकी यह दिव्यता है कि वह अनन्त द्रव्योंकी समस्त (अतीत और अनागत भी) पर्यायोंको सम्पूर्णतया एक ही समय प्रत्यक्ष जानता है ॥ ३९ ॥

अब, इन्द्रियज्ञानको ही नष्ट और अनुत्पन्नका जानना अशक्य है, (अर्थात् इन्द्रियज्ञान ही नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थोंको-पर्यायोंको नहीं जान सकता) यह न्यायसे निश्चित करते हैं ।

गाथा ४०

अन्वयार्थः—[ये] जो [अक्षनिपतितं] अक्षपतित अर्थात् इन्द्रियगोचर [अर्थ] पदार्थको [ईहापूर्वैः] ईहादिक द्वारा [विजानन्ति] जानते हैं, [तेषां] उनके लिये [परोक्षभूतं] परोक्षभूत पदार्थको [ज्ञातुं] जानना [अशक्यं] अशक्य है [इति प्रज्ञप्तं] ऐसा सर्वज्ञ देवने कहा है ।

टीकाः—विषय और विषयीका सन्निपात जिसका लक्षण (स्वरूप) है, ऐसे इन्द्रिय और पदार्थके सन्निकर्षको प्राप्त करके, जो अनुक्रमसे उत्पन्न ईहादिकके क्रमसे जानते हैं वे उसे नहीं जान सकते जिसका अस्तित्व बीत गया है, तथा जिसका अस्तित्वकाल उपस्थित नहीं हुआ है क्योंकि (अतीत-अनागत पदार्थ और इन्द्रियके) यथोक्त लक्षण (यथोक्तस्वरूप, उपर कहा जैसा) ग्राह्यग्राहक सम्बन्धका असंभव है ।

१. परोक्ष—अक्षसे पर अर्थात् अक्षसे दूर होवे ऐसा; इन्द्रिय अगोचर । २. सन्निपात—मिलाप; संबंध होना । ३. सन्निकर्ष—संबंध, समीपता । ४. इन्द्रियगोचर पदार्थ ग्राह्य है, और इन्द्रियाँ ग्राहक हैं ।

कप्रक्रमेण परिच्छिन्दन्ति, ते किलातिवाहितस्वास्तित्वकालमनुपस्थितस्वास्तित्वकारं वा यथोदितलक्षणस्य ग्राह्यग्राहकसंबंधस्यासंभवतः परिच्छेत्तुं न शक्नुवन्ति ॥ ४० ॥

अथातीन्द्रियज्ञानस्य तु यद्यदुच्यते तच्चत्संभवतीति संभावयति—

अप्रदेशं सप्रदेशं मुत्तममुत्तं च पज्जयमजादं ।

पल्लयं गयं च जाणदि तं णाणमदिदियं भणियं ॥ ४१ ॥

अप्रदेशं सप्रदेशं मूर्तममूर्तं च पर्ययमजातम् ।

प्रलयं गतं च जानाति तज्ज्ञानमतीन्द्रियं भणितम् ॥ ४१ ॥

इन्द्रियज्ञानं नाम उपदेशान्तःकरणेन्द्रियादीनि विरूपकारणत्वेनोपलब्धिसंस्कारादीन् अन्तरङ्गस्वरूपकारणत्वेनोपादाय प्रवर्तते । प्रवर्तमानं च सप्रदेशमेवाध्यवस्यतिस्थूलोपलम्भकत्वान्ना-

भावार्थः—इन्द्रियोंके साथ पदार्थका (विषयीके साथ विषयका) सन्निकर्ष-सम्बन्ध हो तभी (अवग्रह-ईहा-अवाय-धारणारूप क्रमसे) इन्द्रिय ज्ञान पदार्थको जान सकता है । नष्ट और अनुत्पन्न पदार्थोंके साथ इन्द्रियोंका सन्निकर्ष-सम्बन्ध न होनेसे इन्द्रिय ज्ञान उन्हें नहीं जान सकता । इसलिये इन्द्रियज्ञान हीन है, हेय है ॥ ४० ॥

अब, यहाँ यह स्पष्ट करते हैं कि अतीन्द्रिय ज्ञानके लिये जो जो कहा जाता है वह (सब) संभव है:—

गाथा ४१

अन्वयार्थः—[अप्रदेशं] जो अप्रदेशको [सप्रदेशं] सप्रदेशको [मूर्तं] मूर्तको [अमूर्तं च] और अमूर्तको तथा [अजातं] अनुत्पन्न [च] और [प्रलयंगतं] नष्ट [पर्यायं] पर्यायको [जानाति] जानता है [तत् ज्ञानं] वह ज्ञान [अतीन्द्रियं] अतीन्द्रिय [भणितम्] कहा गया है ।

टीका:—इन्द्रियज्ञान उपदेश, अन्तःकरण और इन्द्रिय इत्यादिको विरूप-कारणतासे (ग्रहण करके) और उपलब्धि (क्षयोपशम), संस्कार इत्यादिको अन्तरङ्ग स्वरूप-कारणतासे ग्रहण करके प्रवृत्त होता है; और वह प्रवृत्त होता हुआ

१ विरूप—ज्ञानके स्वरूपसे भिन्न स्वरूपवाले । (उपदेश, मन और इन्द्रियाँ पौद्गलिक हैं इसलिये उनका रूप ज्ञानके स्वरूपसे भिन्न है । वे इन्द्रियज्ञानमें बहिरंग कारण हैं ।)

प्रदेशम् । मूर्तमेवावगच्छति तथाविधविषयनिबन्धनसद्भावात्प्रमूर्तम् । वर्तमानमेव परिच्छिन्नसि
विषयविषयिसन्निपातसद्भावात् तु वृत्तं वत्स्यञ्च । यच्च पुनरनावरणमनिन्द्रियं ज्ञानं तस्य समिद्ध-
धूमध्वजस्येवानेकप्रकारतालिङ्गितं दाह्यं दाह्यतानतिक्रमादाह्यमेव यथा तथात्मनः अप्रदेशं
सप्रदेशं मूर्तममूर्तमजातमतिवाहितं च पर्यायजातं ज्ञेयतानतिक्रमात्परिच्छेद्यमेव भवतीति ॥४१॥

अथ ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणा क्रिया ज्ञानात् भवतीति श्रद्धाति—

परिणमदि णेयमट्टं णादा जदि णेव स्वाइगं तस्स ।

णाणं ति तं जिणिंदा खवयनं कम्ममेवुत्ता ॥ ४२ ॥

परिणमनि ज्ञेयमर्थं ज्ञाता यदि नैव क्षायिकं तस्य ।

ज्ञानमिति तं जिनेन्द्राः क्षपयन्नं कर्मैवोक्तवन्नः ॥ ४२ ॥

सप्रदेशको ही जानता है, क्योंकि वह स्थूलको जाननेवाला है, अप्रदेशको नहीं जानता,
(क्योंकि वह सूक्ष्मको जाननेवाला नहीं है); वह मूर्तको ही जानता है, क्योंकि
वैसे (मूर्तिक) विषयके साथ उसका सम्बन्ध है, वह अमूर्तको नहीं जानता (क्योंकि
अमूर्तिक विषयके साथ इन्द्रियज्ञानका सम्बन्ध नहीं है); वह वर्तमानको ही जानता
है क्योंकि विषय-विषयीके सन्निपात सद्भाव है, वह प्रवर्तित हो चुकनेवालेको और
भविष्यमें प्रवृत्त होनेवालेको नहीं जानता (क्योंकि इन्द्रिय और पदार्थके
सन्निकर्षका अभाव है) ।

परन्तु जो अनावरण अनिन्द्रिय ज्ञान है, उसे अपने अप्रदेश, सप्रदेश, मूर्त
और अमूर्त (पदार्थ मात्र) तथा अनुत्पन्न एवं व्यतीत पर्यायमात्र, ज्ञेयताका अतिक्रमण
न करनेसे, ज्ञेय ही है—जैसे प्रज्वलित अग्निको अनेक प्रकारका ईंधन, दाह्यताका
अतिक्रमण न करनेसे दाह्य ही है । (जैसे प्रदीप्त अग्नि दाह्यमात्रको—ईंधनमात्रको—
जला देती है, उसीप्रकार निरावरण ज्ञान ज्ञेयमात्रको—द्रव्यपर्यायमात्रको—
जानता है) ॥ ४१ ॥

अब, यह श्रद्धा व्यक्त करते हैं कि ज्ञेय पदार्थरूप परिणमन जिसका लक्षण है
ऐसी (ज्ञेयार्थपरिणमनस्वरूप) क्रिया ज्ञानमेंसे नहीं होती:—

गाथा ४२

अन्वयार्थः—[ज्ञाता] जाता [यदि] यदि [ज्ञेयं अर्थ] ज्ञेय पदार्थरूप
[परिणमति] परिणमित होता हो तो [तस्य] उसके [क्षायिकं ज्ञानं] क्षायिक ज्ञान

परिच्छेदा हि यत्परिच्छेद्यमर्थं परिणमति तन्न तस्य सकलकर्मकभक्षयप्रवृत्तस्वाभाविक-
परिच्छेदनिदानमथवा ज्ञानमेव नास्ति तस्य । यतः प्रत्यर्थपरिणतिद्वारेण मृततृष्णाम्भोमार-
संभावनाकरणमानसः सुदुःसहं कर्मभारमेवोपशुञ्चानः स जिनेन्द्रैरुद्गीतः ॥ ४२ ॥

अथ कृतस्तर्हि ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणा क्रिया तत्फलं च भवतीति विवेचयति—

उदयगदा कम्मंमा जिणवरवसहेहि णियदिणा भणिया ।
तेसु विमूढो रत्तो दुट्ठो वा बन्धमणुभवदि ॥ ४३ ॥

उदयगताः कर्मांशा जिनवरवृषभैः नियत्या भणिताः ।

तेषु विमूढो रत्तो दुष्टो वा बन्धमनुभवति ॥ ४३ ॥

[न एव इति] होता ही नहीं; [जिनेन्द्राः] जिनेन्द्रदेवोंने [तं] उसे [कर्म एव] कर्मको ही [क्षययन्तं] अनुभव करनेवाला [उक्तवन्तः] कहा है ।

टीकाः—यदि ज्ञाता ज्ञेय पदार्थरूप परिणमित होता हो, तो उसे सकल कर्मवनके क्षयसे प्रवर्तमान स्वाभाविक जानपनका कारण (क्षायिक ज्ञान) नहीं है, अथवा उसे ज्ञान ही नहीं है; क्योंकि प्रत्येक पदार्थरूपसे परिणतिके द्वारा मृगतृष्णामें जलसमूहकी कल्पना करनेकी भावनावाला वह (आत्मा) अत्यन्त दुःसह कर्मभारको ही भोगता है, ऐसा जिनेन्द्रोंने कहा है ।

भावार्थः—ज्ञेय पदार्थरूपसे परिणमन करना अर्थात् यह हरा है, यह पीला है, इत्यादि विकल्परूपसे ज्ञेयरूप पदार्थोंमें परिणमन करना वह कर्मका भोगना है, ज्ञानका नहीं । निर्विकार सहज आनन्दमें लीन रहकर सहजरूपसे जानते रहना वह ही ज्ञानका स्वरूप है; ज्ञेय पदार्थोंमें रुकना—उनके सन्मुख वृत्ति होना, वह ज्ञानका स्वरूप नहीं है ॥ ४२ ॥

(यदि ऐसा है) तो फिर ज्ञेय पदार्थरूप परिणमन जिसका लक्षण है ऐसी (ज्ञेयार्थपरिणमनस्वरूप) क्रिया और उसका फल कहाँसे (किस कारणसे) उत्पन्न होता है, यह विवेचन करते हैंः—

गाथा ४३

अन्वयार्थः—[उदयगताः कर्मांशाः] (संसारी जीवके) उदयप्राप्त कर्मांश (जानावरणीय आदि पुद्गलकर्मके भेद) [नियत्या] नियमसे [जिनवर वृषभैः]

संसारिणो हि नियमेन तावदुदयगताः पुद्गलकर्माशाः सन्त्येव । अथ स सत्सु तेषु संचेतयमानो मोहरागद्वेषपरिणतत्वात् ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणया क्रियया युज्यते । तत एव च क्रियाफलभूतं बन्धमनुभवति । अतो मोहोदयात् क्रियाक्रियाफले न तु ज्ञानात् ॥ ४३ ॥

अथ केवलिनां क्रियापि क्रियाफलं न साधयतीत्यनुशास्ति—

ठाण्णिसेज्जविहारा धम्मवदेमो य णियदयो तेमिं ।

अरहंताणं काले मायाचारो व्व इत्थीणं ॥ ४४ ॥

स्थाननिषद्याविहारा धर्मोपदेशश्च नियतयस्तेषाम् ।

अर्हतां काले मायाचार इव स्त्रीणाम् ॥ ४४ ॥

जिनवर वृषभोने [भणिताः] कहे हैं । [तेषु] (जीव) उन कर्माशोंके होने पर, [विमूढः रक्तः दुष्टः वा] मोही, रागी अथवा द्वेषी होता हुआ [बन्धं अनुभवति] बन्धका अनुभव करता है ।

टीकाः—प्रथम तो, संसारी जीवके नियमसे उदयगत पुद्गल कर्माश होते ही हैं । और वह संसारी जीव उन उदयगत कर्माशोंके अस्तित्वमें, चेतते-जानते-अनुभव करते हुए, मोह-राग-द्वेषमें परिणत होनेसे ज्ञेय पदार्थोंमें परिणमन जिसका लक्षण है ऐसी (ज्ञेयार्थपरिणमनस्वरूप) क्रियाके साथ युक्त होता है; और इसीलिये क्रियाके फलभूत बन्धका अनुभव करना है । इससे (यह कहा है कि) मोहके उदयसे ही (मोहके उदयमें युक्त होनेके कारणसे ही) क्रिया और क्रियाफल होता है, ज्ञानसे नहीं ।

भावार्थः—समस्त संसारी जीवोंके कर्मका उदय है, परन्तु वह उदय बन्धका कारण नहीं है । यदि कर्मनिमित्तक इष्ट-अनिष्ट भावोंमें जीव रागी-द्वेषी-मोही होकर परिणमन करे तो बन्ध होता है । इससे यह बात सिद्ध हुई कि ज्ञान, उदयप्राप्त पौद्गलिक कर्म या कर्मोदयसे उत्पन्न देहादिकी क्रियाएँ बन्धका कारण नहीं हैं, बन्धके कारण मात्र राग-द्वेष-मोहभाव हैं । इसलिये वे भाव सर्वप्रकारसे त्यागने योग्य हैं ॥ ४३ ॥

अब, यह उपदेशते हैं कि केवली भगवानके क्रिया भी क्रियाफल (बन्ध) उत्पन्न नहीं करतीः—

गाथा ४४

अन्वयार्थः—[तेषाम् अर्हतां] उन अरहन्त भगवन्तोंके [काले] उस समय

यथा हि महिलानां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्भावात् स्वभावभूत एव मायोपगुण्ठनागुण्ठितो व्यवहारः प्रवर्तते, तथा हि केवलिनां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्भावात् स्थानमासनं विहरणं धर्मदेशना च स्वभावभूता एव प्रवर्तन्ते । अपि चाविरुद्धमेतदम्बोधरदृष्टान्तात् । यथा खन्वम्बोधराकारपरिणतानां पुद्गलानां गमनमवस्थानं गर्जनमम्बुवर्षं च पुरुष-प्रयत्नमन्तरेणापि दृश्यन्ते, तथा केवलिनां स्थानादयोऽबुद्धिपूर्वका एव दृश्यन्ते, अतोऽमी स्थानादयो मोहोदयपूर्वकत्वाभावात् क्रियाविशेषा अपि केवलिनां क्रियाफलभूतबन्धसाधनानि न भवन्ति ॥ ४४ ॥

[स्थाननिषद्याविहाराः] खड़े रहना, बैठना, विहार [धर्मोपदेशः च] और धर्मोपदेश [स्त्रीणां मायाचारः इव] स्त्रियोंके मायाचारकी भाँति [नियतयः] स्वाभाविक ही— प्रयत्न बिना ही— होता है ।

टीकाः—जैसे स्त्रियोंके, प्रयत्नके बिना भी, उस प्रकारकी योग्यताका सद्भाव होनेसे स्वभावभूत ही मायाके ढक्कनसे ढँका हुआ व्यवहार प्रवर्तता है, उसीप्रकार केवलीभगवानके, बिना ही प्रयत्नके (—प्रयत्न न होनेपर भी) उस प्रकारकी योग्यताका सद्भाव होनेसे खड़े रहना, बैठना, विहार और धर्मदेशना स्वभावभूत ही प्रवर्तते हैं । और यह (प्रयत्नके बिना ही विहारादिका होना) बादलके दृष्टान्तसे अविरोद्ध है । जैसे बादलके आकाररूप परिणमित पुद्गलोंका गमन, स्थिरता, गर्जन और जलवृष्टि पुरुष-प्रयत्नके बिना भी देखी जाती है, उसीप्रकार केवलीभगवानके खड़े रहना इत्यादि अबुद्धिपूर्वक ही (इच्छाके बिना ही) देखा जाता है । इसलिये यह स्थानादिक (खड़े रहने-बैठने इत्यादिका व्यापार) मोहोदय पूर्वक न होनेसे, क्रिया-विशेष होने पर भी केवली भगवानके क्रियाफलभूत बन्धके साधन नहीं होते ।

भावार्थः—केवली भगवानके स्थान, आसन और विहार, यह काययोग सम्बन्धी क्रियाएँ तथा दिव्यध्वनिसे निश्चय-व्यवहार स्वरूप धर्मका उपदेश-वचनयोग सम्बन्धी क्रिया-अघातिकर्मके-निमित्तसे सहज ही होती है । उसमें केवली भगवानकी किञ्चित् मात्र इच्छा नहीं होती, क्योंकि जहाँ मोहनीय कर्मका सर्वथा क्षय होगया है वहाँ उसकी कार्यभूत इच्छा कहाँसे होगी ? इसप्रकार इच्छाके बिना ही—मोह-राग-द्वेषके बिना ही—होनेसे केवली भगवानके लिये वे क्रियाएँ बन्धका कारण नहीं होतीं ॥ ४४ ॥

अथैवं सति तीर्थकृतां पुण्यविपाकोऽकिञ्चित्कर एवेत्यवधारयति—

पुण्यफला अरहन्ता तेमिं किरिया पुणो हि ओदइया ।
मोहादीहिं विरहिया तम्हा सा खाइग ति मदा ॥४५॥

पुण्यफला अर्हन्तस्तेषां क्रिया पुनर्हि औदयिकी ।

मोहादिभिः विरहिता नस्मात् सा क्षायिकीति मता ॥ ४५ ॥

अर्हन्तः खलु सकलसम्यक्परिपक्वपुण्यकल्पपादपफला एव भवन्ति । क्रिया तु तेषां या काचन सा सर्वापि तदुदयानुभावसंभावितात्मसंभूतितया किलौदयिक्येव । अथैवंभूतापि सा समस्तमहामोहमूर्धाभिषिक्तस्कन्धावारस्यात्यन्तभये संभूतत्वान्मोहरागद्वेषरूपाणामुपरञ्जकानाम-

इसप्रकार होनेसे तीर्थकरोके पुण्यका विपाक अकिञ्चित्कर है (कुछ करता नहीं है, स्वभावका किञ्चित् घात करता नहीं है) ऐसा अब निश्चित् करते हैं:—

गाथा ४५

अन्वयार्थः—[अर्हन्तः] अरहन्त भगवान् [पुण्यफलाः] पुण्यफलवाले हैं [पुनः हि] और [तेषां क्रिया] उनकी क्रिया [औदयिकी] औदयिकी है; [मोहादिभिः विरहिता] मोहादिसे रहित है [तस्मात्] इसलिये [सा] वह [क्षायिकी] क्षायिकी [इति मता] मानी गई है ।

टीका:—अरहन्त भगवान् जिनके वास्तवमें पुण्यरूपी कल्पवृक्षके समस्त फल भलीभाँति परिपक्व हुए हैं ऐसे ही हैं, और उनकी जो भी क्रिया है वह सब उस (पुण्य)के उदयके प्रभावसे उत्पन्न होनेके कारण औदयिकी ही है । किन्तु ऐसी (पुण्यके उदयसे होनेवाली) होने पर भी वह सदा औदयिकी क्रिया महा मोह राजाकी समस्त सेनाके सर्वथा क्षयसे उत्पन्न होती है इसलिये मोहरागद्वेषरूपी 'उपरञ्जकोंका अभाव होनेसे चैतन्यके विकारका कारण नहीं होती इसलिये कार्यभूत बन्धकी अकारण-भूततासे और कार्यभूत मोक्षकी कारणभूततासे क्षायिकी ही क्यों न माननी चाहिये ? (अवश्य माननी चाहिये) और जब क्षायिकी ही माने तब कर्मविपाक (कर्मोदय) भी उनके (अरहन्तोंके) स्वभाव विघातका कारण नहीं होता; (यह निश्चित होता है) ।

१. उपरञ्जकों = उपराग-मलिनता करनेवाले (विकारी भाव) ।

भावाच्चैतन्यविकारकारणतामनासादयस्ती नित्यमौदयिकी कार्यभूतस्य बन्धस्याकारणभूततया कार्यभूतस्य मोक्षस्य कारणभूततया च क्षायिक्येव कथं हि नाम नानुमन्येत । अथानुमन्येत चेत्तर्हि कर्मविपाकोऽपि न तेषां स्वभावविघाताय ॥ ४५ ॥

अथ केवलिनामिव सर्वेषामपि स्वभावविघाताभावं निषेधयति—

जदि मो सुहो व अशुहो ण हवदि आदा सयं महावेण ।

संसारो वि ण विज्जदि मव्वेमिं जीवकायाणं ॥ ४६ ॥

यदि स शुभो वा अशुभो न भवति आत्मा स्वयं स्वभावेन ।

संसारोऽपि न विद्यते सर्वेषां जीवकायानाम् ॥ ४६ ॥

भावार्थः—अरहन्त भगवानके जो दिव्य ध्वनि, विहार आदि क्रियाएँ हैं वे निष्क्रिय शुद्ध आत्मतत्त्वके प्रदेशपरिस्पन्दमें निमित्तभूत पूर्वबद्ध कर्मोदयसे उत्पन्न होती हैं इसलिये औदयिकी हैं । वे क्रियाएँ अरहन्त भगवानके चैतन्यविकाररूप भावकर्म उत्पन्न नहीं करतीं, क्योंकि (उनके) निर्मोह शुद्ध आत्मतत्त्वके रागद्वेषमोहरूप विकारमें निमित्तभूत मोहनीयकर्मका क्षय हो चुका है । और वे क्रियाएँ उन्हें, रागद्वेष मोहका अभाव होजानेसे नवीन बन्धमें कारणरूप नहीं होतीं, प्रत्युत वे पूर्वकर्मोंके क्षयमें कारणरूप हैं, क्योंकि जिन कर्मोंके उदयसे वे क्रियाएँ होती हैं वे कर्म अपना रस देकर खिर जाते हैं । इसप्रकार मोहनीयकर्मके क्षयसे उत्पन्न होनेसे और कर्मोंके क्षयमें कारणभूत होनेसे अरहन्तभगवानकी वह औदयिकी क्रिया क्षायिकी कहलाती है ॥ ४५ ॥

अब, केवलीभगवानकी भाँति समस्त जीवोंके स्वभावविघातका अभाव होनेका निषेध करते हैं:—

गाथा ४६

अन्वयार्थः—[यदि] यदि (यह माना जाये कि) [सः आत्मा] आत्मा [स्वयं] स्वयं [स्वभावेन] स्वभावसे (अपने भावसे) [शुभः वा अशुभः] शुभ या अशुभ [न भवति] नहीं होता (शुभाशुभ भावमें परिणमित ही नहीं होता) [सर्वेषांजीवकायानां] तो समस्त जीव निकायोंके [संसारः अपि] संसार भी [न विद्यते] विद्यमान नहीं है (ऐसा सिद्ध होगा) ।

यदि खल्वेकान्तेन शुभाशुभभावस्वभावेन स्वयमात्मा न परिणमते तदा सर्वदैव सर्वथा निर्विघातेन शुद्धस्वभावेनैवावतिष्ठते । तथा च सर्व एव भूतग्रामाः समस्तबन्धसाधनशून्यत्वादाजवंजवाभावस्वभावतो नित्यमुक्ततां प्रतिपद्येरन् । तच्च नाभ्युपगम्यते । आत्मनः परिणामधर्मत्वेन स्फटिकस्य जपातापिच्छरागस्वभावत्ववत् शुभाशुभस्वभावत्वद्योतनात् ॥ ४६ ॥

अथ पुनरपि प्रकृतमनुसृत्यातीन्द्रियज्ञानं सर्वज्ञत्वेनाभिनन्दति—

टीका:—यदि एकान्तसे (यह माना जाये कि) शुभाशुभभावरूप स्वभावमें (-अपने भावमें) आत्मा स्वयं परिणमित नहीं होता, तो यह सिद्ध हुआ कि (वह) सदा ही सर्वथा निर्विघात शुद्ध स्वभावसे ही अवस्थित है । और इसप्रकार समस्त जीवसमूह समस्त बन्धकारणोंसे रहित सिद्ध होनेसे संसारअभावरूप स्वभावके कारण नित्यमुक्तताको प्राप्त हो जायेंगे (नित्यमुक्त सिद्ध होवेंगे) ! किन्तु ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता; क्योंकि आत्मा परिणामधर्मवाला होनेसे, जैसे स्फटिकमणि, जवाकुमुम और तमालपुष्पके रंग-रूप स्वभावयुक्ततासे प्रकाशित होता है, उसीप्रकार उसे (आत्माके) शुभाशुभ स्वभावयुक्तता प्रकाशित होती है । (जैसे स्फटिकमणि लाल और काले फूलके निमित्तसे लाल और काले स्वभावमें परिणमित दिखाई देता है, उसीप्रकार आत्मा कर्मोपाधिके निमित्तसे शुभाशुभ स्वभावरूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है) ।

भावार्थ:—जैसे शुद्धनयसे कोई जीव शुभाशुभ भावरूप परिणमित नहीं होता उसीप्रकार यदि अशुद्धनयसे भी परिणमित न होता हो तो व्यवहारनयसे भी समस्त जीवोंके संसारका अभाव होजाये और सभी जीव सदा मुक्त ही सिद्ध होजावें ? किन्तु यह तो प्रत्यक्ष विरुद्ध है । इसलिये जैसे केवलीभगवानके शुभाशुभ परिणामोंका अभाव है उसीप्रकार सभी जीवोंके सर्वथा शुभाशुभ परिणामोंका अभाव नहीं समझना चाहिये ॥ ४६ ॥

अब, पुनः प्रकृत (चालू विषय) का अनुसरण करके अतीन्द्रिय ज्ञानको सर्वज्ञरूपसे अभिनन्दन करते हैं । अतीन्द्रिय ज्ञान सबका ज्ञाना है, इसप्रकार उसकी प्रशंसा करते हैं :—

जं तत्कालियमिदरं जाणदि जुगवं समंतदो सव्वं ।
अत्थं विचित्तविसमं तं णाणं खाइयं भणियं ॥ ४७ ॥

यत्तात्कालिकमितरं जानाति युगपत्समन्ततः सर्वम् ।
अर्थं विचित्रविषमं तत् ज्ञानं भायिकं भणितम् ॥ ४७ ॥

तत्कालकलितवृत्तिकमतीतोदर्ककालकलितवृत्तिकं चाप्येकपद एव समन्ततोऽपि सकल-
मप्यर्थजातं पृथक्स्ववृत्तस्वलक्षणलक्ष्मीकटाक्षितानेकप्रकारव्यञ्जितवैचित्र्यमितरेतरविरोधघापिता-
समानजातीयत्वोद्दामितवैषम्यं भायिकं ज्ञानं किल जानीयात् । तस्य हि क्रमप्रवृत्तिहेतुभूतानां

गाथा ४७

अन्वयार्थः—[यत्] जो [युगपद्] एकही साथ [समन्ततः] सर्वतः (सर्व-
आत्मप्रदेशोंसे) [तात्कालिकं] तात्कालिक [इतरं] या अतात्कालिक, [विचित्रविषमं]
विचित्र (अनेक प्रकारके) और विषम (मूर्त, अमूर्त आदि असमान जातिके)
[सर्वं अर्थ] समस्त पदार्थोंको [जानाति] जानता है [तत् ज्ञानं] उस ज्ञानको
[भायिकं भणितम्] क्षायिक कहा है ।

टीकाः—क्षायिक ज्ञान वास्तवमें एक समयमें ही सर्वतः (सर्व आत्मप्रदेशोंसे),
वर्तमानमें वर्तते तथा भूत-भविष्यत कालमें वर्तते उन समस्त पदार्थोंको जानता है
जिनमें 'पृथक्स्वरूपसे वर्तते स्वलक्षणरूप लक्ष्मीसे आलोकित अनेक प्रकारोंके कारण वैचित्र्य
प्रगट हुआ है और जिनमें परस्पर विरोधसे उत्पन्न होनेवाली असमान जातीयताके
कारण वैषम्य प्रगट हुआ है । (इसी बातको युक्तिपूर्वक समझते हैंः—) क्रम
प्रवृत्तिके हेतुभूत, क्षयोपशम अवस्थामें रहनेवाले ज्ञानावरणीय कर्मपुद्गलोंका उसके
(क्षायिक ज्ञानके) अत्यन्त अभाव होनेसे वह तात्कालिक या अतात्कालिक पदार्थ-
मात्रको समकालमें ही प्रकाशित करता है; (क्षायिक ज्ञान) सर्वतः विशुद्ध होनेके
कारण प्रतिनियत प्रदेशोंकी विशुद्धि (सर्वतः विशुद्धि) के भीतर डूब जानेसे वह
सर्वतः (सर्व आत्मप्रदेशोंसे) भी प्रकाशित करता है; सर्व आवरणोंका क्षय होनेसे,
देश आवरणका क्षयोपशम न रहनेसे वह सबको भी प्रकाशित करता है, सर्वप्रकार

१. द्रव्योंके भिन्न भिन्न वर्तनेवाले निज निज लक्षण उन द्रव्योंकी लक्ष्मी-सम्पत्ति-शोभा हैं ।

क्षयोपशमावस्थावस्थितज्ञानावरणीयकर्मपुद्गलानामत्यन्ताभावात्तात्कालिकमतात्कालिकं वाप्यर्थ-
जातं तुल्यकालमेव प्रकाशेत । सर्वतो विशुद्धस्य प्रतिनियतदेशविशुद्धेरन्तःस्रवनात्
समन्ततोऽपि प्रकाशेत । सर्वावरणक्षयाद्देशावरणक्षयोपशमस्यानवस्थानात्सर्वमपि प्रकाशेत ।
सर्वप्रकारज्ञानावरणीयक्षयादसर्वप्रकारज्ञानावरणीयक्षयोपशमस्य विलयनाद्विचित्रमपि प्रकाशेत ।
असमानजातीयज्ञानावरणक्षयात्समानजातीयज्ञानावरणीयक्षयोपशमस्य विनाशनाद्विषममपि
प्रकाशेत । अलमथवातिविस्तरेण, अनिवारितप्रवरप्रकाशशालितया क्षायिकज्ञानमवश्यमेव
सर्वदा सर्वत्र सर्वथा सर्वमेव जानीयात् ॥ ४७ ॥

अथ सर्वमजानन्नेकमपि न जानातीति निश्चिनोति—

ज्ञानावरणके क्षयके कारण (सर्व प्रकारके पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञानके आवरणमें
निमित्तभूत कर्मके क्षय होनेसे), असर्वप्रकारके ज्ञानावरणका क्षयोपशम (अमुक ही
प्रकारके पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञानके आवरणमें निमित्तभूत कर्मोंका क्षयोपशम)
विलयको प्राप्त होनेसे वह विचित्र (अनेक प्रकारके पदार्थों) को भी प्रकाशित करता
है; असमानजातीय ज्ञानावरणके क्षयके कारण (असमानजातिके पदार्थोंको जाननेवाले
ज्ञानके आवरणमें निमित्तभूत कर्मोंके क्षयके कारण) समानजातीय ज्ञानावरणका
क्षयोपशम (समानजातिके ही पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञानके आवरणमें निमित्तभूत
कर्मोंका क्षयोपशम) नष्ट होजानेसे वह विषम (असमानजातिके पदार्थों) को भी
प्रकाशित करता है । अथवा, अतिविस्तारसे पूरा पड़े (कुछ लाभ नहीं) ? जिसका
अनिवार फैलाव है, ऐसा प्रकाशमान होनेसे क्षायिक ज्ञान अवश्यमेव, सर्वदा, सर्वत्र,
सर्वथा सर्वको जानता है ।

भावार्थः—क्रमपूर्वक जानना, नियत आत्मप्रदेशोंमें ही जानना, अमुकको ही
जानना,—इत्यादि मर्यादायें मति,—श्रुतादि आयोपशमिक ज्ञानमें ही संभव है । क्षायिक-
ज्ञानके अमर्यादित होनेसे एक ही साथ सर्व आत्मप्रदेशोंमें तीनों कालकी पर्यायोंके
साथ सर्व पदार्थोंको उन पदार्थोंके अनेक प्रकारके और विरुद्ध जातिके होने पर भी
जानता है, अर्थात् केवलज्ञान एक ही समयमें सर्व आत्मप्रदेशोंमें समस्त द्रव्य, क्षेत्र,
काल, भावको जानता है ॥ ४७ ॥

अब, यह निश्चित करते हैं कि जो सबको नहीं जानता वह एकको भी
नहीं जानता:—

जो ण विजाणदि जुगवं अत्थे तिकालिगे तिहुवणत्थे ।
णादुं तस्स ण सकं सपज्जयं दब्बमेगं वा ॥ ४८ ॥

यो न विजानानि युगपदर्थान् त्रैकालिकान् त्रिभुवनस्थान् ।
ज्ञातुं तस्य न शक्यं सपर्ययं द्रव्यमेकं वा ॥ ४८ ॥

इह किलैकमाकाशद्रव्यमेकं धर्मद्रव्यमेकमधर्मद्रव्यमसंख्येयानि कालद्रव्याप्यनन्तानि जीवद्रव्याणि । ततोऽप्यनन्तगुणानि पुद्गलद्रव्याणि । तथैवामेव प्रत्येकमतीतानागतानुभूयमान-मेदभिन्ननिरवधिवृत्तिप्रवाहपरिपातिनोऽनन्ताः पर्यायाः । एवमेतत्समस्तमपि समुदितं ज्ञेयं,

गाथा ४८

अन्वयार्थः—[यः] जो [युगपद्] एकही साथ [त्रैकालिकान् त्रिभुवनस्थान्] त्रैकालिक त्रिभुवनस्थ (तीनों कालके और तीनोंलोकके) [अर्थान्] पदार्थोंको [न विजानानि] नहीं जानता, [तस्य] उसे [सपर्ययं] पर्याय सहित [एकं द्रव्यं वा] एक द्रव्य भी [ज्ञातुं न शक्यं] जानना शक्य नहीं है ।

टीकाः— इस विश्वमें एक आकाशद्रव्य, एक धर्मद्रव्य, एक अधर्मद्रव्य, असंख्य कालद्रव्य और अनन्त जीवद्रव्य तथा उनसे भी अनन्तगुने पुद्गल द्रव्य हैं, और उन्हींके प्रत्येकके अतीत, अनागत और वर्तमान ऐसे (तीन) प्रकारोंसे भेदवाली 'निरवधि' 'वृत्तिप्रवाह'के भीतर पड़ने वाली (—समा जानेवाली) अनन्त पर्यायें हैं । इसप्रकार यह समस्त (द्रव्यों और पर्यायोंका) समुदाय ज्ञेय है । उसीमें ही एक कोई भी जीवद्रव्य ज्ञाता है । अब यहाँ जैसे समस्त दाह्यको दहकती हुई अग्नि समस्त-दाह्यहेतुक (समस्त दाह्य जिसका निमित्त है ऐसा) समस्तदाह्याकारपर्यायरूप परिणमित सकल एक 'दहन' जिसका आकार (स्वरूप) है, ऐसे अपने रूपमें (अग्निरूपमें) परिणमित होती है, वैसे ही समस्त ज्ञेयको जानता हुआ ज्ञाता (आत्मा) समस्तज्ञेयहेतुक समस्तज्ञेयाकारपर्यायरूप परिणमित 'सकल एक ज्ञान जिसका आकार (स्वरूप) है ऐसे निजरूपसे—जो चेतनताके कारण स्वानुभवप्रत्यक्ष है उस रूप—

१. निरवधि—अवधि—हृद्—मर्यादाअन्तरहित) २. वृत्ति = वर्त्तन करना; उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य; अस्तित्व, परिणति । ३. दहन—जलाना, दहना । ४. सकल = सारा; परिपूर्ण ।

इहैवैकं किञ्चिज्जीवद्रव्यं ज्ञात् । अथ यथा समस्तं दाह्यं दहन् दहनः समस्तदाह्यहेतुकसमस्तदाह्याकारपर्यायपरिणतसकलैकदहनाकारमात्मानं परिणमति, तथा समस्तं ज्ञेयं जानन् ज्ञाता समस्तज्ञेयहेतुकसमस्तज्ञेयाकारपर्यायपरिणतसकलैकज्ञानाकारं चेतनत्वात् स्वानुभवप्रत्यक्षमात्मानं परिणमति । एवं किल द्रव्यस्वभावः । यस्तु समस्तं ज्ञेयं न जानाति स समस्तं दाह्यमदहन् समस्तदाह्यहेतुकसमस्तदाह्याकारपर्यायपरिणतसकलैकदहनाकारमात्मानं दहन इव समस्तज्ञेयहेतुकसमस्तज्ञेयाकारपर्यायपरिणतसकलैकज्ञानाकारमात्मानं चेतनत्वात् स्वानुभवप्रत्यक्षत्वेऽपि न परिणमति । एवमेतदायाति यः सर्वं न जानाति स आत्मानं न जानाति ॥ ४८ ॥

परिणमित होता है । इसप्रकार वास्तवमें द्रव्यका स्वभाव है । किन्तु जो समस्त ज्ञेयको नहीं जानता वह (आत्मा), जैसे समस्त दाह्यको न दहती हुई अग्नि समस्तदाह्यहेतुक समस्तदाह्याकारपर्यायरूप परिणमित सकल एक दहन जिसका आकार है ऐसे अपने रूपमें परिणमित नहीं होता उसी प्रकार, समस्तज्ञेयहेतुक समस्तज्ञेयाकारपर्यायरूप परिणमित सकल एक ज्ञान जिसका आकार है ऐसे अपने रूपमें—स्वयं चेतनताके कारण स्वानुभवप्रत्यक्ष होने पर भी—परिणमित नहीं होता, (अपनेको परिपूर्णतया अनुभव नहीं करता—नहीं जानता) इसप्रकार यह फलित होता है कि जो सबको नहीं जानता वह अपनेको (आत्माको) नहीं जानता ।

भावार्थः—जो अग्नि काष्ठ, तृण, पत्ते इत्यादि समस्त दाह्यपदार्थोंको नहीं जलाता, उसका दहनस्वभाव (काष्ठादिक समस्त दाह्य जिसका निमित्त है ऐसा) समस्तदाह्याकारपर्यायरूप परिणमित न होनेसे अपूर्णरूपसे परिणमित होता है—परिपूर्णरूपसे परिणमित नहीं होता, इसलिये परिपूर्ण एक दहन जिसका स्वरूप है ऐसी वह अग्नि अपने रूप ही पूर्ण रीत्या परिणमित नहीं होती; उसी प्रकार यह आत्मा समस्त द्रव्य-पर्यायरूप समस्त ज्ञेयको नहीं जानता, उसका ज्ञान (समस्त ज्ञेय जिसका निमित्त है ऐसे) समस्तज्ञेयाकारपर्यायरूप परिणमित न होनेसे अपूर्णरूपसे परिणमित होता है—परिपूर्ण रूपसे परिणमित नहीं होता, इसलिये परिपूर्ण एक ज्ञान जिसका स्वरूप है ऐसा वह आत्मा अपने रूपसे ही पूर्णरीत्या परिणमित नहीं होता अर्थात् निजको ही पूर्णरीत्या अनुभव नहीं करता—नहीं जानता । इसप्रकार सिद्ध हुआ कि जो सबको नहीं जानता वह एकाको—अपनेको (पूर्ण रीत्या) नहीं जानता ॥ ४८ ॥

अथैकमजानन् सर्वं न जानानीति निश्चिनोति—

द्वयं अणंतपञ्जयमेगमणंताणि द्वयजादाणि ।

ण विजाणदि जदि जुगवं किध सो सव्वाणि जाणादि ॥ ४६ ॥

द्रव्यमनन्तपर्यायमेकमनन्तानि द्रव्यजातानि ।

न विजानाति यदि युगपत् कथं स सर्वाणि जानाति ॥ ४९ ॥

आत्मा हि तावत्स्वयं ज्ञानमयत्वे सति ज्ञातृत्वात् ज्ञानमेव । ज्ञानं तु प्रत्यात्मवर्ति प्रतिभासमयं महासामान्यम् । तत्तु प्रतिभासमयानन्तविशेषव्यापि । ते च सर्वद्रव्यपर्यायनिबन्धनाः । अथ यः सर्वद्रव्यपर्यायनिबन्धनानन्तविशेषव्यापिप्रतिभासमयमहासामान्यरूपमात्मानं स्वानुभव-प्रत्यक्षं न करोति स कथं प्रतिभासमयमहासामान्यव्याप्यप्रतिभासमयानन्तविशेषनिबन्धनभूत-

अब, यह निश्चित करते हैं कि एकको न जाननेवाला सबको नहीं जानता:—

गाथा ४९

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [अनन्तपर्यायं] अनन्त पर्यायवाले [एकं द्रव्यं] एक द्रव्यको (आत्मद्रव्यको) [अनन्तानि द्रव्यजातानि] तथा अनन्त द्रव्यसमूहको [युगपद्] एक ही साथ [न विजानाति] नहीं जानता [सः] तो वह [सर्वाणि] सब (अनन्त द्रव्यसमूह) को [कथं जानाति] कैसे जान सकेगा ? (अर्थात् जो आत्मद्रव्यको नहीं जानता वह समस्त द्रव्यसमूहको नहीं जान सकता) ।

प्रकारान्तरसे अन्वयार्थः—[यदि] यदि [अनन्त पर्यायं] अनन्त पर्यायवाले [एकं द्रव्यं] एक द्रव्यको (आत्मद्रव्यको) [न विजानाति] नहीं जानता [सः] तो वह [युगपद्] एक ही साथ [सर्वाणि अनन्तानि द्रव्य जातानि] सर्व अनन्त द्रव्य-समूहको [कथं जानाति] कैसे जान सकेगा ?

टीका:—पहले तो आत्मा वास्तवमें स्वयं ज्ञानमय होनेसे ज्ञातृत्वके कारण ज्ञान ही है; और ज्ञान प्रत्येक आत्मामें वर्तता (रहता) हुआ प्रतिभासमय महासामान्य है । वह प्रतिभासमय अनन्तविशेषोंमें व्याप्त होनेवाला है; और उन विशेषोंके (भेदोंके) निमित्त सर्व द्रव्यपर्याय हैं । अब जो पुरुष सर्व द्रव्यपर्याय जिनके निमित्त हैं ऐसे अनन्त विशेषोंमें व्याप्त होनेवाले प्रतिभासमय महासामान्यरूप

सर्वद्रव्यपर्यायान् प्रत्यक्षीकुर्यात् । एवमेतदायाति य आत्मानं न जानाति स सर्वं न जानाति । अथ सर्वज्ञानादात्मज्ञानमात्मज्ञानात्सर्वज्ञानमित्यवतिष्ठते । एवं च सति ज्ञानमयत्वेन स्वसंचेतकत्वादात्मनो ज्ञातृज्ञेययोर्वस्तुत्वेनान्यत्वे सत्यपि प्रतिभासप्रतिभास्यमानयोः स्वस्याम-वस्थायामन्योन्यसंबलनेनात्यन्तमशक्यविवेचनत्वात्सर्वमात्मनि निखातमिव प्रतिभाति । यद्येवं न

आत्माका स्वानुभव प्रत्यक्ष नहीं करता, वह प्रतिभासमय महासामान्यके द्वारा 'व्याप्य' (—व्याप्य होने योग्य) जो प्रतिभासमय अनन्त विशेष हैं उनकी निमित्तभूत सर्व द्रव्य पर्यायोंको कैसे प्रत्यक्ष कर सकेगा ? (नहीं कर सकेगा) इससे यह फलित हुआ कि आत्माको नहीं जानता वह सबको नहीं जानता ।

अब इससे यह निश्चित होता है कि सर्वके जानसे आत्माका ज्ञान और आत्माके ज्ञानसे सर्वका ज्ञान (होता है) और ऐसा होनेसे, आत्मा ज्ञानमयताके कारण स्वसंचेतक होनेसे, ज्ञाता और ज्ञेयका वस्तुरूपसे अन्यत्व होनेपर भी प्रतिभास और प्रतिभास्यमानकर अपनी अवस्थामें अन्योन्य मिलन होनेके कारण (ज्ञान और ज्ञेय, आत्माकी—ज्ञानकी अवस्थामें परस्पर मिश्रित—एकमेकरूप होनेसे) उन्हें भिन्न करना अत्यन्त अशक्य है इसलिये, मानो सब कुछ आत्मामें 'निखात' (प्रविष्ट) होगया हो इसप्रकार प्रतिभासित होता है—ज्ञात होता है । (आत्मा ज्ञानमय है इसलिये वह अपनेको अनुभव करता है—जानता है, और अपनेको जाननेपर समस्त ज्ञेय ऐसे ज्ञात होते हैं मानों वे ज्ञानमें स्थित ही हों, क्योंकि ज्ञानकी अवस्थामेंसे ज्ञेयाकारोंको भिन्न करना अशक्य है) यदि ऐसा न हो तो (यदि आत्मा सबको न जानता हो तो) ज्ञानके परिपूर्ण आत्मसंचेतनका अभाव होनेसे परिपूर्ण एक आत्माका भी ज्ञान सिद्ध न हो ।

भावार्थः—४८ और ४९ वीं गाथामें यह बताया गया है कि जो सबको नहीं जानता वह अपनेको नहीं जानता, और जो अपनेको नहीं जानता वह सबको नहीं जानता । अपना ज्ञान और सबका ज्ञान एक साथ ही होता है । स्वयं और सर्व इन दोमेंसे एकका ज्ञान हो और दूसरेका न हो यह असम्भव है ।

१. ज्ञान सामान्य व्यापक है, और ज्ञान विशेष-भेद व्याप्य हैं । उन ज्ञान विशेषोंके निमित्त ज्ञेयभूत सर्व द्रव्य और पर्यायें हैं । २. निखात = खोदकर भीतर गहरा उतर गया हुवा; भीतर प्रविष्ट हुआ ।

स्यात् तदा ज्ञानस्य परिपूर्णात्मसंचेतनाभावात् परिपूर्णस्यैकस्यात्मनोऽपि ज्ञानं न सिद्धयेत् ॥ ४९ ॥

अथ क्रमकृतप्रवृत्त्या ज्ञानस्य सर्वगतत्वं न सिद्धयतीति निश्चिनोति—

उप्पज्जदि जदि एाणं कमसो अट्टे पडुच्च णाणिस्स ।

तं एव हवदि णिच्चं ण खाड्ढं एव सव्वगदं ॥ ५० ॥

उत्पद्यते यदि ज्ञानं क्रमशोऽर्थान् प्रतीत्य ज्ञानिनः ।

तन्नैव भवति नित्यं न क्षायिकं नैव सर्वगतम् ॥ ५० ॥

यत्किल क्रमेणैकैकमर्थमालम्ब्य प्रवर्तते ज्ञानं तदेकार्थालम्बनादुत्पन्नमन्यार्थालम्बनात् प्रतीयमानं नित्यममत्तथा कर्मोदयादेकां व्यक्तिं प्रतिपन्नं पुनर्व्यक्त्यन्तरं प्रतिपद्यमानं क्षायिक-

यह कथन एकदेश ज्ञानकी अपेक्षासे नहीं किन्तु पूर्णज्ञानकी (केवलज्ञानकी) अपेक्षासे है ॥ ४९ ॥

अब यह निश्चिन करते हैं कि क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञानकी सर्वगतता सिद्ध नहीं होती—

गाथा ५०

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [ज्ञानिनः ज्ञानं] आत्माका ज्ञान [क्रमशः] क्रमशः [अर्थान् प्रतीत्य] पदार्थोंका अवलम्बन लेकर [उत्पद्यते] उत्पन्न होता हो [तत्] तो वह (ज्ञान) [न एव नित्यं भवति] नित्य नहीं है, [न क्षायिकं] क्षायिक नहीं है, [न एव सर्वगतम्] और सर्वगत नहीं है ।

टीकाः—जो ज्ञान क्रमशः एक एक पदार्थका अवलम्बन लेकर प्रवृत्ति करता है, वह एक पदार्थके अवलम्बनसे उत्पन्न होकर दूसरे पदार्थके अवलम्बनसे नष्ट होजानेसे नित्य नहीं होता, तथा कर्मोदयके कारण एक व्यक्तिको प्राप्त करके फिर अन्य व्यक्तिको प्राप्त करता है इसलिये क्षायिक भी न होता हुआ, वह अनन्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको प्राप्त होने (जानने) में असमर्थ होनेके कारण सर्वगत नहीं है ।

मप्यसदनन्तद्रव्यक्षेत्रकालभावानाक्रान्तुमशक्तत्वात् सर्वगतं न स्यात् ॥ ५० ॥

अथ यौगपद्यप्रवृत्त्यैव ज्ञानस्य सर्वगतत्वं सिद्धयतीति व्यवतिष्ठते—

तिकालणिञ्चविषमं मयलं मव्वत्थ संभवं चित्रं ।

युगवं जाणदि जोगहं अहो हि णाणस्म माहप्पं ॥ ५१ ॥

त्रैकान्यनित्यविषमं सकलं सर्वत्र संभवं चित्रम् ।

युगपज्जानाति जैनमहो हि ज्ञानस्य माहात्म्यम् ॥ ५१ ॥

भायिकं हि ज्ञानमतिशयास्पदीभूतपरममाहात्म्यं, यत्तु युगपदेव सर्वार्थानालम्ब्य प्रवर्तते ज्ञानं तद्दृक्कोत्कीर्णन्यायावस्थितसमस्तवस्तुक्षेयाकारतयाधिरोपितनित्यत्वं प्रतिपन्नसमस्त-व्यक्तित्वेनाभिव्यक्तस्वभावभासिभायिकभावं त्रैकान्येन नित्यमेव विषमीकृतां सकलामपि

भावार्थः—क्रमशः प्रवर्तमान ज्ञान अनित्य है, क्षायोपशमिक है । ऐसा क्रमिक ज्ञानवाला पुरुष सर्वज्ञ नहीं हो सकता ॥ ५० ॥

अब यह निश्चित होता है कि युगपत् प्रवृत्तिके द्वारा ही ज्ञानका सर्वगतत्व सिद्ध होता है (अक्रमसे प्रवर्तमान ज्ञान ही सर्वगत हो सकता है) :—

गाथा ५१

अन्वयार्थः—[त्रैकान्यनित्यविषमं] तीनों कालमें सदा विषम (असमान जातिके) [सर्वत्र संभवं] सर्व क्षेत्रके [चित्रं] अनेक प्रकारके [सकलं] समस्त पदार्थोंको [जैनं] जिनदेवका ज्ञान [युगपत् जानाति] एक साथ जानता है [अहो हि] अहो ! [ज्ञानस्य माहात्म्यम्] ज्ञानका माहात्म्य ।

टीकाः—वास्तवमें क्षायिक ज्ञानका, सर्वोत्कृष्टताका स्थानभूत परम माहात्म्य है; और जो ज्ञान एक साथही समस्त पदार्थोंका अवलम्बन लेकर प्रवृत्ति करता है वह ज्ञान—अपनेमें समस्त वस्तुओंके जेयाकार 'टंकोत्कीर्ण-न्यायसे स्थित होनेसे जिसने नित्यत्व प्राप्त किया है, और समस्त व्यक्तिको प्राप्त कर लेनेसे जिसने स्वभाव

१. टंकोत्कीर्ण न्याय—पत्थरमें टांकीसे उत्कीर्ण आकृतिकी भाँति ।

सर्वार्थसंभूतिमनन्तजातिप्रापितवैचित्र्यां परिच्छिन्ददक्रमसमाक्रान्तानन्तद्रव्यक्षेत्रकालभावतया प्रकटीकृतान्भूतमाहात्म्यं सर्वगतमेव स्यात् ॥ ५१ ॥

अथ ज्ञानिनो ज्ञप्तिक्रियासद्भावेऽपि क्रियाफलभूतं बन्धं प्रतिषेधयन्नुपसंहरति—

ण वि परिणमदि ए गेगहदि उप्पज्जदि एव तेसु अट्ठेसु ।
जाणरणवि ते आदा अबंधगो तेण परणत्तो ॥ ५२ ॥

नापि परिणमति न गृह्णाति उत्पद्यते नैव तेष्वर्थेषु ।

ज्ञानन्नपि तानात्मा अबन्धकस्तेन प्रज्ञप्तः ॥ ५२ ॥

प्रकाशक क्षायिकभाव प्रगट किया है, ऐसा-त्रिकालमें सदा विषम रहनेवाले (असमान जातिरूपसे परिणमित होनेवाले) और अनन्त प्रकारोंके कारण विचित्रताको प्राप्त सम्पूर्ण-सर्व पदार्थोंके समूहको जानता हुआ, अक्रमसे अनन्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको प्राप्त होनेसे जिसने अद्भुत माहात्म्य प्रगट किया है ऐसा सर्वगत ही है ।

भावार्थः—अक्रमसे प्रवर्तमान ज्ञान एक ज्ञेयसे दूसरेके प्रति नहीं बदलता इसलिये नित्य है, अपनी समस्त शक्तियोंके प्रगट हो जानेसे क्षायिक है । ऐसे अक्रमिक ज्ञानवाला पुरुष ही सर्वज्ञ हो सकता है । सर्वज्ञके इस ज्ञानका कोई परम अद्भुत माहात्म्य है ॥ ५१ ॥

अब, ज्ञानीके (केवलज्ञानी आत्माके) जप्तिक्रियाका सद्भाव होने पर भी उसके क्रियाके फलरूप बन्धका निषेध करते हुए उपसंहार करते हैं (केवलज्ञानी आत्माके जाननेकी क्रिया होने पर भी बन्ध नहीं होता, यह कहकर ज्ञान अधिकार पूर्ण करते हैं) :—

गाथा ५२

अन्वयार्थः—[आत्मा] (केवलज्ञानी) आत्मा [तान् जानन् अपि] पदार्थोंको जानता हुआ भी [न अपि परिणमति] उसरूप परिणमित नहीं होता, [न ग्रह्णाति] उन्हें ग्रहण नहीं करता [तेषु अर्थेषु न एव उत्पद्यते] और उन पदार्थोंके रूपमें उत्पन्न नहीं होता [तेन] इसलिये [अबन्धकः प्रज्ञप्तः] उसे अबन्धक कहा है ।

इह खलु 'उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहिं णियदिणा भणिया । तेसु विमूढो रत्तो दुट्ठो वा बंधमणुभवदि ॥' इत्यत्र सूत्रे उदयगतेषु पुद्गलकर्मांशेषु सत्सु संचेतयमानो मोहराग-द्वेषपरिणतत्वात् ज्ञेयार्थपरिणमनलक्षणया क्रियया युज्यमानः क्रियाफलभूतं बंधमनुभवति, न तु ज्ञानादिति प्रथममेवार्थपरिणमनक्रियाफलत्वेन बन्धस्य समर्थितत्वात् । तथा 'गेण्हदि णेव ण मुञ्चदि ण परं परिणमदि केवली भगवं । पेच्छदि समंतदो सो जाणदि सव्वं णिरवसेसं ॥' इत्यर्थपरिणमनादिक्रियाणामभावस्य शुद्धात्मनो निरूपितत्वाच्चाथानपरिणमतोऽगृह्यतस्तेष्वनुत्पद्यमानस्य चात्मनो ज्ञप्तिक्रियासद्भावेऽपि न खलु क्रियाफलभूतो बन्धः सिद्ध्यते ॥ ५२ ॥

टीकाः—यहाँ 'उदयगदा कम्मंसा जिणवरवसहेहिं णियदिणा भणिया । तेसु विमूढो रत्तो दुट्ठो वा 'बन्धमणुभवदि ॥' इस गाथा सूत्रमें, 'उदयगत पुद्गल कर्मांशोंके अस्तित्वमें चेतित होनेपर-जाननेपर-अनुभव करने पर मोह-राग-द्वेषमें परिणत होनेसे ज्ञेयार्थपरिणमनस्वरूप क्रियाके साथ युक्त होता हुआ आत्मा क्रियाफलभूत बन्धका अनुभव करता है, किन्तु ज्ञानमें नहीं' इसप्रकार प्रथम ही अर्थपरिणमनक्रियाके फलरूपसे बन्धका समर्थन किया गया है (बन्ध पदार्थरूपमें परिणमनरूप क्रियाका फल है यह निश्चित किया गया है) तथा 'गेण्हदि णेव ण मुञ्चदि ण परं परिणमदि केवली भगवं । पेच्छदि समंतदो सो जाणदि सव्वं 'णिरवसेसं ॥'

इस गाथा सूत्रमें शुद्धात्माके अर्थ परिणमनादि क्रियाओंका अभाव निरूपित किया गया है, इसलिये जो (आत्मा) पदार्थरूपमें परिणमित नहीं होता उसे ग्रहण नहीं करता और उसरूप उत्पन्न नहीं होता उस आत्माके जप्तिक्रियाका सद्भाव होनेपर भी वास्तवमें क्रियाफलभूत बन्ध सिद्ध नहीं होता ।

भावार्थः—कर्मके तीन भेद किये गये हैं—प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य । केवली भगवान्के प्राप्य कर्म, विकार्य कर्म और निर्वर्त्य कर्म ज्ञान ही है, क्योंकि वे ज्ञानको ही ग्रहण करते हैं, ज्ञानरूप ही परिणमित होते हैं और ज्ञानरूप ही उत्पन्न होते हैं, इसप्रकार ज्ञान ही उनका कर्म, और जप्तित्व ही उनकी क्रिया है । ऐसा होनेसे केवली भगवान्के बन्ध नहीं होता, क्योंकि जप्तिक्रिया बन्धका कारण नहीं है, किन्तु ज्ञेयार्थपरिणमनक्रिया अर्थात् ज्ञेय पदार्थोंके सन्मुख वृत्ति होना (ज्ञेय पदार्थोंके प्रति परिणमित होना) वह बन्धका कारण है ॥ ५२ ॥

* अग्धरा छन्द *

ज्ञानअप्येष विश्वं युगपदपि भवद्भाविभूतं समस्तं
मोहाभावाद्यदात्मा परिणमति परं नैव निर्लूनकर्मा ।
तेनास्ते मुक्त एव प्रसभविकसितज्ञप्तिविस्तारपीत-
ज्ञेयाकारां त्रिलोकीं पृथगपृथगथ द्योतयन् ज्ञानमूर्तिः ॥ ४ ॥

इति ज्ञानाधिकारः ॥

अथ ज्ञानादभिन्नस्य सौख्यस्य स्वरूपं प्रपञ्चयन् ज्ञानसौख्ययोः हेयोपादेयत्वं चिन्तयति—

अत्थि अमुत्तं मुत्तं अदिंदियं इंदियं च अत्येषु ।
एाणं च तहा सोक्खं जं तेषु परं च तं ऐयं ॥ ५३ ॥
अस्यमूर्तं मूर्तमतीन्द्रियमैन्द्रियं चार्थेषु ।
ज्ञानं च तथा सौख्यं यत्तेषु परं च तत् ज्ञेयम् ॥ ५३ ॥

अब, श्लोक द्वारा पूर्वोक्त आशयको काव्यद्वारा कहकर, केवलज्ञानी आत्माकी महिमा बताकर, यह ज्ञान अधिकार पूर्ण किया जाता है ।)

अर्थः—जिसने कर्मोंको छेद डाला है ऐसा यह आत्मा भूत, भविष्यत और वर्तमान समस्त विश्वको (तीनों कालकी पर्यायोसे युक्त समस्त पदार्थोंको) एक ही साथ जानता हुआ भी मोहके अभावके कारण पररूप परिणमित नहीं होता, इसलिये अब, जिसके (समस्त) ज्ञेयाकारोंको अत्यन्त विकसित जप्तिके विस्तारसे स्वयं पी गया है ऐसे तीनोंलोकके पदार्थोंको पृथक् और अपृथक् प्रकाशित करता हुआ वह ज्ञानमूर्ति मुक्त ही रहता है ।

इसप्रकार ज्ञान-अधिकार समाप्त हुआ ।

अब, ज्ञानसे अभिन्न सुखका स्वरूप विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए ज्ञान और सुखकी हेयोपादेयताका विचार करते हैंः—

गाथा ५३

अन्वयार्थः—[अर्थेषु ज्ञानं] पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान [अमूर्तं मूर्तं] अमूर्त या मूर्त, [अतीन्द्रियं ऐन्द्रियं च अस्ति] अतीन्द्रिय या ऐन्द्रिय होता है; [च तथा सौख्यं]

अत्र ज्ञानं सौख्यं च मूर्तमिन्द्रियजं चैकमस्ति । इतरदमूर्तमतीन्द्रियं चास्ति । तत्र यदमूर्तमतीन्द्रियं च तत्प्रधानत्वादुपादेयत्वेन ज्ञातव्यम् । तत्रार्थं मूर्ताभिः क्षायोपशमिकीभिरुपयोगशक्तिभिस्तथाविधेभ्य इन्द्रियेभ्यः समुत्पद्यमानं परायत्त्वात् कादाचित्कत्वं, क्रमकृतप्रवृत्ति सप्रतिपक्षं सहानिवृद्धि च गौणमिति कृत्वा ज्ञानं च सौख्यं च हेयम् । इतरत्पुनरमूर्ताभिरचैतन्यानुविधायिनीभिरेकाकिनीभिरेवात्मपरिणामशक्तिभिस्तथाविधेभ्योऽतीन्द्रियेभ्यः स्वाभाविकचिदाकारपरिणामेभ्यः समुत्पद्यमानमत्यन्तमात्मायत्त्वान्नित्यं, युगपत्कृतप्रवृत्ति निःप्रतिपक्षमहानिवृद्धि च मुख्यमिति कृत्वा ज्ञानं सौख्यं चोपादेयम् ॥ ५३ ॥

और इसीप्रकार (अमूर्त या मूर्त, अतीन्द्रिय या ऐन्द्रिय) सुख होता है । [तेषु च यत् परं] उसमें जो प्रधान-उत्कृष्ट है [तत् ज्ञेयं] वह (उपादेयरूप) जानना ।

टीका:—यहाँ, (ज्ञान तथा सुख दो प्रकारका है-) एक ज्ञान तथा सुख मूर्त और 'इन्द्रियज है; और दूसरा (ज्ञान तथा सुख) अमूर्त और अतीन्द्रिय है । उसमें जो अमूर्त और अतीन्द्रिय है वह प्रधान होनेसे उपादेयरूप जानना ।

वहाँ पहला ज्ञान तथा सुख मूर्तरूप क्षायोपशमिक उपयोगशक्तियोंमें उम-उम प्रकारकी इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन्न होता हुआ पराधीन होनेसे 'कादाचित्क, क्रमशः प्रवृत्त होनेवाला, 'सप्रतिपक्ष और हानिवृद्धियुक्त है, इसलिये गौण है, यह समझकर वह हेय है; और दूसरा ज्ञान तथा सुख अमूर्तरूप 'चैतन्यानुविधायी एकाकी आत्मपरिणामशक्तियोंसे तथाविध अतीन्द्रिय, स्वाभाविक-चिदाकारपरिणामोंके द्वारा उत्पन्न होता हुआ अत्यन्त आत्माधीन होनेसे नित्य युगपत् प्रवर्तमान निःप्रतिपक्ष और हानिवृद्धिसे रहित है, इसलिये मुख्य है, यह समझकर वह (ज्ञान और सुख) उपादेय है ॥ ५३ ॥

१. इन्द्रियज — इन्द्रियों द्वारा उत्पन्न होनेवाला; ऐन्द्रिय । २. कादाचित्क — कदाचित्-कभी कभी होनेवाला; अनित्य । ३. मूर्तिक इन्द्रियज ज्ञान क्रमसे प्रवृत्त होता है; युगपत् नहीं होता; तथा मूर्तिक इन्द्रियज सुख भी क्रमशः होता है, एक ही साथ सर्व इन्द्रियोंके द्वारा या सर्व प्रकारसे नहीं होता । ४. सप्रतिपक्ष = प्रतिपक्ष-विरोधी सहित । (मूर्त इन्द्रियज ज्ञान अपने प्रतिपक्षअज्ञान सहित ही होता है, और मूर्त इन्द्रियज सुख उसके प्रतिपक्षभूत दुःख सहित ही होता है । ५. चैतन्यानुविधायी = चैतन्यके अनुसार वर्तनेवाली; चैतन्यके अनुकूलरूपसे-विरुद्धरूपसे नहीं वर्तनेवाली ।

अथातीन्द्रियसौख्यसाधनीभूतमतीन्द्रियज्ञानमुपादेयमभिष्टौति—

जं पञ्चदो अमुत्तं मुत्तेसु अदिदियं च पञ्चणणं ।

सयलं सगं च इदरं तं णाणं हवदि पञ्चखं ॥ ५४ ॥

यत्प्रेक्षमाणस्यामूर्तं मूर्तेष्वतीन्द्रियं च प्रच्छन्नम् ।

सकलं स्वकं च इतरत् तद्ज्ञानं भवति प्रत्यक्षम् ॥ ५४ ॥

अतीन्द्रियं हि ज्ञानं यदमूर्तं यन्मूर्तेष्वप्यतीन्द्रियं यत्प्रच्छन्नं च तत्सकलं स्वपरविकल्पान्तः-
पाति प्रेक्षत एव । तस्य खल्वमूर्तेषु धर्माधर्मादिषु, मूर्तेष्वप्यतीन्द्रियेषु परमाण्वादिषु द्रव्यप्रच्छन्नेषु

अत्र, अतीन्द्रिय मुखका साधनभूत अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है, इसप्रकार उसकी प्रशंसा करते हैं:—

गाथा ५४

अन्वयार्थः— [प्रेक्षमाणस्य यत्] देखनेवालेका जो ज्ञान [अमूर्त] अमूर्तको, [मूर्तेषु] मूर्त पदार्थोंमें भी [अतीन्द्रियं] अतीन्द्रियको, [च प्रच्छन्नं] और प्रच्छन्नको, [सकलं] इन सबको [स्वकं च इतरत्] स्व तथा परको-देखता है [तत् ज्ञानं] वह ज्ञान [प्रत्यक्षं भवति] प्रत्यक्ष है ।

टीका:—जो अमूर्त है, जो मूर्त पदार्थोंमें भी अतीन्द्रिय है, और जो 'प्रच्छन्न' है, उस सबको—जो कि स्व और पर इन दो भेदोंमें समा जाता है उसे-अतीन्द्रिय ज्ञान अवश्य देखता है । अमूर्तधर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय इत्यादि, और मूर्त पदार्थोंमें भी अतीन्द्रिय परमाणु इत्यादि तथा द्रव्यमें प्रच्छन्न काल इत्यादि (द्रव्य अपेक्षासे गुप्त ऐसे जो काल धर्मास्तिकाय वगैरह), क्षेत्रमें प्रच्छन्न अलोकाकाशके प्रदेश इत्यादि, कालमें प्रच्छन्न असाम्प्रतिक (अतीत-अनागत) पर्यायों, तथा भाव-प्रच्छन्न स्थूल पर्यायोंमें अन्तर्लीन सूक्ष्म पर्यायों हैं, उन सबका जो कि स्व और परके भेदसे विभक्त हैं उनका-वास्तवमें उस अतीन्द्रिय ज्ञानके दृष्टापन है, (उन सबको वह अतीन्द्रिय ज्ञान देखता है) क्योंकि वह (अतीन्द्रिय ज्ञान) प्रत्यक्ष है । जिसे अनन्त शुद्धिका सद्भाव प्रगट हुआ है, ऐसे चैतन्यसामान्यके साथ अनादिसिद्ध सम्बन्धवाले एक ही अक्ष

१. प्रच्छन्न—गुप्त; अन्तरित; ढका हुआ । २. अन्तर्लीन—अन्दर लीन हुए; अन्तर्मग्न ।

३. अक्ष—आत्माका नाम 'अक्ष' भी है । (इन्द्रिय ज्ञान अक्ष—अर्थात् इन्द्रियोंके द्वारा जानता है; अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान अक्ष अर्थात् आत्माके द्वारा ही जानता है ।)

कालादिषु, क्षेत्रप्रच्छन्नेष्वलोकाकाशप्रदेशादिषु कालप्रच्छन्नेष्वसांप्रतिकपर्यायेषु, भावप्रच्छन्नेषु स्थूलपर्यायान्तर्लीनसूक्ष्मपर्यायेषु सर्वेष्वपि स्वपरव्यवस्थाव्यवस्थितेष्वस्ति द्रष्टृत्वं प्रत्यक्षत्वात् । प्रत्यक्षं हि ज्ञानमुद्भिन्नानन्तशुद्धिसम्बिधानमनादिसिद्धचैतन्यसामान्यसंबन्धमेकमेवाक्षनामानमात्मानं प्रतिनियतमितरां सामग्रीममृगयमाणमनन्तशक्तिसद्भावतोऽनन्ततामुपगतं दहनस्येव दाह्याकाराणां ज्ञानस्य ज्ञेयाकाराणामनतिक्रमाद्यथोदितानुभावमनुभवत्तु केन नाम निवार्येत । अतस्तदुपादेयम् ॥ ५४ ॥

अथेन्द्रियसौख्यसाधनीभूतमिन्द्रियज्ञानं हेयं प्रणिन्दति—

जीवो मयं अमूर्तो मुक्तिगदो तेण मुक्तिणा मुत्तं ।

योगेहिहत्ता जोग्गं जाणदि वा तरण जाणादि ॥ ५५ ॥

जीवः स्वयममूर्तो मूर्तिगतस्तेन मूर्तेन मूर्तम् ।

अवगृह्य योग्यं जानाति वा तन्न जानानि ॥ ५५ ॥

नामक आत्माके प्रति जो नियत है (जो ज्ञान आत्माके साथ ही लगा हुआ है— आत्माके द्वारा सीधा प्रवृत्ति करता है), जो (इन्द्रियादिक) अन्य सामग्रीको नहीं ढूँढता, और जो अनन्तशक्तिके सद्भावके कारण अनन्तताको (बेहदताको) प्राप्त है, ऐसे उस प्रत्यक्ष ज्ञानको जैसे दाह्याकार दहनका अतिक्रमण नहीं करते उसीप्रकार ज्ञेयाकार ज्ञानका अतिक्रम (उल्लंघन) न करनेसे यथोक्त प्रभावका अनुभव करते हुए (उपर्युक्त पदार्थोंको जानते हुए) कौन रोक सकता है ? इसलिये वह अतीन्द्रिय ज्ञान उपादेय है ॥ ५४ ॥

अब, इन्द्रियसुखका साधनभूत इन्द्रियज्ञान हेय है, इसप्रकार उसकी निन्दा करते हैं:—

गाथा ५५

अन्वयार्थः—[स्वयं अमूर्तः] स्वयं अमूर्त [जीवः] जीव [मूर्तिगतः] मूर्त शरीरको प्राप्त होता हुआ [तेन मूर्तेन] उस मूर्त शरीरके द्वारा [योग्यं मूर्त]

इन्द्रियज्ञानं हि मूर्तोपलम्भकं मूर्तोपलभ्यं च तद्वान् जीवः स्वयममूर्तोऽपि पंचेन्द्रियात्मकं शरीरं मूर्तमुपागतस्तेन ह्यसिनिष्पत्तौ बलाधाननिमित्ततयोपलम्भकेन मूर्तेन मूर्तं स्पर्शादिप्रधानं वस्तूपलभ्यतामुपागतं योग्यमवग्रह्य कदाचित्तदुपर्युपरि शुद्धिसंभवादवगच्छति, कदाचित्तदसंभवाभावगच्छति । परोक्षत्वात् । परोक्षं हि ज्ञानमतिदृढतराज्ञानतमोग्रन्थिगुण्ठनाभिमीलितस्यानादिसिद्धचैतन्यसामान्यसंबन्धस्यात्पात्मनः स्वयं परिच्छेत्तुमर्थमसमर्थस्योपात्तानुपात्तपरप्रत्ययसामग्री-मार्गणव्यग्रतयात्यन्तविसंष्टुलत्वमवलम्बमानमनन्तायाः शक्तेः परिस्खलनाभितान्तविकलवीभूतं

योग्य मूर्त पदार्थको [अवग्रह] अवग्रह करके (इन्द्रियग्रहण योग्य मूर्त पदार्थका अवग्रह करके) [तत्] उसे [जानाति] जानता है [वा न जानाति] अथवा नहीं जानता (कभी जानता है और कभी नहीं जानता) ।

टीका:— इन्द्रियज्ञानको उपलम्भक भी मूर्त है, और उपलभ्य भी मूर्त है । वह इन्द्रियज्ञानवाला जीव स्वयं अमूर्त होने पर भी मूर्त-पंचेन्द्रियात्मक शरीरको प्राप्त होता हुआ, जपित उत्पन्न करनेमें बल-धारणका निमित्त होनेसे जो उपलम्भक है ऐसे उम मूर्त (शरीर) के द्वारा मूर्त-स्पर्शादि प्रधान वस्तुको जो कि योग्य हो अर्थात् जो (इन्द्रियोंके द्वारा) उपलभ्य हो उसे-अवग्रह करके, कदाचित् उससे ऊपर ऊपरकी शुद्धिके सद्भावके कारण उसे जानता है और कदाचित् अवग्रहसे ऊपर ऊपरकी शुद्धिके असद्भावके कारण नहीं जानता, क्योंकि वह (इन्द्रिय ज्ञान) परोक्ष है । परोक्षज्ञान, चैतन्यसामान्यके साथ (आत्माका) अनादिसिद्ध सम्बन्ध होने पर भी जो अति दृढतर अज्ञानरूप तमोग्रन्थि (अन्धकारसमूह) द्वारा आवृत हो गया है, ऐसा आत्मा पदार्थको स्वयं जाननेके लिये असमर्थ होनेसे उपात्त और अनुपात्त परपदार्थरूप सामग्रीको ढूँढनेकी व्यग्रतासे अत्यन्त चंचल-तरल-अस्थिर वर्तता हुआ, अनन्तशक्तिसे च्युत होनेसे अत्यन्त विकलव वर्तता हुआ, महामोह-मत्तके जीवित

१. अवग्रह— मतिज्ञानसे किसी पदार्थको जाननेका प्रारम्भ होने पर पहले ही अवग्रह होता है क्योंकि मतिज्ञान अवग्रह, ईहा, अवाय, और धारणके क्रमसे जानता है । २. उपलम्भक = बतानेवाला, जाननेमें निमित्तभूत । (इन्द्रियज्ञानको पदार्थोंके जाननेमें निमित्तभूत मूर्त पंचेन्द्रियात्मक शरीर है) । ३. उपलभ्य = जानने योग्य । ४. स्पर्शादि प्रधान = जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण मुख्य हैं, ऐसी । ५. उपात्त = प्राप्त (इन्द्रिय, मन इत्यादि उपात्त पर पदार्थ हैं) ६. अनुपात्त = अप्राप्त (प्रकाश इत्यादि अनुपात्त पर पदार्थ हैं) ७. विकलव = खिन्न; दुःखी; घबराया हुआ ।

महामोहमल्लस्य जीवदवस्थत्वात् परपरिणतिप्रवर्तिताभिप्रायमपि पदे पदे प्राप्तविप्रलम्भमनुपल-
म्भसंभावनामेव परमार्थतोऽर्हति । अतस्तद्वेयम् ॥ ५५ ॥

अथेन्द्रियाणां स्वविषयमात्रेऽपि युगपत्प्रवृत्त्यसंभवाद्देयमेवेन्द्रियज्ञानमित्यवधारयति—

फामो रसो य गंधो वर्णो महो य पुद्गला ह्येति ।

अक्खाणं ते अक्खा जुगवं ते एव गृह्यन्ति ॥ ५६ ॥

स्पर्शो रसश्च गन्धो वर्णः शब्दश्च पुद्गला भवन्ति ।

अक्षाणां तान्यक्षाणि युगपत्तानैव गृह्यन्ति ॥ ५६ ॥

इन्द्रियाणां हि स्पर्शरसगन्धवर्णप्रधानाः शब्दश्च ग्रहणयोग्याः पुद्गलाः । अथेन्द्रियैर्युगप-

होनेसे पर परिणतिका (परको परिणमित करनेका) अभिप्राय करनेपर भी पद पद पर ठगाता हुआ, परमार्थतः अज्ञानमें गिने जाने योग्य है; इसलिये वह हेय है ।

भावार्थः—इन्द्रियज्ञान इन्द्रियोंके निमित्तसे मूर्त स्थूल इन्द्रियगोचर पदार्थोंको ही क्षायोपशमिक ज्ञानके अनुसार जान सकता है । परोक्षभूत इन्द्रिय ज्ञान इन्द्रिय, प्रकाश, आदि बाह्य सामग्रीको ढूँढ़नेकी व्यग्रताके कारण अतिशय चंचल-ध्रुव्य है । अल्पशक्तवान होनेसे खेद विन्न है, परपदार्थोंको परिणमित करानेका अभिप्राय होने पर भी पद पद पर ठगा जाता है (क्योंकि पर पदार्थ आत्माके अधीन परिणमित नहीं होते) इसलिये परमार्थसे वह ज्ञान 'अज्ञान' नामके ही योग्य है । इसलिये वह हेय है ॥ ५५ ॥

अब, इन्द्रियां मात्र अपने विषयोंमें भी युगपत् प्रवृत्त नहीं होतीं इसलिये इन्द्रियज्ञान हेय ही है, यह निश्चय करते हैं:—

गाथा ५६

अन्वयार्थः—[स्पर्शः] स्पर्श [रसः च] रस [गंधः] गंध [वर्णः] वर्ण [शब्दः च] और शब्द [पुद्गलाः] पुद्गल हैं, वे [अक्षाणां भवन्ति] इन्द्रियोंके विषय हैं [तानि अक्षाणि] (परन्तु) वे इन्द्रियां [तान्] उन्हें (भी) [युगपत्] एक साथ [न एव गृह्यन्ति] ग्रहण नहीं करतीं (नहीं जान सकतीं) ।

टीकाः—मुख्य है ऐसा स्पर्श, रस, गंध, वर्ण तथा शब्द जो कि पुद्गल हैं वे इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण होने योग्य (—ज्ञात होने योग्य) हैं । (किन्तु) इन्द्रियोंके

चेऽपि न गृह्यन्ते, तथाविधभयोपशमनशक्तेरसंभवात् । इन्द्रियाणां हि भयोपशमसंज्ञिकायाः परिच्छेज्याः शक्तेरन्तरङ्गायाः काकाभितारकवत् क्रमप्रवृत्तिवशादनेकतः प्रकाशयितुमसमर्थत्वात्स-
त्स्वपि द्रव्येन्द्रियद्वारेषु न यौगपद्येन निखिलेन्द्रियार्थावबोधः सिद्ध्यत्, परोक्षत्वात् ॥ ५६ ॥

अथेन्द्रियज्ञानं न प्रत्यक्षं भवतीति निश्चिनोति—

द्वारा वे भी युगपद् (एक साथ) ग्रहण नहीं होते (जाननेमें नहीं आते), क्योंकि क्षयोपशमकी उमप्रकारकी शक्ति नहीं है । इन्द्रियोंके जो क्षयोपशम नामकी अन्तरंग जातृशक्ति है वह कौवेकी आँखकी पुतलीकी भाँति क्रमिक प्रवृत्तिवाली होनेसे अनेकतः प्रकाशके लिये (एक ही साथ अनेक विषयोंको जाननेके लिये) असमर्थ है, इसलिये द्रव्येन्द्रियद्वारोंके विद्यमान होने पर भी समस्त इन्द्रियोंके विषयोंका (विषयभूत पदार्थोंका) ज्ञान एक ही साथ नहीं होता, क्योंकि इन्द्रिय ज्ञान परोक्ष है ।

भावार्थः— कौवेकी दो आँखें होती हैं, किन्तु पुतली एक ही होती है । कौवेको जिस आँखसे देखना हो उस आँखमें पुतली आजाती है; उस समय वह दूसरी आँखसे नहीं देख सकता । ऐसा होने पर भी वह पुतली इतनी जल्दी दोनों आँखोंमें आती जाती है कि लोगोंको ऐसा मालुम होता है कि दोनों आँखोंमें दो भिन्न भिन्न पुतलियाँ हैं; किन्तु वास्तवमें वह एक ही होती है । ऐसी ही दशा क्षायोपशमिक ज्ञानकी है । द्रव्य-इन्द्रियरूपी द्वार तो पाँच हैं, किन्तु क्षायोपशमिक ज्ञान एक समय एक इन्द्रिय द्वारा ही जाना जा सकता है; उस समय दूसरी इन्द्रियोंके द्वारा कार्य नहीं होता । जब क्षायोपशमिक ज्ञान नेत्रके द्वारा वर्णको देखनेका कार्य करता है तब वह शब्द, गंध, रस या स्पर्शको नहीं जान सकता; अर्थात् जब उस ज्ञानका उपयोग नेत्रके द्वारा वर्णके देखनेमें लगा होता है तब कानमें कौनसे शब्द पड़ते हैं या नाकमें कैसी गन्ध आती है, इत्यादि ख्याल नहीं रहता । यद्यपि ज्ञानका उपयोग एक विषयमेंसे दूसरेमें अत्यन्त शीघ्रतासे बदलता है, इसलिये स्थूलदृष्टिसे देखनेमें ऐसा लगता है कि मानों सभी विषय एक ही साथ ज्ञात होते हों, तथापि सूक्ष्म दृष्टिसे देखने पर क्षायोपशमिक ज्ञान एक समयमें एक ही इन्द्रियके द्वारा प्रवर्तमान होता हुआ स्पष्टतया भासित होता है । इसप्रकार इन्द्रियाँ अपने विषयोंमें भी क्रमशः प्रवर्तमान होनेमें परोक्षभूत इन्द्रियज्ञान हेय है ॥ ५६ ॥

अब, यह निश्चय करते हैं कि इन्द्रियज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है:—

परद्रव्यं ते अकस्मा एव सहावो त्ति अप्पणो भणिदा ।
उवलद्धं तेहि कथं पच्चकम्वं अप्पणो होदि ॥ ५७ ॥

परद्रव्यं तान्यक्षाणि नैव स्वभाव इत्यात्मनो भणितानि ।
उपलब्धं तैः कथं प्रत्यक्षमानमनो भवति ॥ ५७ ॥

आत्मानमेव केवलं प्रतिनियतं किल प्रत्यक्षं, इदं तु व्यतिरिक्तास्तित्वयोगितया परद्रव्यतामुपगतैरात्मनः स्वभावतां मनागप्यसंस्पृशद्विरिन्द्रियैरुपलभ्योपजन्यमानं न नामात्मनः प्रत्यक्षं भवितुमर्हति ॥ ५७ ॥

अथ परोक्षप्रत्यक्षलक्षणमुपलक्षयति—

जं परदो विरणाणं तं तु परोक्ख्व त्ति भणिदमट्टं सु ।
जदि केवलेण णादं ह्वदि हि जीवेण पच्चकम्वं ॥ ५८ ॥

गाथा ५७

अन्वयार्थः—[तानि अक्षाणि] वे इन्द्रियाँ [परद्रव्यं] पर द्रव्य हैं [आत्मनः स्वभावः इति] उन्हें आत्मस्वभावरूप [न एव भणितानि] नहीं कहा है [तैः] उनके द्वारा [उपलब्धं] ज्ञात [आत्मनः] आत्माका [प्रत्यक्षं] प्रत्यक्ष [कथं भवति] कैसे हो सकता है ?

टीकाः—जो केवल आत्माके प्रति ही नियत हो वह (ज्ञान) वास्तवमें प्रत्यक्ष है । जो भिन्न अस्तित्ववाली होनेसे परद्रव्यत्वको प्राप्त हुई है, और आत्मस्वभावत्वको किञ्चित्मात्र स्पर्श नहीं करती (आत्मस्वभावरूप किञ्चित्मात्र भी नहीं है) ऐसी इन्द्रियोंके द्वारा वह (इन्द्रिय ज्ञान) उपलब्धि करके (ऐसी इन्द्रियोंके निमित्तसे पदार्थोंको जानकर) उत्पन्न होता है, इसलिये वह (इन्द्रियज्ञान) आत्माके लिये प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ।

भावार्थः—जो सीधा आत्माके द्वारा ही जानता है वह ज्ञान प्रत्यक्ष है । इन्द्रियज्ञान परद्रव्यरूप इन्द्रियोंके द्वारा जानता है इसलिये वह प्रत्यक्ष नहीं है ॥ ५७ ॥

अब, परोक्ष और प्रत्यक्षके लक्षण बतलाते हैंः—

यत्परतो विज्ञानं तत् परोक्षमिति भणितमर्थेषु ।
यदि केवलेन ज्ञातं भवति हि जीवेन प्रत्यक्षम् ॥ ५८ ॥

यत् खलु परद्रव्यभूतादन्तःकरणादिन्द्रियात्परोपदेशादुपलब्धेः संस्कारादालोकादेर्वा निमित्ततामृपगतात् स्वविषयमृपगतस्यार्थस्य परिच्छेदनं तत् परतः प्रादुर्भवत्परोक्षमित्यालक्ष्यते । यत्पुनरन्तःकरणमिन्द्रियं परोपदेशमृपलब्धिसंस्कारमालोकादिकं वा समस्तमपि परद्रव्यमनपेक्ष्यात्मस्वभावमेवैकं कारणत्वेनोपादाय सर्वद्रव्यपर्यायजातमेकपद एवामिव्याप्य प्रवर्तमानं परिच्छेदनं तत् केवलादेवात्मनः संभूतत्वात् प्रत्यक्षमित्यालक्ष्यते । इह हि सहजसौख्यसाधनीभूतमिदमेव महाप्रत्यक्षमभिप्रेतमिति ॥ ५८ ॥

गाथा ५८

अन्वयार्थः—[परतः] परके द्वारा होनेवाला [यत्] जो [अर्थेषुविज्ञानं] पदार्थ सम्बन्धी विज्ञान है [तत् तु] वह तो [परोक्षं इति भणितं] परोक्ष कहा गया है, [यदि] यदि [केवलेन जीवेण] मात्र जीवके द्वारा ही [ज्ञातं भवति हि] जाना जाये तो [प्रत्यक्षं] वह ज्ञान प्रत्यक्ष है ।

टीकाः—निमित्तताको प्राप्त (निमित्तरूप बने हुए) जो परद्रव्यभूत अन्तःकरण (मन), इन्द्रिय, परोपदेश, उपलब्धि, संस्कार या प्रकाशादिक हैं उनके द्वारा होनेवाला स्वविषयभूत पदार्थका ज्ञान परके द्वारा प्रगट होता है, इसलिये 'परोक्ष'-के रूपमें जाना जाता है, और अन्तःकरण, इन्द्रिय, परोपदेश, उपलब्धि, संस्कार या प्रकाशादिक सब परद्रव्यकी अपेक्षा रखे बिना एकमात्र आत्मस्वभावको ही कारणरूपसे ग्रहण करके सर्व द्रव्य पर्यायोंके समूहमें एक समय ही व्याप्त होकर प्रवर्तमान ज्ञान केवल आत्माके द्वारा ही उत्पन्न होता है इसलिये 'प्रत्यक्ष'के रूपमें जाना जाता है ।

यहाँ (इस गाथामें) सहज सुखका साधनभूत ऐसा यही महा प्रत्यक्ष ज्ञान अभिप्रेत माना गया है—उपादेय कहा गया है ॥ ५८ ॥

१. उपलब्धि = ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमके निमित्तसे उत्पन्न पदार्थोंको जाननेकी शक्ति । (यह 'लब्धि' शक्ति जब 'उपयुक्त' होती है, तभी पदार्थ ज्ञात होता है ।) २. संस्कार = पूर्व ज्ञात पदार्थकी धारणा । ३. चक्षुइन्द्रिय द्वारा रूपी पदार्थको देखनेमें प्रकाश भी निमित्तरूप होता है ।

अथैतदेव प्रत्यक्षं पारमार्थिकसौख्यत्वेनोपक्षिपति—

जादं स्वयं ममत्तं णाणमणंतत्थविस्तृतं विमलं ।
रहियं तु अण्णगहादिभिः सुखं ति एगंणितियं भणियं ॥५६॥

जातं स्वयं ममत्तं ज्ञानमनन्तार्थविस्तृतं विमलम् ।

रहितं त्वग्रहादिभिः सुखमिति ऐकान्तिकं भणितम् ॥ ५६ ॥

स्वयं जातत्वात्, समन्तत्वात्, अनन्तार्थविस्तृतत्वात्, विमलत्वात्, अवग्रहादिरहितत्वाच्च प्रत्यक्षं ज्ञानं सुखमैकान्तिकमिति निश्चीयते, अनाकुलत्वैकलक्षणत्वात्सौख्यस्य । यतो हि परतो

अब, इसी प्रत्यक्षज्ञानको पारमार्थिक सुखरूप बतलाते हैं:—

गाथा ५६

अन्वयार्थः—[स्वयं जातं] अपने आप ही उत्पन्न [समंतं] समंत (सर्व प्रदेशोंसे जानता हुआ) [अनन्तार्थविस्तृतं] अनन्त पदार्थोंमें विस्तृत [विमलं] विमल [तु] और [अवग्रहादिभिः रहितं] अवग्रहादिसे रहित [ज्ञानं] ज्ञान [ऐकान्तिकं सुखं] ऐकान्तिक सुख है [इति भणितं] ऐसा (सर्वज्ञदेवने) कहा है ।

टीका:—(१) स्वयं उत्पन्न होनेसे, (२) 'ममत्तं' होनेसे, (३) 'अनन्त-पदार्थोंमें विस्तृत' होनेसे, (४) विमल होनेसे और, (५) 'अवग्रहादि रहित' होनेसे, प्रत्यक्षज्ञान ऐकान्तिक सुख है यह निश्चित होता है, क्योंकि एक मात्र अनाकुलता ही सुखका लक्षण है ।

(इसी बातको विस्तार पूर्वक समझते हैं:—)

(१) 'परके द्वारा उत्पन्न' होता हुआ पराधीनताके कारण (२) 'असमंत' होनेसे 'इतर दारोंके आवरणके कारण (३) 'मात्र कुछ पदार्थोंमें प्रवर्तमान' होता हुआ अन्य पदार्थोंको जाननेकी इच्छाके कारण, (४) 'समल' होनेसे असम्यक्

१. समन्त—चारों ओर-सबे भागोंमें वर्तमान; सर्व आत्मप्रदेशोंसे जानता हुआ; समस्त; सम्पूर्ण; अखण्ड । २. ऐकान्तिक—परिपूर्ण; अंतिम; अकेला; सर्वथा । ३. परोक्ष ज्ञान खंडित है अर्थात् वह अमुक प्रदेशोंके द्वारा ही जानता है; जैसे-वर्ण आँख जितने प्रदेशोंके द्वारा ही (इन्द्रियज्ञानसे) ज्ञात होता है; अन्य द्वार बन्द हैं । ४. इतर—दूसरे; अन्य; उसके सिवायके ।

जायमानं पराधीनतया, असमंतमितरद्वारावरणेन, कतिपयार्थप्रवृत्तमितरार्थबुभुत्सया, समलम-सम्यगवबोधेन, अवग्रहादिसहितं क्रमकृतार्थग्रहणखेदेन परोक्षं ज्ञानमत्यन्तमाकुलं भवति । ततो न तत् परमार्थतः सौख्यम् । इदं तु पुनरनादिज्ञानसामान्यस्वभावस्योपरि महाविकाशेनाभिव्याप्य स्वत एव व्यवस्थितत्वात्स्वयं जायमानमात्माधीनतया, समन्तात्मप्रदेशान् परमसमक्षज्ञानोपयो-गीभूयाभिव्याप्य व्यवस्थितत्वात्समन्तम् अशेषद्वारापावरणेन, प्रसभं निपीतसमस्तवस्तुज्ञेयाकारं परमं वैश्वरूप्यमभिव्याप्य व्यवस्थितत्वादनंतार्थविस्तृतम् समस्तार्थाबुभुत्सया सकलशक्तिप्रतिबंधक कर्मसामान्यनिःक्रान्ततया परिस्पष्टप्रकाशमास्वरं स्वभावमभिव्याप्य व्यवस्थितत्वाद्विमलम्

अवबोधके कारण (कर्ममलयुक्त होनेसे संशय, विमोह, विभ्रम सहित जाननेके कारण), और (५) 'अवग्रहादि सहित' होनेसे क्रमशः होनेवाले 'पदार्थग्रहणके खेदके कारण (इन कारणोंको लेकर), परोक्षज्ञान अत्यन्त आकुल है; इसलिये वह परमार्थसे सुख नहीं है ।

और यह प्रत्यक्षज्ञान अनाकुल है, क्योंकि (१) अनादि ज्ञानसामान्यरूप स्वभाव पर महा विकाससे व्याप्त होकर स्वतः ही रहनेसे 'स्वयं उत्पन्न होता है,' इसलिये आत्माधीन है, (और आत्माधीन होनेसे आकुलता नहीं होती, (२) समस्त आत्मप्रदेशोंमें परम प्रत्यक्ष ज्ञानोपयोगरूप होकर, व्याप्त होनेसे 'समंत है', इसलिये अशेष द्वार खुले हुए हैं (और इसप्रकार कोई द्वार बन्द न होनेसे आकुलता नहीं होती); (३) समस्त वस्तुओंके ज्ञेयाकारोंको सर्वथा पी जानेसे 'परमविविधतामें व्याप्त होकर रहनेसे 'अनन्त पदार्थोंमें विस्तृत है,' इसलिये सर्व पदार्थोंको जाननेकी इच्छाका अभाव है (और इसप्रकार किसी पदार्थको जाननेकी इच्छा न होनेसे आकुलता नहीं होती); (४) सकल शक्तिको रोकनेवाला कर्मसामान्य (ज्ञानमेंसे) निकल जानेसे (ज्ञान) अत्यन्त स्पष्ट प्रकाशके द्वारा प्रकाशमान स्वभावमें व्याप्त होकर रहनेसे 'विमल है' इसलिये सम्यक्तया जानता है (और इसप्रकार संशयादि रहिततासे जाननेके कारण आकुलता नहीं होती); तथा (५) जिनने त्रिकालका अपना स्वरूप युगपत् समर्पित किया है (एक ही समय बताया है) ऐसे लोकालोकमें व्याप्त होकर रहनेसे 'अवग्रहादि रहित है' इसलिये क्रमशः होनेवाले पदार्थ ग्रहणके

१. पदार्थग्रहण अर्थात् पदार्थका बोध एक ही साथ न होनेपर अवग्रह, ईहा इत्यादि क्रमपूर्वक होनेसे खेद होता है । २. परमविविधता = समस्त पदार्थसमूह जो कि अनन्त विविधतामय है ।

सम्यगवबोधेन, युगपत्समर्पितत्रैसमयिकात्मस्वरूपं लोकालोकमभिव्याप्य व्यवस्थितत्वादवग्रहा-
दिरहितम् क्रमकृतार्थग्रहणखेदाभावेन प्रत्यक्षं ज्ञानमनाकुलं भवति । ततस्तत्पारमार्थिकं खलु
सौख्यम् ॥ ५९ ॥

अथ केवलस्यापि परिणामद्वारेण खेदस्य संभवादौकान्तिकसुखत्वं नास्तीति प्रत्याचष्टे—

जं केवलं ति णाणं तं सोक्खं परिणमं च सो चेव ।

खेदो तस्स ण भणितो जम्हा घादी खयं जादा ॥ ६० ॥

यत्केवलमिति ज्ञानं तत्सौख्यं परिणामश्च न चैव ।

खेदस्तस्य न भणितो यस्मान् घातीनि क्षयं जातानि ॥ ६० ॥

अत्र को हि नाम खेदः कश्च परिणामः कश्च केवलसुखयोर्व्यतिरेकः, यतः केवलस्यैकान्ति-
कसुखत्वं न स्यात् ! खेदस्यायतनानि घातिकर्माणि, न नाम केवलं परिणाममात्रम् । घाति-
कर्माणि हि महामोहोत्पादकत्वाद्गुणमचकवदतस्मिस्तद्बुद्धिमाधाय परिच्छेद्यमर्थं प्रत्यात्मानं यतः

खेदका अभाव है । इसप्रकार (उपरोक्त पाँच कारणोंसे) प्रत्यक्षज्ञान अनाकुल है ।
इसलिये वास्तवमें वह पारमार्थिक सुख है ।

भावार्थः—क्षायिकज्ञान-केवलज्ञान एकान्त सुखस्वरूप है ॥ ५९ ॥

अब, इस अभिप्रायका खंडन करते हैं कि 'केवलज्ञानको भी परिणामके द्वारा
'खेदका सम्भव है, इसलिये केवलज्ञान ऐकान्तिक सुख नहीं है:—

भाषा ६०

अन्वयार्थः—[यत्] जो [केवलं इति ज्ञानं] 'केवल' नामका ज्ञान है [तत्
सौख्यं] वह सुख है [परिणामः च] परिणाम भी [सः चएव] वही है [तस्य खेदः
न भणितः] उसे खेद नहीं कहा है (केवलज्ञानमें सर्वज्ञदेवने खेद नहीं कहा) [यस्मात्]
क्योंकि [घातीनि] घातिकर्म [क्षयं जातानि] क्षयको प्राप्त हुए हैं ।

टीकाः—यहाँ (केवलज्ञानके सम्बन्धमें), खेद क्या, (२) परिणाम क्या
तथा (३) केवलज्ञान और सुखका व्यतिरेक (भेद) क्या, कि जिससे केवलज्ञानको
ऐकान्तिक सुखत्व न हो ?

परिणामयति, ततस्तानि तस्य प्रत्यर्थं परिणम्य परिणम्य भ्राम्यतः खेदनिदानतां प्रतिपद्यन्ते । तदभावात्कुतो हि नाम केवले खेदस्योद्भेदः । यतश्च त्रिसमयाबन्धिन्नसकलपदार्थपरिच्छेद्याकारवै-
श्वरूप्यप्रकाशनास्पदीभूतं चित्रमित्तिस्थानीयमनन्तस्वरूपं स्वयमेव परिणमत्केवलमेव परिणामः,
ततः कुतोऽन्यः परिणामो यद्द्वारेण खेदस्यात्मलाभः । यतश्च समस्तस्वभावप्रतिघाताभावात्समुल्ल-
सितनिरङ्कुशानन्तशक्तितया सकलं त्रैकालिकं लोकालोकाकारमभिव्याप्य कूटस्थत्वेनात्यन्तनिः-

(१) खेदके आयतन (स्थान) घातिकर्म हैं, केवल परिणाम मात्र नहीं । घातिकर्म महामोहके उत्पादक होनेसे धतूरेकी भाँति 'अतत्'में तत् बुद्धि धारण करवाकर आत्माको ज्ञेयपदार्थके प्रति परिणमन कराते हैं; इसलिये वे घातिकर्म प्रत्येक पदार्थके प्रति परिणमित हो-होकर थकनेवाले आत्माके लिये खेदके कारण होते हैं । उनका (घातिकर्मोंका) अभाव होनेसे केवलज्ञानमें खेद कहाँसे प्रगट होगा ? (२) और तीनकालरूप तीन भेद जिसमें किये जाते हैं ऐसे समस्त पदार्थोंकी ज्ञेयाकाररूप विविधताको प्रकाशित करनेका स्थानभूत केवलज्ञान चित्रित् दीवारकी भाँति, स्वयं ही अनन्तस्वरूप स्वयमेव परिणमित होता है इसलिये केवलज्ञान ही परिणाम है । इसलिये अन्य परिणाम कहाँ है कि जिनसे खेदकी उत्पत्ति हो ? (३) और, केवलज्ञान समस्त स्वभावप्रतिघातके^३ अभावके कारण निरंकुश अनन्त शक्तिके उल्लसित होनेसे समस्त त्रैकालिक लोकालोकके आकारमें व्याप्त होकर^३ कूटस्थतया अत्यंत निष्कंप है, इसलिये आत्मासे अभिन्न सुख-लक्षणभूत अनाकुलताको धारण करता हुआ केवलज्ञान ही मुख है, इसलिये केवलज्ञान और सुखका व्यतिरेक कहाँ है ?

इसमें, यह सर्वथा अनुमोदन करनेयोग्य है (—आनन्दसे संमत करने योग्य है) कि 'केवलज्ञान ऐकान्तिक सुख है' ।

भावार्थः—केवलज्ञानमें भी परिणाम होते रहते हैं, इसलिये वहाँ भी थकावट हो सकती है, और इसीलिये दुःख हो सकता है, अतः केवलज्ञान ऐकान्तिक सुखरूप कैसे कहा जा सकता है ? इस शंकाका समाधान यहाँ किया गया हैः—

१. अतन्में तत्बुद्धि—वस्तु जिसस्वरूप न होय उसस्वरूप होनेकी मान्यता; जैसे कि—जड़में चेतनबुद्धि (अर्थात् जड़में चेतनकी मान्यता) दुःखमें सुखबुद्धि वगैरह । २. प्रतिघात=विघ्न; रुकावट; इनन; घात । ३. कूटस्थ—सदा एकरूप रहनेवाला; अचल (केवलज्ञान सर्वथा अपरिणामी नहीं है, किन्तु वह ज्ञेयसे दूसरे ज्ञेयके प्रति नहीं बदलता—सर्वथा तीनों कालके समस्त ज्ञेयाकारोंको जानता रहता है, इसलिये उसे कूटस्थ कहा है)

प्रकम्पं व्यवस्थितत्वादनाकुलतां सौख्यलक्षणभूतामात्मनोऽव्यतिरिक्तां विभ्राणं केवलमेव सौख्यम् । ततः कुतः केवलसुखयोर्व्यतिरेकः । अतः सर्वथा केवलं सुखमैकान्तिकमनुमोदनीयम् ॥ ६० ॥

अथ पुनरपि केवलस्य सुखस्वरूपतां निरूपयन्नुपसंहरति—

णाणं अर्थान्तगतं लोयालोणसु वित्थडा दिट्ठी ।

णट्टमणिट्टं मव्वं इट्टं पुण जं तु तं लद्धं ॥ ६१ ॥

ज्ञानमर्थान्तगतं लोकालोकेषु विस्तृता दृष्टिः ।

नष्टमनिष्टं सर्वमिष्टं पुनर्यत् तल्लब्धम् ॥ ६१ ॥

(१) परिणाम मात्र थकावट या दुःखका कारण नहीं है, किन्तु घातिकर्मोके निमित्तसे होनेवाला परोन्मुख परिणाम थकावट या दुःखका कारण है । केवलज्ञानमें घातिकर्म अविद्यमान हैं इसलिये वहाँ थकावट या दुःख नहीं है । (२) केवलज्ञान स्वयं ही परिणमनशील है; परिणमन केवलज्ञानका स्वरूप ही है उपाधि नहीं । यदि परिणामका नाश हो जाये तो केवलज्ञानका ही नाश हो जाये । इसप्रकार परिणाम केवलज्ञानका सहज स्वरूप है, इसलिये केवलज्ञानको परिणामके द्वारा खेद नहीं हो सकता—नहीं होता । (३) केवलज्ञान समस्त त्रैकालिक लोकालोकके आकारको (समस्त पदार्थोंके त्रैकालिक ज्ञेयाकार समूहको सर्वदा अडोलरूपसे जानता हुआ अत्यन्त निष्कंप-स्थिर-अक्षुब्ध-अनाकुल है; और अनाकुल होनेसे सुखी है-सुखस्वरूप-है, क्योंकि अनाकुलता सुखका ही लक्षण है । इसप्रकार केवलज्ञान और अक्षुब्धता-अनाकुलता भिन्न नहीं है इसलिये केवलज्ञान और सुख भिन्न नहीं हैं ।

इसप्रकार १ घातिकर्मोके अभावके कारण, २ परिणमन कोई उपाधि न होनेसे और ३ केवलज्ञान निष्कंप-स्थिर-अनाकुल होनेसे केवलज्ञान सुखस्वरूप ही है ॥६०॥

अब, पुनः 'केवलज्ञान सुखस्वरूप है' यह निरूपण करते हुए उपसंहार करते हैं:—

माथा ६१

अन्वयार्थः—[ज्ञानं] ज्ञान [अर्थान्तगतं] पदार्थोंके पारको प्राप्त है, [दृष्टिः] और दर्शन [लोकालोकेषु विस्तृताः] लोकालोकमें विस्तृत है; [सर्व अनिष्टं] सर्व

स्वभावप्रतिघाताभावहेतुकं हि सौख्यम् । आत्मनो हि दृशिज्ञप्ती स्वभावः तपोर्लोकालोक-
विस्तृतत्वेनार्थान्तगतत्वेन च स्वच्छन्दविजृम्भितत्वाद्भवति प्रतिघाताभावः । ततस्तद्वेतुकं सौख्यमभे-
दविवक्षायां केवलस्य स्वरूपम् । किंच केवलं सौख्यमेव, सर्वानिष्टप्रहाणात् । सर्वेष्टोपलम्भाच्च ।
यतो हि केवलावस्थायां सुखप्रतिपत्तिविपक्षभूतस्य दुःखस्य साधनतामुपगतमज्ञानमखिलमेव
प्रणश्यति, सुखस्य साधनीभूतं तु परिपूर्णं ज्ञानमुपजायेत । ततः केवलमेव सौख्यमित्यलं
प्रपञ्चेन ॥ ६१ ॥

अथ केवलिनामेव पारमार्थिकसुखमिति श्रद्धापयति—

णो महहंति मांक्खं सुहेसु परमं ति विगदधादीणं ।
मुणिदूण ते अभव्वा भव्वा वा तं पडिच्छंति ॥ ६२ ॥

अनिष्ट [नष्टं] नष्ट हो चुका है, [पुनः] और [यत् तु] जो [इष्टं] इष्ट है
[तत्] वह सब [लब्धं] प्राप्त हुआ है । (इसलिये केवलज्ञान मुखस्वरूप है)

टीका:—मुखका कारण स्वभावप्रतिघातका अभाव है । आत्माका स्वभाव
दर्शन-ज्ञान है; (केवलदशामें) उनके (दर्शन ज्ञानके) प्रतिघातका अभाव है
क्योंकि दर्शन लोकालोकमें विस्तृत होनेसे और ज्ञान पदार्थोंके पारको प्राप्त होनेसे
वे (दर्शन-ज्ञान) स्वच्छन्दता पूर्वक (स्वतंत्रता पूर्वक बिना अकुश, किसीसे बिना दवे)
विकसित हैं (इसप्रकार दर्शन-ज्ञानरूप स्वभावके प्रतिघातका अभाव है) इसलिये
स्वभावके प्रतिघातका अभाव जिसका कारण है ऐसा मुख अभेदविवक्षासे केवलज्ञानका
स्वरूप है ।

(प्रकारान्तरसे केवलज्ञानकी मुखस्वरूपता बतलाते हैं:—) और, केवलज्ञान
मुख ही है क्योंकि सर्व अनिष्टोंका नाश हो चुका है और सम्पूर्ण इष्टकी प्राप्ति हो
चुकी है । केवल अवस्थामें, मुखोपलब्धि के विपक्षभूत दुःखोंके साधनभूत अज्ञानका
सम्पूर्णतया नाश हो जाता है और मुखका साधनभूत परिपूर्ण ज्ञान उत्पन्न होता है,
इसलिये केवल ही मुख है । प्रपञ्च (अधिक विस्तारसे) क्या पूरा पड़े ? ॥ ६१ ॥

अब, यह श्रद्धा कराते हैं कि केवलज्ञानियोंको ही पारमार्थिक सुख होता है:—

नश्रद्धति सौख्यं सुखेषु परममिति विगतघातिनाम् ।

श्रुत्वा ते अभव्या भव्या वा तत्प्रतीच्छन्ति ॥ ६२ ॥

इह खलु स्वभावप्रतिघातादाकुलत्वाच्च मोहनीयादिकर्मजालशालिनां सुखाभासेऽप्यपार-
मार्थिकी सुखमिति रूढिः । केवलानां तु भगवतां प्रक्षीणघातिकर्मणां स्वभावप्रतिघाताभावाद्ना-
कुलत्वाच्च यथोदितस्य हेतोरलक्षणस्य च सद्भावत्पारमार्थिकं सुखमिति श्रद्धेयम् । किलैवं येषां
श्रद्धानमस्ति ते खलु मोक्षसुखसुधापानदूरवर्तिनो मृगतृष्णाम्भोभारमेवाभव्याः पश्यन्ति । ये

गाथा ६२

अन्वयार्थः—‘[विगतघातिनां] जिनके घातिकर्म नष्ट होगये हैं, उनका
[सौख्यं] सुख [सुखेषु परमं] (सर्व) सुखोंमें उत्कृष्ट है’ [इति श्रुत्वा] यह सुनकर
[न श्रद्धति] जो श्रद्धा नहीं करते [ते अभव्याः] वे अभव्य हैं; [भव्याः वा]
और भव्य [तत्] उसे [प्रतीच्छन्ति] स्वीकार (आदर) करते हैं—उसकी श्रद्धा
करते हैं ।

टीकाः—इस लोकमें मोहनीयआदिकर्मजालवालोंके स्वभाव प्रतिघातके कारण
और आकुलताके कारण सुखाभास होने पर भी उस सुखाभासको ‘सुख’ कहनेकी
अपारमार्थिक रूढ़ि है; और जिनके घातिकर्म नष्ट हो चुके हैं ऐसे केवलीभगवानके,
स्वभावप्रतिघातके अभावके कारण और अनाकुलताके कारण सुखके यथोक्त कारणका
और लक्षणका सद्भाव होनेसे पारमार्थिक सुख है—यह श्रद्धा करने योग्य है ।
जिन्हें ऐसी श्रद्धा नहीं है वे मोक्षसुखके सुधापानसे दूर रहनेवाले अभव्य मृगतृष्णाके
जलसमूहको ही देखते (अनुभव करते) हैं । और जो उस वचनको इसीसमय
स्वीकार (श्रद्धा) करते हैं वे शिवश्री (मोक्षलक्ष्मी)के भाजन आसन्नभव्य हैं, और
जो आगे जाकर स्वीकार करेंगे वे दूर भव्य हैं ।

भावार्थः—‘केवलीभगवानके ही पारमार्थिक सुख है’ यह वचन सुनकर जो
कभी इसका स्वीकार—आदर—श्रद्धा नहीं करते वे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करते, वे
अभव्य हैं । जो उपरोक्त वचन सुनकर अंतरंगसे उसकी श्रद्धा करते हैं वे ही मोक्षको

१. सुखका कारण स्वभाव प्रतिघातका अभाव है । २. सुखका लक्षण अनाकुलता है ।

पुनरिदमिदानीमेव वचः प्रतीच्छन्ति ते शिवश्रियो भाजनं समासन्नभव्याः भवन्ति । ये तु पुरा प्रतीच्छन्ति ते तु दूरभव्या इति ॥ ६२ ॥

अथ परोक्षज्ञानिनामपारमार्थिकमिन्द्रियसुखं विचारयति—

मणुआसुरामरिंदा अहिदुदुदा इन्द्रियेहिं सहजेहिं ।

असहंता तं दुःखं रमंति विसणसु रम्येसु ॥ ६३ ॥

मनुजासुरामरेन्द्राः अभिद्रुता इन्द्रियैः सहजैः ।

असहमानास्तदुःखं रमन्ते विषयेषु रम्येषु ॥ ६३ ॥

अमीषां प्राणिनां हि प्रत्यक्षज्ञानाभावात्परोक्षज्ञानमुपसर्पतां तत्सामग्रीभूतेषु स्वरसत एवेन्द्रियेषु मैत्री प्रवर्तते । अथ तेषां तेषु मैत्रीमुपगतानामुदीर्णमहामोहकालानलकवलितानां तप्तयोगोलानामिवात्यन्तमुपात्ततृष्णानां तदुःखवेगमसहमानां व्याधिसात्म्यतामुपगतेषु रम्येषु

प्राप्त करते हैं । जो वर्तमानमें श्रद्धा करते हैं वे आसन्नभव्य हैं और जो भविष्यमें श्रद्धा करेंगे वे दूरभव्य हैं ॥ ६२ ॥

अब, परोक्षज्ञानवालोंके अपारमार्थिक इन्द्रियसुखका विचार करते हैं:—

गाथा ६३

अन्वयार्थः—[मनुजासुरामरेन्द्राः] मनुष्येन्द्र (चक्रवर्ती) असुरेन्द्र और सुरेन्द्र [सहजैः इन्द्रियैः] स्वाभाविक (परोक्षज्ञानवालोंको जो स्वाभाविक है ऐसी) इन्द्रियोंसे [अभिद्रुताः] पीड़ित वर्तते हुए [तद् दुःखं] उस दुःखको [असहमानाः] सहन न कर सकनेसे [रम्येषु विषयेषु] रम्य विषयोंमें [रमन्ते] रमण करते हैं ।

टीका:—प्रत्यक्षज्ञानके अभावके कारण परोक्षज्ञानका आश्रय लेनेवाले इन प्राणियोंको उसकी (परोक्षज्ञानकी) सामग्रीरूप इन्द्रियोंके प्रति निजरससे (स्वभावसे) ही मैत्री प्रवर्तती है । उन इन्द्रियोंके प्रति मैत्रीको प्राप्त उन प्राणियोंको, उदयप्राप्त महामोहरूपी कालाग्निने ग्रास बना लिया है, इसलिये तप्त लोहेके गोलेकी भाँति (जैसे गरम किया हुआ लोहेका गोला पानीको शीघ्र ही सोख लेता है) अत्यन्त तृष्णा उत्पन्न हुई है; उस दुःखके वेगको सहन न कर सकनेसे उन्हें व्याधिके प्रतिकारके समान (रोगमें थोड़ासा आराम जैसा अनुभव करानेवाले उपचारके

विषयेषु रतिरूपजायते । ततो व्याधिस्थानीयत्वादिन्द्रियाणां व्याधिसात्म्यसमत्वाद्विषयाणां च न ह्यस्थानां पारमार्थिकं सौख्यम् ॥ ६३ ॥

अथ यावदिन्द्रियाणि तावत्स्वभावादेव दुःखमेवं वितर्कयति—

जेसिं विसयेसु रती तेसिं दुःखं वियाण सव्भावं ।

जइ तं ण हि सव्भावं वावारो एत्थि विसयत्थं ॥ ६४ ॥

येषां विषयेषु रतिस्तेषां दुःखं विजानीहि स्वाभावम् ।

यदि तन्न हि स्वभावो व्यापारो नास्ति विषयार्थम् ॥ ६४ ॥

येषां जीवदवस्थानि हतकानीन्द्रियाणि, न नाम तेषामुपाधिप्रत्ययं दुःखम् । कितु स्वाभाविकमेव, विषयेषु रतेरवलोकनात् । अवलोकयते हि तेषां स्तम्बेरमस्य करेणुकुट्टनीगात्रस्पर्श इव, सफरस्य बडिशामिषस्वाद इव, इन्दिरस्य संकोचसंमुखारविन्दामोद इव, पतङ्गस्य

समान) रम्य विषयोंमें रति उत्पन्न होती है । इसलिये इन्द्रियाँ व्याधि समान होनेसे और विषय व्याधिके प्रतिकार समान होनेसे छद्मस्थोंके पारमार्थिक मुख नहीं है ॥ ६३ ॥

अब, जहाँ तक इन्द्रियाँ हैं वहाँ तक स्वभावसे ही दुःख है, यह न्यायसे निश्चित करने हैं:—

गाथा ६४

अन्वयार्थः— [येषां] जिन्हें [विषयेषु रतिः] विषयोंमें रति है [तेषां] उन्हें [दुःखं] दुःख [स्वाभावं] स्वाभाविक [विजानीहि] जानो, [हि] क्योंकि [यदि] यदि [तद्] वह दुःख [स्वभावं न] स्वभाव न हो तो [विषयार्थं] विषयार्थमें [व्यापारः] व्यापार [न अस्ति] न हो ।

टीका:—जिनकी हत (निकृष्ट निद्य) इन्द्रियाँ जीवित है, उन्हें उपाधिके कारण (बाह्य संयोगोंके कारण, औपाधिक) दुःख नहीं है, किन्तु स्वाभाविक ही है, क्योंकि उनकी विषयोंमें रति देखी जाती है । जैसे—हाथी हथिनीरूपी कुट्टनीके शरीर-स्पर्शकी ओर, मछली वंसीमें फसे हुए मांसके स्वादकी ओर, भ्रमर बन्द हो जानेवाले कमलके गंधकी ओर, पतंगा दीपककी ज्योतिके रूपकी ओर और हिरन शिकारीके संगीतके स्वरकी ओर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं उसीप्रकार दुर्निवार इन्द्रियवेदनाके

प्रदीपार्चीरूप इव, कुरङ्गस्य मृगयुगेयस्वर इव, दुर्निवारेन्द्रियवेदनावशीकृतानामासन्ननिपातेष्वपि विषयेष्वभिपातः । यदि पुनर्न तेषां दुःखं स्वाभाविकमभ्युपगम्येत तदीपशांतशीतज्वरस्य संस्वेदनमिव, प्रहीणदाहज्वरस्यारनालपरिषेक इव, निवृत्तनेत्रसंरम्भस्य च वटाचूर्णावचूर्णनमिव, विनष्टकर्णशूलस्य वस्तमूत्रपूरणमिव, रूढव्रणस्यालेपनदानमिव, विषयव्यापारो न दृश्येत । दृश्यते चासौ । ततः स्वभावभूतदुःखयोगिन एव जीवदिन्द्रियाः परोक्षज्ञानिनः ॥ ६४ ॥

अथ मुक्तात्मसुखप्रसिद्धये शरीरस्य सुखसाधनतां प्रतिहन्ति—

वशीभूत होते हुए वे लोग वास्तवमें, जो कि विषयोंका नाश अति निकट है (अर्थात् विषय क्षणिक हैं) तो भी विषयोंकी ओर दौड़ते दिखाई देते हैं । और यदि 'उनका दुःख स्वाभाविक है' ऐसा स्वीकार न किया जाये तो जैसे-जिसका शीतज्वर उपशांत होगया है, वह पसीना आनेके लिये उपचार करता तथा जिसका दाह्य ज्वर उतर गया है वह काँजीसे शरीरके तापको उतारता तथा जिसकी आँखोंका दुःख दूर होगया है वह वटाचूर्ण (शख इत्यादिका चूर्ण) आँजता तथा जिसका कर्णशूल नष्ट होगया हो वह कानमें फिर बकरेका मूत्र डालता और जिसका घाव भर जाता है वह फिर लेप करता दिखाई नहीं देता-इसीप्रकार उनके विषय व्यापार देखनेमें नहीं आना चाहिये; किन्तु उनके वह (विषयप्रवृत्ति) तो देखी जाती है । इससे (सिद्ध हुआ कि) जिनके इन्द्रियाँ जीवित हैं ऐसे परोक्षज्ञानियोंके दुःख स्वाभाविक ही है ।

भावार्थः—परोक्षज्ञानियोंके स्वभावसे ही दुःख है क्योंकि उनके विषयोंमें रति वर्तती है । कभी कभी तो वे असह्य तृष्णाकी दाहसे (तीव्र इच्छारूपी दुःखके कारण) मरने तककी परवाह न करके क्षणिक इन्द्रियविषयोंमें कूद पड़ते हैं । यदि उन्हें स्वभावसे ही दुःख न हो तो विषयोंमें रति ही न होनी चाहिये । जिसके शरीरका दाह-दुःख नष्ट हांगया हो वह बाह्य शीतोपचारमें रति क्यों करेगा ? इससे सिद्ध हुआ कि परोक्षज्ञानियोंके दुःख स्वाभाविक ही है ॥ ६४ ॥

अब, मुक्त आत्माके सुखकी प्रसिद्धिके लिये, शरीर सुखका साधन है, इसका खंडन करते हैं । (सिद्ध भगवानके शरीरके बिना भी सुख होता है यह बात स्पष्ट समझानेके लिये, संसारावस्थामें भी शरीर सुखका इन्द्रियसुखका साधन नहीं है, यह निश्चित करते हैं) :—

पण्पा इट्टे विषये फासेहिं ममस्मिदे महावेण ।
परिणममाणो अप्पा मयमेव सुहं ण हवदि देहो ॥ ६५ ॥

प्राप्येष्टान् विषयान् स्पर्शैः समाश्रितान् स्वभावेन ।

परिणममान आत्मा स्वयमेव सुखं न भवति देहः ॥ ६५ ॥

अस्य खन्वात्मनः सशरीरावस्थायामपि न शरीरं सुखसाधनतामापद्यमानं पर्यायः; यतस्तदापि पीतोन्मत्तकरसैरिव प्रकृष्टमोहवशवर्तिभिरिन्द्रियैरिमेऽस्माकंमिष्टा इति क्रमेण विषयान्-भिपतद्भिरसमीचीनवृत्तितामनुभवन्नुपरुद्धशक्तिसारेणापि ज्ञानदर्शनवीर्यात्मकेन निश्चयकारणता-

गाथा ६५

अन्वयार्थः—[स्पर्शैः समाश्रितान्] स्पर्शनादिक इन्द्रियाँ जिनका आश्रय लेती हैं ऐसे [इष्टान् विषयान्] इष्ट विषयोंको [प्राप्य] पाकर [स्वभावेन] (अपने अशुद्ध) स्वभावसे [परिणममानः] परिणमन करता हुआ [आत्मा] आत्मा [स्वयमेव] स्वयं ही [सुख] सुखरूप (इन्द्रियसुखरूप) होता है [देहः न भवति] देह सुखरूप नहीं होती ।

टीकाः—वास्तवमें इस आत्माके लिये सशरीर अवस्थामें भी शरीर सुखका साधन हो ऐसा नहीं दिखाई देता; क्योंकि तब भी, मानों उन्मादजनक मदिराका पान किया हो ऐसी, प्रबल मोहके वश वर्तनेवाली, 'यह (विषय) हमें इष्ट है' इसप्रकार विषयोंकी ओर दौड़ती हुई इन्द्रियोंके द्वारा असमीचीन (अयोग्य) परिणतिका अनुभव करनेसे जिसकी शक्तिकी उत्कृष्टता (परम शुद्धता) रूक गई है ऐसे भी (अपने) ज्ञान-दर्शन-वीर्यात्मक स्वभावमें जो कि (सुखके) निश्चय-कारणरूप है—परिणमन करता हुआ यह आत्मा स्वयमेव सुखत्वको प्राप्त करता है, (सुखरूप होता है;) और शरीर तो अचेतन ही है इसलिये सुखत्वपरिणतिका निश्चय कारण न होता हुआ किंचित् मात्र भी सुखत्वको प्राप्त नहीं करता ।

भावार्थः—सशरीर अवस्थामें भी आत्मा ही सुखरूप (इन्द्रिय सुखरूप) परिणतिमें परिणमन करता है, शरीर नहीं; इसलिये सशरीर अवस्थामें भी सुखका

१. इन्द्रियसुखरूप परिणमन करनेवाले आत्माकी ज्ञान, दर्शन, वीर्यात्मक स्वभावकी उत्कृष्ट शक्ति रूक गई है, अर्थात् स्वभाव अशुद्ध होगया है ।

मुपागतेन स्वभावेन परिणममानः स्वयमेवायमात्मा सुखतामापद्यते । शरीरं त्वचेतनत्वादेव सुखत्वपरिणतेर्निश्चयकारणतामनुपगच्छन्न जातु सुखतामुपद्वीकृत इति ॥ ६५ ॥

अथैतदेव दृढयति—

एगंतेण हि देहो सुहं ए देहिस्स कुणदि सग्गे वा ।

विसयवसेण दु सोख्खं दुक्खं वा हवदि सयमादा ॥ ६६ ॥

एकान्तेन हि देहः सुखं न देहिनः करोति स्वर्गे वा ।

विषयवशेन तु सौख्यं दुःखं वा भवति स्वयमात्मा ॥ ६६ ॥

अयमत्र सिद्धांतो यद्विव्यवैक्रियिकत्वेऽपि शरीरं न खलु सुखाय कल्प्येतेतीष्टानामनिष्टानां वा विषयाणां वशेन सुखं वा दुःखं वा स्वयमेवात्मा स्यात् ॥ ६६ ॥

निश्चय कारण आत्मा ही है, अर्थात् इन्द्रियमुखका भी वास्तविक कारण आत्माका ही अशुद्ध स्वभाव है । अशुद्ध स्वभावमें परिणमित आत्मा ही स्वयमेव इन्द्रियमुखरूप होता है । उसमें शरीर कारण नहीं है; क्योंकि मुखरूप परिणति और शरीर सर्वथा भिन्न है इसलिये मुख और शरीरमें निश्चयसे किञ्चित्मात्र भी कार्य कारणता नहीं है ॥ ६५ ॥

अब, इसी बातको दृढ़ करते हैं:—

गाथा ६६

अन्वयार्थः—[एकान्तेन हि] एकान्तमे अर्थात् नियमसे [स्वर्गे वा] स्वर्गमें भी [देहः] शरीर [देहिनः] शरीरी (आत्माको) [सुखं न करोति] सुख नहीं देता [विषयवशेन तु] परन्तु विषयोंके वशसे [सौख्यं दुःखं वा] सुख अथवा दुःखरूप [स्वयं आत्मा भवति] स्वयं आत्मा होता है ।

टीका:—यहाँ यह सिद्धांत है कि—भले ही दिव्य वैक्रियिकता प्राप्त हो तथापि 'शरीर सुख नहीं दे सकता' इसलिये, आत्मा स्वयं ही इष्ट अथवा अनिष्ट विषयोंके वशसे सुख अथवा दुःखरूप स्वयं ही होता है ।

भावार्थः—शरीर सुख दुःख नहीं देता । देवोंका उत्तम वैक्रियिक शरीर सुखका कारण नहीं है, और नारकियोंका शरीर दुःखका कारण नहीं है । आत्मा स्वयं ही इष्ट अनिष्ट विषयोंके वश होकर सुख-दुःखकी कल्पनारूपमें परिणमित होता है ॥ ६६ ॥

अथात्मनः स्वयमेव सुखपरिणामशक्तियोगित्वाद्विषयाणामकिञ्चित्करत्वं द्योतयति—

तिमिरहरा जड् दिट्टी जणम्य दीवेण णत्थि कायव्वं ।

तह सोक्खं सयमादा विमया किं तत्थ कुव्वन्ति ॥ ६७ ॥

तिमिरहरा यदि दृष्टिर्जनस्य दीपेन नास्ति कर्तव्यम् ।

तथा मौख्यं स्वयमात्मा विषयाः किं तत्र कुर्वन्ति ॥ ६७ ॥

यथा हि केषांचिन्नक्तंचराणां चक्षुषः स्वयमेव तिमिरविकरणशक्तित्वात् तदपाकरण-
प्रवणेन प्रदीपप्रकाशादिना कार्यं, एवमस्यात्मनः संसारे मुक्तौ वा स्वयमेव सुखतया परिणम-
मानस्य सुखसाधनधिया अबुर्धैर्मुग्धाध्यास्यमाना अपि विषयाः किं हि नाम कुर्युः ॥ ६७ ॥

अब, आत्मा स्वयं ही मुखपरिणामकी शक्तिवाला है इसलिये विषयोंकी अकिञ्चित्करता बतलाते हैं—

गाथा ६७

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [जनस्य दृष्टिः] प्राणीकी दृष्टि [तिमिरहरा]
तिमिरनाशक हो तो [दीपेन नास्ति कर्तव्यं] दीपकसे कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात्
दीपक कुछ नहीं कर सकता [तथा] इसीप्रकार (जहाँ) [आत्मा] आत्मा [स्वयं]
स्वयं [मौख्यं] सुखरूप परिणमन करता है, [तत्र] वहाँ [विषयाः] विषय
[किं कुर्वन्ति] क्या कर सकते हैं ? ।

टीकाः—जैसे किन्हीं निशाचरोंके (उल्लू, बिल्ली इत्यादि) नेत्र स्वयमेव
अन्धकारको नष्ट करनेकी शक्तिवाले होते हैं, इसलिये उन्हें अंधकार नाशक स्वभाव-
वाले दीपक-प्रकाशादिसे कोई प्रयोजन नहीं होता, (उन्हें दीपक-प्रकाश कुछ नहीं
करता,) इसीप्रकार—यद्यपि अज्ञानी 'विषय सुखके साधन हैं' ऐसी बुद्धिके द्वारा व्यर्थ
ही विषयोंका अध्यास आश्रय करते हैं, तथापि—संसारमें या मुक्तिमें स्वयमेव सुखरूप
परिणमित इस आत्माका विषय क्या कर सकते हैं ?

भावार्थः—संसारमें या मोक्षमें आत्मा अपने आप ही मुखरूप परिणमित
होता है; उसमें विषय अकिञ्चित्कर है अर्थात् कुछ नहीं कर सकते । अज्ञानी
विषयोंको मुखका कारण मानकर व्यर्थ ही उनका अवलंबन लेते हैं ॥ ६७ ॥

अथात्मनः सुखस्वभावत्वं दृष्टान्तेन दृढयति—

मयमेव जहादिच्चो तेजो उगहो य देवदा णमसि ।

सिद्धो वि तहा णाणं सुहं च लोके तहा देवो ॥ ६८ ॥

स्वयमेव यथादिन्यम्तेजः उष्णश्च देवता नभसि ।

सिद्धोऽपि तथा ज्ञानं सुखं च लोके तथा देवः ॥ ६८ ॥

यथा खलु नभसि कारणान्तरमनपेक्ष्यैव स्वयमेव प्रभाकरः प्रभूतप्रभाभारभास्वरस्वरूप-
विकस्वरप्रकाशशालितया तेजः, यथा च कादाचित्कौष्ण्यपरिणतायःपिण्डवन्नित्यमेवौष्ण्यपरि-
णामापन्नत्वाद्दुष्णः, यथा च देवगतिनामकर्मोदयानुवृत्तिवशवर्तिस्वभावतया देवः । तथैव लोके

अत्र, आत्माका सुखस्वभावत्वं दृष्टान्त देकर दृढ करते हैं—

गाथा ६८

अन्वयार्थः—[यथा] जैसे [नभसि] आकाशमें [आदित्यः] सूर्य [स्वयमेव]
अपने आप ही [तेजः] तेज [उष्णः] उष्ण [च] और [देवता] देव है [तथा]
उसीप्रकार [लोके] लोकमें [सिद्धः अपि] सिद्ध भगवान भी (स्वयमेव) [ज्ञानं]
ज्ञान [सुखं च] सुख [तथा देवः] और देव हैं ।

टीकाः—जैसे आकाशमें अन्य कारणकी अपेक्षा रखे बिना ही सूर्य (१)
स्वयमेव अत्यधिक प्रभा समूहसे चमकते हुए, स्वरूपके द्वारा विकसित प्रकाशयुक्त
होनेसे तेज है, (२) कभी उष्णतारूप परिणमित लोहेके गोलेकी भाँति सदा
उष्णता-परिणामको प्राप्त होनेसे उष्ण है, और (३) देवगतिनामकर्मके धारावाहिक
उदयके वशवर्ती स्वभावसे देव है; इसीप्रकार लोकमें अन्य कारणकी अपेक्षा रखे
बिना ही भगवान आत्मा स्वयमेव ही (१) स्वपरको प्रकाशित करनेमें समर्थ
निर्वितथ (—सच्ची) अनन्तशक्तियुक्त सहज संवेदनके साथ तादात्म्य होनेसे ज्ञान है,
(२) आत्मनृप्तिसे उत्पन्न होनेवाली जो परिनिर्वृत्ति है, उससे प्रवर्तमान अनाकुलतामें
सुस्थितताके कारण मौख्य है, और (३) जिन्हें आत्मतत्त्वकी उपलब्धि निकट है

१. जैसे लोहेका गोला कभी उष्णतापरिणामसे परिणमता है वैसे सूर्य सदा ही उष्णतापरिणामसे
परिणमा हुआ है । २. परिनिर्वृत्ति = मोक्ष; परिपूर्णाता; अन्तिम सम्पूर्ण सुख (परिनिर्वृत्ति आत्म तृप्तिसे
होती है, अर्थात् आत्मतृप्तिकी पराकाष्ठा ही परिनिर्वृत्ति है ।

कारणान्तरमनपेक्षैव स्वयमेव भगवानात्मापि स्वपरप्रकाशनसमर्थनिर्विद्यमानन्तशक्तिसहजसंवेदनादात्म्यात् ज्ञानं, तथैव चात्मवृत्तिसमुपजातपरिनिर्वृत्तिप्रवर्तितानाकुलत्वसुस्थितत्वात् सौख्यं, तथैव चासत्तात्मतत्त्वोपलम्बलब्धवर्णजनमानसशिलास्तम्भोत्कीर्णसमुदीर्णद्युतिस्तुतियोगिदिव्यात्मस्वरूपत्वाद्देवः । अतोऽस्यात्मनः सुखसाधनाभासैर्विषयैः पर्याप्तम् ॥ ६८ ॥ इति आनन्दप्रपञ्चः ।

अथ शुभ परिणामाधिकारप्रारम्भः ।

अथेन्द्रियसुखस्वरूपविचारमुपक्रममाणस्तत्साधनस्वरूपमुपन्यस्यति—

देवदजदिगुरुपूजासु चं व दाणम्मि वा सुमीलेसु ।

उपवामादिषु रत्तो सुहोवद्योगपगो अप्पा ॥ ६९ ॥

देवतायतिगुरुपूजासु चं व दाने वा सुमीलेषु ।

उपवामादिषु रक्तः शुभोपयोगात्मक आत्मा ॥ ६९ ॥

ऐसे बुधजनोंके मनरूपी 'शिलास्तम्भमें जिसकी अतिशय 'द्युति' स्तुति उत्कीर्ण है ऐसा दिव्य आत्मस्वरूपवान होनेसे देव है । इसलिये इस आत्माको सुखसाधनाभासके विषयोंसे बस हो ।

भावार्थः—सिद्ध भगवान् किसी बाह्य कारणकी अपेक्षाके बिना अपने आप ही स्वपरप्रकाशक ज्ञानरूप हैं, अनन्त आत्मिक आनन्दरूप हैं और अचिन्त्य दिव्यतारूप हैं । सिद्ध भगवान्की भाँति ही सर्व जीवोंका स्वभाव है; इसलिये मुखार्थी जीवोंको विषयालम्बी भाव छोड़कर निरालम्बी परमानन्द स्वभावरूप परिणमन करना चाहिये ।

—: इसप्रकार यह आनन्द अधिकार पूर्ण हुआ :—

—* अब, यहाँ शुभ परिणामका अधिकार प्रारम्भ होता है *—

अब, इन्द्रियसुखस्वरूप सम्बन्धी विचारको लेकर, उसके साधनका (शुभोपयोगका) स्वरूप कहते हैं:—

गाथा ६९.

अन्वयार्थः—[देवतायतिगुरुपूजासु] देव, गुरु और यतिकी पूजामें [दाने च एव]

१. पत्थरके खंभेमें । २. द्युति—दिव्यता; भव्यता; महिमा (गणधर देवादि बुधजनोंके मनमें शुद्धात्मस्वरूपकी दिव्यताका स्तुतिमान उत्कीर्ण हांगया है ।

यदायमात्मा दुःखस्य साधनीभूतां द्वेषरूपामिन्द्रियार्थानुरागरूपां चाशुभोपयोगभूमिकामति-
क्रम्य देवगुरुयतिपूजादानशीलोपवासप्रीतिलक्षणं धर्मानुराममङ्गीकरोति तदेन्द्रियसुखस्य साधनी-
भूतां शुभोपयोगभूमिकामधिरूढोऽमिलप्येत ॥ ६९ ॥

अथ शुभोपयोगसाध्यत्वेनेन्द्रियसुखमाख्याति—

युक्तो मुहेण आदा तिरियो वा माणुसो व देवो वा ।

भूदो तावदि कालं लहदि मुहं इन्द्रियं विविहं ॥ ७० ॥

युक्तः शुभेन आत्मा तिर्यग्वा मानुषो वा देवो वा ।

भूतस्तावत्कालं लभते सुखमैन्द्रियं विविधं ॥ ७० ॥

तथा दानमें [सुशीलेषु वा] एवं सुशीलोमें [उपवासादिषु] और उपवासादिकमें [रक्तः
आत्मा] लीन आत्मा [शुभोपयोगात्मकः] शुभोपयोगात्मक है ।

टीका:—जब यह आत्मा दुःखकी साधनभूत द्वेषरूप तथा इन्द्रिय विषयकी
अनुरागरूप अशुभोपयोग भूमिकाका उल्लंघन करके, देव-गुरु-यतिकी पूजा, दान, शील
और उपवासादिकके प्रीतिस्वरूप धर्मानुरागको अंगीकार करता है तब वह इन्द्रिय-
सुखकी साधनभूत शुभोपयोगभूमिकामें आरूढ़ कहलाता है ।

भावार्थः—सर्व दोष रहित परमात्मा देव हैं; भेदाभेद रत्नत्रयके स्वयं
आराधक तथा उस आराधनाके अर्थी अन्य भव्य जीवोंको जिनदीक्षा देनेवाले
गुरु हैं; इन्द्रियजय करके शुद्धात्मस्वरूपमें प्रयत्न परायण यति हैं । ऐसे देव, गुरु,
यतिकी अथवा उनकी प्रतिमाकी पूजामें, आहारादिक चतुर्विधदानमें एवं शास्त्रोदित
शीलव्रतोंमें तथा उपवासादिक तपमें प्रीतिका होना धर्मानुराग है । जो आत्मा द्वेषरूप
और विषयानुरागरूप अशुभोपयोगको पार करके धर्मानुरागको अंगीकार करता है
वह शुभोपयोगी है ॥ ६९ ॥

अब, इन्द्रिय सुखको शुभोपयोगके साध्यके रूपमें कहते हैं:—

गाथा ७०

अन्वयार्थः—[शुभेन युक्तः] शुभोपयोग युक्त [आत्मा] आत्मा [तिर्यक् वा]
तिर्यक् [मानुषः वा] मनुष्य [देवः वा] अथवा देव [भूतः] होकर [तावत्कालं]
उतने समय तक [विविधं] विविध [ऐन्द्रियं सुखं] इन्द्रिय सुख [लभते] प्राप्त
करता है ।

अयमात्मेन्द्रियसुखसाधनीभूतस्य शुभोपयोगस्य सामर्थ्याच्चदधिष्ठानभूतानां तिर्यग्मानुष-
देवत्वभूमिकानामन्यतमां भूमिकामवाप्य यावत्कालमवतिष्ठते, तावत्कालमनेकप्रकारमिन्द्रियसुखं
समासादयतीति ॥ ७० ॥

अथैवमिन्द्रियसुखमुत्क्षिप्य दुःखत्वे प्रक्षिपति—

सौख्यं महावसिद्धं णत्थि सुराणं पि मिद्धमुपदेशे ।

ते देहवेदणत्वा रमन्ति विमग्गु रम्मेषु ॥ ७१ ॥

सौख्यं स्वभावसिद्धं नास्ति सुराणामपि सिद्धमुपदेशे ।

ते देहवेदनार्ता रमन्ते विषयेषु रम्भेषु ॥ ७१ ॥

इन्द्रियसुखभाजनेषु हि प्रधाना दिवौकसः, तेषामपि स्वाभाविकं न खलु सुखमस्ति प्रत्युत
तेषां स्वभाविकं दुःखमेवावलोक्यते । यतस्ते पञ्चेन्द्रियात्मकशरीरपिशाचपीडया परवशा भृगु-
प्रपातस्थानीयान्मनोज्ञविषयानभिपतन्ति ॥ ७१ ॥

टीका:—यह आत्मा इन्द्रियमुखके साधनभूत शुभोपयोगकी सामर्थ्यसे उसके
अधिष्ठानभूत (इन्द्रियमुखके स्थानभूत-आधारभूत) तिर्यच, मनुष्य और देवत्वकी
भूमिकाओंमेंसे किसी एक भूमिकाको प्राप्त करके जितने समय तक उसमें रहता है
उतने समय तक अनेक प्रकारका इन्द्रियमुख प्राप्त करता है ॥ ७० ॥

इसप्रकार इन्द्रियमुखकी बात उठाकर अब उसे दुःखरूपमें प्रक्षिपित करते हैं:—

गाथा ७१

अन्वयार्थः—[उपदेशे मिद्धं] (जिनेन्द्र देव के) उपदेशसे मिद्ध है कि [सुराणाम्
अपि] देवोंके भी [स्वभावसिद्धं] स्वभावसिद्ध [सौख्यं] मुख [नास्ति] नहीं है;
[ते] वे [देहवेदनार्ता] (पञ्चेन्द्रियमय) देहकी वेदना से पीड़ित होने से [रम्भेषु
विषयेषु] रम्य विषयोंमें [रमन्ते] रमते हैं ।

टीका:—इन्द्रियमुखके भाजनोंमें प्रधान देव हैं; उनके भी वास्तवमें स्वा-
भाविक मुख नहीं है, प्रत्युत उनके स्वाभाविक दुःख ही देखा जाता है; क्योंकि
वे पञ्चेन्द्रियात्मक शरीररूपी पिशाचकी पीड़ासे परवश होनेसे भृगुप्रपातके समान
मनोज्ञ विषयोंकी ओर दौड़ते हैं ॥ ७१ ॥

१. भृगुप्रपात - अत्यंत दुःखसे घबराकर आत्मघात करनेके लिये पर्वतके निराधार उच्च शिखरसे
गिरना । (भृगु - पर्वतका निराधार उच्चस्थान—शिखर; प्रपात—गिरना)

अथैवमिन्द्रियसुखस्य दुःखतायां युक्त्यावतारितायामिन्द्रियसुखसाधनीभूतपुण्यनिर्वर्तक-
शुभोपयोगस्य दुःखसाधनीभूतपापनिर्वर्तकाशुभोपयोगविशेषादविशेषत्वमवतारयति—

एरणारयतिरियसुरा भजन्ति जदि देहसंभवं दुःखं ।
किह मो मुहो व अमुहो उवञ्चोगो हवदि जीवाणं ॥ ७२ ॥

नरनारकतिर्यक्सुरा भजन्ति यदि देहसंभवं दुःखं ।
कथं स शुभो वाऽशुभ उपयोगो भवति जीवानाम् ॥ ७२ ॥

यदि शुभोपयोगजन्यसमुर्दीर्णपुण्यसंपदस्त्रिदशदयोऽशुभोपयोगजन्यपर्यागतपातकापदो वा
नारकादयश्च, उभयेऽपि स्वाभाविकसुखाभावादविशेषेण पञ्चेन्द्रियात्मकशरीरप्रत्ययं दुःखमेवा-

इसप्रकार युक्तिपूर्वक इन्द्रियसुखको दुःखरूप प्रगट करके, अब इन्द्रियसुखके
साधनभूत पुण्यको उत्पन्न करनेवाले शुभोपयोगकी दुःखके साधनभूत पापको उत्पन्न
करनेवाले अशुभोपयोगसे अविशेषता प्रगट करते हैं:—

गाथा ७२

अन्वयार्थः—[नरनारकतिर्यक्सुराः] मनुष्य नारकी तिर्यच और देव (सभी)
[यदि] यदि [देहसंभवं] देहोत्पन्न [दुःखं] दुःखको [भजन्ति] अनुभव करते हैं तो
[जीवानां] जीवोंका [सः उपयोगः] वह (शुभोपयोगसे विलक्षण अशुभ) उपयोग
[शुभः वा अशुभः] शुभ और अशुभ—दो प्रकारका [कथं भवति] कैसे है ?
(अर्थात् नहीं है)

टीका:—यदि शुभोपयोगजन्य उदयगत पुण्यकी सम्पत्तिवाले देवादिक
(शुभोपयोगजन्य पुण्यके उदयसे प्राप्त होनेवाली ऋद्धिवाले देव इत्यादि) और
अशुभोपयोगजन्य उदयगत पापकी आपदावाले नारकादिक दोनों स्वाभाविक सुखके
अभावके कारण अविशेषरूपसे (बिना अन्तरके) पञ्चेन्द्रियात्मक शरीर सम्बन्धी
दुःखका ही अनुभव करते हैं तब फिर परमार्थसे शुभ और अशुभ उपयोगकी
पृथक्त्व व्यवस्था नहीं रहती ।

भावार्थः—शुभोपयोगजन्य पुण्यके फलरूपमें देवादिककी सम्पदायें मिलती हैं,
और अशुभोपयोगजन्य पापके फलरूपमें नारकादिककी आपदायें मिलती हैं । किन्तु
वे देवादिक तथा नारकादिक दोनों परमार्थसे दुःखी ही हैं । इसप्रकार दोनोंका फल

नुभवन्ति । ततः परमार्थतः शुभाशुभोपयोगयोः पृथक्त्वव्यवस्थानावतिष्ठते ॥ ७२ ॥

अथ शुभोपयोगजन्यं फलवत्पुण्यं विशेषेण दूषणार्थमभ्युपगम्योत्थापयति—

कुलिमाउहचक्रधरा मुहोवभ्रांगप्पगेहिं भोगेहिं ।

देहादीणां विद्धिं करेति मुहिदा इवाभिरदा ॥ ७३ ॥

कुलिमायुधचक्रधराः शुभोपयोगात्मकैः भोगैः ।

देहादीनां विद्धिं कुर्वन्ति मुग्धिता इवाभिरताः ॥ ७३ ॥

यतो हि शक्राश्चक्रिणश्च स्वेच्छोपगतैर्भोगैः शरीरादीन् पुष्णन्तस्तेषु दुष्टशोणित इव

समान होनेसे शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों परमार्थसे समान ही हैं अर्थात् उपयोगमें अशुद्धोपयोगमें शुभ और अशुभ नामक भेद परमार्थमें घटित नहीं होते ॥ ७२ ॥

(जैसे इन्द्रिय सुखको दुःखरूप और शुभोपयोगको अशुभोपयोगके समान बताया है इसीप्रकार) अब, शुभोपयोगजन्य फलवाला जो पुण्य है उसे विशेषतः दूषण देनेके लिये (उसमें दोष दिखानेके लिये) उस पुण्यको (उसके अस्तित्वको) स्वीकार करके उसकी बातका खंडन करते हैं—

गाथा ७३

अन्वयार्थः—[कुलिमायुधचक्रधराः] वज्रधर और चक्रधर (इन्द्र और चक्रवर्ती) [शुभोपयोगात्मकैः भोगैः] शुभोपयोगमूलक (पुण्योंके फलरूप) भोगोंके द्वारा [देहादीनां] देहादिकी [विद्धिं कुर्वन्ति] पुष्टि करते हैं और [अभिरताः] (इसप्रकार) भोगोंमें रत वर्तते हुए [मुग्धिताः इव] सुखी जैसे भासित होते हैं । (इसलिये पुण्य विद्यमान अवश्य है)

टीकाः—शक्रेन्द्र और चक्रवर्ती अपनी इच्छानुसार प्राप्त भोगोंके द्वारा शरीरादिको पुष्ट करते हुए जैसे गोंव (जोक) दूषित रक्तमें अत्यन्त आसक्त वर्तती हुई सुखी जैसी भासित होती है, उसीप्रकार उन भोगोंमें अत्यन्त आसक्त वर्तते हुए सुखी जैसे भासित होते हैं, इसलिये शुभोपयोगजन्य फलवाले पुण्य दिखाई देते हैं

जलीकसोऽस्यभ्रमासक्ताः सुखिता इव प्रतिभासन्ते । ततः शुभोपयोगजन्यानि फलवन्ति पुण्या-
भ्यवलोकयन्ते ॥ ७३ ॥

अथैवमभ्युपगतानां पुण्यानां दुःखबीजहेतुत्वमुद्गावयति—

जदि संति हि पुण्याणि य परिणामसमुद्भवानि विविद्धानि ।
जणयन्ति विषयतृष्णं जीवानां देवदान्तानां ॥ ७४ ॥

यदि सन्ति हि पुण्यानि च परिणामसमुद्भवानि विविधानि ।

जनयन्ति विषयतृष्णां जीवानां देवदान्तानाम् ॥ ७४ ॥

यदि नामैवं शुभोपयोगपरिणामकृतसमुत्पत्तीन्यनेकप्रकाराणि पुण्यानि विद्यंत इत्यभ्युप-
गम्यते, तदा तानि सुधाशनानप्यवधिं कृत्वा समस्तसंसारिणां विषयतृष्णामवश्यमेव समुत्पादयन्ति ।

(शुभोपयोगजन्य फलवाले पुण्योंका अस्तित्व दिखाई देता है)

भावार्थः—जो भोगोंमें आसक्त वर्तते हुए इन्द्र इत्यादि गोंच (जोंक)की
भाँति सुखी जैसे मालूम होते हैं, वे भोग पुण्यके फल हैं, इसलिये पुण्यका अस्तित्व
अवश्य है । इसप्रकार इस गाथामें पुण्यकी विद्यमानता स्वीकार करके आगेकी
गाथाओंमें पुण्यको दुःखका कारणरूप बतायेंगे ॥ ७३ ॥

अब, इसप्रकार स्वीकार किये गये पुण्य दुःखके बीजके कारण हैं, (तृष्णाके
कारण हैं) इसप्रकार न्यायसे प्रगट करते हैंः—

गाथा ७४

अन्वयार्थः—[यदि हि] (पूर्वोक्त प्रकारसे) यदि [परिणामसमुद्भवानि]
(शुभोपयोगरूप) परिणामसे उत्पन्न होनेवाले [विविधानि पुण्यानि च] विविध
पुण्य [संति] विद्यमान हैं [देवदान्तानां जीवानां] तो वे देवों तकके जीवोंको
[विषयतृष्णां] विषयतृष्णा [जनयन्ति] उत्पन्न करते हैं ।

टीकाः—यदि इसप्रकार शुभोपयोग परिणामसे उत्पन्न होनेवाले अनेक
प्रकारके पुण्य विद्यमान हैं, यह स्वीकार किया है तो वे (पुण्य) देवों तकके समस्त
संसारियोंके विषयतृष्णा अवश्यमेव उत्पन्न करते हैं (यह भी स्वीकार करना पड़ता
है) वास्तवमें तृष्णाके बिना जोंक (गोंच)को दूषित रक्तकी भाँति समस्त

न खलु तृष्णामन्तरेण दुष्टशोणित इव जलूकानां समस्तसंसारिणां विषयेषु प्रवृत्तिरवलोक्यते ।
अवलोक्यते च सा । ततोऽस्तु पुण्यानां तृष्णायतनत्वमबाधितमेव ॥ ७४ ॥

अथ पुण्यस्य दुःखबीजविजयमाधोषयति—

ते पुण उदिरणतगद्वा दुहिदा तरद्वाहिं विमयमोक्त्वाणि ।

इच्छन्ति अणुभवन्ति य आमरणं दुःखमंतप्ता ॥ ७५ ॥

ते पुनरुदीर्णतृष्णाः दुःखितास्तृष्णाभिर्विषयसौरूप्यानि ।

इच्छन्त्यनुभवन्ति च आमरणं दुःखमंतप्ताः ॥ ७५ ॥

अथ ते पुनस्त्रिदशवसानाः कृत्स्नसंसारिणः समुदीर्णतृष्णाः पुण्यनिर्वर्तिताभिरपि तृष्णा-

संसारियोंकी विषयोंमें प्रवृत्ति दिखाई न दे; किन्तु वह तो दिखाई देती है । इसलिये पुण्योंकी तृष्णायतनता अबाधित ही है, (पुण्य तृष्णाके घर हैं, यह अविरोधरूपसे सिद्ध होता है) ।

भावार्थः—जैसा कि ७३ वीं गाथामें कहा गया है उसप्रकार अनेक तरहके पुण्य विद्यमान हैं सो भले रहें । वे सुखके साधन नहीं किन्तु दुःखके बीजरूप तृष्णाके ही साधन हैं ॥ ७४ ॥

अब, पुण्यमें दुःखके बीजकी विजय घोषित करने हैं । (पुण्यमें तृष्णाबीज दुःखवृक्षरूपसे वृद्धिको प्राप्त होता है—फैलता है, यह घोषित करते हैं) :—

गाथा ७५

अन्वयार्थः—[पुनः] और [उदीर्णतृष्णाः ते] जिनकी तृष्णा उदित है ऐसे वे जीव [तृष्णाभिः दुःखिताः] तृष्णाओंके द्वारा दुःखी होते हुए [आमरणं] मरण पर्यंत [विषय सौरूप्यानि इच्छन्ति] विषयसुखोंको चाहते हैं [च] और [दुःखसन्तप्ताः] दुःखोंमें संतप्त होते हुए (दुःखदाहको सहन न करते हुए) [अनुभवन्ति] उन्हें भोगने हैं ।

टीकाः—जिनके तृष्णा उदित है ऐसे देवपर्यंत समस्त संसारी, तृष्णा दुःखका बीज होनेसे पुण्यजनित तृष्णाओंके द्वारा भी अत्यन्त दुःखी होते हुए 'मृगतृष्णामेंसे

१. जैसे मृगजलमेंसे जल नहीं मिलता वैसे ही इन्द्रियविषयोंमेंसे सुख प्राप्त नहीं होता ।

मिर्दुःखबीजतयाऽऽन्यतदुःखिताः सन्तो मृगतृष्णाम्य इवाम्मांसि विषयेभ्यः सौख्यान्यभिलषन्ति । तदुःखसंतापवेगमसहमाना अनुभवन्ति च विषयान् जलायुक्ता इव, तावद्यावत् भयं यान्ति । यथा हि जलायुक्तास्तृष्णाबीजेन विजयमानेन दुःखाङ्कुरेण क्रमतः समाक्रम्यमाणा दुष्टकीलालमभिलषन्त्यस्तदेवानुभवन्त्यश्चाप्रलयात् क्लिश्यन्ते । एवमपी अपि पुण्यशालिनः पापशालिन इव तृष्णाबीजेन विजयमानेन दुःखाङ्कुरेण क्रमतः समाक्रम्यमाणा विषयानभिलषन्तस्तानेवानुभवन्तश्चाप्रलयात् क्लिश्यन्ते । अतः पुण्यानि सुखाभासस्य दुःखस्यैव साधनानि स्युः ॥ ७५ ॥

अथ पुनरपि पुण्यजन्यस्येन्द्रियसुखस्य बहुधा दुःखत्वमुद्योतयति—

जलकी भाँति विषयोंमेंसे सुख चाहते हैं, और उस दुःखसंतापके वेगको सहन न कर सकनेसे जोंककी भाँति विषयोंको तबतक भोगते हैं, जब तक कि मरणको प्राप्त नहीं होते । जैसे जोंक (गोंच) तृष्णा जिसका बीज है ऐसे विजयक्रो प्राप्त होती हुई दुःखाङ्कुरसे क्रमशः आक्रान्त होनेसे दूषित रक्तको चाहती और उसीको भोगती हुई मरण पर्यंत क्लेशको पाती है, उसीप्रकार यह पुण्यशाली जीव भी पापशाली जीवोंकी भाँति तृष्णा जिसका बीज है ऐसे विजयप्राप्त दुःखाङ्कुरोंके द्वारा क्रमशः आक्रान्त होनेसे विषयोंको चाहते हुए और उन्हींको भोगते हुए विनाश पर्यंत (मरणपर्यंत) क्लेश पाते हैं ।

इससे पुण्य सुखाभासरूप दुःखका ही साधन है ।

भावार्थः— जिन्हें समस्तविकल्पजालरहित परमसमाधिसे उत्पन्न सुखामृतरूप सर्व आत्मप्रदेशोंमें परमआह्लादभूतस्वरूपतृप्ति नहीं वर्तती, ऐसे समस्त संसारी जीवोंके निरन्तर विषयतृष्णा व्यक्त या अव्यक्तरूपसे अवश्य वर्तती है । वे तृष्णारूपी-बीज क्रमशः अङ्कुररूप होकर दुःखवृक्षरूपसे वृद्धिको प्राप्त होकर इसप्रकार दुःखदाहका वेग असह्य होनेपर वे जीव विषयोंमें प्रवृत्त होते हैं । इसलिये जिनकी विषयोंमें प्रवृत्ति देखी जाती है ऐसे देवों तकके समस्त संसारी जीव दुःखी ही हैं ।

इसप्रकार दुःखभाव ही पुण्योंका-पुण्य जनित सामग्रीका आलम्बन करता है इसलिये पुण्य सुखाभासभूत दुःखका ही अवलम्बन-साधन है ॥ ७५ ॥

अब, पुनः पुण्यजन्य इन्द्रियसुखको अनेक प्रकारसे दुःखरूप प्रकाशित करते हैंः—

१. दुःखसंताप → दुःखदाह, दुःखकी जलन-पीड़ा ।

सपरं बाधासहितं विच्छिन्नं बन्धकारणं विषमं ।
जं इन्द्रियेहिं लब्धं तं मोक्षं दुःखमेव तदा ॥ ७६ ॥

सपरं बाधासहितं विच्छिन्नं बन्धकारणं विषमम् ।

यदिन्द्रियैर्लब्धं तन्मौख्यं दुःखमेव तथा ॥ ७६ ॥

सपरत्वात् बाधासहितत्वात् विच्छिन्नत्वात् बन्धकारणत्वात् विषमत्वाच्च पुण्यजन्यमपीन्द्रियसुखं दुःखमेव स्यात् । सपरं हि सत् परप्रत्ययत्वात् । पराधीनयया, बाधासहितं हि सदसनायोदन्यावृषस्यादिभिस्तृष्णाव्यक्तिभिरुपेतत्वात् अत्यन्ताकुलतया, विच्छिन्नं हि सदसद्वेद्योदयप्रच्यावितसद्वेद्योदयप्रवृत्ततयाऽनुभवत्वादुद्भूतविपक्षतया, बन्धकारणं हि सद्विषयोपभोगमार्गानुलग्नरागा-

गाथा ७६

अन्वयार्थः—[यत्] जो [इन्द्रियैः लब्धं] इन्द्रियोसे प्राप्त होता है [तत् सौख्यं] वह सुख [सपरं] परसम्बन्धयुक्त [बाधासहितं] बाधासहित [विच्छिन्नं] विच्छिन्न [बन्धकारणं] बन्धका कारण [विषमं] और विषम है, [तथा] इसप्रकार [दुःखम् एव] वह दुःख ही है ।

टीकाः—परसम्बन्धयुक्त होनेसे, बाधा सहित होनेसे, विच्छिन्न होनेसे, बन्धका कारण होनेसे, और विषम होनेसे, इन्द्रियसुख पुण्यजन्य होनेपर भी दुःख ही है ।

इन्द्रियसुख (१) 'परके सम्बन्धवाला' होता हुआ पराश्रयताके कारण पराधीन है, (२) 'बाधा सहित' होता हुआ खाने, पीने और मँथुनकी इच्छा इत्यादि तृष्णाकी प्रगटताओंसे युक्त होनेसे अत्यन्त आकुल है, (३) 'विच्छिन्न' होता हुआ असातावेदनीयका उदय जिसे 'च्युत कर देता है, सातावेदनीयके उदयसे प्रवर्तमान होता हुआ अनुभवमें आता है, इसलिये विपक्षकी उत्पत्तिवाला है, (४) 'बन्धका कारण' होता हुआ विषयोपभोगके मार्गमें लगी हुई रागादि दोषोंकी सेनाके अनुसार कर्मरजके घन (ठोस) पटल (समूह)का सम्बन्ध होता है इसलिये परिणामसे दुःसह है, और (५) 'विषम' होता हुआ हानि वृद्धिमें परिणमित होनेसे अत्यन्त अस्थिर है; इसलिये वह (इन्द्रियसुख) दुःख ही है ।

१. च्युत करना—हटा देना; पदभ्रष्ट करना; (सातावेदनीयका उदय उसकी स्थिति अनुसार रहकर हट जाता है और असाता वेदनीयका उदय आता है)

दिदोषसेनानुसारसंगच्छमानघनकर्मपांसुपटलत्वादुदुर्कदुःसहतया, विषमं हि सदभिवृद्धिपरिहा-
णिपरिणतत्वादत्यन्तविसंष्टुलतया च दुःखमेव भवति । अथैवं पुण्यमपि पापवद्दुःखसाधनमाया-
तम् ॥ ७६ ॥

अथ पुण्यपापयोरविशेषत्वं निश्चिन्वन्नुपसंहरति—

ण हि मरणदि जो एवं णत्थि विसेसो त्ति पुण्यपावाणं ।

हिण्डदि घोरमपारं संसारं मोहसंज्ञणो ॥ ७७ ॥

न हि मन्यते य एवं नास्ति विशेष इति पुण्यपापयोः ।

हिण्डति घोरमपारं संसारं मोहसंज्ञः ॥ ७७ ॥

एवमुक्तक्रमेण शुभाशुभोपयोगद्वैतमिव सुखदुःखद्वैतमिव च न खलु परमार्थतः पुण्यपाप-
द्वैतमवतिष्ठते, उभयत्राप्यनात्मधर्मत्वाविशेषत्वात् । यस्तु पुनरनयोः कल्याणकालायसनिगलयोरि-

जब कि ऐसा है (इन्द्रियसुख दुःख ही है) तो पुण्य भी पापकी भाँति
दुःखका साधन है, यह फलित हुआ ।

भावार्थः—इन्द्रियसुख दुःख ही है, क्योंकि वह पराधीन है, अत्यन्त आकुल
है, विपक्षकी उत्पत्तिवाला है, परिणामसे दुःस्सह है, और अत्यन्त अस्थिर है ।
इससे यह सिद्ध हुआ कि पुण्य भी दुःखका ही साधन है ॥ ७६ ॥

अब, पुण्य और पापकी अविशेषताका निश्चय करते हुए (इस विषयका)
उपसंहार करते हैंः—

गाथा ७७

अन्वयार्थः—[एवं] इसप्रकार [पुण्यपापयोः] पुण्य और पापमें [विशेषः
नास्ति] अन्तर नहीं है [इति] इसप्रकार [यः] जो [न हि मन्यते] नहीं मानता
[मोहसंज्ञः] वह मोहाच्छादित होता हुआ [घोरं अपारं संसारं] घोर अपार संसारमें
[हिण्डति] परिभ्रमण करता है ।

टीकाः—यों पूर्वोक्त प्रकारसे शुभाशुभ उपयोगके द्वैतकी भाँति और सुख-
दुःखके द्वैतकी भाँति परमार्थसे पुण्यपापका द्वैत नहीं टिकता, क्योंकि दोनोंमें अनात्म-
धर्मत्व अविशेष (समान) है (परमार्थसे जैसे शुभोपयोग और अशुभोपयोगरूप
द्वैत विद्यमान नहीं है, जैसे इन्द्रियसुख और दुःखरूप द्वैत विद्यमान नहीं है, उसीप्रकार

वाहङ्कारिकं विशेषमभिमन्यमानोऽहमिन्द्रपदादिसंपदां निदानमिति निर्भरतरं धर्मानुरागमवलम्बते
स खलूपरक्तचित्तमित्तया तिरस्कृतशुद्धोपयोगशक्तिरासंसारं शारीरं दुःखमेवानुभवति ॥७७॥

अथैवमवधारितशुभाशुभोपयोगाविशेषः समस्तमपि रागद्वेषद्वैतमपहासयन्नशेषदुःखक्षयाय
सुनिश्चितमनाः शुद्धोपयोगमधिवसति—

एवं विदिदत्थो जो द्रव्येषु ण रागमेदि दोमं वा ।
उवओगविशुद्धो मो खवेदि देहुव्भवं दुःखं ॥ ७८ ॥

एवं विदितार्थो यो द्रव्येषु न रागमेति द्वेषं वा ।

उपयोगविशुद्धः स क्षययति देहोद्भवं दुःखम् ॥ ७८ ॥

पुण्य और पापरूप द्वैतका भी अस्तित्व नहीं है; क्योंकि पुण्य और पाप दोनों
आत्माके धर्म न होनेसे निश्चयसे समान ही हैं) ऐसा होने पर भी जो जीव उन
दोनोंमें सुवर्ण और लोहेकी बेड़ीकी भाँति 'अहंकारिक अन्तर मानता हुआ,
अहमिन्द्रपदादि-सम्पदाओंके कारणभूत धर्मानुराग पर अत्यन्त निर्भररूपसे (गाढरूपसे)
अवलम्बित है, वह जीव वास्तवमें चित्तभूमिके उपरक्त होनेसे (चित्तकी भूमि कर्मो-
पाधिके निमित्तसे रंगी हुई-मलिन-विकृत होनेसे) जिसने शुद्धोपयोग शक्तिका तिरस्कार
किया है, ऐसा वर्तता हुआ, संसारपर्यन्त (जबतक इस संसारका अस्तित्व है तबतक
सदाके लिये) शारीरिक दुःखका ही अनुभव करता है ।

भावार्थः—जैसे सोनेकी बेड़ी और लोहेकी बेड़ी—दोनों अविशेषरूपसे बाँधने-
का ही काम करती हैं इसीप्रकार पुण्य-पाप दोनों अविशेषरूपसे बन्धन ही हैं जो
जीव पुण्य और पापकी अविशेषताको कभी नहीं मानता उसका इस भयंकर संसारमें
परिभ्रमणका कभी अन्त नहीं आता ॥ ७७ ॥

अब इसप्रकार शुभ और अशुभ उपयोगकी अविशेषता अवधारित करके
समस्त रागद्वेषके द्वैतको दूर करते हुए अशेष दुःखका क्षय करनेका मनमें दृढ़ निश्चय
करनेवाला शुद्धोपयोगमें निवास करता है (उसे अंगीकार करता है) :—

गाथा ७८

अन्वयार्थः—[एवं] इमप्रकार [विदितार्थः] वस्तुस्वरूपको जानकर [यः]

१. पुण्य और पापमें अन्तर होनेका मत अहंकारजन्य (अविद्याजन्य, अज्ञानजन्य है) ।

यो हि नाम शुभानामशुभानां च भावानामविशेषदर्शनेन सम्यक्परिच्छिन्नवस्तुस्वरूपः स्वपरविभागावस्थितेषु समग्रेषु ससमग्रपर्यायेषु द्रव्येषु रागं द्वेषं चाशेषमेव परिवर्जयति स क्लिष्टैकान्तेनोपयोगविशुद्धतया परित्यक्तपरद्रव्यालम्बनोऽग्निरिवायःपिण्डादननुष्ठितायःसारः प्रचण्डघनघातस्थानीयं शारीरं दुःखं क्षपयति, ततो ममायमे वैकः शरणं शुद्धोपयोगः ॥७८॥

अथ यदि सर्वसावद्ययोगमतीत्य चरित्रम्युपस्थितोऽपि शुभोपयोगानुवृत्तिवशतया मोहादीन्मूलयामि, ततः कुतो मे शुद्धात्मलाभ इति सर्वारम्भेणोत्तिष्ठते—

चत्ता पावारंभं समुट्टिदो वा मुहम्मि चरियम्मि ।

ण जहदि जदि मोहादी ण लहदि सो अप्पगं सुद्धं ॥ ७९ ॥

जो [द्रव्येषु] द्रव्योंके प्रति [रागं द्वेषं वा] राग या द्वेषको [न एति] प्राप्त नहीं होता [सः] वह [उपयोग विशुद्धः] उपयोगविशुद्ध होता हुआ [देहोद्धवं दुःखं] देहोत्पन्न दुःखका [क्षपयति] क्षय करता है ।

टीकाः—जो जीव शुभ और अशुभ भावोंके अविशेष दर्शनसे (समानताकी श्रद्धासे) वस्तुस्वरूपको सम्यक्प्रकारसे जानता है, स्व और पर ऐसे दो विभागोंमें रहनेवाली समस्त पर्यायों सहित समस्त द्रव्योंके प्रति रागद्वेषको निरवशेषरूपसे छोड़ता है वह जीव एकान्तसे उपयोगविशुद्ध (सर्वथा शुद्धोपयोगी) होनेसे जिसने परद्रव्यका आलम्बन छोड़ दिया है ऐसा वर्तता हुआ-लोहेके गोलेमेंसे लोहेके सारका अनुसरण न करनेवाली अग्निकी भाँति-प्रचंड घनके आघात समान शारीरिक दुःखका क्षय करता है । (जैसे अग्नि लोहेके तप्त गोलेमेंसे लोहेके सत्वको धारण नहीं करती इसलिये अग्नि पर प्रचंड घनके प्रहार नहीं होते, इसीप्रकार परद्रव्यका आलम्बन न करनेवाले आत्माको शारीरिक दुःखका वेदन नहीं होता) इसलिए यही एक शुद्धोपयोग मेरी शरण है ॥ ७९ ॥

अब, सर्व सावद्ययोगको छोड़कर चारित्र अङ्गीकार किया हो तो भी यदि मैं शुभोपयोगपरिणतिके वश होकर मोहादिका उन्मूलन न करूँ तो मुझे शुद्ध आत्माकी प्राप्ति कहाँसे होगी ? इसप्रकार विचार करके मोहादिके उन्मूलनके प्रति सर्वारम्भ (सर्वउद्यम) पूर्वक कटिबद्ध होता हैः—

१. सार—सत्व, घनता, कठिनता । २. उन्मूलन=जड़मूलसे निकाल देना; निकन्दन ।

त्यक्त्वा पापारम्भं समुत्थितो वा शुभे चरित्रे ।

न जहाति यदि मोहादीन् लभते न आत्मकं शुद्धम् ॥ ७९ ॥

यः खलु समस्तसावद्ययोगप्रत्याख्यानलक्षणं परमसामायिकं नाम चारित्रं प्रतिज्ञायापि शुभोपयोगवृत्त्या वकाभिसारिकयेवाभिसार्यमाणो न मोहवाहिनीविधेयतामवकिरति स किल समासन्नमहादुःखसङ्कटः कथमात्मानमविप्लुतं लभते । अतो मया मोहवाहिनीविजयाय बद्धा कश्चे-
यम् ॥ ७९ ॥

अथ कथं मया विजेतव्या मोहवाहिनीत्युपायमालोचयति—

जो जाणदि अरहंतं द्रव्यत्वगुणत्वपञ्जयत्तेहिं ।

मो जाणदि अण्णाणं मोहो खलु जादि तस्म लयं ॥८०॥

यो जानान्यर्हन्तं द्रव्यत्वगुणत्वपर्ययत्त्वैः ।

म जानान्यान्मानं मोहः खलु यानि तस्य लयम् ॥ ८० ॥

गाथा ७९.

अन्वयार्थः—[पापारम्भं] पापारम्भको [त्यक्त्वा] छोड़कर [शुभेचरित्रे] शुभ चारित्रमें [समुत्थितः वा] उद्यत होने पर भी [यदि] यदि जीव [मोहादीन्] मोहादिको [न जहाति] नहीं छोड़ता तो [सः] वह [शुद्धं आत्मकं] शुद्ध आत्माको [न लभते] प्राप्त नहीं होता ।

टीकाः—जो जीव समस्त सावद्ययोगके प्रत्याख्यानस्वरूप परमसामायिक नामक चारित्रकी प्रतिज्ञा करके भी धूर्त अभिसारिका (नायिका)की भाँति शुभोपयोगपरिणतिसे अभिसार (मिलन)को प्राप्त होता हुआ (शुभोपयोगपरिणतिके प्रेममें फँसता हुआ) मोहकी सेनाकी वशवर्तिताको दूर नहीं कर डालता—जिसके महा दुःख संकट निकट हैं वह,—शुद्ध आत्माको कैसे प्राप्त कर सकता है ? इसलिये मैंने मोहकी सेनापर विजय प्राप्त करनेको कसर कसी है ।

अब, वह यह उपाय सोचता है कि मुझे मोहकी सेनाको कैसे जीतना चाहियेः—

गाथा ८०

अन्वयार्थः—[यः] जो [अर्हन्तं] अरहंतको [द्रव्यत्वगुणत्वपर्ययत्त्वैः] द्रव्य-

१. अभिसारिका - संकेत अनुसार प्रेमीसे मिलने जानेवाली स्त्री ।

यो हि नामार्हन्तं द्रव्यत्वगुणत्वपर्यायत्वैः परिच्छिन्नचि स खन्वात्मानं परिच्छिन्नचि, उभयोरपि निश्चयेनाविशेषात् । अर्हतोऽपि पाककाष्ठागतकार्तस्वरस्येव परिस्पष्टमात्मरूपं, ततस्तत्परिच्छेदे सर्वात्मपरिच्छेदः । तत्रान्वयो द्रव्यं, अन्वयविशेषणं गुणः, अन्वयव्यतिरेकाः पर्यायाः । तत्र भगवत्यर्हति सर्वतो विशुद्धे त्रिभूमिकमपि स्वमनसा समयमुत्पश्यति । यश्चेतनोऽयमित्यन्वयस्तद्द्रव्यं, यच्चान्वयाश्रितं चैतन्यमिति विशेषणं स गुणः, ये चैकसमयमात्रावधृतकालपरिमाणतया परस्परपरावृत्ता अन्वयव्यतिरेकास्ते पर्यायाश्चिद्विवर्तनग्रन्थय इति यावत् । अथैवमस्य त्रिकालमप्येककालमाकलयतो मुक्ताफलानीव प्रलम्बे प्रालम्बे चिद्विवर्तारश्चेतन एव

पनें गुणपनें और पर्यायपनें [जानाति] जानता है, [सः] वह [आत्मानं] (अपने) आत्माको [जानाति] जानता है, और [तस्यमोहः] उसका मोह [खलु] अवश्य [लयं याति] लयको प्राप्त होता है ।

टीका:— जो वास्तवमें अरहंतको द्रव्यरूपसे, गुणरूपसे और पर्यायरूपसे जानता है वह वास्तवमें अपने आत्माको जानता है, क्योंकि दोनोंमें निश्चयसे अन्तर नहीं है; और अरहंतका स्वरूप, अन्तिम तावको प्राप्त सोनेके स्वरूपकी भाँति, परिस्पष्ट (सर्वप्रकारसे स्पष्ट) है, इसलिये उसका ज्ञान होनेपर सर्व आत्माका ज्ञान होता है । वहाँ अन्वय द्रव्य है, अन्वयका विशेषण गुण है और अन्वयके व्यतिरेक (भेद) पर्यायें हैं । सर्वतः विशुद्ध भगवान् अरहंतमें (अरहंतके स्वरूपका ख्याल करने पर) जीव तीनों प्रकार युक्त समयको (द्रव्यगुणपर्यायमय निज आत्माको) अपने मनसे जान लेता है—समझ लेता है । यथा 'यह 'चेतन है' इसप्रकारका अन्वय वह द्रव्य है, अन्वयके आश्रित रहनेवाला 'चैतन्य' विशेषण वह गुण है, और एक समय मात्रकी मर्यादावाला कालपरिमाण होनेसे परस्पर अप्रवृत्त अन्वयव्यतिरेक वे पर्यायें हैं—जो कि चिद्विवर्तनकी (आत्माके परिणमनकी) ग्रन्थियाँ (गांठें) हैं ।

अब, इसप्रकार त्रैकालिकको भी (त्रैकालिक आत्माको भी) एक कालमें समझ लेनेवाला वह जीव, जैसे मोतियोंको भूलते हुए हारमें अन्तर्गत माना जाता है, उसीप्रकार चिद्विवर्तनोंको चेतनमें ही अन्तर्गत करके, तथा विशेषणविशेष्यताकी वासनाका अन्तर्धान होनेसे—जैसे सफेदीको हारमें अन्तर्हित किया जाता है, उसी-

१. चेतन = आत्मा । २. अन्वयव्यतिरेक = एक दूसरेमें नहीं प्रवर्तते ऐसे जो अन्वयके व्यतिरेक ।
३. विशेषण गुण है और विशेष्य वो द्रव्य है । ४. अंतर्धान = अदृश्य होजाना । ५. अंतर्हित = गुप्त; अदृश्य ।

संक्षिप्य विशेषणविशेष्यत्ववासनान्तर्धानाद्बलिमानमिव प्रालम्बे चेतन एव चैतन्यमन्तर्हितं विधाय केवलं प्रालम्बमिव केवलमात्मानं परिच्छिन्दतस्तदुत्तरोत्तरक्षणक्षीयमानकर्तृकर्मक्रियाविभागतया निःक्रियं चिन्मात्रं भावमधिगतस्य जातस्य मणोरिवाकम्पप्रवृत्तनिर्मलालोकस्यावश्यमेव निराश्रय-तया मोहतमः प्रलीयते । यद्येवं लब्धो मया मोहवाहिनीविजयोपायः ॥ ८० ॥

प्रकार—चैतन्यको चेतनमें ही अन्तर्हित करके, जैसे मात्र हारको जाना जाता है, उसीप्रकार केवल आत्माको जानने पर, उसके उत्तरोत्तर क्षणमें कर्ता-कर्म-क्रियाका विभाग क्षयको प्राप्त होता जाता है इसलिये निष्क्रिय चिन्मात्र भावको प्राप्त होता है; और इसप्रकार मणिकी भाँति जिसका निर्मल प्रकाश अकम्परूपसे प्रवर्तमान है ऐसे उस (चिन्मात्रभावको प्राप्त) जीवके, मोहान्धकार निराश्रयताके कारण अवश्यमेव प्रलयको प्राप्त होता है । यदि ऐसा है तो मैंने मोहकी सेनाको जीतनेका उपाय प्राप्त कर लिया है ।

भावार्थः—अरहंत भगवान् और अपना आत्मा निश्चयसे समान है । अरहंत भगवान् मोह राग द्वेष रहित हैं इसलिये उनका स्वरूप अत्यन्त स्पष्ट है, इसलिये यदि जीव द्रव्य-गुण-पर्याय रूपसे उस (अरहंत भगवान्के) स्वरूपको मनके द्वारा प्रथम समझ ले तो “यह जो आत्मा आत्माका एकरूप (कथञ्चित् सदृश) त्रैकालिक प्रवाह है सो द्रव्य है, उसका जो एकरूप रहनेवाला चैतन्यरूप विशेषण है सो गुण है और उस प्रवाहमें जो क्षणवर्ती व्यतिरेक है सो पर्यायें हैं” इसप्रकार अपना आत्मा भी द्रव्यगुण पर्यायरूपसे मनके द्वारा ज्ञानमें आता है । इसप्रकार त्रैकालिक निज आत्माको मनके द्वारा ज्ञानमें लेकर जैसे मोतियोंको और सफेदीको हारमें ही अन्तर्गत करके मात्र हार ही जाना जाता है, उसीप्रकार आत्म पर्यायोंको और चैतन्य गुणको आत्मामें ही अन्तर्गर्भित करके केवल आत्माको जानने पर परिणामी-परिणाम-परिणतिके भेदका विकल्प नष्ट होता जाता है, इसलिये जीव निष्क्रिय चिन्मात्र भावको प्राप्त होता है, और उससे दर्शनमोह निराश्रय होता हुआ नष्ट होजाता है । यदि ऐसा है तो मैंने मोहकी सेना पर विजय प्राप्त करनेका उपाय प्राप्त कर लिया है,—ऐसा कहा है ॥ ८० ॥

१. हारको खरीदनेवाला मनुष्य हारको खरीदते समय हार, उसकी सफेदी और उसके मोतियों इत्यादिकी परीक्षा करता है, किन्तु बादमें सफेदी और मोतियोंको हारमें ही समाविष्ट करके उनका लक्ष छोड़कर वह मात्र हारको ही जानता है । यदि ऐसा न करे तो हारके पहिनने पर भी उसकी सफेदी आदिके विकल्प बने रहनेसे हारको पहिननेके सुखका वेदन नहीं कर सकेगा ।

अथैवं प्राप्तचिन्तामणेरपि मे प्रमादो दस्युरिति जागर्ति—

जीवो व्यवगतमोहो उपलब्धो तच्चमप्पणो सम्मं ।

जहादि यदि रागदोसे सो अप्पाणं लहादि सुद्धं ॥ ८१ ॥

जीवो व्यवगतमोह उपलब्धवांस्तत्त्वमात्मनः सम्यक् ।

जहाति यदि रागद्वेषौ स आत्मानं लभते शुद्धम् ॥ ८१ ॥

एवमुपवर्णितस्वरूपेणोपायेन मोहमपसार्यापि सम्यगात्मतत्त्वमुपलभ्यापि यदि नाम रागद्वेषौ निर्मूलयति तदा शुद्धमात्मानमनुभवति । यदि पुनः पुनरपि तावनुवर्तते तदा प्रमादतन्त्रतया

अब, इसप्रकार मैंने चिन्तामणि-रत्न प्राप्त कर लिया है तथापि प्रमाद चोर विद्यमान है, यह विचार कर जागृत रहता है:—

गाथा ८१

अन्वयार्थः—[व्यवगतमोहः] जिसने मोहको दूर किया है और [सम्यक् आत्मनः तत्त्वं] आत्माके सम्यक् तत्त्वको [उपलब्धवान्] प्राप्त किया है ऐसा [जीवः] जीव [यदि] यदि [राग द्वेषौ] राग द्वेषको [जहाति] छोड़ता है [सः] तो वह [शुद्धं आत्मानं] शुद्ध आत्माको [लभते] प्राप्त करता है ।

टीकाः—इसप्रकार जिस उपायका स्वरूप वर्णन किया गया है, उस उपायके द्वारा मोहको दूर करके भी सम्यक् आत्मतत्त्वको (यथार्थ स्वरूपको) प्राप्त करके भी यदि जीव राग द्वेषको निर्मूल करता है तो शुद्ध आत्माका अनुभव करता है । (किन्तु) यदि पुनः पुनः उनका अनुसरण करता है, (राग द्वेषरूप परिणमन करता है) तो प्रमादके अधीन होनेसे शुद्धात्म तत्त्वके अनुभवरूप चिन्तामणि-रत्नके चुराये जानेसे अन्तरंगमें खेदको प्राप्त होता है । इसलिये मुझे रागद्वेषको दूर करनेके लिये अत्यन्त जागृत रहना चाहिये ।

भावार्थः—८० वीं गाथामें बताये गये उपायसे दर्शनमोहको दूर करके, अर्थात् सम्यक्दर्शन प्राप्त करके जो जीव शुद्धात्मानुभूतिस्वरूप वीतरागचारित्रके प्रतिबन्धक रागद्वेषको छोड़ता है, पुनः पुनः रागद्वेष भावमें परिणमित नहीं होता वही अभेदरत्नत्रयपरिणत जीव शुद्ध-बुद्ध-एकस्वभाव आत्माको प्राप्त करता है—मुक्त होता

लुण्ठितशुद्धात्मतत्त्वोपलम्भचिन्तारत्नोऽन्तस्ताम्यति । अतो मया रागद्वेषनिषेधायात्यन्तं जागरितव्यम् ॥ ८१ ॥

अथायमेवैको भगवद्भिः स्वयमनुभूयोपदर्शितो निःश्रेयसस्य पारमार्थिकः पन्था इति मतिं व्यवस्थापयति—

सर्वे वि य अरहंता तेण विधाणेण खविदकम्ममा ।

किञ्चा तधोवदेशं णिब्वादा ते णमो तेसिं ॥ ८२ ॥

सर्वेऽपि चार्हन्तस्तेन विधानेन क्षपितकर्मांशाः ।

कृत्वा तथोपदेशं निर्वृतास्ते नमस्तेभ्यः ॥ ८२ ॥

यतः खन्वतीतकालानुभूतक्रमप्रवृत्तयः समस्ता अपि भगवन्तस्तीर्थकराः प्रकारान्तरस्यासंभवादसंभावितद्वैतेनामुनैवैकेन प्रकारेण क्षपणं कर्मांशानां स्वयमनुभूय, परमाप्ततया परेषामप्याय-

है । इसलिये जीवको सम्यक्दर्शन प्राप्त करके भी सराग चारित्र्य प्राप्त करके भी रागद्वेषके निवारणार्थं अत्यन्त सावधान रहना चाहिये ॥ ८१ ॥

अब, यही एक (पूर्वोक्त गाथाओंमें वर्णित), भगवन्तोंने स्वयं अनुभव करके प्रगट किया हुआ 'निःश्रेयसका पारमार्थिकपन्थ है—इसप्रकार मतिको निश्चित करते हैं:—

गाथा ८१

अन्वयार्थः—[सर्वे अपि च] सभी [अर्हन्तः] अरहन्त भगवान [तेन विधानेन] उसी विधिसे [क्षपितकर्मांशाः] कर्मांशोंका क्षय करके [तथा] तथा उसी-प्रकारसे [उपदेशं कृत्वा] उपदेश करके [निर्वृताः ते] मोक्षको प्राप्त हुए हैं [नमः तेभ्यः] उन्हें नमस्कार हो ।

टीकाः—अतीत कालमें क्रमशः हुए समस्त तीर्थकर भगवान, प्रकारान्तरका असंभव होनेसे जिसमें द्वैत संभव नहीं है, ऐसे इसी एकप्रकारसे कर्मांशों (ज्ञानावरणादि कर्म भेदों) का क्षय स्वयं अनुभव करके (तथा) परमाप्तताके कारण

१ निःश्रेयस—मोक्ष । २. प्रागन्तर—अन्यप्रकार (कर्मक्षय एक ही प्रकारसे होता है, अन्य-प्रकारसे होता नहीं; इसलिये उस कर्मक्षयके प्रकारमें द्वैत नहीं है) । ३. परमाप्त—परमआप्त; परम विश्वासपात्र (तीर्थकर भगवान सर्वज्ञ और वीतराग होनेसे परमआप्त हैं, यथार्थ उपदेष्टा हैं)

स्यामिदानींत्वे वा मुमुक्षूणां तथैव तदुपदिश्य निःश्रेयसमध्याश्रिताः । ततो नान्यद्वर्त्म निर्वाणस्ये-
त्थवधार्यते । बलमथवा प्रलपितेन । व्यवस्थिता मतिर्मम, नमो भगवद्भ्यः ॥ ८२ ॥

अथ शुद्धात्मलाभपरिपन्थिनो मोहस्य स्वभावं भूमिकाश्च विभावयति—

द्व्यादिषु मूढो भावो जीवस्म हवदि मोहो ति ।

खुब्भदि तेणुच्छन्नो पप्पा रागं व दोमं वा ॥ ८३ ॥

द्रव्यादिकेषु मूढो भावो जीवस्य भवति मोह इति ।

क्षुब्धयति तेनावच्छन्नः प्राप्य रागं वा द्वेषं वा ॥ ८३ ॥

भविष्यकालमें अथवा इस (वर्तमान) कालमें अन्य मुमुक्षुओंको भी इसीप्रकारसे उमका (कर्म क्षयका) उपदेश देकर निःश्रेयस (मोक्ष)को प्राप्त हुए हैं; इसलिये निर्वाणका अन्य (कोई) मार्ग नहीं है यह निश्चित होता है । अथवा, अधिक प्रलापसे क्या ? मेरी मति व्यवस्थित (सुनिश्चित) हो गई है । भगवन्तोंको नमस्कार हो ।

भावार्थः—८० और ८१ वीं गाथाके कथनानुसार सम्यक्दर्शन प्राप्त करके वीतराग चारित्रके विरोधी राग द्वेषको दूर करना अर्थात् निश्चयरत्नत्रयात्मक शुद्धानुभूतिमें लीन होना ही एक मात्र मोक्षमार्ग है; त्रिकालमें भी कोई दूसरा मोक्षका मार्ग नहीं है । समस्त अरहन्तोंने इसी मार्गसे मोक्ष प्राप्त किया है, और अन्य मुमुक्षुओंको भी इसी मार्गका उपदेश दिया है । उन भगवन्तोंको नमस्कार हो ॥८२॥

अब, शुद्धात्म लाभके 'परिपंथी-मोहका स्वभाव और उसके प्रकारोंको व्यक्त करते हैं:—

गाथा ८३

अन्वयार्थः—[जीवस्य] जीवके [द्रव्यादिकेषु मूढः भावः] द्रव्यादि (द्रव्य गुणपर्याय) सम्बन्धी मूढ भाव [मोहः इति भवति] वह मोह है [तेन अवच्छन्नः] उससे आच्छादित वर्तता हुआ जीव [रागं वा द्वेषं वा प्राप्य] राग अथवा द्वेषको प्राप्त करके [क्षुब्धयति] क्षुब्ध होता है ।

यो हि द्रव्यगुणपर्यायेषु पूर्वमुपवर्णितेषु पीतोन्मचकस्येव जीवस्य तस्वाप्रतिपत्तिलक्षणो मूढो भावः स खलु मोहः तेनावच्छन्नात्मरूपः सन्नयमात्मा परद्रव्यमात्मद्रव्यत्वेन परगुणमात्मगुणतया परपर्यायानात्मपर्यायभावेन प्रतिपद्यमानः प्ररूढदृढतरसंस्कारतया परद्रव्यमेवाहरहरुपाददानो दग्धेन्द्रियाणां रुचिवशेनाद्वैतेऽपि प्रवर्तितद्वैतो रुचितारुचितेषु विषयेषु रागद्वेषावुपश्लिष्य प्रचुरतराम्भोभाररयाहतः सेतुबन्ध इव द्वेषा विदार्यमाणो नितरां क्षोभमुपैति । अतो मोहरागद्वेषभेदात्त्रिभूमिको मोहः ॥ ८३ ॥

अथानिष्टकार्यकारणत्वमभिधाय त्रिभूमिकस्यापि मोहस्य क्षयमासूत्रयति—

मोहेण वा रागेण वा द्वेषेण वा परिणतस्य जीवस्य ।

जायति विविधो बन्धो तस्मात् तं संशयवद्दृष्ट्वा ॥ ८४ ॥

मोहेन वा रागेण वा द्वेषेण वा परिणतस्य जीवस्य ।

जायते विविधो बन्धस्तस्मात्तं संशययित्वा ॥ ८४ ॥

टीका:—धतूरा खाये हुए मनुष्यकी भाँति, जीवके जो पूर्व वर्णित द्रव्य, गुण, पर्याय हैं उनमें होनेवाला तत्व-अप्रतिपत्तिलक्षण मूढभाव वास्तवमें मोह है । उस मोहसे निजरूप आच्छादित होनेसे यह आत्मा परद्रव्यको स्वद्रव्यरूपसे, परगुणको स्वगुणरूपसे, और परपर्यायोंको स्वपर्यायरूप समझकर—अंगीकार करके अतिरूढ़—दृढतर संस्कारके कारण परद्रव्यको ही सदा ग्रहण करता हुआ, दग्ध इन्द्रियोंकी रुचिके वशसे अद्वैतमें भी द्वैत प्रवृत्ति कराता हुआ, रुचिकर-अरुचिकर विषयोंमें रागद्वेष करके अति प्रचुर जलसमूहके वेगसे प्रहारको प्राप्त सेतुबन्ध (पुल) की भाँति दो भागोंमें खंडित होता हुआ अत्यन्त क्षोभको प्राप्त होता है । इससे मोह, राग और द्वेष इन भेदोंके कारण मोह तीन प्रकारका है ॥ ८३ ॥

अब, तीनों प्रकारके मोहको अनिष्ट कार्यका कारण कहकर उसका क्षय करनेको सूत्र द्वारा कहते हैं:—

गाथा ८४

अन्वयार्थः—[मोहेन वा] मोहरूप [रागेण वा] रागरूप [द्वेषेण वा]

१. तत्व अप्रतिपत्तिलक्षण—तत्वकी अप्रतिपत्ति (अप्राप्ति, अज्ञान, अनिर्याय) जिसका लक्षण है, ऐसा । २. दग्ध—जली हुई; हल्की; शापित । ('दग्ध' तिरस्कार वाचक शब्द है) ३. इन्द्रियविषयोंमें-पदार्थोंमें यह अच्छे हैं और यह बुरे इसप्रकारका द्वैत नहीं है; तथापि वहाँ भी मोहाच्छादित जीव अच्छे-बुरेका द्वैत कल्पित कर लेते हैं ।

एवमस्य तत्त्वाप्रतिपत्तिनिमीलितस्य मोहेन वा रागेण वा द्वेषेण वा परिणतस्य तृणपटलावच्छन्नगर्तसंगतस्य करेणुकुट्टनीगात्रासक्तस्य प्रतिद्विरदर्शनोद्धतप्रविधावितस्य च सिन्धुरस्येव भवति नाम नानाविधो बन्धः । ततोऽमी अनिष्टकार्यकारिणो मुमुक्षुणा मोहरागद्वेषाः सम्यग्निर्मूलकाषं कथित्वा क्षपणीयाः ॥ ८४ ॥

अथवा द्वेषरूप [परिणतस्य जीवस्य] परिणमित जीवके [विविधः बंधः] विविध बंध [जायते] होता है; [तस्मात्] इसलिये [ते] वे (मोह, राग, द्वेष) [संक्षपयितव्याः] सम्पूर्णतया क्षय करने योग्य हैं ।

टीकाः— इसप्रकार तत्त्व अप्रतिपत्ति (वस्तुस्वरूपके अज्ञान) से रुके हुवे, मोहरूप, रागरूप या द्वेषरूप परिणमित होते हुए इस जीवको घासके ढेरसे ढँके हुए खड्डेको प्राप्त होनेवाले हाथीकी भाँति हथिनीरूपी कुट्टनीके शरीरमें आसक्त हाथीकी भाँति, और विरोधी हाथीको देखकर, उत्तेजित होकर (उसकी ओर) दौड़ते हुए हाथीकी भाँति विविध प्रकारका बन्ध होता है; इसलिये मुमुक्षु जीवको अनिष्ट कार्य करनेवाले इस मोह, राग और द्वेषका यथावत् निर्मूल नाश हो इसप्रकार क्षय करना चाहिये ।

भावार्थः— (१) हाथीको पकड़नेके लिये धरतीमें खड्डा बनाकर उसे घाससे ढक दिया जाता है, वहाँ खड्डा होनेके अज्ञानके कारण उस खड्डे पर जानेसे हाथी गिर पड़ता है, और वह इसप्रकार पकड़ा जाता है । (२) हाथीको पकड़नेके लिये सिखाई हुई हथिनी भेजी जाती है; उसके शारीरिक रागमें फँसनेसे हाथी पकड़ा जाता है (३) हाथी पकड़नेकी तीसरी रीति यह है कि उस हाथीके सामने दूसरा पालित हाथी भेजा जाता है; उसके पीछे वह हाथी उत्तेजित होकर लड़नेके लिये दौड़ता है और इसप्रकार वह पकड़नेवालोंके जालमें फँस जाता है ।

उपर्युक्त प्रकारसे जैसे हाथी (१) अज्ञानसे, (२) रागसे या (३) द्वेषसे अनेक प्रकारके बन्धनको प्राप्त होता है उसी प्रकार जीव (१) मोहसे (२) रागसे या (३) द्वेषसे अनेक प्रकारके बन्धनको प्राप्त होता है, इसलिये मोक्षार्थीको मोह-राग-द्वेषका भलीभाँति-सम्पूर्णतया मूलसे ही क्षय कर देना चाहिये ॥ ८४ ॥

अथामी अमीभिलिङ्गैरुषलभ्योद्भवन्त एव निशुम्भनीया इति विभावयति—

अट्टे अजधाग्रहणं करुणाभावो य तिरियमणुगुसु ।
विसणुसु च पसंगो मोहस्सेदाणि लिङ्गाणि ॥ ८५ ॥

अर्थे अयथाग्रहणं करुणाभावश्च तिर्यङ्मनुजेषु ।

विषयेषु च प्रसङ्गो मोहस्यैतानि लिङ्गानि ॥ ८५ ॥

अर्थानामयथातथ्यप्रतिपत्त्या तिर्यङ्मनुष्येषु प्रेक्षाहोष्वपि कारुण्यबुद्ध्या च मोहमभीष्ट-
विषयप्रसंगेन रागमनभीष्टविषयाप्रीत्या द्वेषमिति त्रिभिलिङ्गैरधिगम्य झगिति संभवन्नपि
त्रिभूमिकोऽपि मोहो निहन्तव्यः ॥ ८५ ॥

अब, इस राग द्वेष मोहको इन (आगामी गाथामें कहे गये) चिन्हों-
लक्षणोंके द्वारा पहिचान कर उत्पन्न होते ही नष्ट कर देना चाहिये, यह प्रगट
करते हैं:—

गाथा ८५

अन्वयार्थः—[अर्थे अयथाग्रहणं] पदार्थका अयथाग्रहण [च] और [तिर्यङ्मनुजेषु
करुणाभावः] तिर्यच-मनुष्योंके प्रति करुणाभाव, [विषयेषु प्रसंगः च] तथा विषयोंकी
संगति (इष्ट विषयोंमें प्रीति और अनिष्ट विषयोंमें अप्रीति) [एतानि] यह सब
मोहस्य लिङ्गानि] मोहके चिन्ह-लक्षण हैं ।

टीकाः—पदार्थोंकी 'अयथातथ्यरूप प्रतिपत्तिके द्वारा और तिर्यच-मनुष्य
'प्रेक्षायोग्य होनेपर भी उनके प्रति करुणाबुद्धिसे मोहको (जानकर), इष्ट विषयोंकी
आसक्तिसे रागको और अनिष्ट विषयोंकी अप्रीतिसे द्वेषको (जानकर)—इसप्रकार
तीन लिङ्गोंके द्वारा (तीन प्रकारके मोहको) पहिचानकर तत्काल ही उत्पन्न होते
ही तीनों प्रकारका मोह नष्ट कर देने योग्य है ।

भावार्थः—मोहके तीन भेद हैं—दर्शनमोह, राग, द्वेष । पदार्थोंके यथार्थ
स्वरूपसे विपरीत मान्यता तथा तिर्यचों और मनुष्योंके प्रति तन्मयतासे करुणा भाव

१. पदार्थोंकी अयथातथ्यरूप प्रतिपत्ति = पदार्थ जैसे नहीं हैं उन्हें वैसा समझना अर्थात् उन्हें अन्यथा
स्वरूपसे अंगीकार करना । २. प्रेक्षायोग्य = मात्र प्रेक्षकभावसे-दृष्टा ज्ञातारूपसे-मध्यस्थभावसे देखने योग्य ।

अथ मोहक्षयणोपायान्तरमालोचयति—

जिणमत्थादो अट्टे पच्चक्खादीहिं बुज्झदो णियमा ।

खीयदि मोहोपचयो तम्हा सत्थं समधिदव्वं ॥८६॥

जिनशास्त्रादर्थान् प्रत्यक्षादिभिर्बुध्यमानस्य नियमात् ।

क्षीयते मोहोपचयः तस्मात् शास्त्रं समध्येतव्यम् ॥ ८६ ॥

यत्किल द्रव्यगुणपर्यायस्वभावेनार्हतो ज्ञानादात्मनस्तथा ज्ञानं मोहक्षयणोपायत्वेन प्राक्

दर्शन मोहके चिह्न हैं, इष्ट विषयोंमें प्रीति रागका चिह्न है, और अनिष्ट विषयोंमें अप्रीति द्वेषका चिह्न है, इन चिह्नोंसे तीनों प्रकारके मोहको पहिचानकर मुमुक्षुओंको उसे तत्काल ही नष्ट कर देना चाहिये ॥ ८५ ॥

अब मोह क्षय करनेका दूसरा उपाय विचारते हैं:—

गाथा ८६

अन्वयार्थः—[जिनशास्त्रात्] जिनशास्त्र द्वारा [प्रत्यक्षादिभिः] प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे [अर्थान्] पदार्थोंको [बुध्यमानस्य] जाननेवालेके [नियमात्] नियमसे [मोहोपचयः] मोहसमूह [क्षीयते] क्षय हो जाता है [तस्मात्] इसलिये [शास्त्रं] शास्त्रका [समध्येतव्यम्] सम्यक्प्रकारसे अध्ययन करना चाहिये ।

टीका:—द्रव्य-गुण-पर्याय स्वभावसे अरहंतके ज्ञान द्वारा आत्माका उस प्रकारका ज्ञान मोहक्षयके उपायके रूपमें पहले (८० वीं गाथामें) प्रतिपादित किया गया था, वह वास्तवमें इस (निम्नलिखित) उपायान्तरकी अपेक्षा रखता है:—

जिसने प्रथम भूमिकामें गमन किया है, ऐसे जीवको जो 'सर्वज्ञोपज्ञ होनेसे सर्व प्रकारसे अबाधित है, ऐसे शब्द प्रमाणको (द्रव्य श्रुतप्रमाणको) प्राप्त करके क्रीड़ा करने पर, उसके संस्कारसे विशिष्ट 'संवेदन शक्तिरूप सम्पदा प्रगट करनेपर, 'सहृदय जनोंके हृदयको आनन्दका 'उद्भेद देनेवाले प्रत्यक्ष प्रमाणसे अथवा 'उससे अविरोद्ध अन्यप्रमाणसमूहसे 'तत्त्वतः समस्त वस्तु मात्रको जानने पर 'अतत्त्वअभि-

१. सर्वज्ञोपज्ञ = सर्वज्ञद्वारा स्वयं जानाहुवा (और कहाहुवा) । २. संवेदन = ज्ञान । ३. सहृदय = भावुक; शास्त्रमें जिससमय जिस भावका प्रसंग होय उस भावको हृदयमें प्रहरण करनेवाला; बुध; पंडित । ४. उद्भेद = स्फुरण; प्रगटता; फुवारा । ५. उससे = प्रत्यक्ष प्रमाणसे । ६. तत्त्वतः = यथार्थ स्वरूपसे । ७. अतत्त्वअभिनिवेश = यथार्थ वस्तुस्वरूपसे विपरीत अभिप्राय ।

प्रतिपन्नम् । तत् खलूपायान्तरमिदमपेक्षते । इदं हि विहितप्रथमभूमिकासंक्रमणस्य सर्वज्ञोपज्ञतया सर्वतोऽप्यबाधितं शाब्दं प्रमाणमाक्रम्य क्रीडतस्तत्संस्कारस्फुटीकृतविशिष्टसंवेदनशक्तिसंपदः सहृदयहृदयानंदोद्भेददायिना प्रत्यक्षेणान्येन वा तदविरोधिना प्रमाणजातेन तत्त्वतः समस्तमपि वस्तुजातं परिच्छिन्दतः क्षीयत एवातत्त्वाभिनिवेशसंस्कारकारी मोहोपचयः । अतो हि मोहक्षयणे परमं शब्दब्रह्मोपासनं भावज्ञानावष्टम्भदृढीकृतपरिणामेन सम्यग्धीयमानमुपायान्तरम् ॥ ८६ ॥

अथ कथं जैनेन्द्रे शब्दब्रह्मणि किलार्थानां व्यवस्थितिरिति वितर्कयति—

द्व्याणि गुणा तेमिं पज्जाया अट्टमणया भणिया ।

तेसु गुणपज्जयाणं अप्पा दव्व त्ति उवदेसो ॥ ८७ ॥

द्रव्याणि गुणास्तेषां पर्याया अर्थसंज्ञया भणिताः ।

तेषु गुणपर्यायाणामात्मा द्रव्यमित्युपदेशः ॥ ८७ ॥

द्रव्याणि च गुणाश्च पर्यायाश्च अभिधेयभेदेऽप्यभिधानामेदेन अर्थाः तत्र गुणपर्यायानि-

निवेशके संस्कार करनेवाला मोहोपचय (मोहसमूह) अवश्य ही क्षयको प्राप्त होता है । इसलिये मोहका क्षय करनेमें, परम शब्दब्रह्मकी उपासनाका भावज्ञानके अवलम्बनद्वारा दृढ़ किये गये परिणामसे सम्यक् प्रकार अभ्यास करना सो उपायान्तर है । (जो परिणाम भावज्ञानके अवलम्बनसे दृढीकृत हो ऐसे परिणामसे द्रव्य श्रुतका अभ्यास करना सो मोहक्षय करनेके लिये उपायान्तर है) ॥ ८६ ॥

अब, जिनेन्द्रके शब्द ब्रह्ममें अर्थोंकी व्यवस्था (पदार्थोंकी स्थिति) किस प्रकार है सो विचार करते हैं:—

गाथा ८७

अन्वयार्थः—[द्रव्याणि] द्रव्य [गुणाः] गुण [तेषां पर्यायाः] और उनकी पर्यायें [अर्थसंज्ञया] 'अर्थ' नामसे [भणिताः] कही गई हैं । [तेषु] उनमें [गुणपर्याया-नाम् आत्मा द्रव्यम्] गुण-पर्यायोंका आत्मा द्रव्य है (गुण और पर्यायोंका स्वरूप-सत्त्व द्रव्य ही है, वे भिन्न वस्तु नहीं हैं) [इति उपदेशः] इसप्रकार (जिनेन्द्रका) उपदेश है ।

टीका:—द्रव्य, और पर्यायोंमें अभिधेयभेद होने पर भी अभिधानका अभेद होनेसे वे 'अर्थ' हैं [अर्थात् द्रव्य गुण पर्यायोंमें वाच्यका भेद होनेपर भी

यत्ति गुणपर्यायैर्यन्त इति वा अर्था द्रव्याणि, द्रव्याण्याश्रयत्वेनेयत्तिद्रव्यैराश्रयभूतैर्यन्त इति वा अर्था गुणाः, द्रव्याणि क्रमपरिणामेनेयत्ति द्रव्यैः क्रमपरिणामेनार्यन्त इति वा अर्थाः पर्यायाः ।

वाचकमें भेद न देखें तो 'अर्थ' ऐसे एक ही वाचक (शब्द) से ये तीनों पहिचाने जाते हैं] । उसमें (इन द्रव्य, गुण और पर्यायोंमेंसे), जो गुणोंको और पर्यायोंको प्राप्त करते हैं—पहुँचते हैं अथवा जो गुणों और पर्यायोंके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं—पहुँचे जाते हैं ऐसे 'अर्थ' वे द्रव्य हैं, जो द्रव्योंको आश्रयके रूपमें प्राप्त करते हैं—पहुँचते हैं अथवा जो आश्रयभूत द्रव्योंके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं—पहुँचे जाते हैं ऐसे 'अर्थ' वे गुण हैं, जो द्रव्योंको क्रमपरिणामसे प्राप्त करते हैं—पहुँचे हैं अथवा जो द्रव्योंके द्वारा क्रमपरिणामसे प्राप्त किये जाते हैं—पहुँचे जाते हैं ऐसे 'अर्थ' वे पर्याय हैं ।

जैसे द्रव्यस्थानीय (द्रव्यके समान, द्रव्यके दृष्टान्तरूप) सुवर्ण, पीलापन इत्यादि गुणोंको और कुण्डल इत्यादि पर्यायोंको प्राप्त करता है—पहुँचता है अथवा (सुवर्ण) उनके द्वारा (पीलापनादि गुणों और कुण्डलादि पर्यायों द्वारा) प्राप्त किया जाता है—पहुँचा जाता है इसलिये द्रव्यस्थानीय सुवर्ण 'अर्थ' है, जैसे पीलापन इत्यादि गुण सुवर्णको आश्रयके रूपमें प्राप्त करते हैं—पहुँचते हैं अथवा (वे) आश्रयभूत सुवर्णके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं—पहुँचे जाते हैं इसलिये पीलापन इत्यादि गुण 'अर्थ' हैं; और जैसे कुण्डल इत्यादि पर्यायों सुवर्णको क्रमपरिणामसे प्राप्त करती हैं—पहुँचती हैं अथवा (वे) सुवर्णके द्वारा क्रमपरिणामसे प्राप्त की जाती हैं—पहुँची जाती हैं इसलिये कुण्डल इत्यादि पर्यायों 'अर्थ' हैं; इसीप्रकार 'अन्यत्र भी है, (इस दृष्टान्तकी भाँति सर्व द्रव्य, गुण, पर्यायोंमें भी समझना चाहिये) ।

१ 'ऋ' धातुमेंसे 'अर्थ' शब्द बना है । 'ऋ' अर्थात् पाना, प्राप्त करना, पहुँचना, जाना । 'अर्थ' अर्थात् (१) जो पाये-प्राप्त करे-पहुँचे, अथवा (२) जिसे पाया जाये-प्राप्त किया जाये-पहुँचा जाये ।

२. जैसे सुवर्ण, पीलापन आदिको और कुण्डल आदिको प्राप्त करता है अथवा पीलापन आदि और कुण्डल आदिके द्वारा प्राप्त किया जाता है (अर्थात् पीलापन आदि और कुण्डल आदिक सुवर्णको प्राप्त करते हैं) इसलिये सुवर्ण 'अर्थ' है, वैसे द्रव्य 'अर्थ' है; जैसे पीलापन आदि आश्रयभूत सुवर्णको प्राप्त करता है अथवा आश्रयभूत सुवर्णद्वारा प्राप्त किये जाते हैं (अर्थात् आश्रयभूत सुवर्ण, पीलापन आदिको प्राप्त करता है) इसलिये पीलापन आदि 'अर्थ' हैं, वैसे गुण 'अर्थ' हैं; जैसे कुण्डल आदि सुवर्णको क्रमपरिणामसे प्राप्त करते हैं अथवा सुवर्णद्वारा क्रमपरिणामसे प्राप्त किया जाता है (अर्थात् सुवर्ण कुण्डल आदिको क्रमपरिणामसे प्राप्त करता है) इसलिये कुण्डल आदि 'अर्थ' हैं, वैसे पर्यायों 'अर्थ' हैं ।

यथा हि सुवर्णं पीततादीन् गुणान् कुण्डलादींश्च पर्यायानियतिं तैर्यमाणं वा अर्थो द्रव्यस्थानीयं, यथा च सुवर्णमाश्रयत्वेनेत्यतिनेनाश्रयभूतेनार्यमाणा वा अर्थाः पीततादयो गुणाः, यथा च सुवर्णं क्रमपरिणामेनेत्यति तेन क्रमपरिणामेनार्यमाणा वा अर्थाः कुण्डलादयः पर्यायाः । एवमन्यत्रापि । यथा चैतेषु सुवर्णपीततादिगुणकुण्डलादिपर्यायेषु पीततादिगुणकुण्डलादिपर्यायाणां सुवर्णादिपृथग्भावात्सुवर्णमेवात्मा तथा च तेषु द्रव्यगुणपर्यायेषु गुणपर्यायाणां द्रव्यादपृथग्भावाद्द्रव्यमेवात्मा ॥ ८७ ॥

अथैवं मोहक्षयोपायभूतजिनेश्वरोपदेशलाभेऽपि पुरुषकारोऽर्थक्रियाकारीति पौरुषं व्यापारयति—

और जैसे इन सुवर्ण, पीलापन इत्यादि गुण और कुण्डल इत्यादि पर्यायोंमें (इन तीनोंमें), पीलापन इत्यादि गुणोंका और कुण्डल इत्यादि पर्यायोंका) सुवर्णसे अपृथक्त्व होनेसे उनका (पीलापन इत्यादि गुणोंका और कुण्डल इत्यादि पर्यायोंका) सुवर्ण ही आत्मा है, उसीप्रकार उन द्रव्य गुण पर्यायोंमें गुण-पर्यायोंका द्रव्यसे अपृथक्त्व होनेसे उनका द्रव्य ही आत्मा है (अर्थात् द्रव्य ही गुण और पर्यायोंका आत्मा-स्वरूप-सर्वस्व-सत्व है) ।

भावार्थः—८६ वीं गाथामें कहा है कि जिनशास्त्रोंका सम्यक् अभ्यास मोहक्षयका उपाय है । यहाँ संक्षेपमें यह बताया है कि उन जिनशास्त्रोंमें पदार्थोंकी व्यवस्था किसप्रकार कही गई है । जिनेन्द्रदेवने कहा है कि—अर्थ, अर्थात् द्रव्य, गुण, और पर्याय । इसके अतिरिक्त विश्वमें दूसरा कुछ नहीं है, और इन तीनोंमें गुण और पर्यायोंका आत्मा (उसका सर्वस्व) द्रव्य ही है । ऐसा होनेसे किसी द्रव्यके गुण और पर्याय अन्य द्रव्यके गुण और पर्यायरूप किंचित् मात्र नहीं होते, समस्त द्रव्य अपने अपने गुण और पर्यायोंमें रहते हैं । ऐसी पदार्थोंकी स्थिति मोहक्षयके निमित्तभूत पवित्र जिनशास्त्रोंमें कही है ॥ ८७ ॥

अब इसप्रकार मोहक्षयके उपायभूत जिनेश्वरके उपदेशकी प्राप्ति होनेपर भी पुरुषार्थ 'अर्थक्रियाकारी है, इसलिये पुरुषार्थ करता है:—

१. अर्थक्रियाकारी—प्रयोजनभूत क्रियाका (सर्वदुःखपरिमोक्षका) करनेवाला ।

जो मोहरागदोमे णिहणदि उवलम्भ जोसहपुवदेमं ।
मो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण ॥ ८८ ॥

यो मोहरागद्वेषान्निहन्ति उपलभ्य जैनमृपदेशम् ।
म सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोत्यचिरेण कालेन ॥ ८८ ॥

इह हि द्राघीयसि सदाजवंजवपथे कथमप्यमुं समुपलभ्यापि जैनेश्वरं निशिततरवारिधारा-
पथस्थानीयमृपदेशं य एव मोहरागद्वेषाणामुपरि दृढतरं निपातयति स एव निखिलदुःखपरिमोक्षं
क्षिप्रमेवाप्नोति, नापरो व्यापारः करवालपाणिरिव । अत एव सर्वारम्भेण मोहक्षपणाय पुरुषकारे
निषीदामि ॥ ८८ ॥

अथ स्वपरविवेकसिद्धेरेव मोहक्षपणं भवतीति स्वपरविभागसिद्धये प्रयतते—

गाथा ८८

अन्वयार्थः—[यः] जो [जैनं उपदेशं] जिनेन्द्रके उपदेशको [उपलभ्य]
प्राप्त करके [मोहरागद्वेषान्] मोह-राग-द्वेषको [निहन्ति] हनता है [सः] वह
[अचिरेण कालेन] अल्प कालमें [सर्वदुःखमोक्षं प्राप्नोति] सर्व दुःखोंसे मुक्त हो
जाता है ।

टीकाः—इस अतिदीर्घ, सदा उत्पातमय संसारमार्गमें किसी भी प्रकारसे
जिनेन्द्रदेवके इस तीक्ष्ण असिधारा समान उपदेशको प्राप्त करके भी जो मोह-राग-
द्वेष पर अति दृढ़ता पूर्वक उसका प्रहार करता है वही हाथमें तलवार लिये हुए
मनुष्यकी भाँति शीघ्र ही समस्त दुःखोंसे परिमुक्त होता है; अन्य (कोई) व्यापार
(प्रयत्न; क्रिया) समस्त दुःखोंसे परिमुक्त नहीं करता । (जैसे मनुष्यके हाथमें तीक्ष्ण
तलवार होने पर भी वह शत्रुओंपर अत्यन्त वेगसे उसका प्रहार करे तो ही वह
शत्रु सम्बन्धी दुःखसे मुक्त होता है अन्यथा नहीं, इसप्रकार इस अनादि संसारमें
महाभाग्यसे जिनेश्वर देवके उपदेशरूपी तीक्ष्ण तलवारको प्राप्त करके भी जो जीव
मोह-राग-द्वेषरूपी शत्रुओंपर अतिदृढ़ता पूर्वक उसका प्रहार करता है वही सर्व
दुःखोंसे मुक्त होता है अन्यथा नहीं) इसीलिये सम्पूर्ण प्रयत्न पूर्वक मोहका क्षय
करनेके लिये मैं पुरुषार्थका आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥ ८८ ॥

अब, स्व-परके विवेककी (भेदज्ञानकी) सिद्धिसे ही मोहका क्षय हो सकता
है, इसलिये स्व परके विभागकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करते हैंः—

णाणप्पगमप्पाणं परं च दब्बत्तणाहिमंबद्धं ।
जाणदि जदि णिच्छयदो जो मो मोहक्खयं कुणदि ॥८६॥

ज्ञानात्मकमात्मानं परं च द्रव्यत्वेनाभिसंबद्धम् ।
जानानि यदि निश्चयतो यः स मोहक्षयं करोति ॥८९॥

य एव स्वकीयेन चैतन्यात्मकेन द्रव्यत्वेनाभिसंबद्धमात्मानं परं च परकीयेन यथोचितेन द्रव्यत्वेनाभिसंबद्धमेव निश्चयतः परिच्छिनत्ति, स एव सम्यगवाप्तस्वपरविवेकः सकलं मोहं क्षययति । अतः स्वपरविवेकाय प्रयतोऽस्मि ॥ ८९ ॥

अथ सर्वथा स्वपरविवेकसिद्धिरागमतो विधातव्येत्युपसंहरति—

तम्हा जिणमग्गादो गुण्हिं आदं परं च दब्बेसु ।
अभिगच्छदु णिम्मोहं इच्छदि जदि अप्पणा अप्पा ॥८७॥

गाथा ८९.

अन्वयार्थः—[यः] जो [निश्चयतः] निश्चयसे [ज्ञानात्मकं आत्मानं] ज्ञानात्मक ऐसे अपनेको [च] और [परं] परको [द्रव्यत्वेन अभिसंबद्धम्] निज निज द्रव्यत्वसे संबद्ध [यदि जानाति] जानता है [सः] वह [मोह क्षयं करोति] मोहका क्षय करता है ।

टीकाः—जो निश्चयसे अपनेको स्वकीय (अपने) चैतन्यात्मक द्रव्यत्वसे संबद्ध (संयुक्त) और परको परकीय (दूसरेके) 'यथोचित् द्रव्यत्वसे संबद्ध ही जानता है, वही (जीव), जिसने कि सम्यक् रूपसे स्व-परके विवेकको प्राप्त किया है, सम्पूर्ण मोहका क्षय करता है, इसलिये मैं स्व परके विवेकके लिये प्रयत्नशील हूँ ॥ ८६ ॥

अब, सब प्रकारसे स्वपरके विवेककी सिद्धि आगमसे करने योग्य है, इस-प्रकार उपसंहार करते हैंः—

१. यथोचित्—यथायोग्य-चेतन या अचेतन (पुद्गलादि द्रव्य पर-अचेतन द्रव्यत्वसे और अन्य आत्मा पर-चेतन द्रव्यत्वसे संबद्ध हैं)

तस्माज्जिनमार्गाद्गुणैरात्मानं परं च द्रव्येषु ।

अभिगच्छतु निर्मोहमिच्छति यद्यात्मन आत्मा ॥ ९० ॥

इह स्वल्पागमनिगदितेष्वनन्तेषु गुणेषु कैश्चिद्गुणैरन्ययोगव्यवच्छेदकतयासाधारणतामुपादाय विशेषणतामुपगतैरनन्तायां द्रव्यसंततौ स्वपरविवेकमुपगच्छन्तु मोहप्रहाणप्रवणबुद्धयो लब्धवर्णाः । तथाहि—यदिदं सदकारणतया स्वतः सिद्धमन्तर्बहिर्मुखप्रकाशशालितया स्वपरपरिच्छेदकं मदीयं मम नाम चैतन्यमहमनेन तेन समानजातीयमसमानजातीयं वा द्रव्यमन्यदपहाय ममात्मन्येव वर्तमानेनात्मीयमात्मानं सकलत्रिकालकलितध्रौव्यं द्रव्यं जानामि । एवं पृथक्त्ववृत्तस्वलक्षणै-

गाथा ९०

अन्वयार्थः—[तस्मात्] इसलिये (स्व परके विवेकमे मोहका क्षय हो सकने योग्य होनेसे) [यदि] यदि [आत्मा] आत्मा [आत्मनः] अपनी [निर्मोहं] निर्मोहता [इच्छति] चाहता है तो [जिनमार्गात्] जिनमार्गसे [गुणैः] गुणोंके द्वारा [द्रव्येषु] द्रव्योंमें [आत्मानं परं च] स्व और परको [अभिगच्छतु] जानो (जिनागमके द्वारा विशेष गुणोंसे यह विवेक करो कि—अनन्त द्रव्योंमेंसे यह स्व और यह पर है) ।

टीकाः—मोहका क्षय करनेके प्रति 'प्रवण बुद्धिवाले बुधजन इस जगतमें आगममें कथित अनन्तगुणोंमेंसे किन्हीं गुणोंके द्वारा—जो गुण अन्यके साथ योग रहित होनेसे असाधारणता धारण करके विशेषत्वको प्राप्त हुए हैं उनके द्वारा—अनन्त द्रव्य परम्परामें स्व-परके विवेकको प्राप्त करो । (मोहका क्षय करनेके इच्छुक पंडितजन आगम कथित अनन्त गुणोंमेंसे असाधारण और भिन्नलक्षणभूत गुणोंके द्वारा अनन्त द्रव्य परम्परामें 'यह स्वद्रव्य हैं और यह परद्रव्य हैं' ऐसा विवेक करो), जो कि इसप्रकार हैः—

^३सत् और ^४अकारण होनेसे स्वतःसिद्ध, अन्तर्मुख और बहिर्मुख प्रकाशवाला होनेसे स्व-परका ज्ञायक—ऐसा जो यह मेरे साथ संबन्धवाला मेरा

१. प्रवण — ढलती हुई; अभिमुख; रत । २. कितने ही गुण अन्य द्रव्योंके साथ सम्बन्ध रहित होनेसे अर्थात् अन्य द्रव्योंमें न होनेसे असाधारण हैं, और इसलिये विशेषणभूत-भिन्न लक्षणभूत हैं; उसके द्वारा द्रव्योंकी भिन्नता निश्चित की जा सकती है । ३. सत् = अस्तित्ववाला; सत् रूप; सत्तावाला । ४. अकारण — जिसका कोई कारण न होय ऐसा अहेतुक, (चैतन्य सत् और अहेतुक होनेसे स्वयंसे ही सिद्ध है ।)

द्रव्यमन्यदपहाय तस्मिन्नेव च वर्तमानैः सकलत्रिकालकलितध्रौव्यं द्रव्यमाकाशं धर्ममधर्मं कालं पुद्गलमात्मान्तरं च निश्चिनोमि । ततो नाहमाकाशं न धर्मो नाधर्मो न च कालो न पुद्गलो नात्मान्तरं च भवामि, यतोऽभीष्टेकापवरकप्रबोधितानेकदीपप्रकाशेष्विव संभूयावस्थितेष्वपि

चैतन्य है उसके द्वारा—जो (चैतन्य) समानजातीय अथवा असमानजातीय अन्य द्रव्यको छोड़कर मेरे आत्मामें ही वर्तता है, उसके द्वारा मैं अपने आत्माकी सकल त्रिकालमें ध्रुवत्वका धारक द्रव्य जानता हूँ । इसप्रकार पृथक् रूपसे वर्तमान स्वलक्षणोंके द्वारा—जो अन्य द्रव्यको छोड़कर उसी द्रव्यमें वर्तते हैं उनके द्वारा—आकाश, धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल और अन्य आत्माको सकल त्रिकालमें ध्रुवत्व धारक द्रव्यके रूपमें निश्चित करता हूँ (जैसे चैतन्य लक्षणके द्वारा आत्माको ध्रुव द्रव्यके रूपमें जाना, उसीप्रकार अवगाहहेतुत्व, गतिहेतुत्व इत्यादि लक्षणोंमें—जो कि स्वलक्ष्यभूत द्रव्यके अतिरिक्त अन्य द्रव्योंमें नहीं पाये जाते उनके द्वारा—आकाश, धर्माभित्काय इत्यादिको भिन्न २ ध्रुव द्रव्योंके रूपमें जानता हूँ) इसलिये मैं आकाश नहीं हूँ, धर्म नहीं हूँ, अधर्म नहीं हूँ, काल नहीं हूँ, पुद्गल नहीं हूँ और आत्मान्तर नहीं हूँ; क्योंकि—

मकानके एक कमरेमें जलाये गये अनेक दीपकोंके प्रकाशोंकी भाँति यह द्रव्य इकट्ठे होकर रहते हुए भी मेरा चैतन्य निजस्वरूपसे अच्युत ही रहता हुआ मुझे पृथक् बताता है ।

इसप्रकार जिसने स्व-परका विवेक निश्चित किया है ऐसे आत्माके विकारकारी मोहांकुरका प्रादुर्भाव नहीं होता ।

भावार्थः—स्व-परके विवेकसे मोहका नाश किया जा सकता है । वह

१. सकलत्रिकाल—आत्मा कोई कालको बाकी रखे बिना संपूर्ण तीनों काल ध्रुव रहता ऐसा द्रव्य है । २. जैसे किसी एक कमरेमें अनेक दीपक जलाये जायें तो स्थूलदृष्टिसे देखने पर उनका प्रकाश एक दूसरेमें मिला हुआ मालूम होता है, किन्तु सूक्ष्मदृष्टिसे विचारपूर्वक देखने पर वे सब प्रकाश भिन्न २ ही हैं, क्योंकि उनमेंसे एक दीपक बुझ जाने पर उसी दीपकका प्रकाश नष्ट होता है; अन्य दीपकोंके प्रकाश नष्ट नहीं होते; इसीप्रकार जीवादिक अनेक द्रव्य एक ही क्षेत्रमें रहते हैं फिर भी सूक्ष्म दृष्टिसे देखने पर वे सब भिन्न भिन्न ही हैं, एकमेक नहीं होते ।

मच्चैतन्यं स्वरूपादप्रच्युतमेव मां पृथगवगमयति । एवमस्य निश्चितस्वपरविवेकस्यात्मनो न खलु विकारकारिणो मोहांडूकुरस्य प्रादुर्भूतिः स्यात् ॥ ९० ॥

अथ जिनोदितार्थश्रद्धानमन्तरेण धर्मलाभो न भवतीति प्रतर्कयति—

सत्तासंबद्धे दे मविसेसे जो हि एव सामण्ये ।
सद्दहदि ण मो ममणो ततो धम्मो ण संभवदि ॥६१॥

सत्तासंबद्धानेतान् सविशेषान् यो हि नैव श्रामण्ये ।
श्रद्धाति न स श्रमणः ततो धर्मो न संभवति ॥ ६१ ॥

यो हि नामैतानि सादृश्यास्तित्वेन सामान्यमनुव्रजन्त्यपि स्वरूपास्तित्वेनाश्लिष्टविशेषाणि द्रव्याणि स्वपरावच्छेदेनापरिच्छिन्दन्नश्रद्धानो वा एवमेव श्रामण्येनात्मानं दमयति स खलु न

स्वपरका विवेक, जिनागमके द्वारा स्व-परके लक्षणोंको यथार्थतया जानकर किया जा सकता है ॥ ६० ॥

अब, न्यायपूर्वक यह विचार करते हैं कि—जिनेन्द्रोक्त अर्थोंके श्रद्धान बिना धर्म लाभ (शुद्धात्मअनुभवरूप धर्मप्राप्ति) नहीं होता:—

गाथा ९१

अन्वयार्थः—[यः हि] जो [श्रामण्ये] श्रमणावस्थामें [एतान् सत्तासंबद्धान् सविशेषान्] इन सत्ता संयुक्त सविशेष पदार्थोंकी [न एव श्रद्धाति] श्रद्धा नहीं करता [सः] वह [श्रमणः न] श्रमण नहीं है; [ततः धर्मः न संभवति] उससे धर्मका उद्भव नहीं होता (उस श्रमणाभासके धर्म नहीं होता ।)

टीका:—जो (जीव) इन द्रव्योंको—जो कि सादृश्य अस्तित्वके द्वारा समानताको धारण करते हुए स्वरूप-अस्तित्वके द्वारा विशेषयुक्त हैं उन्हें स्व-परके भेदपूर्वक न जानता हुआ और श्रद्धा न करता हुआ यों ही (ज्ञानश्रद्धाके बिना)

१. अस्तित्ववाले । २. सविशेष = विशेषसहित; भेदवाले; भिन्न भिन्न । ३. अस्तित्व दो प्रकारका है—सादृश्यअस्तित्व और स्वरूपअस्तित्व । सादृश्यअस्तित्वकी अपेक्षासे सर्व द्रव्योंमें समानता है, और स्वरूप अस्तित्वकी अपेक्षासे समस्त द्रव्योंमें विशेषता है ।

नाम श्रमणः । यतस्ततोऽपरिच्छिन्नरेणुकनककणिकाविशेषाद्धूलिधावकात्कनकलाभ इव निरुपरागात्प्रतत्त्वोपलम्भलक्षणो धर्मोपलम्भो न संभूतिमनुभवति ॥ ९१ ॥

अथ 'उवसंपयामि सम्मं जत्तो णिव्वाणसंपत्ती' इति प्रतिज्ञाय 'चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिदिट्ठो' इति साम्यस्य धर्मत्वं निश्चित्य 'परिणमदि जेण दव्वं तक्कालं तम्मय त्ति

मात्र श्रमणतासे (द्रव्य मुनित्वसे) आत्माका दमन करता है वह वास्तवमें श्रमण नहीं है । इसलिये जैसे जिसे रेती और स्वर्णकणोंका अन्तर जात नहीं है, उसे धूलके धोनेसे—उसमेंसे स्वर्ण लाभ नहीं होता, इसीप्रकार उसमेंसे (श्रमणाभासमेंसे) निरुपराग (निर्विकार) आत्मतत्त्वकी उपलब्धि (प्राप्ति) लक्षणवाले धर्मलाभका उद्भव नहीं होता ।

भावार्थः—जो जीव द्रव्यमुनित्वका पालन करता हुआ भी स्वपरके भेद सहित पदार्थोंकी श्रद्धा नहीं करता, वह निश्चय-सम्यक्त्व पूर्वक परमसामायिक संयमरूप मुनित्वके अभावके कारण मुनि नहीं है; इसलिये जैसे जिसे रेती और स्वर्णकणका विवेक नहीं है, ऐसे धूलको धोनेवालेको चाहे जितना परिश्रम करने पर भी स्वर्णकी प्राप्ति नहीं होती, इसीप्रकार जिसे स्व और परका विवेक नहीं है ऐसे उस द्रव्यमुनिको चाहे जितनी द्रव्यमुनित्वकी क्रियाओंका कष्ट उठानेपर भी धर्मकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ९१ ॥

'उवसंपयामि सम्मं जत्तो 'णिव्वाणसंपत्ती' इसप्रकार (पाँचवीं गाथामें) प्रतिज्ञा करके 'चारित्तं खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिदिट्ठो' इसप्रकार (७ वीं गाथामें) साम्यका धर्मत्व (साम्य ही धर्म है) निश्चित करके 'परिणमदि जेण दव्वं तक्कालं तम्मय त्ति पणत्तं, तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो मुणेयव्वो इसप्रकार (८ वीं गाथामें) जो आत्माका धर्मत्व कहना प्रारम्भ किया और जिसकी सिद्धिके लिये 'धम्मेण परिणदप्पा अप्पा जदि मुद्धसंपओगजुदो, पावदि णिव्वाणमुहं

१. अर्थ—मैं साम्यको प्राप्त करता हूँ, जिससे निर्वाणकी प्राप्ति होती है । २. अर्थ—चारित्र वास्तवमें धर्म है, जो धर्म है वह साम्य है, ऐसा (गान्धोंमें कहा है) । ३. अर्थ—द्रव्य जिसकालमें जिसभावरूप परिणमित होता है उस कालमें उस-मय है ऐसा (जिनेन्द्रदेवने) कहा है; इसलिये धर्मपरिणत आत्माको धर्म जानना चाहिये । ४. अर्थ—धर्मपरिणत-स्वरूपवाला आत्मा यदि शुद्ध उपयोगमें युक्त हो तो मोक्षसुखको पाता है ।

पण्णसं तम्हा धम्मपरिणदो आदा धम्मो गुणोयच्चो' इति यदात्मनो धर्मत्वमाद्यप्रयितुमुप-
क्रान्तं, यत्प्रसिद्धये च 'धम्मणेण परिणदप्पा अप्पा ऋदि सुद्धसंपओगजुदो पावदि णिव्वाणसुहं' इति
निर्वाणसुखसाधनशुद्धोपयोगोऽधिकर्तुमारब्धः, शुभाशुभोपयोगौ च विरोधिनी निर्व्वस्तौ, शुद्धो-
पयोगस्वरूपं चोपवर्णितं, तत्प्रसादजौ चात्मनो ज्ञानानन्दौ सहजौ समुद्योतयता संवेदन स्वरूपं
सुखस्वरूपं च प्रपञ्चितम् । तदधुना कथं कथमपि शुद्धोपयोगप्रसादेन प्रसाध्य परमनि-
स्पृहामात्मतृप्तां पारमेश्वरीप्रवृत्तिमभ्युपगतः कृतकृत्यतामवाप्य नितान्तमनाकुलो भूत्वा प्रली-
नभेदवासनोन्मेषः स्वयं साक्षाद्धर्म एवास्मीत्यवतिष्ठते—

जो निहतमोहदृष्टि आगमकुशलो विरागचरियमिह ।

अभ्युत्थितो महात्मा धर्मो ति विसेषितो समणो ॥ ६२ ॥

यो निहतमोहदृष्टिरागमकुशलो विरागचरिते ।

अभ्युत्थितो महात्मा धर्म इति विशेषितः श्रमणः ॥ ९२ ॥

इसप्रकार (११ वीं गाथामें) निर्वाण-सुखके साधनभूत शुद्धोपयोगका अधिकार
प्रारम्भ किया, विरोधी शुभाशुभ उपयोगको नष्ट किया (हेय बताया), शुद्धोपयोगका
स्वरूप वर्णन किया, शुद्धोपयोगके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाले आत्माके सहज ज्ञान और
आनन्दको समझाते हुये ज्ञानके स्वरूपका और सुखके स्वरूपका विस्तार किया, उसे
(आत्माके धर्मत्वको) अब चाहे जैसे ही शुद्धोपयोगके प्रसादसे सिद्ध करके, परम
निस्पृह आत्मतृप्त 'पारमेश्वरी प्रवृत्तिको प्राप्त होते हुये, कृतकृत्यताको प्राप्त करके
अत्यन्त अनाकुल होकर जिनके भेदवासना (विकल्पपरिणाम)की प्रगटताका प्रलय
हुआ है, ऐसे होते हुये (आचार्य भगवान) 'मैं स्वयं साक्षात् धर्म ही हूँ' इसप्रकार
रहते हैं, (ऐसे भावमें निश्चल-स्थिर होते हैं) :—

गाथा ९२

अन्वयार्थः—[यः आगमकुशलः] जो आगममें कुशल हैं, [निहतमोहदृष्टिः]
जिसकी मोहदृष्टि हत हो गई है, और [विरागचरिते अभ्युत्थितः] जो वीतराग
चारित्रमें आरूढ़ है, [महात्मा श्रमणः] उस महात्मा श्रमणको [धर्मः इति विशेषितः]
(शास्त्रमें) 'धर्म' कहा है ।

१. परकी स्पृहासे रहित और आत्मामें ही तृप्त, निश्चयरत्नत्रयमें लीनतारूप प्रवृत्ति ।



— २ —

ज्ञेयतत्त्व—प्रज्ञापन

अथ ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापनं, तत्र पदार्थस्य सम्यग्द्रव्यगुणपर्यायस्वरूपमवर्णयति—

अथो खलु द्रव्यमथो द्रव्याणि गुणव्यगुणाणि भणितानि ।
तेहि पुनो पञ्जाया पञ्जयमूढा हि परसमया ॥ ६३ ॥

अर्थः खलु द्रव्यमयो द्रव्याणि गुणात्मकानि भणितानि ।

तेस्तु पुनः पर्यायाः पर्ययमूढा हि परसमयाः ॥ ६३ ॥

— २ —

ज्ञेयतत्त्व—प्रज्ञापन

अब ज्ञेयतत्त्वका प्रज्ञापन करते हैं, अर्थात् ज्ञेयतत्त्व बतलाते हैं। उसमें (प्रथम) पदार्थका सम्यक् (यथार्थ) द्रव्यगुणपर्यायस्वरूप वर्णन करते हैं:—

गाथा ९३

अन्वयार्थः—[अर्थः खलु] पदार्थ [द्रव्यमयः] द्रव्यस्वरूप है; [द्रव्याणि] द्रव्य [गुणात्मकानि] गुणात्मक [भणितानि] कहे गये हैं; [तैः तु पुनः] और द्रव्य तथा गुणोंसे [पर्यायाः] पर्यायें होती हैं। [पर्ययमूढाः हि] पर्यायमूढ जीव [परसमयाः] परसमय (मिथ्यादृष्टि) हैं।

इह किल यः कश्चन परिच्छिद्यमानः पदार्थः स सर्व एव विस्तारायतसामान्यसमुदायात्मना द्रव्येणाभिनिर्वृत्तत्वाद्द्रव्यमयः । द्रव्याणि तु पुनरेकाग्रयविस्तारविशेषात्मकैर्गुणैरभिनिर्वृत्तत्वाद्गुणात्मकानि । पर्यायास्तु पुनरायतविशेषात्मका उक्तलक्षणैर्द्रव्यैरपि गुणैरप्यभिनिर्वृत्तत्वाद्द्रव्यात्मका अपि गुणात्मका अपि । तत्रानेकद्रव्यात्मकैक्यप्रतिपत्तिनिबन्धनो द्रव्यपर्यायः । स द्विविधः, समानजातीयोऽसमानजातीयश्च । तत्र समानजातीयो नाम यथा अनेकपुद्गलात्मको द्रव्यणुकस्त्रयणुक इत्यादि, असमानजातीयो नाम यथा जीवपुद्गलात्मको देवो मनुष्य इत्यादि ।

टीकाः—इस विश्वमें जो कोई जाननेमें आनेवाला पदार्थ है वह समस्त ही विस्तारसामान्यसमुदायात्मक और आयतसामान्यसमुदायात्मक द्रव्यसे रचित होनेसे द्रव्यमय (द्रव्यस्वरूप) है । और द्रव्य एक जिनका आश्रय है ऐसे विस्तारविशेष-स्वरूप गुणोंसे रचित (गुणोंसे बने हुवे) होनेसे गुणात्मक है ।

और पर्यायें—जो कि आयतविशेषस्वरूप हैं वे—जिनके लक्षण (ऊपर) कहे गये हैं ऐसे द्रव्योंसे तथा गुणोंसे रचित होनेसे द्रव्यात्मक भी हैं गुणात्मक भी हैं । उसमें, अनेक द्रव्यात्मक एकताकी प्रतिपत्तिकी कारणभूत द्रव्यपर्याय है । वह दो प्रकार है । (१) समानजातीय और (२) असमानजातीय । उसमें (१) समानजातीय वह है,—जैसे कि अनेक पुद्गलात्मक द्विअणुक त्रिअणुक इत्यादि; (२) असमानजातीय वह है, जैसे कि जीव पुद्गलात्मक देव, मनुष्य इत्यादि । गुण द्वारा आयतकी अनेकताकी प्रतिपत्तिकी कारणभूत गुणपर्याय है । वह भी दो प्रकार है । (१) स्वभावपर्याय, और (२) विभावपर्याय । उसमें, समस्त द्रव्योंके अपने

१. विस्तार सामान्य समुदाय = विस्तारसामान्यरूप समुदाय । विस्तारका अर्थ है चौड़ाई । द्रव्यकी चौड़ाईकी अपेक्षाके (एकसाथ रहनेवाले, सहभावी) भेदोंको (विस्तारविशेषोंको) गुण कहा जाता है; जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र इत्यादि जीवद्रव्यके विस्तारविशेष अर्थात् गुण हैं । उन विस्तारविशेषोंमें रहनेवाले विशेषत्वको गौण करें तो इन सबमें एक आत्मस्वरूप सामान्यत्व भासित होता है । यह विस्तारसामान्य (अथवा विस्तारसामान्यसमुदाय) वह द्रव्य है । २. आयतसामान्यसमुदाय = आयतसामान्यरूप समुदाय । आयतका अर्थ है लम्बाई अर्थात् कालापेक्षितप्रवाह । द्रव्यके लम्बाईकी अपेक्षाके (एकके बाद एक प्रवर्तमान, क्रमभावी, कालापेक्षित) भेदोंको (आयत विशेषोंको) पर्याय कहा जाता है । उन क्रमभावी पर्यायोंमें प्रवर्तमान विशेषत्वको गौण करें तो एक द्रव्यस्वरूप सामान्यत्व ही भासित होता है । यह आयतसामान्य (अथवा आयतसामान्य समुदाय) वह द्रव्य है । ३. अनन्तगुणोंका आश्रय एक द्रव्य है । ४. प्रतिपत्ति = प्राप्ति; ज्ञान; स्वीकार । ५. द्विअणुक = दो अणुओंसे बना हुआ स्कंध ।

गुणद्वारेणायतानैक्यप्रतिषत्तिननिबन्धनो गुणपर्यायः । सोऽपि द्विविधः स्वभावपर्यायो विभावपर्याय-
यश्च । तत्र स्वभावपर्यायो नाम समस्तद्रव्याणामात्मीयात्मीयागुरुलघुगुणद्वारेण प्रतिसमयसमु-
दीयमानषट्स्थानपतितदृष्टिहानिनानात्वानुभूतिः, विभावपर्यायो नाम रूपादीनां ज्ञानादीनां वा
स्वपरप्रत्ययवर्तमानपूर्वोत्तरावस्थावतीर्णतारतम्योपदर्शितस्वभावविशेषानेकत्वापत्तिः । अथेदं दृष्टा-
न्तेन द्रव्यति—यथैव हि सर्व एव पटोऽवस्थायिना विस्तारसामान्यसमुदायेनाभिधावताऽऽयत-
सामान्यसमुदायेन चाभिनिर्वर्त्यमानस्तन्मय एव, तथैव हि सर्व एव पदार्थोऽवस्थायिना विस्तार-
सामान्यसमुदायेनाभिधावताऽऽयतसामान्यसमुदायेन च द्रव्यनाम्नाभिनिर्वर्त्यमानो द्रव्यमय एव
यथैव च पटोऽवस्थायी विस्तारसामान्यसमुदायोऽभिधावन्नायतसामान्यसमुदायो वा गुणैरभि-

अपने अगुरुलघुगुण द्वारा प्रतिसमय प्रगट होनेवाली षट्स्थानपतित हानिवृद्धिरूप
अनेकत्वकी अनुभूति स्वभावपर्याय है; (२) रूपादिके या ज्ञानादिके स्व परके
'कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्थामें होनेवाले तारतम्यके कारण देखनेमें आनेवाले
स्वभाव विशेषरूप अनेकत्वकी आपत्ति विभावपर्याय है ।

अब यह (पूर्वोक्त) कथन दृष्टान्तसे दृढ़ करते हैं:—

जैसे सम्पूर्ण पट, अवस्थायी (स्थिर) विस्तारसामान्यसमुदायसे और दौड़ने
(बहते, प्रवाहरूप) हुये आयतसामान्यसमुदायसे रचित होता हुआ-तन्मय ही है,
इसीप्रकार सम्पूर्ण पदार्थ 'द्रव्य' नामक अवस्थायी विस्तारसामान्यसमुदायसे और दौड़ते
हुये आयतसामान्यसमुदायसे रचित होता हुआ द्रव्यमय ही है । और जैसे पटमें,
अवस्थायी विस्तारसामान्यसमुदाय या दौड़ते हुये आयतसामान्यसमुदाय गुणोंसे रचित
होता हुआ गुणोंसे पृथक् अप्राप्त होनेसे गुणात्मक ही है, उसीप्रकार पदार्थोंमें,
अवस्थायी विस्तारसामान्यसमुदाय या दौड़ता हुआ आयतसामान्यसमुदाय—जिसका
नाम 'द्रव्य' है वह— गुणोंसे रचित होता हुआ गुणोंसे पृथक् अप्राप्त होनेसे गुणात्मक
ही है । और जैसे अनेक पटात्मक (एकसे अधिक वस्त्रोंसे निर्मित) द्विपटिक,
त्रिपटिक समानजातीय द्रव्यपर्याय है, उसीप्रकार अनेक पुद्गलात्मक द्वि-अणुक,

१. स्व उपादान और पर निमित्त है । २. आपत्ति = आपतित, आपड़ना । ३. पट — वस्त्र । ४. द्विपटिक—
दो थानोंको जोड़कर (सीकर) बनाया गया एक बख [यदि दोनों थान एक ही जातिके हों तो समान-
जातीय द्रव्यपर्याय कहलाता है, और यदि दो थान भिन्न जातिके हों (जैसे एक रेशमी और दूसरा सूती)
तो असमानजातीय द्रव्यपर्याय कहलाता है ।]

निर्वर्त्यमानो गुणेश्चः पृथगनुपलम्भाद्गुणात्मक एव, तथैव च पदार्थेष्ववस्थायी विस्तारसामान्य-समुदायोऽभिधावन्नायतसामान्यसमुदायो वा द्रव्यनामा गुणैरभिनिर्वर्त्यमानो गुणेश्चः पृथगनु-पलम्भाद्गुणात्मक एव । यथैव चानेकपटात्मको द्विपटिका त्रिपटिकेति समानजातीयो द्रव्यपर्यायः, तथैव चानेकपुद्गलात्मको द्व्यणुकस्यणुक इति समानजातीयो द्रव्यपर्यायः । यथैव चानेककौ-शेयककार्पासमयपटात्मको द्विपटिकात्रिपटिकेत्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः, तथैव चानेकजीव-पुद्गलात्मको देवो मनुष्य इत्यसमानजातीयो द्रव्यपर्यायः । यथैव च क्वचित्पटे स्थूलात्मीयागुरु-लघुगुणद्वारेण कालक्रमप्रवृत्तेन नानाविधेन परिणमनात्प्रतिपत्तिर्गुणात्मकः स्वभावपर्यायः, तथैव च समस्तेष्वपि द्रव्येषु सूक्ष्मात्मीयात्मीयागुरुलघुगुणद्वारेण प्रतिसमयसमुदीयमानषट्-स्थानपतितवृद्धिहानिनानात्वानुभूतिः गुणात्मकः स्वभावपर्यायः । यथैव च पटे रूपादीनां स्वपरप्रत्ययप्रवर्तमानपूर्वोत्तरावस्थावतीर्णतारतम्योपदर्शितस्वभावविशेषानेकत्वापत्तिर्गुणात्मको वि-

त्रिअणुक ऐसी समानजातीय द्रव्यपर्याय है; और जैसे अनेक रेशमी और सूती पटोंके बने हुए द्विपटिक, त्रिपटिक ऐसी असमानजातीय द्रव्यपर्याय है, उसीप्रकार अनेक जीव पुद्गलात्मक देव, मनुष्य ऐसी असमानजातीय द्रव्यपर्याय है । और जैसे कभी पटमें अपने स्थूल अगुरुलघुगुणद्वारा कालक्रमसे प्रवर्तमान अनेक प्रकाररूपसे परिणमित होनेके कारण अनेकत्वकी प्रतिपत्ति गुणात्मक स्वभावपर्याय है, उसीप्रकार समस्त द्रव्योंमें अपने अपने सूक्ष्म अगुरुलघुगुण द्वारा प्रतिसमय प्रगट होनेवाली षट्स्थानपतित हानिवृद्धिरूप अनेकत्वकी अनुभूति गुणात्मक स्वभावपर्याय है; और जैसे पटमें, रूपादिकके स्व-परके कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्थामें होनेवाले तारतम्यके कारण देखनेमें आनेवाले स्वभावविशेषरूप अनेकत्वकी आपत्ति गुणात्मक विभावपर्याय है, उसीप्रकार समस्त द्रव्योंमें, रूपादिके या ज्ञानादिके स्व-परके कारण प्रवर्तमान पूर्वोत्तर अवस्थामें होनेवाले तारतम्यके कारण देखनेमें आनेवाले स्वभावविशेषरूप अनेकत्वकी आपत्तिगुणात्मक विभाव-पर्याय है ।

वास्तवमें यह, सर्व पदार्थोंके द्रव्यगुणपर्यायस्वभावकी प्रकाशक 'पारमेश्वरी व्यवस्था भली-उत्तम-पूर्ण-योग्य है, दूसरी कोई नहीं; क्योंकि बहुतसे (जीव) पर्यायमात्रका ही अवलम्बन करके, तत्त्वकी अप्रतिपत्ति जिसका लक्षण है ऐसे मोहको प्राप्त होते हुये परसमय होते हैं ।

भावपर्यायः; तथैव च समस्तेष्वपि द्रव्येषु रूपादीनां ज्ञानादीनां वा स्वपरप्रत्ययप्रवर्तमानपूर्वोत्तरा-
वस्थावतीर्णतारतम्योपदर्शितस्वभावविशेषानेकत्वापत्तिर्गुणात्मकोविभावपर्यायः । इयं हि सर्व-
पदार्थानां द्रव्यगुणपर्यायस्वभावप्रकाशिका पारमेश्वरी व्यवस्था साधीयसी, न पुनरितरा । यतो
हि बहवोऽपि पर्यायमात्रमेवावलम्ब्य तस्वाप्रतिपत्तिलक्षणं मोहमुपगच्छन्तः परसमया भवन्ति ॥९३॥

अथानुषङ्गिकीमिमामेव स्वसमयपरसमयव्यवस्थां प्रतिष्ठाप्योपसंहरति—

जो पञ्जयंस्वु णिरदा जीवा परममयिग ति णिदिट्ठा ।

आदमहावम्मि टिदा ते सगसमया मुणेदच्चा ॥ ९४ ॥

ये पर्यायेषु निरता जीवाः परममयिका इति निर्दिष्टाः ।

आत्मस्वभावे स्थितास्ते स्वकसमया ज्ञातव्याः ॥ ९४ ॥

भावार्थः—पदार्थ द्रव्यस्वरूप है । द्रव्य अतन्तगुणमय है । द्रव्यों और गुणोंसे पर्यायें होती हैं । पर्यायोंके दो प्रकार हैंः—१-द्रव्यपर्याय, २-गुणपर्याय । इनमेंसे द्रव्यपर्यायके दो भेद हैंः—१-समानजातीय, जैसे द्विअणुक, त्रिअणुक इत्यादि स्कन्ध; २-असमानजातीय, जैसे मनुष्य देव इत्यादि । गुणपर्यायके भी दो भेद हैंः—१-स्वभाव-पर्याय, जैसे सिद्धपर्याय; २-विभावपर्याय, जैसे मतिज्ञान ।

ऐसा जिनेन्द्र भगवानकी वाणीसे कथित सर्वपदार्थोंका द्रव्य-गुण-पर्यायस्वरूप ही यथार्थ है । जो जीव द्रव्य-गुणको न जानते हुये मात्र पर्यायको ही आलम्बन लेते हैं वे निज स्वभावको न जानते हुये पर समय हैं ॥ ९३ ॥

अब 'आनुषंगिक' ऐसी यह ही स्वसमय-परसमयकी व्यवस्था (भेद) निश्चित करके (उसका) उपसंहार करते हैंः—

गाथा ९४

अन्वयार्थः—[ये जीवाः] जो जीव [पर्यायेषु निरताः] पर्यायोंमें लीन हैं [परसमयिकाः इति निर्दिष्टाः] उन्हें पर-समय कहा गया है [आत्मस्वभावे स्थिताः] जो जीव आत्मस्वभावमें स्थित हैं [ते] वे [स्वकसमयाः ज्ञातव्याः] स्व-समय जानने ।

ये खलु जीवपुद्गलात्मकमसमानजातीयद्रव्यपर्यायं सकलाविद्यानामेकमूलमुपगता यथो-
दितात्मस्वभावसंभावनकलीवास्तस्मिन्नेवाशक्तिमुपव्रजन्ति, ते खलुच्छलितनिरर्गलैकान्तदृष्टयो
मनुष्य एवाहमेष ममैवैतन्मनुष्यशरीरमित्यहङ्कारममकाराभ्यां विप्रलभ्यमाना अविचलितचेतना-
विलासमात्रादात्मव्यवहारात् प्रच्युत्य क्रोडीकृतसमस्तक्रियाकुटुम्बकं मनुष्यव्यवहारमाश्रित्य
रज्यन्तो द्विषन्तश्च परद्रव्येण कर्मणा संगतत्वात्परसमया जायन्ते । ये तु पुनरसंकीर्णद्रव्यगुणपर्याय-
सुस्थितं भगवंतमात्मनः स्वभावं सकलविद्यानामेकमूलमुपगम्य यथोदितात्मस्वभावसंभावन-
समर्थतया पर्यायमात्राशक्तिमत्यस्यात्मनः स्वभाव एव स्थितिमासूत्रयन्ति, ते खलु सहजविजृ-

टीका:—जो जीवपुद्गलात्मक असमानजातीय द्रव्यपर्यायिका जो कि सकल
अविद्याओंकी एक जड़ है, उसका आश्रय करते हुए 'यथोक्त आत्मस्वभावकी
'संभावना करनेमें नपुंसक होनेसे उसीमें बल धारण करते हैं (अर्थात् उन असमान-
जातीय द्रव्य-पर्यायोंके प्रति ही बलवान हैं), वे जिनकी 'निरर्गल एकांतदृष्टि उच्छलती
है, ऐसे—'यह मैं मनुष्य ही हूँ, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है' इसप्रकार अहंकार-मम-
कारसे टगाये जाते हुये, अविचलितचेतनाविलासमात्र 'आत्मव्यवहारसे च्युत होकर,
जिसमें समस्त क्रियाकलापको छातीसे लगाया जाता है ऐसे 'मनुष्यव्यवहारका आश्रय
करके रागी-द्वेषी, होते हुए पर द्रव्यरूप कर्मके साथ संगतताके कारण (परद्रव्यरूप
कर्मके साथ युक्त होजानेसे) वास्तवमें 'परसमय होते हैं, अर्थात् परसमयरूप
परिणमित होते हैं ।

और जो 'असंकीर्ण द्रव्य गुण-पर्यायोंसे सुस्थित भगवान आत्माके स्वभावका-
जो कि सकल विद्याओंका एक मूल है उसका-आश्रय करके यथोक्त आत्मस्वभावकी
संभावनामें समर्थ होनेसे पर्यायमात्र प्रतिके बलको दूर करके आत्माके स्वभावमें ही
स्थिति करते हैं (लीन होते हैं), वे-जिन्होंने सहजविकसित अनेकान्तदृष्टिसे समस्त

१. यथोक्त = पूर्व गाथा में कहा जैसा । २. संभावना = संचेतन; अनुभव; मान्यता; आदर । ३.
निरर्गल = अंकुश बिना की; वेहद (जो मनुष्यादि पर्यायमें लीन हैं, वे वेहद एकांतदृष्टिरूप हैं । ४.
आत्मव्यवहार = आत्मारूप वर्तन, आत्मारूप कार्य, आत्मारूप व्यापार । ५. मनुष्यव्यवहार = मनुष्यरूप
वर्तन (मैं मनुष्य ही हूँ । ऐसी मान्यतापूर्वक वर्तन) । ६. जो जीव परके साथ एकत्वकी मान्यतापूर्वक
युक्त होता है, उसे परसमय कहते हैं । ७. असंकीर्ण = एकमेक नहीं ऐसे; स्पष्टतया भिन्न । [भगवान्
आत्मस्वभाव स्पष्ट भिन्न-परके साथ एकमेक नहीं ऐसे-द्रव्यगुणपर्यायोंसे सुस्थित है] ।

म्भितानेकान्तदृष्टिप्रक्षपितसमस्तैकान्तदृष्टिपरिग्रहग्रहा मनुष्यादिगतिषु तद्विग्रहेषु चाविहिताहङ्कार-
ममकारा अनेकापवरकसंचारितरत्नप्रदीपमिवैकरूपमेवात्मानमुपलभमाना अविचलितचेतनाविला-
समात्रमात्मव्यवहारसुररीकृत्य क्रोडीकृतसमस्तक्रियाकुटुम्बकं मनुष्यव्यवहारमनाश्रयन्तो विश्रा-
न्तरागद्वेषोन्मेषतया परममौदासीन्यमवलंबमाना निरस्तसमस्तपरद्रव्यसंगतितया स्वद्रव्येणैव

एकान्तदृष्टिके 'परिग्रहके आग्रह प्रक्षीण कर दिये हैं, ऐसे—मनुष्यादि गतियोंमें और उन गतियोंके शरीरोंमें अहंकार-ममकार न करके अनेक कक्षों (कमरों) में 'संचारित रत्नदीपककी भाँति एकरूप ही आत्माको उपलब्ध (अनुभव) करते हुये, अविचलित-चेतनाविलासमात्रमात्मव्यवहारको अंगीकार करके, जिसमें समस्त क्रियाकलापसे भेंट की जाती है ऐसे मनुष्यव्यवहारका आश्रय नहीं करते हुवे, रागद्वेषका उन्मेष (प्राकट्य) रुक जानेसे परम उदासीनताका आलंबन लेते हुये, समस्त परद्रव्योंकी संगति दूर करदेनेसे मात्र स्वद्रव्यके साथ ही संगतता होनेसे वास्तवमें 'स्वसमय होते हैं, अर्थात् स्वसमयरूप परिणमित होते हैं ।

इसलिये स्वसमय ही आत्माका तत्व है ।

भावार्थः—'मैं मनुष्य हूँ, शरीरादिकी समस्त क्रियाओंको मैं करता हूँ, स्त्री-पुत्र-धनादिके ग्रहण त्यागका मैं स्वामी हूँ' इत्यादि मानना सो मनुष्य व्यवहार (मनुष्यरूप प्रवृत्ति) है । 'मात्र अचलित चेतना वह ही मैं हूँ' ऐसा मानना-परिणमित होना सो आत्मव्यवहार (आत्मारूप प्रवृत्ति) है ।

जो मनुष्यादिपर्यायमें लीन हैं, वे एकान्तदृष्टिवाले लोग मनुष्यव्यवहारका आश्रय करते हैं, इसलिये रागी-द्वेषी होते हैं, और इसप्रकार परद्रव्यरूप कर्मके साथ सम्बन्ध करते होनेसे वे परसमय हैं; और जो भगवान् आत्मस्वभावमें ही स्थित हैं वे अनेकान्तदृष्टिवाले लोग मनुष्यव्यवहारका आश्रय नहीं करके आत्मव्यवहारका

१. परिग्रह = स्वीकार; अंगीकार । २. संचारित=लेजाये गये । (जैसे भिन्न-भिन्न कमरोंमें लेजाया गया रत्नदीपक एकरूप ही है, वह किंचित्मात्र भी कमरेके रूपमें नहीं होता, और न कमरेकी क्रिया करता है, उसीप्रकार भिन्न-भिन्न शरीरोंमें प्रविष्ट होनेवाला आत्मा एकरूप ही है, वह किंचित्मात्र भी शरीररूप नहीं होता, और न शरीरकी क्रिया करता है,—इसप्रकार ज्ञानी जानता है ।) ३. जो जीव स्वके साथ एकत्वकी मान्यतापूर्वक (स्व के साथ) युक्त होता है उसे स्व-समय कहा जाता है ।

केवलेन संगतत्वात्स्वसमया जायन्ते । अतः स्वसमय एवात्मनस्तत्त्वम् ॥ ९४ ॥

अथ द्रव्यलक्षणमुपलक्षयति—

अपरित्यक्तस्वभावेणुत्पादव्ययध्रुवत्वसंबद्धं ।

गुणवं च सपर्यायं जं तं द्रव्यं ति वुच्यन्ति ॥ ९५ ॥

अपरित्यक्तस्वभावेनोत्पादव्ययध्रुवत्वसंबद्धम् ।

गुणवच्च सपर्यायं यत्तद्रव्यमिति ब्रुवन्ति ॥ ९५ ॥

इल खलु यदनारब्धस्वभावभेदमुत्पादव्ययध्रौव्यत्रयेण गुणपर्यायद्वयेन च यल्लक्ष्यते तद्रव्यम् । तत्र हि द्रव्यस्य स्वभावोऽस्तित्वसामान्यान्वयः, अस्तित्वं हि वक्ष्यति द्विविधं, स्व-

आश्रय करते हैं, इसलिये रागी-द्वेषी नहीं होते अर्थात् परम उदासीन रहते हैं; और इसप्रकार परद्रव्यरूप कर्मके साथ सम्बन्ध न करके मात्र स्वद्रव्यके साथ ही सम्बन्ध करते हैं, इसलिये वे स्वसमय हैं ॥ ९४ ॥

अब द्रव्यका लक्षण बतलाते हैं:—

गाथा ९५

अन्वयार्थः—[अपरित्यक्तस्वभावेन] स्वभावको छोड़े बिना [यत्] जो [उत्पादव्ययध्रुवत्वसंबद्धम्] उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य संयुक्त है [च] तथा [गुणवत् सपर्यायं] गुणयुक्त और पर्यायसहित है, [तत्] उसे [द्रव्यम् इति] 'द्रव्य' [ब्रुवन्ति] कहते हैं ।

टीका:—यहाँ (इस विश्वमें) जो, स्वभावभेद किये बिना, 'उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यत्रयसे और 'गुणपर्यायद्वयसे 'लक्षित होता है वह द्रव्य है । इनमेंसे (स्वभाव, उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य, गुण और पर्यायमेंसे) द्रव्यका स्वभाव वह 'अस्तित्वसामान्यरूप

१. उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यत्रय = उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य—यह त्रिपुटी (तीनोंका समूह) । २. गुणपर्यायद्वय = गुण और पर्याय—यह युगल (दोनोंका समूह) ३. लक्षित होता है = लक्ष्यरूप होता है, पहिचाना जाता है । [(१) उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य तथा (२) गुणपर्याय वे लक्षण हैं और द्रव्य वह लक्ष्य है ।] ४. अस्तित्वसामान्यरूप अन्वय = है, है, है, ऐसा एकरूप भाव द्रव्यका स्वभाव है । (अन्वय = एकरूपता, सदृश्यभाव ।)

रूपास्तित्वं सादृश्यास्तित्वं चेति । तत्रोत्पादः प्रादुर्भावः, व्ययः प्रच्यवनं, ध्रौव्यमवस्थितिः । गुणा विस्तारविशेषाः, ते द्विविधाः सामान्यविशेषात्मकत्वात् । तत्रास्तित्वं नास्तित्वमेकत्वमन्यत्वं द्रव्यत्वं पर्यायत्वं सर्वगतत्वमसर्वगतत्वं सप्रदेशत्वमप्रदेशत्वं मूर्तत्वममूर्तत्वं सक्रियत्वमक्रियत्वं चेतनत्वमचेतनत्वं कर्तृत्वमकर्तृत्वं भोक्तृत्वमभोक्तृत्वमगुरुलघुत्वं चेत्यादयः सामान्यगुणाः । अवगाहहेतुत्वं गतिनिमित्तता स्थितिकारणत्वं वर्तनायतनत्वं रूपादिमत्ता चेतनत्वमित्यादयो विशेषगुणाः । पर्याया आयतविशेषाः, ते पूर्वमेवोक्ताश्चतुर्विधाः । न च तैरुत्पादादिभिर्गुणपर्यायैर्वा सह द्रव्यं लक्ष्यलक्षणभेदेऽपि स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव द्रव्यस्य तथाविधत्वाद्-

अन्वय है; अस्तित्व दो प्रकारका कहेंगे:—१-स्वरूपअस्तित्व । २-सादृश्य-अस्तित्व । उत्पाद, प्रादुर्भाव (प्रगट होना—उत्पन्न होना) है; व्यय, प्रच्युति (भ्रष्ट,-नष्ट होना) है; ध्रौव्य, अवस्थिति (ठिकाना) है; गुण, विस्तारविशेष हैं । वे सामान्य-विशेषात्मक होनेसे दो प्रकारके हैं । इनमें, अस्तित्व, नास्तित्व, एकत्व, अन्यत्व, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, सर्वगतत्व, असर्वगतत्व, सप्रदेशत्व, अप्रदेशत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, सक्रियत्व, अक्रियत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, कर्तृत्व, अकर्तृत्व, भोक्तृत्व, अभोक्तृत्व, अगुरुलघुत्व इत्यादि सामान्यगुण हैं । अवगाहहेतुत्व, गतिनिमित्तता, स्थितिकारणत्व, वर्तनायतनत्व, रूपादिमत्व, चेतनत्व इत्यादि विशेष गुण हैं । पर्याय आयतविशेष हैं । वे पूर्व ही (६३ वीं गाथाकी टीकामें) कथित चार प्रकारकी हैं ।

द्रव्यका उन उत्पादादिके साथ अथवा गुणपर्यायोंके साथ लक्ष्यलक्षण भेद होने पर भी स्वरूपभेद नहीं है । स्वरूपसे ही द्रव्य वैसा (उत्पादादि अथवा गुणपर्याय-वाला) है; वस्त्रके समान ।

जैसे मलिन अवस्थाको प्राप्त वस्त्र, धोनेपर निर्मल अवस्थासे (निर्मल अवस्थारूप, निर्मल अवस्थाकी अपेक्षासे) उत्पन्न होता हुआ उस उत्पादसे लक्षित होता है, किन्तु उसका उस उत्पादके साथ स्वरूप भेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है (अर्थात् स्वयं उत्पादरूपसे ही परिणत है); उसीप्रकार जिसने पूर्व अवस्था प्राप्त की है ऐसा द्रव्य भी-जो कि उचित बहिरंग साधनोंके सान्निध्य (निकटता; हाजरी) के सद्भावमें अनेक प्रकारकी बहुतसी अवस्थायें करता है वह—अन्तरंगसाधनभूत

१. द्रव्यमें निजमें ही स्वरूपकर्ता और स्वरूपकरण होनेकी सामर्थ्य है । यह सामर्थ्यस्वरूप स्वभाव ही अपने परिणमनमें (अवस्थांतर करनेमें) अन्तरंग साधन है ।

चरीयवत् । यथा खलूत्तरीयमुपात्तमलिनावस्थं प्रक्षालितममलावस्थयोत्पद्यमानं तेनोत्पादेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथा द्रव्यमपि समुपात्तप्राक्तनावस्थं समुचितबहिरङ्गसाधनसन्निधिसद्भावे विचित्रबहुतरावस्थानं स्वरूपकर्तृकरणसामर्थ्यस्वभावेनांतरङ्गसाधनतामुपागतेनानुग्रहीतमुत्तरावस्थयोत्पद्यमानं तेनोत्पादेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथा च तदेवोत्तरीयममलावस्थयोत्पद्यमानं मलिनावस्थया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथा तदेव द्रव्यमप्युत्तरावस्थयोत्पद्यमानं प्राक्तनावस्थया व्ययमानं तेन व्ययेन लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव च तदेवोत्तरीयमेककालमलावस्थयोत्पद्यमानं मलिनावस्थया व्ययमानमवस्थायिन्योत्तरीयत्वावस्थया ध्रौव्यमालम्बमानं ध्रौव्येण लक्ष्यते । न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथैव तदेव द्रव्यमप्येककालमुत्तरावस्थयोत्पद्यमानं प्राक्तनावस्थया व्ययमानमवस्थायिन्या द्रव्यत्वावस्थया ध्रौव्यमालम्बमानं ध्रौव्येण लक्ष्यते न च तेन सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव च तदेवोत्तरीयं विस्तारविशेषात्मकैर्गुणैर्लक्ष्यते । न च तैः सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव

स्वरूपकर्ता और स्वरूपकरणके सामर्थ्यरूप स्वभावसे अनुग्रहीत होने पर, उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ वह उत्पादसे लक्षित होता है; किन्तु उसका उस उत्पादके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है । और जैसे वही वस्त्र निर्मल अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ और मलिन अवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुआ उस व्ययसे लक्षित होता है, परन्तु उसका उस व्ययके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है; उसीप्रकार वही द्रव्य भी उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ और पूर्व अवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुआ उस व्ययसे लक्षित होता है; परन्तु उसका उस व्ययके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है । और जैसे वही वस्त्र एक ही समयमें निर्मल अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ, मलिन अवस्थासे व्ययको प्राप्त होता हुआ और टिकनेवाली वस्त्रत्व-अवस्थासे ध्रुव रहता हुआ ध्रौव्यसे लक्षित होता है; परन्तु उसका उस ध्रौव्यके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वैसा है; इसीप्रकार वही द्रव्य भी एक ही समय उत्तर अवस्थासे उत्पन्न होता हुआ, पूर्व अवस्थासे व्यय होता हुआ, और टिकनेवाली द्रव्यत्व-अवस्थासे ध्रुव रहता हुआ ध्रौव्यसे लक्षित होता है । किन्तु उसका उस ध्रौव्यके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है ।

तथाविधत्वमवलम्बते । तथैव तदेव द्रव्यमपि विस्तारविशेषात्मकैर्गुणैर्लक्ष्यते । न च तैः सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । यथैव च तदेवोत्तरीयमायतविशेषात्मकैः पर्यायवर्तिभिस्तन्तुभिर्लक्ष्यते । न च तैः सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते । तथैव तदेव द्रव्यमप्यायतविशेषात्मकैः पर्यायैर्लक्ष्यते । न च तैः सह स्वरूपभेदमुपव्रजति, स्वरूपत एव तथाविधत्वमवलम्बते ॥ ९५ ॥

अथ क्रमेणास्तित्वं द्विविधमभिदधाति स्वरूपास्तित्वं सादस्यास्तित्वं चेति तत्रेदं स्वरूपास्तित्वाभिधानम्—

सव्भावो हि सद्भावो गुणेहिं सगपज्जण्णिं चित्तेहिं ।

द्वयस्स सर्वकालं उत्पादव्ययध्रुवत्तेहिं ॥ ९६ ॥

सद्भावो हि स्वभावो गुणैः स्वकपर्यायैश्चित्रैः ।

द्रव्यस्य सर्वकालमुत्पादव्ययध्रुवत्वैः ॥ ९६ ॥

और जैसे वही वस्त्र विस्तारविशेषस्वरूप (शुक्लत्वादि) गुणोंसे लक्षित होता है, किन्तु उसका उन गुणोंके साथ स्वरूपभेद नहीं है, स्वरूपसे ही वह वैसा है; इसीप्रकार वही द्रव्य भी विस्तारविशेषस्वरूप गुणोंसे लक्षित होता है; किन्तु उसका उन गुणोंके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है । और जैसे वही वस्त्र आयतविशेषस्वरूप पर्यायवर्ती (पर्यायस्थानीय) तंतुओंसे लक्षित होता है, किन्तु उसका उन तंतुओंके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है । उसीप्रकार वही द्रव्य भी आयतविशेषस्वरूप पर्यायोंसे लक्षित होता है, परन्तु उसका उन पर्यायोंके साथ स्वरूपभेद नहीं है, वह स्वरूपसे ही वैसा है ॥ ९५ ॥

अब अनुक्रमसे दो प्रकारका अस्तित्व कहते हैं । स्वरूप-अस्तित्व और सादृश्य-अस्तित्व । इनमेंसे यह स्वरूपास्तित्वका कथन है:—

गाथा ९६

अन्वयार्थः—[सर्वकालं] सर्वकालमें [गुणैः] गुण तथा [चित्रैः स्वकपर्यायैः] अनेक प्रकारकी अपनी पर्यायोंसे [उत्पादव्ययध्रुवत्वैः] और उत्पाद व्यय ध्रुव्यसे [द्रव्यस्य सद्भावः] द्रव्यका जो अस्तित्व है [हि] वह वास्तवमें [स्वभावः] स्वभाव है ।

अस्तित्वं हि किल द्रव्यस्य स्वभावः, तत्पुनरन्यसाधननिरपेक्षत्वादानाद्यनन्ततयाहेतुकयैकरूपया वृत्त्या नित्यप्रवृत्त्वादिभावधर्मवैलक्षण्याच्च भावभाववद्भावात्मानात्वेऽपि प्रदेशभेदाभावाद्द्रव्येण सहैकत्वमवलम्बमानं द्रव्यस्य स्वभाव एव कथं न भवेत् । तत्तु द्रव्यान्तराणामिव द्रव्यगुणपर्यायाणां न प्रत्येकं परिसमाप्यते । यतो हि परस्परसाधितसिद्धियुक्तत्वात्तेषामस्तित्वमेकमेव, कार्तस्वरवत् । यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कार्तस्वरात् पृथगनुपलभ्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेण पीततादिगुणानां कुण्डलादिपर्यायाणां च स्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्ति-

टीका:—अस्तित्व वास्तवमें द्रव्यका स्वभाव है; और वह (अस्तित्व) अन्य साधनसे 'निरपेक्ष होनेके कारण अनादि-अनन्त होनेसे तथा 'अहेतुक, एकरूप वृत्तिसे सदा ही प्रवर्तता होनेके कारण विभावधर्मसे विलक्षण होनेसे, भाव और भाववानताके कारण अनेकत्व होने पर भी प्रदेशभेद न होनेसे द्रव्यके साथ एकत्वको धारण करता हुआ, द्रव्यका स्वभाव ही क्यों न हो ? (अवश्य होवे ।) वह अस्तित्व-जैसे भिन्न-भिन्न द्रव्योंमें प्रत्येकमें समाप्त होजाता है, उसीप्रकार-द्रव्य-गुण-पर्यायमें प्रत्येकमें समाप्त नहीं होजाता, क्योंकि उनकी सिद्धि परस्पर होती है, इसलिये (अर्थात् द्रव्यगुण और पर्याय एक दूसरेसे परस्पर सिद्ध होते हैं इसलिये,—यदि एक न हो तो दूसरे दो भी सिद्ध नहीं होते, इसलिये) उनका अस्तित्व एक ही है; सुवर्णकी भाँति ।

जैसे द्रव्य, क्षेत्र काल या भावसे "सुवर्णसे जो पृथक् दिखाई नहीं देते; कर्ता-करण-अधिकरणरूपसे पीतत्वादि गुणोंके और कुण्डलादि पर्यायोंके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान सुवर्णके अस्तित्वसे जिनकी उत्पत्ति होती है,—ऐसे पीतत्वादि गुणों और कुण्डलादि पर्यायोंसे जो सुवर्णका अस्तित्व है वह (उसका) स्वभाव है; इसी-प्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे जो द्रव्यसे पृथक् दिखाई नहीं देते, कर्ता-करण-अधिकरणरूपसे गुणोंके और पर्यायोंके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान द्रव्यके

१. अस्तित्व अन्य साधनकी अपेक्षासे रहित—स्वयंसिद्ध है, इसलिये अनादि-अनन्त है । २. अहेतुक—अकारण, जिसका कोई कारण नहीं है ऐसी । ३. वृत्ति—वर्तन; वर्तना वह; परिणति । (अकारणिक एकरूप परिणतिसे सदाकाल परिणमता होनेसे अस्तित्व विभावधर्मसे भिन्नलक्षणवाला है ।) ४. अस्तित्व तो (द्रव्यका) भाव है और द्रव्य भाववान् है । ५. पीतत्वादि गुण और कुण्डलादि पर्यायें । ६. द्रव्य ही गुण-पर्यायोंका कर्ता (करनेवाला), उनका करण (साधन) और उनका अधिकरण (आधार) है; इसलिये द्रव्य ही गुण-पर्यायका स्वरूप धारण करता है ।

युक्तस्य कार्तस्वरास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तैः पीततादिगुणैः कुण्डलादिपर्यायैश्च यदस्तित्व कार्तस्वरस्य स स्वभावः, तथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा द्रव्यात्पृथगनुपलभ्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेण गुणानां पर्यायाणां च स्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तस्य द्रव्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तैर्गुणैः पर्यायैश्च यदस्तित्वं द्रव्यस्य स स्वभावः । यथा वा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा पीततादिगुणेभ्यः कुण्डलादिपर्यायेभ्यश्च पृथगनुपलभ्यमानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण कार्तस्वरस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तैः पीततादिगुणैः कुण्डलादिपर्यायैश्च निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य कार्तस्वरस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः, तथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा गुणेभ्यः पर्यायेभ्यश्च

अस्तित्वसे जिनकी उत्पत्ति होती है,—ऐसे गुणों और पर्यायोंसे जो द्रव्यका अस्तित्व है वह स्वभाव है ।

(द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे सुवर्णसे भिन्न न दिखाई देनेवाले पीतत्वादिक और कुण्डलादिकका अस्तित्व वह सुवर्णका ही अस्तित्व है, क्योंकि पीतत्वादिकके और कुण्डलादिकके स्वरूपको सुवर्ण ही धारण करता है, इसलिये सुवर्णके अस्तित्वसे ही पीतत्वादिककी और कुण्डलादिककी निष्पत्ति-सिद्धि होती है; सुवर्ण न हो तो पीतत्वादिक और कुण्डलादिक भी न हों । इसीप्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे द्रव्यसे भिन्न नहीं दिखाई देनेवाले गुणों और पर्यायोंका अस्तित्व वह द्रव्यका ही अस्तित्व है, क्योंकि गुणों और पर्यायोंके स्वरूपको द्रव्य ही धारण करता है, इसलिये द्रव्यके अस्तित्वसे ही गुणोंकी और पर्यायोंकी निष्पत्ति होती है; द्रव्य न हो तो गुण और पर्याय भी न हों । ऐसा अस्तित्व वह द्रव्यका स्वभाव है ।)

अथवा, जैसे द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे 'जो पीतत्वादि गुणोंसे और कुण्डलादि पर्यायोंसे पृथक् नहीं दिखाई देता; कर्ता-करण-अधिकरणरूपसे सुवर्णके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान पीतत्वादि गुणों और कुण्डलादि पर्यायोंसे जिसकी निष्पत्ति होती है,—ऐसे सुवर्णका, मूलसाधनपनेसे 'उनसे निष्पन्न होता हुआ जो अस्तित्व है वह स्वभाव है; इसीप्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे गुणोंसे

१. जो = जो सुवर्ण । २. उनसे = पीतत्वादि गुणों और कुण्डलादि पर्यायोंसे । (सुवर्णका अस्तित्व निष्पन्न होनेमें उपजनेमें, या सिद्ध होनेमें मूलसाधन पीतत्वादि गुण और कुण्डलादि पर्याय हैं ।)

पृथगनुपलभ्यमानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपस्युपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तैर्गुणैः पर्यायैश्च निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः । किंच—यथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कार्तस्वरात्पृथगनुपलभ्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेण कुण्डलाद्गदपीतताद्युत्पादव्ययध्रौव्याणां स्वरूपस्युपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्ति-

और पर्यायोंसे जो पृथक् नहीं दिखाई देता, कर्ता-करण-^१अधिकरणरूपसे द्रव्यके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान गुणों और पर्यायोंसे जिसकी निष्पत्ति होती है,— ऐसे द्रव्यका, मूलसाधनपनेसे उनसे निष्पन्न होता हुआ जो अस्तित्व है वह स्वभाव है ।

(पीतत्वादिकसे और कुण्डलादिकसे भिन्न न दिखाई देनेवाले सुवर्णका अस्तित्व वह पीतत्वादिक और कुण्डलादिकका ही अस्तित्व है, क्योंकि सुवर्णके स्वरूपको पीतत्वादिक और कुण्डलादिक ही धारण करते हैं, इसलिये पीतत्वादिक और कुण्डलादिकके अस्तित्वसे ही सुवर्णकी निष्पत्ति होती है । पीतत्वादिक और कुण्डलादिक न हों तो सुवर्ण भी न हो; इसीप्रकार गुणोंसे और पर्यायोंसे भिन्न न दिखाई देनेवाले द्रव्यका अस्तित्व वह गुणों और पर्यायोंका ही अस्तित्व है; क्योंकि द्रव्यके स्वरूपको गुणों और पर्यायों ही धारण करती हैं इसलिये गुणों और पर्यायोंके अस्तित्वसे ही द्रव्यकी निष्पत्ति होती है । यदि गुणों और पर्यायों न हों तो द्रव्य भी न हो । ऐसा अस्तित्व वह द्रव्यका स्वभाव है ।)

(जिसप्रकार द्रव्यका और गुण-पर्यायका एक ही अस्तित्व है ऐसा सुवर्णके दृष्टान्त पूर्वक समझाया, उसीप्रकार अब सुवर्णके दृष्टान्त पूर्वक ऐसा बताया जा रहा है कि द्रव्यका और उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यका भी एक ही अस्तित्व है ।)

जैसे द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे, सुवर्णसे ^२जो पृथक् नहीं दिखाई देते, कर्ता-करण-^३अधिकरणरूपसे कुण्डलादि उत्पादोंके, बाजूबंधादि व्ययोंके और पीतत्वादि

१. गुण-पर्यायों ही द्रव्यकी कर्ता, करण और अधिकरण हैं; इसलिये गुण-पर्यायों ही द्रव्यका स्वरूप धारण करती हैं । २. जो — जो कुण्डलादि उत्पाद, बाजूबंधादि व्यय और पीतादि ध्रौव्य । ३. सुवर्ण ही कुण्डलादि-उत्पाद, बाजूबंधादि-व्यय और पीतत्वादि ध्रौव्यका कर्ता, करण तथा अधिकरण है; इसलिये सुवर्ण ही उनका स्वरूप धारण करता है । (सुवर्ण ही कुण्डलादिरूपसे उत्पन्न होता है, बाजूबंधादि-रूपसे नष्ट होता है और पीतत्वादिरूपसे अवस्थित रहता है ।)

युक्तस्य कार्तस्वरास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तैः कुण्डलाङ्गदपीतताद्युत्पादव्ययध्रौव्यैर्यदस्तित्वं कार्तस्वरस्य स स्वभावः, तथा हि द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा द्रव्यात्पृथगनुपलभ्यमानैः कर्तृकरणाधिकरणरूपेणोत्पादव्ययध्रौव्याणां स्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तस्य द्रव्यास्तित्वेन निष्पादितनिष्पत्तियुक्तैरुत्पादव्ययध्रौव्यैर्यदस्तित्वं द्रव्यस्य स स्वभावः । यथा वा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन वा कुण्डलाङ्गदपीतताद्युत्पादव्ययध्रौव्येभ्यः पृथगनुपलभ्य-

ध्रौव्योंके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान सुवर्णके अस्तित्वसे जिनकी निष्पत्ति होती है,—ऐसे कुण्डलादि उत्पाद, बाजूबंधादि व्यय और पीतत्वादि ध्रौव्योंसे जो सुवर्णका अस्तित्व है वह (सुवर्णका) स्वभाव है । इसीप्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे जो द्रव्यसे पृथक् दिखाई नहीं देते, कर्ता-करण-अधिकरणरूपसे उत्पाद-व्यय-ध्रौव्योंके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान द्रव्यके अस्तित्वसे जिनकी निष्पत्ति होती है,—ऐसे उत्पाद-व्यय-ध्रौव्योंसे जो द्रव्यका अस्तित्व है वह स्वभाव है ।

((द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे द्रव्यसे भिन्न दिखाई न देनेवाले उत्पाद, व्यय और ध्रौव्योंका अस्तित्व है वह द्रव्यका ही अस्तित्व है; क्योंकि उत्पाद, व्यय और ध्रौव्योंके स्वरूपको द्रव्य ही धारण करता है, इसलिये द्रव्यके अस्तित्वसे ही उत्पाद, व्यय और ध्रौव्योंकी निष्पत्ति होती है । यदि द्रव्य न हो तो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य भी न हों । ऐसा अस्तित्व वह द्रव्यका स्वभाव है ।))

अथवा, जैसे द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे कुण्डलादि-उत्पादोंसे बाजूबंधादि व्ययोंसे और पीतत्वादि ध्रौव्योंसे जो पृथक् नहीं दिखाई देता; कर्ता-करण-अधिकरणरूपसे सुवर्णके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान कुण्डलादि उत्पादों, बाजूबंधादि व्ययों और पीतत्वादि ध्रौव्योंसे जिसकी निष्पत्ति होती है,—ऐसे सुवर्णका, मूलसाधनपनेसे उनसे निष्पन्न होता हुआ जो अस्तित्व है, वह स्वभाव है । इसीप्रकार द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे या भावसे उत्पाद-व्यय-ध्रौव्योंसे जो पृथक् दिखाई नहीं देता, कर्ता-करण-अधिकरणरूपसे द्रव्यके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान उत्पाद-व्यय-ध्रौव्योंसे जिसकी निष्पत्ति होती है,—ऐसे द्रव्यका मूल साधनपनेसे उनसे निष्पन्न होता हुआ जो अस्तित्व है, वह स्वभाव है ।

१. उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य ही द्रव्यके कर्ता, करण, और अधिकरण हैं, इसलिये उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य ही द्रव्यके स्वरूपको धारण करते हैं ।

मानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण कार्तस्वरस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तैः कुण्डलाङ्गदपीत-
ताद्युत्पादव्ययध्रौव्यैर्निष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य कार्तस्वरस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं
स स्वभावः, तथा द्रव्येण वा क्षेत्रेण वा कालेन वा भावेन बोत्पादव्ययध्रौव्येभ्यः पृथगनुपलभ्य-
मानस्य कर्तृकरणाधिकरणरूपेण द्रव्यस्वरूपमुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुक्तैरुत्पादव्ययध्रौव्यैर्नि-
ष्पादितनिष्पत्तियुक्तस्य द्रव्यस्य मूलसाधनतया तैर्निष्पादितं यदस्तित्वं स स्वभावः ॥ ९६ ॥

इदं तु सादृश्यास्तित्वाभिधानमस्तीति कथयति—

इह विविहत्कस्त्रणाणं लक्ष्णमेकं सदिति सव्वगयं ।

उपदिशता खलु धम्मं जिणवरवसहेण परणत्तं ॥९७॥

इह विविधलक्षणानां लक्षणमेकं सदिति सव्वगतम् ।

उपदिशता खलु धर्मं जिणवरवृषभेण प्रज्ञप्सु ॥ ९७ ॥

(उत्पादोंसे, व्ययोंसे और ध्रौव्योंसे भिन्न न दिखाई देनेवाले द्रव्यका अस्तित्व वह उत्पादों; व्ययों और ध्रौव्योंका ही अस्तित्व है; क्योंकि द्रव्यके स्वरूपको उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ही धारण करते हैं, इसलिये उत्पाद-व्यय और ध्रौव्योंके अस्तित्वसे ही द्रव्यकी निष्पत्ति होती है । यदि उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य न हों तो द्रव्य भी न हो । ऐसा अस्तित्व वह द्रव्यका स्वभाव है ।)

भावार्थः—अस्तित्वके और द्रव्यके प्रदेशभेद नहीं है; और वह अस्तित्व अनादि-अनन्त है; तथा अहेतुक एकरूप परिणतिसे सदा परिणमित होता है, इसलिये विभावधर्मसे भी भिन्न प्रकारका है । ऐसा होनेसे अस्तित्व द्रव्यका स्वभाव ही है ।

गुण-पर्यायोंका और द्रव्यका अस्तित्व भिन्न नहीं है; एक ही है; क्योंकि गुण-पर्यायोंसे ही निष्पन्न होती हैं; और द्रव्य गुण-पर्यायोंसे ही निष्पन्न होता है । और इसीप्रकार उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यका और द्रव्यका अस्तित्व भी एक ही है; क्योंकि उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यसे ही उत्पन्न होते हैं, और द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रौव्योंसे ही उत्पन्न होता है ।

इसप्रकार स्वरूपास्तित्वका निरूपण हुआ ॥ ९६ ॥

अब यह (नीचे अनुसार) सादृश्य-अस्तित्वका कथन हैः—

गाथा ९७

अन्वयार्थः—[धर्म] धर्मका [खलु] वास्तवमें [उपदिशता] उपदेश करते

इह किल प्रपञ्चितवैचित्र्येण द्रव्यान्तरेभ्यो व्यावृत्त्य वृत्तेन प्रतिद्रव्यं सीमानमासूत्रयता विशेषलक्षणभूतेन च स्वरूपास्तित्वेन लक्ष्यमाणानामपि सर्वद्रव्याणामस्तमितवैचित्र्यप्रपञ्चं प्रवृत्त्य वृत्तं प्रतिद्रव्यमासूत्रितं सीमानं भिन्दत्सदिति सर्वगतं सामान्यलक्षणभूतं सादृश्यास्तित्वमेकं खल्ववबोधव्यम् । एवं सदित्यभिधानं सदिति परिच्छेदनं च सर्वार्थपरामर्शि स्यात् । यदि पुनरिदमेव न स्यात्तदा किञ्चित्सदिति किञ्चिदसदिति किञ्चित्सञ्चासञ्चेति किञ्चिदवाच्यमिति च स्यात् । तत्तु विप्रतिषिद्धमेव प्रसाध्यं चैतदनोकहवत् । यथा हि बहूनां बहुविधानामनोकहाना

हुये [जिनवरवृषभेण] ^१जिनवरवृषभने [इह] इस विश्वमें [विविधलक्षणानां] विविध लक्षणवाले (भिन्न भिन्न स्वरूपास्तित्ववाले सर्व) द्रव्योंका [सत् इति] 'सत्' ऐसा [सर्वगतं] ^२सर्वगत [लक्षणं] लक्षण (सादृश्यास्तित्व) [एकं] एक [प्रज्ञप्तम्] कहा है ।

टीका:— इस विश्वमें, विचित्रताको विस्तारित करते हुये (विविधता-अनेकत्वको दिखाते हुये), अन्य द्रव्योंसे व्यावृत्त (भिन्न) रहकर प्रवर्तमान, और प्रत्येक द्रव्यकी सीमाको बाँधते हुवे ऐसे विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वसे (समस्त द्रव्य) लक्षित होते हैं फिर भी सर्व द्रव्योंका, विचित्रताके विस्तारको अस्त करता हुआ, सर्व द्रव्योंमें प्रवृत्त होकर रहनेवाला, और प्रत्येक द्रव्यकी बँधी हुई सीमाकी अवगणना करता हुआ, 'सत्' ऐसा जो सर्वगत सामान्यलक्षणभूत सादृश्यास्तित्व है वह वास्तवमें एक ही जानना चाहिये । इसप्रकार 'सत्' ऐसा कथन और 'सत्' ऐसा ज्ञान सर्व पदार्थोंका ^३परामर्श करनेवाला है । यदि वह ऐसा (सर्वपदार्थपरामर्शी) न हो तो कोई पदार्थ सत्, कोई असत्, कोई सत् तथा असत् और कोई अवाच्य होना चाहिये; किन्तु वह तो विरुद्ध ही है, और यह ('सत्' ऐसा कथन और ज्ञानके सर्वपदार्थपरामर्शी होनेकी बात) तो सिद्ध हो सकती है, वृक्षकी भाँति ।

जैसे बहुतसे, अनेक प्रकारके वृक्षोंको अपने अपने विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके अवलम्बनसे उत्थित होते (खड़े होते) अनेकत्वको, सामान्य लक्षणभूत ^४सादृश्यदर्शक वृक्षत्वसे उत्थित होता एकत्व तिरोहित (अदृश्य) कर देता है, इसीप्रकार बहुतसे, अनेक प्रकारके द्रव्योंको अपने अपने विशेष लक्षणभूत स्वरूपा-

१. जिनवरवृषभ — जिनवरोंमें श्रेष्ठ; तीर्थंकर । २. सर्वगत = सबमें व्यापनेवाला । ३. परामर्श — स्पर्श; विचार; लक्ष; स्मरण । ४. सादृश्य = समानत्व ।

मात्मीयस्यात्मीयस्य विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टम्भेनोत्तिष्ठन्नानात्वं, सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्योद्भासिनानोकहत्वेनोत्थापितमेकत्वं तिरियति । तथा बहूनां बहुविधानां द्रव्याणामात्मीयात्मीयस्य विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वस्यावष्टम्भेनोत्तिष्ठन्नानात्वं सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्योद्भासिना सदित्यस्य भावेनोत्थापितमेकत्वं तिरियति । यथा च तेषामनोकहानां सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्योद्भासिनानोकहत्वेनोत्थापितेनैकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपास्तित्वावष्टम्भेनोत्तिष्ठन्नानात्वमुच्चकास्ति, तथा सर्वद्रव्याणामपि सामान्यलक्षणभूतेन सादृश्योद्भासिना सदित्यस्य भावेनोत्थापितेनैकत्वेन तिरोहितमपि विशेषलक्षणभूतस्य स्वरूपा-

स्तित्वके अवलम्बनसे उत्थित होते अनेकत्वको, सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक 'सत्' पनेसे ('सत्' ऐसे भावसे, अस्तित्वसे, 'है' पनेसे) उत्थित होता एकत्व तिरोहित कर देता है । और जैसे उन वृक्षोंके विषयमें सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक वृक्षत्वसे उत्थित होते एकत्वसे तिरोहित होता है, फिर भी (अपने अपने) विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके अवलम्बनसे उत्थित होता अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है, (बना रहता है, नष्ट नहीं होता); इसीप्रकार सर्व द्रव्योंके विषयमें भी सामान्यलक्षणभूत सादृश्यदर्शक 'सत्'पनेसे उत्थित होते एकत्वसे तिरोहित होने पर भी (अपने अपने) विशेषलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वके अवलम्बनसे उत्थित होता अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान रहता है ।

[बहुतसे (संख्यापेक्षासे अनेक) और अनेकप्रकारके (अर्थात् आम्र, अशोकादि) वृक्षोंका अपना अपना स्वरूपास्तित्व भिन्न भिन्न है, इसलिये स्वरूपास्तित्वकी अपेक्षासे उनमें अनेकत्व है, परन्तु वृक्षत्व जो कि सर्व वृक्षोंका सामान्यलक्षण है और जो सर्व वृक्षोंमें सादृश्य बतलाता है, उसकी अपेक्षासे सर्व वृक्षोंमें एकत्व है । जब इस एकत्वको मुख्य करते हैं तब अनेकत्व गौण हो जाता है; इसीप्रकार बहुतसे (अनन्त) और अनेक (छह) प्रकारके द्रव्योंका अपना अपना स्वरूपास्तित्व भिन्न भिन्न है इसलिये स्वरूपास्तित्वकी अपेक्षासे उनमें अनेकत्व है, परन्तु सत्पना (अस्तित्वपना, 'है' ऐसा भाव) जो कि सर्व द्रव्योंका सामान्य लक्षण है और जो सर्वद्रव्योंमें सादृश्य बतलाता है उसकी अपेक्षासे सर्वद्रव्योंमें एकत्व है । जब इस एकत्वको मुख्य करते हैं तब अनेकत्व गौण हो जाता है । और इसप्रकार जब सामान्य सत्पनेको मुख्यतासे लक्षमें लेने पर सर्व द्रव्योंके एकत्वकी मुख्यता होनेसे अनेकत्व गौण हो जाता है, तब

स्वित्त्वस्यावष्टम्भेनोत्तिष्ठन्नानात्वहुच्चकास्ति ॥ ९७ ॥

अथ द्रव्यैर्द्रव्यान्तरस्यारम्भं द्रव्यादर्थान्तरत्वं च सत्तायाः प्रतिहन्ति—

द्रव्यं महावसिद्धं मदिति जिणा तच्चदो समक्खादा ।

सिद्धं तथ आगमतो णेच्छति जो सो हि परसमयो ॥ ९८ ॥

द्रव्यं स्वभावसिद्धं मदिति जिनास्तत्त्वतः समाख्यातवन्तः ।

सिद्धं तथा आगतो नेच्छति यः स हि परसमयः ॥ ९८ ॥

न खलु द्रव्यैर्द्रव्यान्तराणामारम्भः, सर्वद्रव्याणां स्वाभावसिद्धत्वात् । स्वभावसिद्धत्वं तु तेषामनादिनिधनत्वात् । अनादिनिधनं हि न साधनान्तरमपेक्षते । गुणपर्यायात्मानमात्मनः

भी वह (समस्त द्रव्योंका स्वरूप-अस्तित्व संबंधी) अनेकत्व स्पष्टतया प्रकाशमान ही रहता है ।]

(इसप्रकार सादृश्य अस्तित्वका निरूपण हुआ) ॥ ९७ ॥

अब, द्रव्योंसे द्रव्यान्तरकी उत्पत्ति होनेका और द्रव्यसे सत्ताका अर्थान्तरत्व होनेका खण्डन करते हैं । (अर्थात् ऐसा निश्चित करते हैं कि किसी द्रव्यसे अन्य द्रव्यकी उत्पत्ति नहीं होती और द्रव्यसे अस्तित्व कोई पृथक् पदार्थ नहीं है)—

गाथा ९८

अन्वयार्थः—[द्रव्यं] द्रव्य [स्वभाव सिद्धं] स्वभावसे सिद्ध और [सत् इति] (स्वभावसे ही) 'सत्' है, ऐसा [जिनाः] जिनेन्द्रदेवने [तत्त्वतः] यथार्थतः [समाख्यातवन्तः] कहा है; [तथा] इसप्रकार [आगतः] आगमसे [सिद्धं] सिद्ध है; [यः] जो [न इच्छति] इसे नहीं मानता [सः] वह [हि] वास्तवमें [परसमयः] परसमय है ।

टीकाः—वास्तवमें द्रव्योंसे द्रव्यान्तरोंकी उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि सर्व द्रव्य स्वभावसिद्ध हैं । (उनकी) स्वभावसिद्धता तो उनकी अनादिनिधनतासे है; क्योंकि अनादिनिधन साधनान्तरकी अपेक्षा नहीं रखता । वह गुणपर्यायात्मक

१. अर्थान्तरत्व = अन्यपदार्थपनां; २. अनादिनिधन = आदि और अन्तसे रहित । (जो अनादि-अनन्त होता है उसकी सिद्धिके लिये अन्य साधनकी आवश्यकता नहीं है ।)

स्वभावमेव मूलसाधनमुपादाय स्वयमेव सिद्धसिद्धिमद्भूतं वर्तते । यत्तुद्रव्यैरारभ्यते न तद्द्रव्यान्तरं कादाचित्कत्वात् स पर्यायः । द्रव्यणुकादिवन्मनुष्यादिवच्च । द्रव्यं पुनरनवधि त्रिसमयावस्थायि न तथा स्यात् । अथैवं यथा सिद्धं स्वभावत एव द्रव्यं तथा सदित्यपि तत्स्वभावत एव सिद्धमित्यवधार्यताम् । सत्तात्मनात्मनः स्वभावेन निष्पन्ननिष्पत्तिमद्भावयुक्तत्वात् । न च द्रव्यादर्थांतरभूता सत्तोपपत्तिमभिप्रपद्यते, यतस्तत्समवायात्तत्सदिति स्यात् । सतः सत्तायाश्च न तावद्युतसिद्धत्वेनार्थान्तरत्वं, तयोर्दण्डदण्डिवद्युतसिद्धस्यादर्शनात् अयुतसिद्धत्वेनापि न तदुपपद्यते ।

अपने स्वभावको ही—जो कि मूल साधन है, उसे—धारण करके स्वयमेव सिद्ध हुआ वर्तता है ।

जो द्रव्योंसे उत्पन्न होता है वह तो द्रव्यान्तर नहीं है, (किन्तु) कादाचित्कता (अनित्यता) के कारण पर्याय है; जैसे—द्विअणुक इत्यादि तथा मनुष्य इत्यादि । द्रव्य तो अनवधि (मर्यादा रहित) त्रिसमय—अवस्थायी (त्रिकाल-स्थायी) होनेसे उत्पन्न नहीं होता ।

अब इसप्रकार—जैसे द्रव्य स्वभावसे ही सिद्ध है उसीप्रकार (वह) 'सत् है' ऐसा भी उसके स्वभावसे ही सिद्ध है, ऐसा निर्णय हो; क्योंकि सत्तात्मक ऐसे अपने स्वभावसे निष्पन्न हुये भाववाला है (—द्रव्यका 'सत् है' ऐसा भाव द्रव्यके सत्तास्वरूप स्वभावका ही बना हुआ है) ।

द्रव्यसे अर्थान्तरभूत सत्ता उत्पन्न नहीं है (नहीं बन सकती, योग्य नहीं है) कि जिसके समवायसे वह (द्रव्य) 'सत्' हो । (इसीको स्पष्ट समझाते हैं) :—

प्रथम तो 'सत्से' सत्ताकी युतसिद्धतासे अर्थान्तरत्व नहीं है, क्योंकि दण्ड और दण्डीकी भाँति उनके सम्बन्धमें युतसिद्धता दिखाई नहीं देती । (दूसरे) अयुतसिद्धतासे भी वह (अर्थान्तरत्व) नहीं बनता । 'इसमें यह है (अर्थात् द्रव्यमें सत्ता

१. सत् = अस्तित्ववान् अर्थात् द्रव्य । २. सत्ता = अस्तित्व (गुण) । ३. युतसिद्ध — जुड़कर सिद्ध हुआ; समवायसे—संयोगसे सिद्ध हुआ । [जैसे लाठी और मनुष्यके भिन्न होने पर भी लाठीके योगसे मनुष्य 'लाठीवाला' होता है, इसीप्रकार सत्ता और द्रव्यके अलग होने पर भी सत्ताके योगसे द्रव्य 'सत्तावाला' ('सत्') हुआ है ऐसा नहीं है । लाठी और मनुष्यकी भाँति सत्ता और द्रव्य अलग दिखाई ही नहीं देते । इसप्रकार 'लाठी' और 'लाठीवाले'की भाँति 'सत्ता' और 'सत्'के संबंधमें युतसिद्धता नहीं है ।]

हीहेदमितिप्रतीतेरुत्पद्यत इति चेत् किंनिबन्धना हीहेदमिति प्रतीतिः । भेदनिबन्धनेतिचेत् को नाम भेदः । प्रादेशिक अताद्भाविको वा । न तावत्प्रादेशिकः, पूर्वमेव युतसिद्धत्वस्यापसारणात् । अताद्भाविकश्चेत् उपपन्न एव यद्द्रव्यं तन्न गुण इति वचनात् । अयं तु न खल्वेकान्तेनेहेदमितिप्रतीतेर्निबन्धनं, स्वयमेवोन्मग्ननिमग्नत्वात् । तथाहि—यदेव पर्यायेणाप्यते द्रव्यं तदेव गुणवदिदं द्रव्यमयमस्य गुणः, शुभ्रमिदमुत्तरीयमयमस्य शुभ्रो गुण इत्यादिवदताद्भाविको भेद उन्मज्जति । यदा तु द्रव्येणाप्यते द्रव्यं तदास्तमितसमस्तगुणवासनोन्मेषस्य तथाविधं द्रव्यमेव

है)' ऐसी प्रतीति होती है इसलिये वह बन सकता है,—ऐसा कहा जाय तो (पूछते हैं कि) 'इसमें यह है' ऐसी प्रतीति किसके आश्रय (-कारण)से होती है ? यदि ऐसा कहा जाय कि भेदके आश्रयसे (अर्थात् द्रव्य और सत्तामें भेद होनेसे) होती है तो, वह कौनसा भेद है ? प्रादेशिक या अताद्भाविक ? 'प्रादेशिक तो है नहीं, क्योंकि युतसिद्धत्व पहले ही रह (नष्ट, निरर्थक) कर दिया गया है, और यदि 'अताद्भाविक कहा जाय तो वह उपपन्न (ठीक) ही है, क्योंकि ऐसा (शास्त्रका) वचन है कि 'जो द्रव्य है वह गुण नहीं है ।' परन्तु (यहाँ भी यह ध्यानमें रखना कि) यह अताद्भाविक भेद 'एकान्तसे इसमें यह है' ऐसी प्रतीतिका आश्रय (कारण) नहीं है, क्योंकि वह (अताद्भाविक भेद) स्वयमेव उन्मग्न और निमग्न होता है । वह इसप्रकार है:— जब द्रव्यको पर्याय प्राप्त कराई जाय (अर्थात् जब द्रव्यको पर्याय प्राप्त करती है—पहुँचती है इसप्रकार पर्यायार्थिकनयसे देखा जाय) तब ही— 'शुक्ल यह वस्त्र है, यह इसका शुक्लत्व गुण है' इत्यादिकी भाँति 'गुणवाला यह द्रव्य है, यह इसका गुण है' इसप्रकार अताद्भाविक भेद उन्मग्न होता है; परन्तु जब द्रव्यको द्रव्य प्राप्त कराया जाय (अर्थात् द्रव्यको द्रव्य प्राप्त करता है;— पहुँचता है इसप्रकार द्रव्यार्थिकनयसे देखा जाय), तब जिसके समस्त "गुणवासनाके

१. द्रव्य और सत्तामें प्रदेशभेद नहीं है; क्योंकि प्रदेशभेद हो तो युक्तसिद्धत्व आये, जिसको पहले ही रह करके बताया है । २. द्रव्य वह गुण नहीं है और गुण वह द्रव्य नहीं है,—ऐसे द्रव्य-गुणके भेदको (गुण-गुणी-भेदको) अताद्भाविक (तद्रूप न होनेरूप) भेद कहते हैं । यदि द्रव्य और सत्तामें ऐसा भेद कहा जाय तो वह योग्य ही है । ३. उन्मग्न होना = ऊपर आना; तैर आना; प्रगट होना (मुख्य होना) । ४. निमग्न होना = डूब जाना (गौण होना) । ५. गुणवासनाके उन्मेष = द्रव्यमें अनेक गुण होनेके अभिप्रायकी प्रगटता; गुणभेद होनेके रूपमें मनो-अभिप्रायके अंकुर ।

शुभ्रमुचरीयमित्यादिवत्प्रपश्यतः समूल एवाताद्भाविको भेदो निमज्जति । एवं हि भेदे निमज्जति तत्प्रत्यया प्रतीतिर्निमज्जति । तस्यां निमज्जत्यामयुतसिद्धत्वोत्थमर्थान्तरत्वं निमज्जति । ततः समस्तमपि द्रव्यमेवैकं भूत्वावतिष्ठते । यदा तु भेद उन्मज्जति, तस्मिन्नुन्मज्जति तत्प्रत्यया प्रतीतिरुन्मज्जति । तस्यामुन्मज्जत्यामयुतसिद्धत्वोत्थमर्थान्तरत्वमुन्मज्जति । तदापि तत्पर्यायत्वेनोन्मज्ज-जलराशेर्जलकण्डोल इव द्रव्यान्न व्यतिरिक्तं स्यात् । एवं सति स्वयमेव सद्द्रव्यं भवति । यस्त्वेवं नेच्छति स खलु परसमय एव द्रष्टव्यः ॥ ६८ ॥

अथोत्पादव्ययध्रौव्यात्मकत्वेऽपि सद्द्रव्यं भवतीति विभावयति—

सदवद्विदं सहावे दव्वं दव्वस्स जो हि परिणामो ।

अत्थेषु सो सहावो ठिदिसंभवणाससंबद्धो ॥ ६९ ॥

मदवस्थितं स्वभावे द्रव्यं द्रव्यस्य यो हि परिणामः ।

अर्थेषु स स्वभावः स्थितिर्मभवनाशसंबद्धः ॥ ९९ ॥

उन्मेष अस्त हो गये हैं ऐसे उस जीवको—‘शुक्लवस्त्र ही है’ इत्यादिकी भाँति— ‘ऐसा द्रव्य ही है’ इसप्रकार देखने पर समूल ही अताद्भाविक भेद निमग्न होता है । इसप्रकार भेदके निमग्न होने पर उसके आश्रयसे (कारणसे) होती हुई प्रतीति निमग्न होती है । उसके निमग्न होने पर अयुतसिद्धत्वजनित अर्थान्तरत्व निमग्न होता है, इसलिये समस्त ही एक द्रव्य ही होकर रहता है । और जब भेद उन्मग्न होता है, वह उन्मग्न होनेपर उसके आश्रय (कारण)से होती हुई प्रतीति उन्मग्न होती है, उसके उन्मग्न होनेपर अयुतसिद्धत्वजनित अर्थान्तरत्व उन्मग्न होता है, तब भी (वह) द्रव्यके पर्यायरूपसे उन्मग्न होनेसे,—जैसे जलराशिसे जल तरंगों व्यतिरिक्त नहीं हैं (अर्थात् समुद्रसे तरंगों अलग नहीं हैं) उसीप्रकार द्रव्यसे व्यतिरिक्त नहीं होता ।

ऐसा होनेसे (यह निश्चित हुआ कि) द्रव्य स्वयमेव सत् है । जो ऐसा नहीं मानता वह वास्तवमें ‘परसमय’ (मिथ्यादृष्टि) ही मानना ॥ ६८ ॥

अब, यह बतलाते हैं कि उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक होनेपर भी द्रव्य ‘सत्’ है—

गाथा ९९

अन्वयार्थः—[स्वभावे] स्वभावमें [अवस्थितं] अवस्थित (होनेसे) [द्रव्यं]

इह हि स्वभावे नित्यमवतिष्ठमानत्वात्सदिति द्रव्यम् । स्वभावस्तु द्रव्यस्य ध्रौव्योत्पादोच्छेदैक्यात्मकपरिणामः । यथैव हि द्रव्यवास्तुनः सामस्त्येनैकस्यापि विष्कम्भक्रमप्रवृत्तिवर्तिनः सूक्ष्मांशाः प्रदेशाः, तथैव हि द्रव्यवृत्तेः सामस्त्येनैकस्यापि प्रवाहक्रमप्रवृत्तिवर्तिनः सूक्ष्मांशाः परिणामाः । यथा च प्रदेशानां परस्परव्यतिरेकनिबन्धनो विष्कम्भक्रमः, तथा परिणामानां परस्परव्यतिरेकनिबन्धनः प्रवाहक्रमः । यथैव च ते प्रदेशाः स्वथाने स्वरूपपूर्वरूपाभ्यामुत्पन्नोच्छ्रितत्वात्सर्वत्र परस्परानुस्यूतिसूत्रितैकवास्तुतयानुत्पन्नप्रलीनत्वाच्च संभृतिसंहारध्रौव्यात्मकमात्मानं धारयन्ति, तथैव ते परिणामाः स्वावसरे स्वरूपपूर्वरूपाभ्यामुत्पन्नोच्छ्रितत्वात्सर्वत्र

द्रव्य [सत्] 'सत्' है; [द्रव्यस्य] द्रव्यका [यः हि] जो [स्थितिसंभवनाशसंबद्धः] उत्पादव्ययध्रौव्य सहित [परिणामः] परिणाम है [सः] वह [अर्थेषु स्वभावः] पदार्थोंका स्वभाव है ।

टीका:—यहाँ (विश्वमें) स्वभावमें नित्य अवस्थित होनेसे द्रव्य 'सत्' है । स्वभाव द्रव्यका ध्रौव्य-उत्पाद-विनाशकी एकतास्वरूप परिणाम है ।

जैसे 'द्रव्यका वास्तु समग्रतया (अखण्डतासे) एक होनेपर भी, विस्तारक्रममें प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश हैं वे प्रदेश हैं, इसीप्रकार द्रव्यकी वृत्ति (अस्तित्व) समग्रतया एक होनेपर भी, प्रवाहक्रममें प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश हैं वे परिणाम हैं । जैसे विस्तारक्रमका कारण प्रदेशोंका परस्पर व्यतिरेक है, उसीप्रकार प्रवाहक्रमका कारण परिणामोंका परस्पर व्यतिरेक है ।

जैसे वे प्रदेश अपने स्थानमें स्व-रूपसे उत्पन्न और पूर्व-रूपसे विनष्ट होनेसे तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूतिसे रचित एकवास्तुतासे अनुत्पन्न-अविनष्ट होनेसे उत्पत्ति-संहार-ध्रौव्यात्मक है, उसीप्रकार वे परिणाम अपने अवसरमें स्व-रूपसे उत्पन्न और पूर्व-रूपसे विनष्ट होनेसे तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूतिसे रचित एकप्रवाहत्वसे अनुत्पन्न-अविनष्ट होनेसे उत्पत्ति-संहार-ध्रौव्यात्मक है । और जैसे वास्तुका जो छोटेसे

१. द्रव्यका वास्तु — द्रव्यका स्व-विस्तार, द्रव्यका स्व-क्षेत्र, द्रव्यका स्व-आकार, द्रव्यका स्व-दल । (वास्तु = घर, निवासस्थान, आश्रय, भूमि ।) २. व्यतिरेक = भेद; (एकका दूसरेमें) अभाव, (एक परिणाम दूसरे परिणामरूप नहीं है, इसलिये द्रव्यके प्रवाहमें क्रम है) । ३. अनुस्यूति = अन्वयपूर्वक जुड़ान । [सर्व परिणाम परस्पर अन्वयपूर्वक (सादृश्य सहित) गुंथित (जुड़े) होनेसे, वे सब परिणाम एक प्रवाहरूपसे हैं, इसलिये वे उत्पन्न या विनष्ट नहीं हैं ।]

परस्पराणुस्यूतिसूत्रितैकप्रवाहतयानुत्पन्नप्रलीनत्वाच्च संभूतिसंहारध्रौव्यात्मकमात्मानं धारयन्ति । यथैव च य एव हि पूर्वप्रदेशोच्छेदनात्मको वास्तुसीमान्तः स एव हि तदुचरोत्पादात्मकः, स एव च परस्पराणुस्यूतिसूत्रितैकवास्तुतयातदुभयात्मक इति । तथैव य एव हि पूर्वपरिणामोच्छेदात्मकः प्रवाहसीमान्तः स एव हि तदुचरोत्पादात्मकः, स एव च परस्पराणुस्यूतिसूत्रितैकप्रवाहतयातदुभयात्मक इति एवमस्य स्वभावत एव त्रिलक्षणायां परिणामपद्धतौ दुर्ललितस्य स्वभावानतिक्रमात्त्रिलक्षणमेव सत्त्वमनुमोदनीयम् मुक्ताफलदामवत् । यथैव हि परिगृहीतद्राधिम्नि प्रलम्बमाने मुक्ताफलदामनि समस्तेष्वपि स्वधामसूत्रकासत्सु मुक्ताफलेषूचरोचरेषु धामसूचरोचर-मुक्ताफलानामुदयनात्पूर्वपूर्वमुक्ताफलानामनुदयनात् सर्वत्रापि परस्पराणुस्यूतिसूत्रकस्य सूत्रकस्या-

छोटा अंश पूर्वप्रदेशके विनाशस्वरूप है वही (अंश) उसके बादके प्रदेशका उत्पाद स्वरूप है तथा वही परस्पर अनुस्यूतिसे रचित एक वास्तुत्वसे अनुभय स्वरूप है (अर्थात् दोमेंसे एक भी स्वरूप नहीं है), इसीप्रकार प्रवाहका जो अल्पातिअल्प अंश पूर्वपरिणामके विनाशस्वरूप है वही उसके बादके परिणामके उत्पादस्वरूप है, तथा वही परस्पर अनुस्यूतिसे रचित एकप्रवाहत्वसे अनुभयस्वरूप है ।

इसप्रकार स्वभावसे ही त्रिलक्षण परिणाम पद्धतिमें (परिणामोंकी परम्परामें) प्रवर्तमान द्रव्य स्वभावका अतिक्रम नहीं करता इसलिये सत्त्वको त्रिलक्षण ही अनुमोदित करना चाहिये । मोतियोंके हारकी भाँति ।

जैसे—जिसने (अमुक) लम्बाई ग्रहण की है ऐसे लटकते हुये मोतियोंके हारमें, अपने-अपने स्थानोंमें प्रकाशित होते हुये समस्त मोतियोंमें, पीछे-पीछेके स्थानोंमें पीछे-पीछेके मोती, प्रगट होते हैं इसलिये, और पहले-पहलेके मोती प्रगट नहीं होते इसलिये, तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूतिका रचयिता सूत्र अवस्थित होनेसे त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धिको प्राप्त होता है । इसीप्रकार जिसने नित्यवृत्ति ग्रहण की है ऐसे रचित (परिणामित) होते हुये द्रव्यमें, अपने अपने अवसरोंमें प्रकाशित (प्रगट) होते हुये समस्त परिणामोंमें पीछे पीछेके अवसरों पर पीछे पीछेके परिणाम प्रगट होते हैं

१. अतिक्रम = उल्लंघन; त्याग । २. सत्त्व = सत्पना; (अभेदनयसे) द्रव्य । ३. त्रिलक्षण — उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य ये तीनों लक्षणवाला; त्रिस्वरूप; त्रयात्मक । ४. अनुमोदित करना आनन्दसे सम्मत करना । ५. नित्यवृत्ति = नित्यस्थायित्व; नित्य अस्तित्व; सदा वर्तना ।

वस्थानात्त्रैलक्षण्यं प्रसिद्धिमवतरति, तथैव हि परिगृहीतमित्यवृत्तिनिवर्तमाने द्रव्ये समस्तेष्वपि स्वावसरेषूच्चकासस्तु परिणामेषूत्तरोत्तरेष्ववसरेषूत्तरोत्तरपरिणामानामुदयनात्पूर्वपूर्वपरिणामानामनुदयनात् सर्वत्रापि परस्परानुस्यूतिस्त्रयस्य प्रवाहस्यावस्थानात्त्रैलक्षण्यं प्रसिद्धिमवतरति ॥९९॥

अथोत्पादव्ययध्रौव्याणां परस्पराविनाभावं दृश्यति—

ण भवो भंगविहीणो भंगो वा णत्थि संभवविहीणो ।

उत्पादो वि य भंगो ण विणा धोव्वेण अत्थेण ॥ १०० ॥

न भवो भङ्गविहीनो भङ्गो वा नास्ति संभवविहीनः ।

उत्पादोऽपि च भङ्गो न विना ध्रौव्येणार्थेन ॥ १०० ॥

इसलिये, और पहले-पहलेके परिणाम नहीं प्रगट होते हैं इसलिये, तथा सर्वत्र परस्पर अनुस्यूति रचनेवाला प्रवाह अवस्थित होनेसे त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धिको प्राप्त होता है ।

भावार्थः—प्रत्येक द्रव्य सदा स्वभावमें रहता है इसलिये 'सत्' है । वह स्वभाव उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यस्वरूप परिणाम है । जैसे द्रव्यके विस्तारका छोटेसे छोटा अंश वह प्रदेश है, इसीप्रकार द्रव्यके प्रवाहका छोटेसे छोटा अंश वह परिणाम है । प्रत्येक परिणाम स्व-कालमें अपने रूपसे उत्पन्न होता है, पूर्वरूपसे नष्ट होता है और सर्व परिणामोंमें एकप्रवाहता होनेसे प्रत्येक परिणाम उत्पाद-विनाशसे रहित एकरूप—ध्रुव रहता है । और उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यमें समयभेद नहीं है, तीनों ही एक ही समयमें हैं । ऐसे उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक परिणामोंकी परस्परांशमें द्रव्य स्वभावसे ही सदा रहता है, इसलिये द्रव्य स्वयं भी मोतियोंके हारकी भाँति उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक है ॥ ९९ ॥

अब, उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यका परस्पर 'अविनाभाव दृढ करते हैं:—

गाथा १००

अन्वयार्थः—[भवः] उत्पाद [भङ्गविहीनः] भंग (व्यय) से रहित [न] नहीं होता, [वा] और [भङ्गः] भंग [संभवविहीनः] विना उत्पादके [नास्ति] नहीं होता; [उत्पादः] उत्पाद [अपि च] तथा [भङ्गः] भंग [ध्रौव्येण अर्थेन विना] ध्रौव्य पदार्थके विना [न] नहीं होता ।

१. अविनाभाव = एकके बिना दूसरे का नहीं होना वह; एक दूसरे बिना हो ही नहीं सके ऐसा भाव ।

न खलु सर्गः संहारमन्तरेण, न संहारो वा सर्गमन्तरेण, न सृष्टिसंहारो स्थितिमन्तरेण, न स्थितिः सर्गसंहारमन्तरेण । य एव हि सर्गः स एव संहारः, य एव संहारः स एव सर्गः, यावेव सर्गसंहारौ सैव स्थितिः, यैव स्थितिस्तावेव सर्गसंहाराविति । तथाहि—य एव कुम्भस्य सर्गः स एव मृत्पिण्डस्य संहारः, भावस्य भावान्तराभावस्वभावेनावभासनात् । य एव च मृत्पिण्डस्य संहारः, स एव कुम्भस्य सर्गः, अभावस्य भावान्तरभावस्वभावेनावभासनात् । यौ च कुम्भपिण्डयोः सर्गसंहारौ सैवमृत्तिकायाः स्थितिः, * व्यतिरेकमुखेनैवान्वयस्य प्रकाशनात् ।

टीकाः—वास्तवमें उत्पाद, व्ययके बिना नहीं होता और व्यय, उत्पादके बिना नहीं होता; उत्पाद और व्यय स्थिति (ध्रौव्य)के बिना नहीं होते, और ध्रौव्य, उत्पाद तथा व्ययके बिना नहीं होता ।

जो उत्पाद है वही व्यय है, जो व्यय है वही उत्पाद है; जो उत्पाद और व्यय है वही ध्रौव्य है; जो ध्रौव्य है वही उत्पाद और व्यय है । वह इसप्रकारः—जो कुम्भका उत्पाद है वही मृत्तिकापिण्डका व्यय है; क्योंकि भावका भावान्तरके अभाव स्वभावसे अवभासन है । (अर्थात् भाव अन्यभावके अभावरूप स्वभावसे प्रकाशित है—दिखाई देता है ।) और जो मृत्तिकापिण्डका व्यय है वही कुम्भका उत्पाद है, क्योंकि अभावका भावान्तरके भावस्वभावसे अवभासन है; (अर्थात् व्यय अन्यभावके उत्पादरूप स्वभावसे प्रकाशित है ।)

और जो कुम्भका उत्पाद और पिण्डका व्यय है वही मृत्तिकाकी स्थिति है, क्योंकि 'व्यतिरेक अन्वयका अतिक्रम नहीं करते, और जो मृत्तिकाकी स्थिति है वही कुम्भका उत्पाद और पिण्डका व्यय है, क्योंकि व्यतिरेकोंके द्वारा ही 'अन्वय प्रकाशित होता है । और यदि ऐसा ही न माना जाय तो ऐसा सिद्ध होगा कि उत्पाद अन्य है, व्यय अन्य है, ध्रौव्य अन्य है । (अर्थात् तीनों पृथक् हैं ऐसा माननेका प्रसंग आजायगा ।) ऐसा होने पर (क्या दोष आता है, सो समझते हैं)ः—

* 'व्यतिरेकमुखेन... क्रमात्' के स्थान पर निम्न प्रकार पाठ चाहिये ऐसा लगता है, "व्यतिरेकाणा-मन्वयानतिक्रमणात् । यैव च मृत्तिकायाः स्थितिस्तावेव कुम्भपिण्डयोः सर्गसंहारौ; व्यतिरेकमुखेनैवान्वयस्य प्रकाशनात् ।" हिन्दी अनुवाद इस संशोधित पाठानुसार किया है । १. व्यतिरेक = भेद; एकका दूसरेरूप न होना वह; 'यह वह नहीं है' ऐसे ज्ञानका निमित्तभूत भिन्नरूपत्व । २. अन्वय = एकरूपता; सादृश्यता; 'यह वही है' ऐसे ज्ञानका कारणभूत एकरूपत्व ।

यैव च मृत्तिकायाः स्थितिस्तावेव कुम्भपिण्डयोः सर्गसंहारौ, व्यतिरेकाणामन्वयानतिक्रमणात् । यदि पुनर्नेदमेवमिष्येत तदान्यः सर्गोऽन्यः संहारः अन्या स्थितिरित्यायाति । तथा सति हि केवलं सर्गं मृगयमाणस्य कुम्भस्योत्पादनकारणाभावादभवनिरेव भवेत्, असदुत्पाद एव वा । तत्र कुम्भस्याभवनौ सर्वेषामेव भावानामभवनिरेव भवेत् । असदुत्पादे वा व्योमप्रसवादीनामप्युत्पादः स्यात् । तथा केवलं संहारमारभमाणस्य मृत्पिण्डस्य संहारकारणाभावादसंहरणिरेव भवेत्, सदुच्छेद एव वा । तत्र मृत्पिण्डस्यासंहरणौ सर्वेषामेव भावानामसंहरणिरेव भवेत् । सदुच्छेदे वा

केवल उत्पाद-शोधक कुम्भकी (व्यय और ध्रौव्यसे भिन्न मात्र उत्पाद करनेको जानेवाले कुम्भकी) उत्पादन (उत्पत्तिका) कारणका अभाव होनेसे उत्पत्ति ही नहीं होगी; अथवा तो असत्का ही उत्पाद होगा । और वहाँ, (१) यदि कुम्भकी उत्पत्ति न होगी तो समस्त ही भावोंकी उत्पत्ति ही नहीं होगी । (अर्थात् जैसे कुम्भकी उत्पत्ति नहीं होगी उसीप्रकार विश्वके किसी भी द्रव्यमें किसी भी भावका उत्पाद ही नहीं होगा,—यह दोष आयगा) ; अथवा (२) यदि असत्का उत्पाद हो तो आकाश-पुष्प इत्यादिका भी उत्पाद होगा, (अर्थात् शून्यमेंसे भी पदार्थ उत्पन्न होने लगेंगे,—यह दोष आयगा ।)

और, केवल व्ययारम्भक (उत्पाद और ध्रौव्यसे रहित केवल व्यय करनेको उद्यत) मृत्पिण्डका, व्ययके कारणका अभाव होनेसे व्यय ही नहीं होगा; अथवा तो सत्का ही उच्छेद होगा । वहाँ, (१) यदि मृत्पिण्डका व्यय न होगा तो समस्त ही भावोंका व्यय ही न होगा, (अर्थात् जैसे मृत्तिकापिण्डका व्यय नहीं होगा उसीप्रकार विश्वके किसी भी द्रव्यमें किसी भी भावका व्यय ही नहीं होगा,—यह दोष आयगा) ; अथवा (२) यदि सत्का उच्छेद होगा तो चैतन्य इत्यादिका भी उच्छेद हो जायगा, (अर्थात् समस्त द्रव्योंका सम्पूर्ण नाश हो जायगा; —यह दोष आयगा ।)

और 'केवल ध्रौव्य प्राप्त करनेको जानेवाली मृत्तिकाकी, व्यतिरेक सहित स्थितिका-अन्वयका-(मृत्तिकाको) अभाव होनेसे, स्थिति ही नहीं होगी; अथवा तो क्षणिकको ही नित्यत्व आजायगा । वहाँ (१) यदि मृत्तिकाका ध्रौव्यत्व न हो

१. केवल ध्रौव्य = उत्पाद और व्यय रहित अकेला ध्रुवपना, केवल स्थितिपना; [अन्वय व्यतिरेक अकेला अवस्थान सहित ही होता है, इसलिये ध्रौव्य उत्पाद-व्यय सहित ही होगा, अकेला नहीं हो सकता। जैसे उत्पाद (या व्यय) द्रव्यका अंश है-समग्र द्रव्य नहीं, इसीप्रकार ध्रौव्य भी द्रव्यका अंश है,—समग्र द्रव्य नहीं।]

संविदादीनामप्युच्छेदः स्यात् । तथा केवलां स्थितिमुपगच्छन्त्या मृत्तिकाया व्यतिरेकाक्रान्तस्थित्यन्वयाभावादस्थानिरेव भवेत्, क्षणिकनित्यत्वमेव वा । तत्र मृत्तिकाया अस्थानौ सर्वेषामेव भावानामस्थानिरेव भवेत् । क्षणिकनित्यत्वे वा चित्तक्षणानामपि नित्यत्वं स्यात् । तत उचरोचरव्यतिरेकाणां सर्गेण पूर्वपूर्वव्यतिरेकाणां संहारेणान्वयस्यावस्थानेनाविनाभूतमुद्योतमाननिर्विघ्नत्रैलक्षण्यलाञ्छनं द्रव्यमवश्यमनुमन्तव्यम् ॥ १०० ॥

अथोत्पादादीनां द्रव्यादर्थान्तरत्वं संहरति—

उत्पादद्विदिभंगा विज्जन्ते पज्जएसु पज्जाया ।

द्व्ये हि मन्ति णियदं तम्हा द्व्वं हवदि मव्वं ॥१०१॥

उत्पादस्थितिभङ्गा विद्यन्ते पर्यायेषु पर्यायाः ।

द्रव्ये हि सन्ति नियतं तस्माद्द्रव्यं भवति सर्वम् ॥१०१॥

तो समस्त ही भावोंका ध्रौव्य ही नहीं होगा, (अर्थात् यदि मिट्टी ध्रुव न रहे तो मिट्टीकी ही भाँति विश्वका कोई भी द्रव्य ध्रुव ही नहीं रहेगा,—यह दोष आयगा ।) अथवा (२) यदि क्षणिकका नित्यत्व हो तो चित्तके क्षणिक-भावोंका भी नित्यत्व होगा; (अर्थात् मनका प्रत्येक विकल्प भी त्रैकालिक ध्रुव हो जाय,—यह दोष आवे ।)

इसलिये द्रव्यको उत्तर उत्तर व्यतिरेकोंकी उत्पत्तिके साथ, पूर्व पूर्वके व्यतिरेकोंके संहारके साथ और अन्वयके अवस्थान (ध्रौव्य) के साथ अविनाभाववाला, जिसका निर्विघ्न (अबाधित) त्रिलक्षणतारूप चिह्न प्रकाशमान है ऐसा अवश्य सम्मत करना ॥ १०० ॥

अब, उत्पादादिका द्रव्यसे अर्थान्तरत्वको नष्ट करते हैं; (अर्थात् यह सिद्ध करते हैं कि उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य द्रव्यसे पृथक् पदार्थ नहीं हैं):—

गाथा १०१

अन्वयार्थः—[उत्पादस्थितिभङ्गाः] उत्पाद, ध्रौव्य और व्यय [पर्यायेषु] पर्यायोंमें [विद्यन्ते] वर्तते हैं; [पर्यायाः] पर्यायों [नियतं] नियमसे [द्रव्ये हि सन्ति] द्रव्य होती हैं, [तस्मात्] इसलिये [सर्वं] वह सब [द्रव्यं भवति] द्रव्य है ।

उत्पादव्ययध्रौव्याणि हि पर्यायानालम्बन्ते, ते पुनः पर्याया द्रव्यमालम्बन्ते । ततः समस्तमप्येतदेकमेव द्रव्यं न पुनर्द्रव्यान्तरम् । द्रव्यं हि तावत्पर्यायैरालम्ब्यते । समुदायिनः समुदायात्मकत्वात् पादपवत् । यथा हि समुदायी पादपः स्कन्धमूलशाखासमुदायात्मकः स्कन्ध-मूलशाखाभिरालम्बित एव प्रतिभाति, तथा समुदायि द्रव्यं पर्यायसमुदायात्मकं पर्यायैरालम्बितमेव प्रतिभाति । पर्यायास्तूत्पादव्ययध्रौव्यैरालम्ब्यन्ते उत्पादव्ययध्रौव्याणामंशधर्मत्वात्

टीकाः—उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य वास्तवमें पर्यायों पर अवलम्बित हैं, और वे पर्यायों द्रव्य पर अवलम्बित हैं, इसलिये यह सब एक ही द्रव्य है, द्रव्यांतर नहीं ।

प्रथम तो द्रव्य पर्यायोंके द्वारा आलम्बित है (अर्थात् पर्यायों द्रव्याश्रित हैं), क्योंकि समुदायी (समुदायवान्) समुदायस्वरूप होता है; वृक्षकी भाँति । जैसे समुदायी वृक्ष स्कन्ध, मूल और शाखाओंका समुदायस्वरूप होनेसे स्कन्ध, मूल और शाखाओंसे आलम्बित ही भासित (दिखाई) देता है, इसीप्रकार समुदायी द्रव्य पर्यायोंका समुदायस्वरूप होनेसे पर्यायोंके द्वारा आलम्बित ही भासित होता है । (अर्थात् जैसे स्कन्ध, मूल शाखायें वृक्षाश्रित ही हैं—वृक्षसे भिन्न पदार्थरूप नहीं हैं, उसीप्रकार पर्यायों द्रव्याश्रित ही हैं,—द्रव्यसे भिन्न पदार्थरूप नहीं हैं ।)

और पर्यायों उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यके द्वारा आलम्बित हैं (अर्थात् उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य पर्यायाश्रित हैं) क्योंकि उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य अंशोंके धर्म हैं (अंशोंके नहीं); बीज, अंकुर और वृक्षत्वकी भाँति । जैसे अंशीवृक्षके बीज अंकुर-वृक्षत्वस्वरूप तीन अंश, व्यय-उत्पाद-ध्रौव्यस्वरूप निज धर्मोंसे आलम्बित एक साथ ही भासित होते हैं, उसीप्रकार अंशी-द्रव्यके, नष्ट होता हुआ भाव, उत्पन्न होता हुआ भाव, और अवस्थित रहनेवाला भाव;—यह तीनों अंश व्यय-उत्पाद-ध्रौव्यस्वरूप निजधर्मोंके द्वारा आलम्बित एक साथ ही भासित होते हैं । किन्तु यदि (१) व्यय, (२) उत्पाद और (३) ध्रौव्यको (अंशोंका न मानकर) द्रव्यका ही माना जाय तो सारी गड़बड़ी हो जायगी यथा—(१) पहले, यदि द्रव्यका ही व्यय माना जाय तो ^३क्षणभंगसे लक्षित समस्त द्रव्योंका एक क्षणमें ही व्यय होजानेसे द्रव्यशून्यता आजायगी, अथवा सत्का उच्छेद हो जायगा । (२) यदि द्रव्यका ही उत्पाद माना जाय तो समय-समय पर होनेवाले

१. जहाँ २ “द्वारा” शब्द आवे वहाँ तीसरी विभक्ति सूचक समझना । २. विप्लव = अंधाधुंधी, = उथलपुथल; घोटाला; विरोध । ३. क्षण = विनाश जिनका लक्षण हो, ऐसे ।

बीजाङ्कुरपादपत्ववत् । यथा किलांशिनः पादपस्य बीजाङ्कुरपादपत्वलक्षणास्त्रयोंऽशा भङ्गोत्पादध्रौव्यलक्षणैरात्मधर्मैरालम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति, तथांशिनो द्रव्यस्योच्छ्रयमानोत्पद्यमानावतिष्ठमानभावलक्षणास्त्रयोंऽशा भङ्गोत्पादध्रौव्यलक्षणैरात्मधर्मैरालम्बिताः सममेव प्रतिभान्ति । यदि पुनर्भङ्गोत्पादध्रौव्याणि द्रव्यस्यैवेद्यन्ते तदा समग्रमेव विस्रवते । तथाहि भंगे तावत् क्षणभङ्गकटाक्षितानामेकक्षण एव सर्वद्रव्याणां संहरणाद्द्रव्यशून्यतावतारः सदुच्छेदो वा । उत्पादे तु प्रतिसमयोत्पादमुद्रितानां प्रत्येकं द्रव्याणामानन्त्यमसदुत्पादो वा । ध्रौव्ये तु क्रमभ्रुवां भावानामभावाद्द्रव्यस्याभावः क्षणिकत्वं वा । अत उत्पादव्ययध्रौव्यैरालम्ब्यन्तां पर्यायाः पर्यायैश्च द्रव्यमालम्ब्यतां, येन समस्तमप्येतदेकमेव द्रव्यं भवति ॥ १०१ ॥

उत्पादके द्वारा चिह्नित द्रव्योंको-प्रत्येकको अनन्तता आजायगी । (अर्थात् समय समयपर होनेवाला उत्पाद जिसका चिह्न हो ऐसा प्रत्येक द्रव्य अनन्त द्रव्यत्वको प्राप्त होजायगा) अथवा असत्का उत्पाद होजायगा; (३) यदि द्रव्यका ही ध्रौव्य माना जाय तो क्रमशः होनेवाले भावोंके अभावके कारण द्रव्यका अभाव हो जायगा, अथवा क्षणिकत्व आजायगा ।

इसलिये उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यके द्वारा पर्यायें आलम्बित हों, और पर्यायोंके द्वारा द्रव्य आलम्बित हो, कि जिससे यह सब एक ही द्रव्य है ।

भावार्थः—बीज, अंकुर और वृक्षत्व, वृक्षके अंश हैं । बीजका नाश, अंकुरका उत्पाद और वृक्षत्वका ध्रौव्य-तीनों एक ही साथ होते हैं । इसप्रकार नाश बीज पर आश्रित है, उत्पाद अंकुरपर आश्रित है, और ध्रौव्य वृक्षत्व पर आश्रित है; नाश-उत्पाद और ध्रौव्य बीज-अंकुर और वृक्षत्वसे भिन्न पदार्थरूप नहीं है । तथा बीज-अंकुर और वृक्षत्व भी वृक्षसे भिन्न पदार्थरूप नहीं हैं । इसलिये यह सब एक वृक्ष ही हैं । इसीप्रकार नष्ट होता हुआ भाव, उत्पन्न होता हुआ भाव और ध्रौव्य भाव सब द्रव्यके अंश हैं । नष्ट होते हुये भावका नाश, उत्पन्न होते हुये भावका उत्पाद और स्थायी भावका ध्रौव्य एक ही साथ है । इसप्रकार नाश नष्ट होते भावके आश्रित है, उत्पाद उत्पन्न होते हुये भावके आश्रित है और ध्रौव्य स्थायी भावके आश्रित है । नाश, उत्पाद और ध्रौव्य उन भावोंसे भिन्न पदार्थरूप नहीं हैं । और वे भाव भी द्रव्यसे भिन्न पदार्थरूप नहीं हैं । इसलिये यह सब, एक द्रव्य ही हैं ॥ १०१ ॥

अथोत्पादादीनां क्षणभेदमुदस्य द्रव्यत्वं द्योतयति—

समवेदं खलु द्रव्यं संभवठिदिणाससरिणदट्टे हिं ।

एकस्मि चैव समये तस्माद्द्रव्यं खलु तत्रितयं ॥१०२॥

समवेतं खलु द्रव्यं संभवस्थितिनाशसंज्ञितार्थैः ।

एकस्मिन् चैव समये तस्माद्द्रव्यं खलु तत्रितयम् ॥१०२॥

इह हि यो नाम वस्तुनो जन्मक्षणः स जन्मनैव व्याप्तत्वात् स्थितिक्षणो नाशक्षणश्च न भवति । यश्च स्थितिक्षणः स खलुभयोरन्तरालदुर्ललितत्वाज्ज मक्षणो नाशक्षणश्च न भवति । यश्च नाशक्षणः स तूत्पद्यावस्थाय च नश्यतो जन्मक्षणः स्थितिक्षणश्च न भवति । इत्युत्पादादीनां

अब, उत्पादादिका क्षणभेद निराकृत (खण्डित) करके यह समझाते हैं कि वे द्रव्य हैं:—

गाथा १०२

अन्वयार्थः—[द्रव्यं] द्रव्य [एकस्मिन् च एव समये] एक ही समयमें [संभवस्थितिनाशसंज्ञितार्थैः] उत्पाद, ध्रौव्य और व्यय नामक 'अर्थोंके साथ [खलु] वास्तवमें [समवेतं] ^२समवेत (एकमेक) है; [तस्मात्] इसलिये [तत् त्रितयं] यह ^३त्रितय [खलु] वास्तवमें [द्रव्यं] द्रव्य है ।

टीका:—(प्रथम शंका उपस्थित की जाती है:—) यहाँ, (विश्वमें) वस्तुका जो जन्मक्षण है वह जन्मसे ही व्याप्त होनेसे स्थितिक्षण और नाशक्षण नहीं है, (वह पृथक् ही होता है); जो स्थितिक्षण है वह दोनोंके अन्तरालमें (उत्पादक्षण और नाशक्षणके बीच) दृढतया रहता है, इसलिये (वह) जन्मक्षण और नाशक्षण नहीं है; और जो नाशक्षण है वह, -वस्तु उत्पन्न होकर और स्थिर रहकर फिर नाशको प्राप्त होती है इसलिये,—जन्मक्षण और स्थितिक्षण नहीं है;—

१. अर्थ = पदार्थ (८७ वीं गाथामें समझाया गया है, तदनुसार पर्याय भी अर्थ है ।)
२. समवेत = समवायवाला, तादात्म्यसहित जुड़ा हुआ, एकमेक । ३. त्रितय = तीनका समुदाय । (उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य, इन तीनोंका समुदाय वास्तवमें द्रव्य ही है)

वितर्क्यमाणः क्षणभेदो हृदयभूमिमवतरति । अवतरत्येवं यदि द्रव्यमात्मनैवोत्पद्यते आत्मनैवाव-
तिष्ठते आत्मनैव नश्यतीत्यभ्युपगम्यते । तच्च नाम्युपगतम् । पर्यायाणामेवोत्पादादयः कुतः
क्षणभेदः । तथाहि—यथा कुलालदण्डचक्रचीवरारोप्यमाणसंस्कारसन्निधौ य एव वर्धमानस्य
जन्मक्षणः स एव मृत्पिण्डस्य नाशक्षणः स एव च कोटिद्वयाधिरूढस्य मृत्तिकात्वस्य स्थिति-
क्षणः । तथा अन्तरङ्गबहिरङ्गसाधनारोप्यमाणसंस्कारसन्निधौ य एवोत्तरपर्यायस्य जन्मक्षणः स
एव प्राक्तनपर्यायस्य नाशक्षणः स एव च कोटिद्वयाधिरूढस्य द्रव्यत्वस्य स्थितिक्षणः । यथा
च वर्धमानमृत्पिण्डमृत्तिकात्वेषु प्रत्येकवर्तीन्यप्युत्पादव्ययध्रौव्याणि त्रिस्वभावस्पर्शिन्यां मृत्ति-
कायां सामस्त्येनैकसमय एवावलोक्यन्ते, तथा उत्तरप्राक्तनपर्यायद्रव्यत्वेषु प्रत्येकवर्तीन्यप्युत्पाद-

इसप्रकार तर्क पूर्वक विचार करने पर उत्पादादिका क्षणभेद हृदयभूमिमें अवतरित
होता है (अर्थात् उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यका समय भिन्न-भिन्न होता है, एक नहीं
होता,—इसप्रकारकी बात हृदयमें जमती है ।)

(यहाँ उपरोक्त शंकाका समाधान किया जाता है:—) इसप्रकार उत्पा-
दादिका क्षणभेद हृदयभूमिमें तभी उतर सकता है जब यह माना जाय कि 'द्रव्य स्वयं
ही उत्पन्न होता है, स्वयं ही ध्रुव रहता है और स्वयं ही नाशको प्राप्त होता है !'
किन्तु ऐसा तो माना नहीं गया है; (क्योंकि यह स्वीकार और सिद्ध किया गया
है कि) पर्यायोंके ही उत्पादादि हैं; (तब फिर) वहाँ क्षणभेद कहाँसे हो सकता है ?
यह समझाते हैं:—

जैसे कुम्हार, दण्ड, चक्र और चीवरसे आरोपित किये जानेवाले संस्कारकी
उपस्थितिमें जो वर्धमान (-रामपात्र)का जन्मक्षण होता है वही मृत्तिकापिण्डका
नाशक्षण होता है, और वही दोनों 'कोटियोंमें' रहनेवाला मृत्तिकात्वका स्थितिक्षण
होता है; इसीप्रकार अन्तरंग और बहिरंग साधनोंसे आरोपित किये जानेवाले संस्कारोंकी
उपस्थितिमें, जो उत्तरपर्यायका जन्मक्षण होता है वही पूर्व पर्यायका नाशक्षण होता है,
और वही दोनों कोटियोंमें रहनेवाले द्रव्यत्वका स्थितिक्षण होता है ।

और जैसे रामपात्रमें, मृत्तिकापिण्डमें और मृत्तिकात्वमें उत्पाद, व्यय और
ध्रौव्य प्रत्येक रूपमें (प्रत्येक पृथक् पृथक्) वर्तते हुये भी त्रिस्वभावस्पर्शी मृत्तिकामें वे

१. कोटि = प्रकार (मृत्तिकात्व तो पिण्डरूप तथा रामपात्ररूप-दोनों प्रकारोंमें विद्यमान है ।)

व्ययध्रौव्याणि त्रिस्वभावस्पर्शिनि द्रव्ये सामस्त्येनैकसमय एवावलोक्यन्ते । यथैव च वर्धमान-
पिण्डमृत्तिकात्ववर्तीन्युत्पादव्ययध्रौव्याणि मृत्तिकैव न वस्त्वन्तरं, तथैवोत्तरप्राक्तनपर्यायद्रव्यत्व-
वर्तीन्यप्युत्पादव्ययध्रौव्याणिद्रव्यमेव न खल्वर्थान्तरम् ॥ १०२ ॥

अथ द्रव्यस्योत्पादव्ययध्रौव्याण्यनेकद्रव्यपर्यायद्वारेण चिन्तयति—

पादुर्भवति य अरणो पज्जाओ पज्जओ वयदि अरणो ।
द्रव्यस्म तं पि द्रव्यं एव पणट्टं ण उत्पण्णं ॥ १०३ ॥

प्रादुर्भवति चान्यः पर्यायः पर्यायो व्येति अन्यः ।

द्रव्यस्य तदपि द्रव्यं नैव प्रणष्टं नोत्पन्नम् ॥ १०३ ॥

सम्पूर्णतया (सभी एकत्रित) एक समयमें ही देखे जाते हैं; इसीप्रकार उत्तर पर्यायमें, पूर्वपर्यायमें और द्रव्यत्वमें उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य प्रत्येकतया (एक-एक) प्रवर्तमान होनेपर भी त्रिस्वभावस्पर्शी द्रव्यमें वे सम्पूर्णतया (तीनों एकत्रित) एक समयमें ही देखे जाते हैं ।

और जैसे रामपात्र, मृत्तिकापिण्ड तथा मृत्तिकात्वमें प्रवर्तमान उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य मिट्टी ही हैं, अन्य वस्तु नहीं; उसीप्रकार उत्तर पर्याय, पूर्व पर्याय और द्रव्यत्वमें प्रवर्तमान उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य द्रव्य ही हैं, अन्य पदार्थ नहीं ॥ १०२ ॥

अब, द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यको अनेक द्रव्यपर्यायके द्वारा विचार करते हैं:—

गाथा १०३

अन्वयार्थः—[द्रव्यस्य] द्रव्यकी [अन्यः पर्यायः] अन्य पर्याय [प्रादु-
र्भवति] उत्पन्न होती है [च] और [अन्यः पर्यायः] कोई अन्य पर्याय [व्येति] नष्ट
होती है; [तदपि] फिर भी [द्रव्यं] द्रव्य [प्रणष्टं न एव] न तो नष्ट होता है, [उत्पन्नं
न] न उत्पन्न होता है । (वह ध्रुव है ।)

१. त्रिस्वभावस्पर्शी = तीनों स्वभावोंको स्पर्श करनेवाला । (द्रव्य उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य-इन तीनों स्वभावोंको धारण करता है ।) २. अनेकद्रव्यपर्याय = एकसे अधिक द्रव्योंके संयोगसे होनेवाली पर्याय ।

इह हि यथा किलैकस्त्र्यणुकः समानजातीयोऽनेकद्रव्यपर्यायो विनश्यत्यन्यश्चतुरणुकः प्रजायते, ते तु त्रयश्चत्वारो वा पुद्गला अविनष्टानुत्पन्ना एवावतिष्ठन्ते । तथा सर्वेऽपि समानजातीया द्रव्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च । समानजातीनि द्रव्याणि त्वविनष्टानुत्पन्नान्येवावतिष्ठन्ते । यथा चैको मनुष्यत्वलक्षणोऽसमानजातीयो द्रव्यपर्यायो विनश्यत्यन्यस्त्रिदशत्वलक्षणः प्रजायते तौ च जीवपुद्गलौ अविनष्टानुत्पन्नावेवावतिष्ठेते, तथा सर्वेऽप्यसमानजातीया द्रव्यपर्याया विनश्यन्ति प्रजायन्ते च असमानजातीनि द्रव्याणि त्वविनष्टानुत्पन्नान्येवावतिष्ठन्ते । एवमात्मना ध्रुवाणि द्रव्यपर्यायद्वारेणोत्पादव्ययीभूतान्युत्पादव्ययध्रौव्याणि द्रव्याणि भवन्ति ॥ १०३ ॥

अथ द्रव्यस्योत्पादव्ययध्रौव्याण्येकद्रव्यपर्यायद्वारेण चिन्तयति—

टीकाः—यहाँ (विश्वमें) जैसे एक त्रि-अणुक समानजातीय अनेक द्रव्यपर्याय विनष्ट होती है और दूसरी चतुरणुक (समानजातीय अनेक द्रव्यपर्याय) उत्पन्न होती है; परन्तु वे तीन या चार पुद्गल (परमाणु) तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं (ध्रुव हैं); इसीप्रकार सभी समानजातीय द्रव्यपर्यायें विनष्ट होती हैं और उत्पन्न होती हैं, किन्तु समानजातीय द्रव्य तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं (-ध्रुव हैं) ।

और, जैसे एक मनुष्यत्वस्वरूप असमानजातीय द्रव्य-पर्याय विनष्ट होती है और दूसरी देवत्वस्वरूप (असमानजातीय द्रव्यपर्याय) उत्पन्न होती है, परन्तु वह जीव और पुद्गल तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहता है, इसीप्रकार सभी असमानजातीय द्रव्यपर्यायें विनष्ट हो जाती हैं और उत्पन्न होती हैं, परन्तु असमानजातीय द्रव्य तो अविनष्ट और अनुत्पन्न ही रहते हैं ।

इसप्रकार स्वतः (^१द्रव्यत्वेन) ध्रुव और द्रव्यपर्यायों द्वारा उत्पाद-व्ययरूप द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य हैं ॥१०३॥

अब, द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य एक द्रव्य पर्यायके द्वारा विचार करते हैंः—

१. चतुरणुक—चार अणुओंका (परमाणुओंका) बना हुआ स्कंध । २. द्रव्यशब्द मुख्यतया दो अर्थोंमें प्रयुक्त होता है: (१) एक तो सामान्य-विशेषके पिण्डको अर्थात् वस्तुको द्रव्य कहा जाता है; जैसे—'द्रव्य उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यस्वरूप है'; (२) दूसरे-वस्तुके सामान्य अंशको भी द्रव्य कहा जाता है; जैसे 'द्रव्यार्थिक नय' अर्थात् सामान्यांशमाही नय । जहाँ जो अर्थ घटित होता हो वहाँ वह अर्थ समझना चाहिये ।

परिणमदि स्वयं द्रव्यं गुणदो य गुणान्तरं सदविशिष्टं ।
तस्माद् गुणपर्याया भणिता पुन द्रव्यमेव ति ॥१०४॥

परिणमति स्वयं द्रव्यं गुणतश्च गुणान्तरं सदविशिष्टम् ।
तस्माद् गुणपर्याया भणिताः पुनः द्रव्यमेवेति ॥ १०४ ॥

एकद्रव्यपर्याया हि गुणपर्यायाः, गुणपर्यायाणामेकद्रव्यत्वात् । एक द्रव्यत्वं हि तेषां सहकारफल-
वत् । यथा किल सहकारफलं स्वयमेव हरितभावात् पाण्डुभावं परिणमत्पूर्वोत्तरप्रवृत्तहरितपाण्डुभावा-
भ्यामनुभूतात्मसत्ताकं हरितपाण्डुभावाभ्यां समविशिष्टसत्ताकतयैकमेव वस्तु न वस्त्वन्तरं, तथा

गाथा १०४

अन्वयार्थः—[सदविशिष्टं] सत्तापेक्षासे अविशिष्टरूपसे, [द्रव्यं स्वयं] द्रव्य
स्वयं ही [गुणतः च गुणान्तरं] गुणसे गुणान्तररूप [परिणमते] परिणमित होता है,
(अर्थात् द्रव्य स्वयं ही एक गुणपर्यायमेंसे अन्य गुणपर्यायरूप परिणमित होता है, और
उसकी सत्ता गुणपर्यायोंकी सत्ताके साथ अविशिष्ट-अभिन्न-एक ही रहती है), [तस्मात्
पुनः] और उससे [गुणपर्यायाः] गुणपर्यायों [द्रव्यम् एव इति भणिताः] द्रव्य ही कही
गई हैं ।

टीकाः—गुणपर्यायों एक द्रव्य पर्यायों हैं, क्योंकि गुणपर्यायोंको एक द्रव्यत्व है,
(अर्थात् गुणपर्यायों एकद्रव्यकी पर्यायों हैं, क्योंकि वे एक ही द्रव्य हैं—भिन्न भिन्न द्रव्य
नहीं ।) उनका एकद्रव्यत्व आम्रफलकी भाँति है । जैसे—आम्रफल स्वयं ही हरितभाव-
मेंसे पीतभावरूप परिणमित होता हुआ, प्रथम और पश्चात् प्रवर्तमान हरितभाव और
पीतभावके द्वारा अपनी सत्ताका अनुभव करता है, इसलिये हरितभाव और पीतभावके
साथ अविशिष्ट सत्तावाला होनेसे एक ही वस्तु है, अन्य वस्तु नहीं; इसीप्रकार द्रव्य
स्वयं ही पूर्व अवस्थामें अवस्थित गुणमेंसे उत्तर अवस्थामें अवस्थित गुणरूप परिणमित
होता हुआ, पूर्व और उत्तर अवस्थामें अवस्थित उन गुणोंके द्वारा अपनी सत्ताका अनु-
भव करता है, इसलिये पूर्व और उत्तर अवस्थामें अवस्थित गुणोंके साथ अविशिष्ट सत्ता-
वाला होनेसे एक ही द्रव्य है, द्रव्यान्तर नहीं ।

१. अविशिष्ट सत्तावाला = अभिन्न सत्तावाला; एक सत्तावाला; (आमकी सत्ता हरे और पीले
भावकी सत्तासे अभिन्न है, इसलिये आम और हरितभाव तथा पीतभाव एक ही वस्तु हैं, भिन्न नहीं ।)

द्रव्यं स्वयमेव पूर्वावस्थावस्थितगुणादुत्तरावस्थावस्थितगुणं परिणमत्पूर्वोत्तरावस्थावस्थितगुणाभ्यां ताभ्यामनुभूतात्मसत्कारं पूर्वोत्तरावस्थावस्थितगुणाभ्यां सममविशिष्टसत्ताकतयैकमेव द्रव्यं न द्रव्यान्तरम् । यथैव चोत्पद्यमानं पाण्डुभावेन, व्ययमानं हरितभावेनावतिष्ठमानं सहकारफल-त्वेनोत्पादव्ययध्रौव्याण्येकवस्तुपर्यायद्वारेण सहकारफलं तथैवोत्पद्यमानमूत्तरावस्थावस्थितगुणेन, व्ययमानं पूर्वावस्थावस्थितगुणेनावतिष्ठमानं द्रव्यत्वगुणेनोत्पादव्ययध्रौव्याण्येकद्रव्यपर्यायद्वारेण द्रव्यं भवति ॥ १०४ ॥

अथ सत्ताद्रव्ययोरनर्थान्तरत्वे युक्तिप्रपन्यस्यति—

ण हवदि जदि सद्व्वं अमद्दधुव्वं हवदि तं कहं दव्वं ।
हवदि पुणो अरणं वा तम्हा दव्वं सयं सत्ता ॥ १०५ ॥

(आमके उदाहरणकी भाँति, द्रव्य स्वयं ही गुणकी पूर्व पर्यायमेंसे उत्तरपर्याय-रूप परिणमित होता हुआ, पूर्व और उत्तर गुणपर्यायोंके द्वारा अपने अस्तित्वका अनुभव करता है, इसलिये पूर्व और उत्तर गुणपर्यायोंके साथ अभिन्न अस्तित्व होनेसे एक ही द्रव्य है, द्रव्यान्तर नहीं; अर्थात् वे वे गुणपर्यायों और द्रव्य एक ही द्रव्यरूप हैं, भिन्न भिन्न द्रव्यरूप नहीं ।)

और, जैसे पीतभावसे उत्पन्न होता है, हरितभावसे नष्ट होता है, और आम्र-फलरूपसे स्थिर रहता है, इसलिये आम्रफल एक वस्तुकी पर्यायके द्वारा उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य है, उसीप्रकार उत्तर अवस्थामें अवस्थित गुणसे उत्पन्न, पूर्व अवस्थामें अवस्थित गुणसे नष्ट और द्रव्यत्व गुणसे स्थिर होनेसे द्रव्य एक द्रव्यपर्यायके द्वारा उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य है ।

भावार्थः—इससे पूर्वकी गाथामें द्रव्यपर्यायके द्वारा (अनेक द्रव्यपर्यायोंके द्वारा) द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य बताये गये थे । इस गाथामें गुणपर्यायके द्वारा (एकद्रव्यपर्यायके द्वारा) द्रव्यके उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य बताये गये हैं ॥ १०४ ॥

अब, सत्ता और द्रव्य अर्थान्तर (भिन्न पदार्थ, अन्य पदार्थ) नहीं हैं, इस सम्बन्धमें युक्ति उपस्थित करते हैं:—

न भवति यदि सद्द्रव्यमसद्भ्रुवं भवति तत्कथं द्रव्यम् ।
भवति पुनरन्यद्वा तस्माद्द्रव्यं स्वयं सत्ता ॥ १०५ ॥

यदि हि द्रव्यं स्वरूपत एव सन्न स्यात्तदा द्वितयी गतिः असद्वा भवति, सत्तातः पृथग्वा भवति । तत्रासद्भवद्ध्रौव्यस्यासंभवादात्मानमधारयद्द्रव्यमेवास्तं गच्छेत् । सत्तातः पृथग्भवत् सत्तामन्तरेणात्मानं धारयत्तावन्मात्रप्रयोजनां सत्तामेवास्तं गमयेत् । स्वरूपतरतु सद्भवद्ध्रौव्यस्य संभवादात्मानं धारयद्द्रव्यमुद्रच्छेत् । सत्तातोऽपृथग्भूत्वा चात्मानं धारयत्तावन्मात्रप्रयोजनां सत्तामुद्रमयेत् । ततः स्वयमेव द्रव्यं सत्त्वेनाभ्युपगन्तव्यं, भावभाववतोरपृथक्त्वेनान्यत्वात् । १०५।

गाथा १०५

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [द्रव्यं] द्रव्य [सत् न भवति] (स्वरूपसे ही) सत् न हो तो—(१) [ध्रुवं असत् भवति] निश्चयसे वह असत् होगा; [तत् कथं द्रव्यं] (जो असत् होगा) वह द्रव्य कैसे हो सकता है ? [पुनः वा] अथवा (यदि असत् न हो) तो (२) [अन्यत् भवति] वह सत्तासे अन्य (पृथक्) हो; ? (सो भी कैसे हो सकता है ?) [तस्मात्] इसलिये [द्रव्यं स्वयं] द्रव्य स्वयं ही [सत्ता] सत्ता है ।

टीकाः—यदि द्रव्य स्वरूपसे ही 'सत् न हो तो दूसरी गति यह हो कि वह (१) 'असत् होगा, अथवा (२) सत्तासे पृथक् होगा । वहाँ, (१) यदि वह असत् होगा तो, ध्रौव्यके असंभव होनेसे स्वयं स्थिर न होता हुआ द्रव्यका ही 'लोप हो जायगा; और (२) यदि सत्तासे पृथक् हो तो सत्ताके बिना भी स्वयं रहता हुआ, इतने ही मात्र प्रयोजनवाली 'सत्ताको लोप कर देगा ।

किन्तु यदि द्रव्य स्वरूपसे ही सत् हो तो—(१) ध्रौव्यके सद्भावके कारण स्वयं स्थिर होता हुआ, द्रव्य उदित होता है, (अर्थात् सिद्ध होता है); और (२) यदि सत्तासे अपृथक् रहकर स्वयं स्थिर (विद्यमान) रहता हुआ, इतने ही मात्र प्रयोजनवाली सत्ताको उदित (सिद्ध) करता है ।

१. सत्—मौजूद । २. असत्—नहीं मौजूद ऐसा । ३. लोप—जो असत् हो उसका टिकना—मौजूद रहना कैसा ? इसलिये द्रव्यको असत् माननेसे, द्रव्यके अभावका प्रसंग आता है अर्थात् द्रव्य ही सिद्ध नहीं होता । ४. सत्ताका कार्य इतना ही है कि वह द्रव्यको विद्यमान रखे । यदि द्रव्य सत्तासे भिन्न रहकर भी स्थिर रहे तो फिर सत्ताका प्रयोजन ही नहीं रहता, अर्थात् सत्ताके अभावका प्रसंग आजायगा ।

अथ पृथक्त्वान्यत्वलक्षणमुन्मुद्रयति—

प्रविभक्तप्रदेशत्वं पुथुत्तमिदि सासणं हि वीरस्स ।

अरणत्तमतब्भावो ण तब्भवं होदि कथमेकं ॥ १०६ ॥

प्रविभक्तप्रदेशत्वं पृथक्त्वमिति शासनं हि वीरस्य ।

अन्यत्वमतद्भावो न तद्भवत् भवति कथमेकम् ॥ १०६ ॥

प्रविभक्तप्रदेशत्वं हि पृथक्त्वस्य लक्षणम् । तच्च सत्ताद्रव्ययोर्न संभाव्यते, गुणगुणिनोः प्रविभक्तप्रदेशत्वाभावात् शुक्लोत्तरीयवत् । तथाहि—यथा य एव शुक्लस्य गुणस्य प्रदेशास्त एवोत्तरीयस्य गुणिन इति तयोर्न प्रदेशविभागः, तथा य एव सत्ताया गुणस्य प्रदेशास्त एव

इसलिये द्रव्य स्वयं ही सत्त्व(सत्ता) है ऐसा स्वीकार करना चाहिये । क्योंकि भाव और 'भाववान्का अपृथक्त्व द्वारा अनन्यत्व है ॥ १०५ ॥

अब, पृथक्त्वका और अन्यत्वका लक्षण स्पष्ट करते हैं:—

गाथा १०६

अन्वयार्थः—[प्रविभक्तप्रदेशत्वं] विभक्तप्रदेशत्व [पृथक्त्वं] पृथक्त्व है, [इति हि] ऐसा [वीरस्य शासनं] वीरका उपदेश है । [अतद्भावः] अतद्भाव (उसरूप न होना) [अन्यत्व] अन्यत्व है । [न तत् भवत्] जो उसरूप न हो वह [कथं एकम्] एक कैसे हो सकता है ? (कथंचित् सत्ता द्रव्यरूप नहीं है और द्रव्य सत्तारूप नहीं है, इसलिये वे एक नहीं हैं ।)

टीका:—विभक्त (भिन्न) प्रदेशत्व पृथक्त्वका लक्षण है । वह तो सत्ता और द्रव्यमें सम्भव नहीं है, क्योंकि गुण और गुणीमें विभक्तप्रदेशत्वका अभाव होता है,—शुक्लत्व और वस्त्रकी भाँति । वह इसप्रकार है कि जैसे—जो शुक्लत्वके गुणके प्रदेश हैं वे ही वस्त्रके—गुणीके हैं, इसलिये उनमें प्रदेशभेद नहीं है; इसीप्रकार जो सत्ताके-गुणके प्रदेश हैं वे ही द्रव्यके—गुणीके हैं, इसलिये उनमें प्रदेशभेद नहीं है ।

१. भाववान् — भाववाला । [द्रव्य भाववान् हैं और सत्ता उसका भाव है । वे अपृथक् हैं, इस अपेक्षासे अनन्य हैं । पृथक्त्व और अन्यत्वका भेद जिस अपेक्षासे है उस अपेक्षाको लेकर उनके विशेषार्थ आगामी गाथा-में कहेंगे, उन्हें यहाँ नहीं लगाना चाहिये, किन्तु यहाँ अनन्यत्वको अपृथक्त्वके अर्थमें ही समझना चाहिये ।]

द्रव्यस्य गुणिन इति तयोर्न प्रदेशविभागः । एवमपि तयोरन्यत्वमस्तितल्लक्षणसद्भावात् । अतद्भावो ह्यन्यत्वस्य लक्षणं, तत्तु सत्ताद्रव्ययोर्विद्यत एव गुणगुणिनोस्तद्भावस्याभावात् शुक्लोचरीयवदेव । तथाहि— यथा यः किलैकचक्षुरिन्द्रियविषयमापद्यमानः समस्तेतरेन्द्रियग्रामगोचरमतिक्रान्तः शुक्लो गुणो भवति, न खलु तदखिलेन्द्रियग्रामगोचरीभूतमुचरीयं भवति, यच्च किलाखिलेन्द्रियग्रामगोचरीभूतमुचरीयं भवति, न खलु स एकचक्षुरिन्द्रियविषयमापद्यमानः समस्तेतरेन्द्रियग्रामगोचरमतिक्रान्तः शुक्लो गुणो भवतीति तयोस्तद्भावस्याभावः । तथा या किलाश्रित्य वर्तिनी निर्गुणैक-

ऐसा होनेपर भी उनमें (सत्ता और द्रव्यमें) अन्यत्व है, क्योंकि (उनमें) अन्यत्वके लक्षणका सद्भाव है । अतद्भाव अन्यत्वका लक्षण है । वह तो सत्ता और द्रव्यके है ही, क्योंकि गुण और गुणीके तद्भावका अभाव होता है;—शुक्लत्व और वस्त्रकी भाँति । वह इसप्रकार है कि:—जैसे एक चक्षुइन्द्रियके विषयमें आनेवाला और अन्य सब इन्द्रियोंके समूहको गोचर न होनेवाला शुक्लत्व गुण है वह समस्त इन्द्रियसमूहको गोचर होनेवाला वस्त्र नहीं है; और जो समस्त इन्द्रियसमूहको गोचर होनेवाला वस्त्र है वह एक चक्षुइन्द्रियके विषयमें आनेवाला तथा अन्य समस्त इन्द्रियोंके समूहको गोचर न होनेवाला शुक्लत्व गुण नहीं है, इसलिये उनके तद्भावका अभाव है; इसीप्रकार, ^३किसीके आश्रय रहनेवाली, ^४निर्गुण, एक गुणकी बनी हुई, ^५विशेषण ^६विधायक और ^७वृत्तिस्वरूप जो सत्ता है वह किसीके आश्रयके बिना रहनेवाला, गुणवाला,

१—अतद्भाव = (कथंचित्) उसका न होना, (कथंचित्) उसरूप न होना (कथंचित्) अतद्रूपता । द्रव्य कथंचित् सत्तारूपसे नहीं है और सत्ता कथंचित् द्रव्यरूपसे नहीं है, इसलिये उनके अतद्भाव है । २—तद्भाव = उसका होना, उसरूप होना, तद्रूपता । ३—सत्ता द्रव्यके आश्रयसे रहती है, द्रव्यको किसीका आश्रय नहीं है । [जैसे घड़ेमें घी रहता है, उसीप्रकार द्रव्यमें सत्ता नहीं रहती, क्योंकि घड़ेमें और घीमें तो प्रदेशभेद है, किन्तु जैसे आममें वर्ण गंधादि हैं उसीप्रकार द्रव्यमें सत्ता है ।] ४—निर्गुण = गुणरहित [सत्ता निर्गुण है, द्रव्य गुणवाला है । जैसे आम वर्ण, गंध, स्पर्शादि गुणयुक्त है, किन्तु वर्णगुण कहीं गंध, स्पर्श या अन्य किसी गुणवाला नहीं है, क्योंकि न तो वर्ण सूँघा जाता है और न स्पर्श किया जाता है । और जैसे आत्मा ज्ञानगुणवाला, वीर्यगुणवाला इत्यादि है, परन्तु ज्ञानगुण कहीं वीर्यगुणवाला या अन्य किसी गुणवाला नहीं है; इसीप्रकार द्रव्य अनन्त गुणोंवाला है, परन्तु सत्ता गुणवाली नहीं है । (यहाँ, जैसे दण्डी दण्डवाला है उसीप्रकार द्रव्यको गुणवाला नहीं समझना चाहिये; क्योंकि दण्डी और दण्डमें प्रदेशभेद है, किन्तु द्रव्य और गुण अभिन्नप्रदेशी हैं ।)] ५—विशेषण = विशेषता; लक्षण; भेदकधर्म । ६—विधायक = विधान करनेवाला; रचयिता । ७—वृत्ति = होना, अस्तित्व, उत्पादव्यय-ध्रौव्ययुक्त ।

गुणसमुद्दिता विशेषणं विधायिका वृत्तिस्वरूपा च सत्ता भवति, न खलु तदनाश्रित्य वर्ति गुणवदने-
कगुणसमुद्दितं विशेष्यं विधीयमानं वृत्तिमत्स्वरूपं च द्रव्यं भवति यच्च क्लिलानाश्रित्य वर्ति गुण-
वदनेकगुणसमुद्दितं विशेष्यं विधीयमानं वृत्तिमत्स्वरूपं च द्रव्यं भवति, न खलु साश्रित्य वर्तिनी
निर्गुणैकगुणसमुद्दिता विशेषणं विधायिका वृत्तिस्वरूपा च सत्ता भवतीति तयोस्तद्भावस्याभावः ।

अनेक गुणोंसे निर्मित, ^१विशेष्य, ^२विधीयमान और ^३वृत्तिमान स्वरूप द्रव्य नहीं है, तथा जो किसीके आश्रयके बिना रहनेवाला, गुणवाला, अनेक गुणोंसे निर्मित, विशेष्य, विधीयमान और वृत्तिमानस्वरूप द्रव्य है वह किसीके आश्रित रहनेवाली, निर्गुण, एक गुणसे निर्मित, विशेषण, विधायक और वृत्तिस्वरूप सत्ता नहीं है, इसलिये उनके तद्-भावका अभाव है । ऐसा होनेसे ही, यद्यपि सत्ता और द्रव्यके कथंचित् अनर्थान्तरत्व (अभिन्नपदार्थत्व, अनन्यपदार्थत्व) है तथापि उनके सर्वथा एकत्व होगा ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । क्योंकि तद्भाव एकत्वका लक्षण है । जो उसरूप ज्ञात नहीं होता वह (सर्वथा) एक कैसे हो सकता है ? नहीं हो सकता । परन्तु गुण-गुणी-रूपसे अनेक ही है, यह अर्थ है ।

भावार्थः—भिन्नप्रदेशत्व पृथक्त्वका लक्षण है, और अतद्भाव अन्यत्वका लक्षण है । द्रव्यमें और गुणमें पृथक्त्व नहीं है, फिर भी अन्यत्व है ।

प्रश्नः—जो अपृथक् होते हैं उनमें अन्यत्व कैसे हो सकता है ?

उत्तरः—उनमें वस्त्र और शुभ्रता (सफेदी) की भाँति अन्यत्व हो सकता है । वस्त्रके और उसकी शुभ्रताके प्रदेश भिन्न नहीं हैं, इसलिये उनमें पृथक्त्व नहीं है ।

१—विशेष्य = विशेषताको धारण करनेवाला पदार्थ; लक्ष्य; भेद्यपदार्थ—धर्मी । [जैसे मिठास, सफेदी, सच्चिक्कणता आदि मिश्रीके विशेष गुण हैं, और मिश्री इन विशेषगुणोंसे विशेषित होती हुई अर्थात् उन विशेषताओंसे ज्ञात होती हुई, उन भेदोंसे भेदित होती हुई एक पदार्थ है; और जैसे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य इत्यादि आत्माके विशेषण हैं और आत्मा उन विशेषणोंसे विशेषित होता हुआ (लक्षित, भेदित, पहचाना जाता हुआ) पदार्थ है उसीप्रकार सत्ता विशेषण है और द्रव्य विशेष्य है । (यहाँ यह नहीं भूलना चाहिये कि विशेष्य और विशेषणोंके प्रदेशभेद नहीं हैं ।)] २—विधीयमान = रचित होने-वाला । (सत्ता इत्यादि गुण द्रव्यके रचयिता हैं और द्रव्य उनके द्वारा रचा जानेवाला पदार्थ है ।) ३—वृत्तिमान = वृत्तिवाला, अस्तित्ववाला, स्थिर रहनेवाला । (सत्ता वृत्तिस्वरूप अर्थात् अस्तित्वरूप है और द्रव्य अस्ति रहनेस्वरूप है ।)

अत एव च सत्ताद्रव्ययोः कथंचिदनर्थान्तरत्वेऽपि सर्वथैकत्वं न शङ्कनीयं, तद्भावो ह्येकत्वस्य लक्षणम् । यत् न तद्भवद्विभाव्यते तत्कथमेकं स्यात् । अपि तु गुणगुणिरूपेणानेक-
मेवेत्यर्थः ॥ १०६ ॥

अथातद्भावमुदाहृत्य प्रथयति—

सद्द्वयं सच्च गुणो सच्चैव य पञ्जत्रो त्ति वित्थारो ।

जो खलु तस्स अभावो सो तदभावो अतब्भावो ॥१०७॥

सद्द्वयं सच्च गुणः सच्चैव च पर्याय इति विस्तारः ।

यः खलु तस्याभावः स तदभावोऽतद्भावः ॥१०७॥

ऐसा होने पर भी शुभ्रता तो मात्र आँखोंसे ही दिखाई देती है, जीभ, नाक आदि शेष इन्द्रियोंसे नहीं । और वस्त्र पाँचों इन्द्रियोंसे ज्ञात होता है । इसलिये (कथंचित्) वस्त्र शुभ्रता नहीं है और शुभ्रता वस्त्र नहीं है । यदि ऐसा न हो तो वस्त्रकी भाँति शुभ्रता भी जीभ, नाक इत्यादि सर्व इन्द्रियोंसे ज्ञात होना चाहिये । किन्तु ऐसा नहीं होता । इसलिये वस्त्र और शुभ्रतामें अपृथक्त्व होने पर भी अन्यत्व है, यह सिद्ध होता है ।

इसीप्रकार द्रव्यमें और सत्तादि गुणोंमें अपृथक्त्व होने पर भी अन्यत्व है; क्योंकि द्रव्यके और गुणके प्रदेश अभिन्न होने पर भी द्रव्यमें और गुणमें संज्ञा, संख्या, लक्षणादि भेद होनेसे (कथंचित्) द्रव्य गुणरूप नहीं है और गुण द्रव्यरूप नहीं है ॥१०६॥

अब, अतद्भावको उदाहरणपूर्वक स्पष्ट बतलाते हैं:—

गाथा १०७

अन्वयार्थः—[सद्द्वयं] 'सद्द्वय' [सत् च गुणः] 'सत्गुण' [च] और [सत् च एव पर्यायः] 'सत् पर्याय' [इति] इस प्रकार [विस्तारः] (सत्तागुणका) विस्तार है । [यः खलु] (उनमें परस्पर) और जो [तस्य अभावः] 'उसका अभाव' अर्थात् 'उसरूप होनेका अभाव' है सो [सः] वह [तदभावः] उसका अभाव [अतद्भावः] अतद्भाव है ।

यथा खन्वेकं मुक्ताफलस्रग्दाम, हार इति सूत्रमिति मुक्ताफलमिति त्रेधा विस्तार्यते, तथैकं द्रव्यं द्रव्यमिति गुण इति पर्याय इति त्रेधा विस्तार्यते । यथा चैकस्य मुक्ताफलस्रग्दाम्नः शुक्लो गुणः शुक्लो हारः शुक्लं सूत्रं शुक्लं मुक्ताफलमिति त्रेधा विस्तार्यते, तथैकस्य द्रव्यस्य सत्तागुणः सद्द्रव्यं सद्गुणः सत्पर्याय इति त्रेधा विस्तार्यते । यथा चैकस्मिन् मुक्ताफलस्रग्दाम्नि यः शुक्लो

टीकाः—जैसे एक 'मोतियोंकी माला हारके रूपमें सूत्र (धागा) के रूपमें और मोतीके रूपमें—(त्रिधा) तीन प्रकारसे विस्तारित की जाती है, उसीप्रकार एक द्रव्य, द्रव्यके रूपमें, गुणके रूपमें और पर्यायके रूपमें—तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है ।

और जैसे एक मोतियोंकी मालाका शुक्लत्व गुण शुक्ल हार, शुक्ल धागा, और शुक्ल मोती,—यों तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है, उसीप्रकार एक द्रव्यका सत्तागुण सत् द्रव्य, सत्गुण, और सत्पर्याय,—यों तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है ।

और जैसे एक मोतियोंकी मालामें जो शुक्लत्वगुण है वह हार नहीं है, धागा नहीं है या मोती नहीं है, और जो हार, धागा या मोती है वह शुक्लत्व गुण नहीं है;—इसप्रकार एक दूसरेमें जो 'उसका अभाव' अर्थात् 'तद्रूप होनेका अभाव' है सो वह 'तद्-अभाव' लक्षण 'अतद्भाव' है, जो कि अन्यत्वका कारण है । इसीप्रकार एक द्रव्यमें जो सत्तागुण है वह द्रव्य नहीं है, 'अन्यगुण नहीं है, या पर्याय नहीं है; और जो द्रव्य अन्य गुण या पर्याय है वह सत्तागुण नहीं है,—इसप्रकार एक दूसरेमें जो 'उसका अभाव' अर्थात् 'तद्रूप होनेका अभाव' है वह 'तद्-अभाव' लक्षण 'अतद्भाव' है जो कि अन्यत्वका कारण है ।

भावार्थः—एक आत्माका विस्तारकथनमें 'आत्मद्रव्य'के रूपमें 'ज्ञानादिगुण' के रूपमें और 'सिद्धत्वादि पर्याय' के रूपमें—तीन प्रकारसे वर्णन किया जाता है । इसी-प्रकार सर्व द्रव्योंके सम्बन्धमें समझना चाहिये ।

१—मोतियोंकी माला = मोती का हार, मौक्तिकमाला ।

२—अन्यगुण = सत्ता सिवाय दूसरा कोई भी गुण ।

३—तद्-अभाव = उसका अभाव; (तद्-अभाव = तस्य अभावः) [तद्भाव अतद्भावका लक्षण (स्वरूप) है; अतद्भाव अन्यत्वका कारण है ।]

गुणः स न हारो न छत्रं न मुक्ताफलं यश्च हारः छत्रं मुक्ताफलं वा स न शुक्लो गुण इतीतरेतरस्य यस्तस्याभावः स तदभावलक्षणोऽतद्भावोऽन्यत्वनिबन्धनभूतः । तथैकस्मिन् द्रव्ये यः सत्तागुणस्तत्र द्रव्यं नान्यो गुणो न पर्यायो यश्च द्रव्यमन्यो गुणः पर्यायो वा स न सत्तागुण इतीतरेतरस्य यस्तस्याभावः स तदभावलक्षणोऽतद्भावोऽन्यत्वनिबन्धनभूतः ॥१०७॥

अथ सर्वथाऽभावलक्षणत्वमतद्भावस्य निषेधयति—

जे द्रव्यं तरण गुणो जो वि गुणो सो ण तच्चमत्थादो ।
एसो हि अतद्भावो एव अभावो ति णिदिट्ठो ॥१०८॥

और एक आत्माके अस्तित्व गुणको 'सत् आत्मद्रव्य', 'सत् ज्ञानादिगुण' और 'सत् सिद्धत्वादि पर्याय'—यों तीन प्रकारसे विस्तारित किया जाता है; इसीप्रकार सभी द्रव्योंके सम्बन्धमें समझना चाहिये ।

और एक आत्माका जो अस्तित्व गुण है वह आत्मद्रव्य नहीं है, (सत्ता गुणके बिना) ज्ञानादिगुण नहीं है, या सिद्धत्वादि पर्याय नहीं है; और जो आत्म द्रव्य है, (सत् सिवायके) ज्ञानादिगुण है या सिद्धत्वादि पर्याय है वह अस्तित्व गुण नहीं है,—इसप्रकार उनमें परस्पर अतद्भाव है, जिसके कारण उनमें अन्यत्व है । इसीप्रकार सभी द्रव्योंके सम्बन्धमें समझना चाहिये ।

इसप्रकार इस गाथामें सत्ताको उदाहरण देकर अतद्भावको स्पष्टतया समझाया है ।

(यहाँ इतना विशेष है कि जो सत्ता गुणके सम्बन्धमें कहा है, वह अन्य गुणोंके विषयमें भी भलीभाँति समझ लेना चाहिये । यथा:—सत्ता गुणकी भाँति एक आत्माके वीर्यगुणको 'वीर्यवान् आत्मद्रव्य' 'वीर्यवान् ज्ञानादिगुण' और 'वीर्यवान् सिद्धत्वादि पर्याय'—इसप्रकार विस्तारित कर सकते हैं । अभिन्नप्रदेश होनेसे इसप्रकार विस्तार किया जाता है, फिर भी संज्ञा-लक्षण-प्रयोजनादि भेद होनेसे वीर्यगुणके तथा आत्मद्रव्यको, ज्ञानादि अन्य गुण और सिद्धत्वादि पर्यायके अतद्भाव है, जो कि उनमें अन्यत्वका कारण है ॥ १०७ ॥

अब, सर्वथा अभाव अतद्भावका लक्षण है, इसका निषेध करते हैं:—

यद्द्रव्यं तन्न गुणो योऽपि गुणः स न तत्त्वमर्थात् ।

एष ह्यतद्भावो नैव अभाव इति निर्दिष्टः ॥ १०८ ॥

एकस्मिन्द्रव्ये यद्द्रव्यं गुणो न तद्भवति, यो गुणः स द्रव्यं न भवतीत्येवं यद्द्रव्यस्य गुण-
रूपेण गुणस्य वा द्रव्यरूपेण तेनाभवनं सोऽतद्भावः । एतावतैवान्यत्वव्यवहारसिद्धेर्न पुनर्द्रव्य-
स्याभावो गुणो गुणस्याभावो द्रव्यमित्येवंलक्षणोऽभावोऽतद्भावः, एवं सत्वेकद्रव्यस्यानेकत्वमुभय-
शून्यत्वमपोहरूपत्वं वा स्यात् । तथाहि—यथा खलु चेतनद्रव्यस्याभावोऽचेतनद्रव्यमचेतनद्रव्य-
स्याभावाश्चेतनद्रव्यमिति तयोरनेकत्वं, तथा द्रव्यस्याभावो गुणो गुणस्याभावो द्रव्यमित्येकस्यापि-
द्रव्यस्यानेकत्वं स्यात् । यथा सुवर्णस्याभावे सुवर्णत्वस्याभावः सुवर्णत्वस्याभावे सुवर्णस्याभावः

गाथा १०८

अन्वयार्थः—[अर्थात्] स्वरूपापेक्षासे [यत् द्रव्यं] जो द्रव्य है [तत् न गुणः]
वह गुण नहीं है, [यः अपि गुणः] और जो गुण है [सः न तत्त्वं] यह द्रव्य नहीं है ।
[एषः हि अतद्भावः] यह अतद्भाव है; [न एव अभावः] सर्वथा अभाव अतद्भाव
नहीं है; [इति निर्दिष्टः] ऐसा (जिनेन्द्रदेव द्वारा) निर्देश किया गया है ।

टीकाः—एक द्रव्यमें जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य नहीं
है;—इसप्रकार द्रव्यका गुणरूपसे न होना है अथवा गुणका द्रव्यरूपसे न होना, अतद्-
भाव है; क्योंकि इतनेसे ही अन्यत्व व्यवहार (अन्यत्वरूप व्यवहार) सिद्ध होता है ।
परन्तु द्रव्यका अभाव गुण है, गुणका अभाव द्रव्य है;—ऐसे लक्षणवाला अभाव वो
अतद्भाव नहीं है । यदि ऐसा हो तो (१) एक द्रव्यको अनेकत्व आ जायगा, (२)
उभयशून्यता (दोनोंका अभाव) हो जायगा, अथवा (३) अपोहरूपता आजायगी । इसी-
को समझाते हैंः—

(द्रव्यका अभाव गुण है और गुणका अभाव द्रव्य; ऐसा मानने पर प्रथम
दोष इसप्रकार आयगाः—)

(१) जैसे चेतनद्रव्यका अभाव अचेतन द्रव्य है (और) अचेतनद्रव्यका अभाव
चेतन द्रव्य है,—इसप्रकार उनके अनेकत्व (द्वित्व) है, उसीप्रकार द्रव्यका अभाव गुण,
(और) गुणका अभाव द्रव्य है;—इसप्रकार एक द्रव्यके भी अनेकत्व आजायगा ।
(अर्थात् द्रव्यके एक होनेपर भी उसके अनेकत्वका प्रसंग आजायगा ।

इत्युभयशून्यत्वं, तथा द्रव्यस्याभावे गुणस्याभावो गुणस्याभावे द्रव्यस्याभाव इत्युभयशून्यत्वं स्यात् । यथा पटाभावमात्र एव घटो घटाभावमात्र एव पट इत्युभयोरपोहरूपत्वं तथा द्रव्याभावमात्र एव गुणो गुणोभावमात्र एव द्रव्यमित्यत्राप्यपोहरूपत्वं स्यात् । ततो द्रव्यगुणयोरेकत्वमशून्यत्वमनपोहत्वं चेच्छता यथोदित एवातद्भावोऽभ्युपगन्तव्यः ॥ १०८ ॥

अथ सत्ताद्रव्ययोर्गुणगुणिभावं साधयति—

(अथवा उभयशून्यत्वरूप दूसरा दोष इसप्रकार आता है:—)

(२) जैसे सुवर्णका अभाव होने पर सुवर्णत्वका अभाव हो जाता है, और सुवर्णत्वका अभाव होनेपर सुवर्णका अभाव हो जाता है,—इसप्रकार उभयशून्यत्व हो जाता है; उसीप्रकार द्रव्यका अभाव होनेपर गुणका अभाव और गुणका अभाव होनेपर द्रव्यका अभाव होजायगा;—इसप्रकार उभयशून्यता होजायगी । (अर्थात् द्रव्य तथा गुण दोनोंके अभावका प्रसंग आजायगा ।)

(अथवा अपोहरूपता नामक तीसरा दोष इसप्रकार आता है:—)

(३) जैसे पटाभावमात्र ही घट है, घटाभावमात्र ही पट है, (अर्थात् वस्त्रके केवल अभाव जितना ही घट है, और घटका केवल अभाव जितना ही वस्त्र है)—इसप्रकार दोनोंके अपोहरूपता है, उसीप्रकार द्रव्याभावमात्र ही गुण और गुणाभावमात्र ही द्रव्य होगा;—इसप्रकार इसमें भी (द्रव्य-गुणमें भी) 'अपोहरूपता आजायगी, (अर्थात् केवल नकाररूपताका प्रसङ्ग आजायगा ।)

इसलिये द्रव्य और गुणका एकत्व, अशून्यत्व और अनपोहत्व चाहनेवालेको यथोक्त ही अतद्भाव मानना चाहिये ॥ १०८ ॥

अब, सत्ता और द्रव्यका गुण-गुणित्व सिद्ध करते हैं: —

१—अपोहरूपता = सर्वथा नकारात्मकता; सर्वथा भिन्नता । (द्रव्य और गुणमें एक दूसरेका केवल नकार ही हो तो 'द्रव्य गुणवाला है' 'यह गुण इस द्रव्यका है'—इत्यादि कथनसे सूचित किसीप्रकारका संबन्ध ही द्रव्य और गुणके नहीं बनेगा ।) २—अनपोहत्व = अपोहरूपताका न होना; केवल नकारात्मकताका न होना ।

जो खलु द्रव्यसहावो परिणामो सो गुणो सदविशिष्टो ।
मदवद्विदं सहावे द्रव्यं त्ति जिणोवदेशोऽयम् ॥१०६॥

यः खलु द्रव्यस्वभावः परिणामः स गुणः सदविशिष्टः ।

मदवस्थितं स्वभावे द्रव्यमिति जिनोपदेशोऽयम् ॥ १०९ ॥

द्रव्यं हि स्वभावे नित्यमवतिष्ठमानत्वात्सदिति प्राक् प्रतिपादितम् । स्वभावस्तु द्रव्यस्य परिणामोऽभिहितः । य एव द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः, स एव सदविशिष्टो गुण इतीह साध्यते । यदेव हि द्रव्यस्वरूपवृत्तिभूतमस्तित्वं द्रव्यप्रधाननिर्देशात्सदिति संशयते तदविशिष्टगुणभूत एव द्रव्यस्य स्वभावभूतः परिणामः द्रव्यवृत्तेर्हि त्रिकोटिसमयस्पर्शिन्याः प्रतिक्षणं तेन तेन स्वभावेन परिणमनाद्द्रव्यस्वभावभूत एव तावत्परिणामः । स त्वस्तित्वभू-

गाथा १०६

अन्वयार्थः—[यः खलु] जो [द्रव्यस्वभावः परिणामः] द्रव्यका स्वभावभूत (उत्पादव्ययध्रौव्यात्मक) परिणाम है [सः] वह (परिणाम) [सदविशिष्टः गुणः] 'सत्' से अविशिष्ट (सत्तासे अभिन्न है ऐसा) गुण है । [स्वभावे अवस्थितं] 'स्वभावमें अवस्थित (होनेसे) [द्रव्यं] द्रव्य [सत्] सत् है'—[इति जिनोपदेशः] ऐसा जो (६६ वीं गाथामें कथित) जिनोपदेश है [अयम्] वही यह है । (अर्थात् ६६ वीं गाथाके कथनमेंसे इस गाथामें कथित भाव सहज ही निकलता है ।)

टीकाः—द्रव्य स्वभावमें नित्य अवस्थित होनेसे सत् है,—ऐसा पहले (६६ वीं गाथामें) प्रतिपादित किया गया है; और (वहाँ) द्रव्यका स्वभाव परिणाम कहा गया है । यहाँ यह सिद्ध किया जा रहा है कि जो द्रव्यका स्वभावभूत परिणाम है वही 'सत्' से अविशिष्ट (अस्तित्वसे अभिन्न, ऐसा) गुण है ।

जो द्रव्यके स्वरूपका वृत्तिभूत अस्तित्व द्रव्यप्रधान कथनके द्वारा 'सत्' शब्दसे कहा जाता है उससे अविशिष्ट (उस अस्तित्वसे अनन्य) गुणभूत ही द्रव्य स्वभावभूत परिणाम है; क्योंकि द्रव्यकी 'वृत्ति (अस्तित्व) तीन प्रकारके समयको (भूत, भविष्यत, वर्तमान कालको) स्पर्शित करती है, इसलिये (वह वृत्ति—अस्तित्व) प्रतिक्षण उस उस स्वभावरूप परिणामित होती है, (इसलिये) प्रथम तो द्रव्यका स्वभावभूत परि-

१. वृत्ति = वर्तना; अस्तित्व रहना वह; टिकना वह ।

तद्रव्यवृत्त्यात्मकत्वात्सदविशिष्टो द्रव्यविधायको गुण एवेति सत्त्वाद्व्ययोगुणगुणिभावः
सिद्धयति ॥ १०९ ॥

अथ गुणगुणिनोर्नात्त्वमुपहन्ति—

णत्थि गुणो त्ति व कोई पज्जाओ तीह वा विणा दव्वं ।

दव्वत्तं पुणभावो तम्हा दव्वं सयं सत्ता ॥ ११० ॥

नास्ति गुण इति वा कश्चित् पर्याय इतीह वा विना द्रव्यम् ।

द्रव्यत्वं पुनर्भावस्तस्माद्द्रव्यं स्वयं सत्ता ॥ ११० ॥

न खलु द्रव्यात्पृथग्भूतो गुण इति वा पर्याय इति वा कश्चिदपि स्यात् । यथा सुवर्णात्पृथग्भूतं तत्पीतत्वादिकमिति वा तत्कुण्डलत्वादिकमिति वा । अथ तस्य तु द्रव्यस्य स्वरूपवृत्तिभूतमस्तित्वाख्यं यद्द्रव्यत्वं स खलु तद्भावाख्यो गुण एव भवन् किं हि द्रव्यात्पृथग्भूतत्वेन वर्तते । न वर्तत एव । तर्हि द्रव्यं सत्ताऽतु, स्वयमेव ॥ ११० ॥

गाम है; और वह (उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक परिणाम) अस्तित्वभूत द्रव्यकी वृत्ति स्वरूप होनेसे, 'सत्'से अविशिष्ट, द्रव्यविधायक (द्रव्यका रचयिता) गुण ही है । इस-प्रकार सत्ता और द्रव्यका गुण-गुणी भाव सिद्ध होता है ॥ १०९ ॥

अब, गुण और गुणीके अनेकत्वका खण्डन करते हैं:—

गाथा ११०

अन्वयार्थः—[इह] इस विश्वमें [गुणः इति वा कश्चित्] गुण ऐसा कुछ [पर्यायः इति वा] या पर्याय ऐसा कुछ [द्रव्यं विना नास्ति] द्रव्यके बिना (द्रव्यसे पृथक्) नहीं होता; [द्रव्यत्वं पुनः भावः] और द्रव्यत्व भाव है (अर्थात् अस्तित्व गुण है); [तस्मात्] इसलिये [द्रव्यं स्वयं सत्ता] द्रव्य स्वयं सत्ता (अस्तित्व) है ।

टीका:—वास्तवमें द्रव्यसे पृथग्भूत ऐसा कोई गुण या ऐसी कोई पर्याय कुछ नहीं होता; जैसे—सुवर्णसे पृथग्भूत उसका पीलापन आदि या उसका कुण्डलत्वादि नहीं होता । अब, उस द्रव्यका स्वरूपकी वृत्तिभूत जो अस्तित्व नामसे कहा जानेवाला द्रव्यत्व है उसका 'भाव' नामसे कहा जानेवाला गुण ही होनेसे, क्या उस द्रव्यसे पृथक्-रूपसे रहता है ? नहीं ही रहता । तब फिर द्रव्य स्वयमेव सत्ता हो ॥ ११० ॥

अथ द्रव्यस्य सदुत्पादासदुत्पादयोरविरोधं साधयति—

एवंविहं सहावे दब्बं दब्बत्थपज्जयत्थेहिं ।

सदसब्भावणिवद्धं पादुब्भावं सदा लभदि ॥१११॥

१ एवंविधं स्वभावे द्रव्यं द्रव्यार्थपर्यायार्थाम्याम् ।
सदसद्भावनिबद्धं प्रादुर्भावं सदा लभते ॥ १११ ॥

एवमेतद्यथोदितप्रकारसाकल्याकलङ्कलाञ्जनमनादिनिघनं सत्स्वभावे प्रादुर्भावमास्कन्दति द्रव्यम् । स तु प्रादुर्भावो द्रव्यस्य द्रव्याभिधेयतायां सद्भावनिबद्ध एव स्यात् । पर्यायाभिधेयतायां त्वसद्भावनिबद्ध एव । तथाहि—यदा द्रव्यमेवाभिधीयते न पर्यायास्तदा प्रभावसान-

अब, द्रव्यके सत्-उत्पाद और असत्-उत्पाद होनेमें अविरोध सिद्ध करते हैं:—

गाथा १११

अन्वयार्थः—[एवं विधं द्रव्यं] ऐसा (पूर्वोक्त) द्रव्य [स्वभावे] स्वभावमें [द्रव्यार्थपर्यायार्थाम्यां] द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नयोंके द्वारा [सदसद्भावनिबद्धं प्रादुर्भावं] सद्भावसंबद्ध और असद्भावसंबद्ध उत्पादको [सदा लभते] सदा प्राप्त करता है ।

टीका:—इसप्रकार यथोदित (पूर्वकथित) सर्वप्रकारसे 'अकलंक लक्षणवाला अनादिनिघन यह द्रव्य सत्स्वभावमें (अस्तित्व स्वभावमें) उत्पादको प्राप्त होता है । द्रव्यका वह उत्पाद द्रव्यकी 'अभिधेयताके समय सद्भावसंबद्ध है और पर्यायोंकी कथनीके समय असद्भावसंबद्ध है । इसे स्पष्ट समझाते हैं:—

जब द्रव्य ही कहा जाता है,—पर्यायें नहीं, तब उत्पत्ति-विनाशसे रहित, युग-पत् प्रवर्तमान, द्रव्यको उत्पन्न करनेवाली 'अन्वयशक्तियोंके द्वारा, उत्पत्तिविनाशलक्षण-

१. अकलंक = निर्दोष (इस द्रव्य पूर्वकथित सर्वप्रकार निर्दोष लक्षणवाला है ।)

२. अभिधेयता = कहने योग्यपना; विवक्षा; कथनी ।

३. अन्वयशक्ति = अन्वयरूपशक्ति । (अन्वयशक्तियां उत्पत्ति और नाशसे रहित हैं, एक ही माय प्रवृत्त होती हैं और द्रव्यको उत्पन्न करती हैं । ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इत्यादि आत्मद्रव्यकी अन्वयशक्तियां हैं ।)

वर्जिताभियौगपद्यप्रवृत्ताभिर्द्रव्यनिष्पादिकाभिरन्वयशक्तिभिः प्रभवावसानलाञ्छनाः क्रमप्रवृत्ताः पर्यायनिष्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीस्तास्ताः संक्रामतो द्रव्यस्य सद्भावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः हेमवत् । तथाहि—यदा हेमैवाभिधीयते नाङ्गदादयः पर्यायास्तदा हेमसमानजीविताभियौगपद्यप्रवृत्ताभिर्हेमनिष्पादिकाभिरन्वयशक्तिभिरङ्गदादिपर्यायसमानजीविताः क्रमप्रवृत्ता अङ्गदादिपर्यायनिष्पादिका व्यतिरेकव्यक्तीस्तास्ताः संक्रामतो हेमनः सद्भावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः । यदा तु

वाली, क्रमशः प्रवर्तमान, पर्यायोंकी उत्पादक उन-उन व्यतिरेकव्यक्तियोंको प्राप्त होनेवाले द्रव्यको सद्भावसंबद्ध ही उत्पाद है; सुवर्णकी भाँति । जैसे:—जब सुवर्ण ही कहा जाता है,—बाजूबंध आदि पर्यायों नहीं, तब सुवर्ण जितनी स्थायी, युगपत् प्रवर्तमान, सुवर्णकी उत्पादक अन्वयशक्तियोंके द्वारा, बाजूबंध इत्यादि पर्याय जितने स्थायी, क्रमशः प्रवर्तमान, बाजूबंध इत्यादि पर्यायोंकी उत्पादक उन उन व्यतिरेक व्यक्तियोंको प्राप्त होनेवाले सुवर्णका सद्भावसंबद्ध ही उत्पाद है ।

और जब पर्यायों ही कही जाती हैं, द्रव्य नहीं, तब उत्पत्ति-विनाश जिनका लक्षण है ऐसी, क्रमशः प्रवर्तमान, पर्यायोंको उत्पन्न करनेवाली उन उन व्यतिरेकव्यक्तियोंके द्वारा, उत्पत्ति-विनाश रहित, युगपत् प्रवर्तमान द्रव्यकी उत्पादक अन्वयशक्तियोंको प्राप्त होनेवाले द्रव्यको असद्भावसंबद्ध ही उत्पाद है; सुवर्णकी ही भाँति । यथा—जब बाजूबंधादि पर्यायों ही कही जाती हैं—सुवर्ण नहीं, तब बाजूबंध इत्यादि पर्याय जितनी टिकनेवाली, क्रमशः प्रवर्तमान, बाजूबंध इत्यादि पर्यायोंकी उत्पादक उन उन

१—व्यतिरेकव्यक्ति = भेदरूप प्रगटता । [व्यतिरेकव्यक्तियाँ उत्पत्ति विनाशको प्राप्त होती हैं, क्रमशः प्रवृत्त होती हैं और पर्यायोंको उत्पन्न करती हैं । श्रुतज्ञान, केवलज्ञान इत्यादि तथा स्वरूपाचरण चारित्र, यथाख्यातचारित्र इत्यादि आत्मद्रव्यकी व्यतिरेकव्यक्तियाँ हैं । व्यतिरेक और अन्वयके अर्थोंके लिये १२७ वें पृष्ठका फुटनोट (टिप्पण) देखें ।] २—सद्भावसंबद्ध = सद्भाव-सत्के साथ संबन्ध रखनेवाला,—संकलित । [द्रव्यकी विवक्षाके समय अन्वय शक्तियोंको मुख्य और व्यतिरेकव्यक्तियोंको गौण कर दिया जाता है, इसलिये द्रव्यके सद्भावसंबद्ध उत्पाद (सत्-उत्पाद, विद्यमानका उत्पाद) है ।] ३—असद्भावसंबद्ध = असत्के साथ संबन्धवाला—संकलित । [पर्यायोंकी विवक्षाके समय व्यतिरेकव्यक्तियोंको मुख्य और अन्वयशक्तियोंको गौण किया जाता है, इसलिये द्रव्यके असद्भावसंबद्ध उत्पाद (असत् उत्पाद, अविद्यमानका उत्पाद) है ।]

पर्याया एवामिधीयन्ते न द्रव्यं तदा प्रभवावसानलाञ्छनाभिः क्रमप्रवृत्ताभिः पर्यायनिष्पादिकाभिव्यक्तिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्ताभिः प्रभवावसानवर्जिता यौगपद्यप्रवृत्ता द्रव्यनिष्पादिका अन्वयशक्तीः संक्रामतो द्रव्यस्यासद्भावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः हेमवदेव । तथाहि—यदाङ्गदादिपर्याया एवामिधीयन्ते न हेम तदाङ्गदादिपर्यायसमानजीविताभिः क्रमप्रवृत्ताभिरङ्गदादिपर्यायनिष्पादिकाभिव्यक्तिरेकव्यक्तिभिस्ताभिस्ताभिर्हेमसमानजीविता यौगपद्यप्रवृत्ता हेमनिष्पादिका अन्वयशक्तीः संक्रामतो हेमनोऽसद्भावनिबद्ध एव प्रादुर्भावः । अथ पर्यायाभिधेयतायामप्यसदुत्पत्तौ पर्यायनिष्पादिकास्तास्ता व्यतिरेकव्यक्तयो यौगपद्यप्रवृत्तिमासाद्यान्वयशक्तित्वमापन्नाः पर्यायान्द्रव्योक्त्युः, तथाङ्गदादिपर्यायनिष्पादिकाभिस्ताभिस्ताभिव्यक्तिभिर्यौगपद्यप्रवृत्तिमासाद्यान्वयशक्तित्वमापन्नाभिरङ्गदादिपर्याया अपि हेमीक्रियेरन् । द्रव्याभिधेयतायामपि सदुत्पत्तौ द्रव्य-

व्यतिरेक-व्यक्तियोंके द्वारा, सुवर्ण जितनी टिकनेवाली, युगपत् प्रवर्तमान, सुवर्णकी उत्पादक अन्वयशक्तियोंको प्राप्त सुवर्णके असद्भावयुक्त ही उत्पाद है ।

अब, पर्यायोंकी अभिधेयता (कथनी)के समय भी, असत्-उत्पादमें पर्यायोंको उत्पन्न करनेवाली वे वे व्यतिरेकव्यक्तियाँ युगपत् प्रवृत्ति प्राप्त करके अन्वय शक्तित्वको प्राप्त होती हुई पर्यायोंको, द्रव्य करता है (पर्यायोंकी विवक्षाके समय भी व्यतिरेकव्यक्तियाँ अन्वयशक्तिरूप बनती हुई पर्यायोंको, द्रव्यरूप करती हैं); जैसे बाजूबंध आदि पर्यायोंको उत्पन्न करनेवाली वे-वे व्यतिरेकव्यक्तियाँ युगपत् प्रवृत्ति प्राप्त करके अन्वयशक्तित्वको प्राप्त करती हुई बाजूबंध इत्यादि पर्यायोंको, सुवर्ण करता है । द्रव्यकी अभिधेयताके समय भी, सत्-उत्पादमें द्रव्यकी उत्पादक अन्वयशक्तियाँ क्रमप्रवृत्तिको प्राप्त करके उस उस व्यतिरेकव्यक्तित्वको प्राप्त होती हुई, द्रव्यको पर्यायरूप करती हैं; जैसे सुवर्णकी उत्पादक अन्वयशक्तियाँ क्रमप्रवृत्ति प्राप्त करके उस उस व्यतिरेकव्यक्तित्वको प्राप्त होती हुई, सुवर्णको बाजूबंधादि पर्यायमात्ररूप करती हैं ।

इसलिये द्रव्यार्थिक कथनसे सत्-उत्पाद है, पर्यायार्थिक कथनसे असत्-उत्पाद है,—यह बात अनवद्य (निर्दोष, अबाध्य) है ।

भावार्थः—जो पहले विद्यमान हो उसीकी उत्पत्तिको सत्-उत्पाद कहते हैं, और जो पहले विद्यमान न हो उसकी उत्पत्तिको असत्-उत्पाद कहते हैं । जब पर्यायोंको गौण करके द्रव्यका मुख्यतया कथन किया जाता है, तब तो जो विद्यमान था वही उत्पन्न होता है, (क्योंकि द्रव्य तो तीनों कालमें विद्यमान है); इसलिये द्रव्यार्थिक

निष्पादिका अन्वयशक्तयः क्रमप्रवृत्तिमासाद्य तत्तद्द्रव्यतिरेकव्यक्तित्वमापन्ना द्रव्यं पर्यायीकुर्युः । तथा हेमनिष्पादिकाभिरन्वयशक्तिभिः क्रमप्रवृत्तिमासाद्य तत्तद्द्रव्यतिरेकमापन्नाभिर्हेमाङ्गदादिपर्याय-मात्री क्रियेत । ततो द्रव्यार्थादेशात्सदुत्पादः, पर्यायार्थादेशात्सत् इत्यनवद्यम् ॥ १११ ॥

अथ सदुत्पादमनन्यत्वेन निश्चिनोति—

जीवो भवं भविस्सदि एरोऽमरो वा परो भवीय पुणो ।
किं द्रव्यत्वं प्रजहति ए जहं अरणो क्वहं होदि ॥ ११२ ॥

जीवो भवन् भविष्यति नरोऽमरो वा परो भूत्वा पुनः ।

किं द्रव्यत्वं प्रजहाति न जहदन्यः कथं भवति ॥ ११२ ॥

नयसे तो द्रव्यको सत्-उत्पाद है; और जब द्रव्यको गौण करके पर्यायोंका मुख्यतया कथन किया जाता है तब जो विद्यमान नहीं था वह उत्पन्न होता है (क्योंकि वर्तमानपर्याय भूतकालमें विद्यमान नहीं थी), इसलिये पर्यायार्थिक नयसे द्रव्यके असत्-उत्पाद है ।

यहाँ यह लक्ष्यमें रखना चाहिये कि द्रव्य और पर्यायें भिन्न भिन्न वस्तुयें नहीं हैं; इसलिये पर्यायोंकी विवक्षाके समय भी, असत्-उत्पादमें, जो पर्यायें हैं वे द्रव्य ही हैं, और द्रव्यकी विवक्षाके समय भी, सत्-उत्पादमें, जो द्रव्य है वे पर्यायें ही हैं ॥ १११ ॥

अब (सर्व पर्यायोंमें द्रव्य अनन्य है अर्थात् वह का वही है, इसलिये उसके सत्-उत्पाद है,—इसप्रकार) सत्-उत्पादको अनन्यत्वके द्वारा निश्चित करते हैं:—

गाथा ११२

अन्वयार्थः—[जीवः] जीव [भवन्] परिणमित होता हुआ [नरः] मनुष्य, [अमरः] देव [वा] अथवा [परः] अन्य (तिर्यच, नारकी या सिद्ध) [भविष्यति] होगा, [पुनः] परन्तु [भूत्वा] मनुष्य देवादि होकर [किं] क्या वह [द्रव्यत्वं प्रजहाति] द्रव्यत्वको छोड़ देता है ? [न जहत्] नहीं छोड़ता हुआ वह [अन्यः कथं भवति] अन्य कैसे हो सकता है ? (अर्थात् वह अन्य नहीं, वहका वही है ।)

द्रव्यं हि तावद्द्रव्यत्वभूतामन्वयशक्तिं नित्यमप्यपरित्यजद्भवति सदेव । यस्तु द्रव्यस्य पर्यायभूताया व्यतिरेकव्यक्तेः प्रादुर्भावः तस्मिन्नपि द्रव्यत्वभूताया अन्वयशक्तेरप्रच्यवनात् द्रव्यमनन्यदेव । ततोऽनन्यत्वेन निश्चीयते द्रव्यस्य सदुत्पादः । तथाहि—जीवो द्रव्यं भवकार-
कर्तिर्यग्मनुष्यदेवसिद्धत्वानामन्यतमेन पर्यायेण द्रव्यस्य पर्यायदुर्लभितृप्तित्वादवश्यमेव भवि-
ष्यति । स हि भूत्वा च तेन किं द्रव्यत्वभूतामन्वयशक्तिमुज्झति, नोज्झति । यदि नोज्झति कथ-
मन्यो नाम स्यात्, येन प्रकटितत्रिकोटिसचाकः स एव न स्यात् ॥ ११२ ॥

टीकाः— प्रथम तो द्रव्य द्रव्यत्वभूत अन्वयशक्तिको कभी भी न छोड़ता हुआ सत् ही है । और द्रव्यके जो पर्यायभूत व्यतिरेकव्यक्तिका उत्पाद होता है उसमें भी द्रव्यत्व-
भूत अन्वयशक्तिका अच्युतत्व होनेसे द्रव्य अनन्य ही है, (अर्थात् उस उत्पादमें भी अन्व-
यशक्ति अपतित-अविनष्ट-निश्चल होनेसे द्रव्य वहका वही है, अन्य नहीं ।) इसलिये
अनन्यत्वके द्वारा द्रव्यका सत्-उत्पाद निश्चित होता है, (अर्थात् उपरोक्त कथनानुसार
द्रव्यका द्रव्यापेक्षासे अनन्यत्व होनेसे, उसके सत्-उत्पाद है,—ऐसा अनन्यत्वके द्वारा सिद्ध
होता है ।)

इसी बातको उदाहरणपूर्वक स्पष्ट करते हैंः—

जीव द्रव्य होनेसे और द्रव्य पर्यायोंमें वर्तनेसे जीव नारकत्व, तिर्यचत्व,
मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्वमेंसे किसी एक पर्यायमें अवश्य (परिणमित) होगा ।
परन्तु वह जीव उस पर्यायरूप होकर क्या द्रव्यत्वभूत अन्वयशक्तिको छोड़ता है ? नहीं
छोड़ता यदि नहीं छोड़ता तो वह अन्य कैसे हो सकता है कि जिससे त्रिकोटि सत्ता
(तीनप्रकारकी सत्ता, त्रैकालिक अस्तित्व) जिसके प्रगट है ऐसा वह (जीव), वही न
हो ? (अर्थात् तीनों कालमें विद्यमान वह जीव अन्य नहीं, वहका वही है ।)

भावार्थः—जीव मनुष्य-देवादिक पर्यायरूप परिणमित होता हुआ भी अन्य
नहीं हो जाता, अनन्य रहता है, वहका वही रहता है; क्योंकि 'वही यह देवका जीव
है, जो पूर्वभवमें मनुष्य था और अमुक भवमें तिर्यच था' ऐसा ज्ञान हो सकता है ।
इसप्रकार जीवकी भाँति प्रत्येक द्रव्य अपनी सर्व पर्यायोंमें वहका वही रहता है, अन्य
नहीं हो जाता,—अनन्य रहता है । इसप्रकार द्रव्यका अनन्यत्व होनेसे द्रव्यका सत्-उत्पाद
निश्चित होता है ॥ ११२ ॥

अथासदुत्पादमन्यत्वेन निश्चिनोति—

मणुवो ए होदि देवो देवो वा माणुसो व सिद्धो वा ।

एवं अहोज्जमाणो अणरण भावं कथं लहदि ॥ ११३ ॥

मनुजो न भवति देवो देवो वा मानुषो वा सिद्धो वा ।

एवमभवन्नन्यभावं कथं लभते ॥ ११३ ॥

पर्याया हि पर्यायभूताया आत्मव्यतिरेकव्यक्तेः काल एव सत्त्वात्ततोऽन्यकालेषु भवन्त्य-
सन्त एव । यश्च पर्यायाणां द्रव्यत्वभूतयान्वयशक्त्यानुस्यूतः क्रमानुपाती स्वकाले प्रादुर्भावः तस्मि-
न्यपर्यायभूताया आत्मव्यतिरेकव्यक्तेः पूर्वमसत्त्वात्पर्याया अन्य एव । ततः पर्यायाणामन्यत्वेन

अब, असत्-उत्पादको अन्यत्वके द्वारा निश्चित करते हैं:—

गाथा ११३

अन्वयार्थः—[मनुजः] मनुष्य [देवः न भवति] देव नहीं है, [वा] अथवा
[देवः] देव [मानुषः वा सिद्धः वा] मनुष्य या सिद्ध नहीं है; [एवं अभवन्] ऐसा न
होता हुआ [अनन्य भावं कथं लभते] अनन्यभावको कैसे प्राप्त हो सकता है ?

टीका:—पर्यायं पर्यायभूत स्वव्यतिरेकव्यक्तिके कालमें ही सत् (विद्यमान)
होनेसे, उससे अन्य कालोंमें असत् (अविद्यमान) ही हैं । और पर्यायोका द्रव्यत्वभूत अन्वय-
शक्तिके साथ गुंथा हुआ (एकरूपतासे युक्त) जो क्रमानुपाती (क्रमानुसार) स्वकालमें
उत्पाद होता है उसमें पर्यायभूत स्वव्यतिरेकव्यक्तिका पहले असत्त्व होनेसे, पर्यायं अन्य
हैं । इसलिये पर्यायोंकी अन्यताके द्वारा द्रव्यका—जो कि पर्यायोंके स्वरूपका कर्ता,
करण और अधिकरण होनेसे पर्यायोंसे अपृथक् है,—असत्-उत्पाद निश्चित
होता है ।

इस बातको (उदाहरण देकर) स्पष्ट करते हैं:—

मनुष्य, देव या सिद्ध नहीं है, और देव, मनुष्य या सिद्ध नहीं है; ऐसा न
होता हुआ अनन्य (वहका वही) कैसे हो सकता है, कि जिससे अन्य ही न हो और
जिससे जिसके मनुष्यादि पर्यायें उत्पन्न होती हैं ऐसा जीव द्रव्य भी,—जिसकी कंकणादि
पर्यायें उत्पन्न होती हैं ऐसे सुवर्णकी भाँति—पद-पद पर (प्रति पर्याय पर) अन्य न

निश्चीयते पर्यायस्वरूपकर्तृकरणाधिकरणभूतत्वेन पर्यायेभ्योऽपृथग्भूतस्य द्रव्यस्यासदुत्पादः ।
तथाहि—न हि मनुजस्त्रिदशो वा सिद्धो वा स्यात् न हि त्रिदशो मनुजो वा सिद्धो वा स्यात् ।
एवमसन् कथमनन्यो नाम स्यात् येनान्य एव न स्यात् । येन च निष्पद्यमानमनुजादिपर्यायं
जायमानवल्यादिविकारं काञ्चनमिव जीवद्रव्यमपि प्रतिपदमन्यन्न स्यात् ॥ ११३ ॥

अथैकद्रव्यस्यान्यत्वानन्यत्वविप्रतिषेधमुद्धुनोति—

द्रव्यद्विगुणं सर्वं द्रव्यं तं पञ्जयद्विगुणं पुनो ।

हवदि य अरणमणरणं तत्काले तन्मयत्तादो ॥ ११४ ॥

द्रव्यार्थिकेन सर्वं द्रव्यं तत्पर्यायार्थिकेन पुनः ।

भवति चान्यदनन्यत्तकाले तन्मयत्वात् ॥ ११४ ॥

हो ? [जैसे कंकण, कुण्डल इत्यादि पर्यायें अन्य हैं, (भिन्न भिन्न हैं, वे की वे ही नहीं हैं) इसलिये उन पर्यायोंका कर्ता सुवर्ण भी अन्य है, इसीप्रकार मनुष्य, देव इत्यादि पर्यायें अन्य हैं, इसलिये उन पर्यायोंका कर्ता जीव द्रव्य भी पर्यायापेक्षासे अन्य है ।]

भावार्थः— जीवके अनादि अनन्त होने पर भी, मनुष्य पर्यायकालमें देवपर्यायकी या स्वात्मोपलब्धिरूप सिद्धपर्यायकी अप्राप्ति है, अर्थात् मनुष्य, देव या सिद्ध नहीं है, इसलिये वे पर्यायें अन्य अन्य हैं । ऐसा होनेसे, उन पर्यायोंका कर्ता, साधन और आवार जीव भी पर्यायापेक्षासे अन्यत्वको प्राप्त होता है । इसप्रकार जीवकी भाँति प्रत्येक द्रव्यके पर्यायापेक्षासे अन्यत्व है । ऐसा होनेसे द्रव्यके असत्-उत्पाद है,—यह निश्चित हुआ ॥ ११३ ॥

अब, एक ही द्रव्यके अन्यत्व और अनन्यत्व होनेमें जो विरोध है, उसे दूर करते हैं । (अर्थात् उसमें विरोध नहीं आता, यह बतलाते हैं) :—

श्लोका ११४

अन्वयार्थः—[द्रव्यार्थिकेन] द्रव्यार्थिक नयसे [सर्वं] सब [द्रव्यं] द्रव्य है; [पुनः च] और [पर्यायार्थिकेन] पर्यायार्थिक नयसे [तत्] वह (द्रव्य) [अन्यत्] अन्य-अन्य है, [तत्काले तन्मयत्वात्] क्योंकि उस समय तन्मय होनेसे [अनन्यत्] (द्रव्य पर्यायोंसे) अनन्य है ।

सर्वस्य हि वस्तुनः सामान्यविशेषात्मकत्वाच्चत्स्वरूपमुत्पश्यतां यथाक्रमं सामान्यविशेषौ परि-
च्छिन्दती द्वे किल चक्षुषी, द्रव्यार्थिकं पर्यायार्थिकं चेति । तत्र पर्यायार्थिकमेकान्तनिमीलितं
विधाय केवलोन्मीलितेन द्रव्यार्थिकेन यदावलोक्यते तदा नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्याया-
त्मकेषु विशेषेषु व्यवस्थितं जीवसामान्यमेकमवलोक्यतामनवलोकितविशेषाणां तत्सर्वजीवद्रव्यमिति
प्रतिभाति । यदा तु द्रव्यार्थिकमेकान्तनिमीलितं केवलोन्मीलितेन पर्यायार्थिकेनावलोक्यते तदा
जीवद्रव्ये व्यवस्थितान्नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मकान् विशेषाननेकानवलोक्यतामनव-
लोकितसामान्यानामन्यदन्यत्प्रतिभाति । द्रव्यस्य तच्चद्विशेषकाले तच्चद्विशेषेभ्यस्तन्मयत्वेनानन्य-
त्वात् गणतृणपर्णदारुमयहव्यवाहवत् । यदा तु ते उभे अपि द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिके तुल्य-

टीकाः—वास्तवमें सभी वस्तु सामान्यविशेषात्मक होनेसे वस्तुका स्वरूप
देखनेवालोंके क्रमशः (१) सामान्य और (२) विशेषको जाननेवाली दो आँखें हैं—(१)
द्रव्यार्थिक और (२) पर्यायार्थिक ।

इनमेंसे पर्यायार्थिक चक्षुको सर्वथा बन्द करके जब मात्र खुली हुई द्रव्यार्थिक
चक्षुके द्वारा देखा जाता है तब नारकत्व, तिर्यचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्व—
पर्यायस्वरूप विशेषोंमें रहनेवाले एक जीवसामान्यको देखनेवाले और विशेषोंको न
देखनेवाले जीवोंको 'वह सब जीव द्रव्य है' ऐसा भासित होता है । और जब द्रव्यार्थिक
चक्षुको सर्वथा बन्द करके मात्र खुली हुई पर्यायार्थिक चक्षुके द्वारा देखा जाता है तब
जीवद्रव्यमें रहनेवाले नारकत्व, तिर्यचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्व पर्यायस्वरूप
अनेक विशेषोंको देखनेवाले और सामान्यको न देखनेवाले जीवोंको (वह जीव द्रव्य)
अन्य-अन्य भासित होता है, क्योंकि द्रव्य उन-उन विशेषोंके समय तन्मय होनेसे
उन-उन विशेषोंसे अनन्य है,—कण्डे, घास, पत्ते और काण्ठमय अग्निकी भाँति । (जैसे
घास, लकड़ी इत्यादिकी अग्नि उस-उससमय घासमय, लकड़ीमय इत्यादि होनेसे घास
लकड़ी इत्यादिसे अनन्य है, उसीप्रकार द्रव्य उन-उन पर्यायरूप विशेषोंके समय तन्मय
होनेसे उनसे अनन्य है,—पृथक् नहीं है ।) और जब उन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक—
दोनों आँखोंको एक ही साथ खोलकर उनके द्वारा और इनके (द्रव्यार्थिक तथा पर्याया-
र्थिक चक्षुओंके) द्वारा देखा जाता है तब नारकत्व, तिर्यचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्व
पर्यायोंमें रहनेवाला जीवसामान्य तथा जीवसामान्यमें रहनेवाले नारकत्व, तिर्यचत्व, मनुष्य-
त्व, देवत्व और सिद्धत्वपर्यायस्वरूप विशेष तुल्यकालमें ही (एक ही साथ) दिखाई देते हैं ।

कालोन्मीलिते विधाय तत इतश्चावलोक्यते तदा नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायेषु व्यवस्थितं जीवसामान्यं जीवसामान्ये च व्यवस्थिता नारकतिर्यङ्मनुष्यदेवसिद्धत्वपर्यायात्मका विशेषाश्च तुल्यकालमेवावलोक्यन्ते । तत्रैकचक्षुरवलोकनमेकदेशावलोकनं, द्विचक्षुरवलोकनं सर्वावलोकनं । ततः सर्वावलोकने द्रव्यस्यान्यत्वानन्यत्वं च न विप्रतिषिध्यते ॥ ११४ ॥

अथ सर्वविप्रतिषेधनिषेधिकां सप्तभङ्गीमवतारयति—

अत्थि त्ति य णत्थि त्ति य ह्वदि अवत्तव्वमिदि पुणो दव्वं ।
पज्जायेण तु केण वि तदुभयमादिट्टमण्णं वा ॥ ११५ ॥

अस्तीति च नास्तीति च भवत्यवक्तव्यमिति पुनर्द्रव्यम् ।

पर्यायेण तु केनचित् तदुभयमादिष्टमन्यद्वा ॥ ११५ ॥

वहाँ एक आँवसे देखा जाना एकदेश अवलोकन है और दोनों आँवोंसे देखना सर्वावलोकन (सम्पूर्ण अवलोकन) है । इसलिये सर्वावलोकनमें द्रव्यके अनन्यत्व और अनन्यत्व विरोधको प्राप्त नहीं होते ।

भावार्थः—प्रत्येक द्रव्य सामान्य-विशेषात्मक है, इसलिये प्रत्येक द्रव्य वह का वही भी रहता है और बदलता भी है । द्रव्यका स्वरूप ही ऐसा उभयात्मक है, इसलिये द्रव्यके अनन्यत्वमें और अन्यत्वमें विरोध नहीं है । जैसे—मरीचि और भगवान महावीरका जीवसामान्यकी अपेक्षासे अनन्यत्व और जीवके विशेषोंकी अपेक्षासे अन्यत्व होनेमें किसी प्रकारका विरोध नहीं है ।

द्रव्यार्थिकनयरूपी एक चक्षुसे देखनेपर द्रव्य सामान्य ही ज्ञात होता है, इसलिये द्रव्य अनन्य अर्थात् वहका वही भासित होता है, और पर्यायार्थिकनयरूपी दूसरी एक चक्षुसे देखने पर द्रव्यके पर्यायरूप विशेष ज्ञात होते हैं, इसलिये द्रव्य अन्य-अन्य भासित होता है । तथा दोनों नयरूपी दोनों चक्षुओंसे देखने पर द्रव्य सामान्य और द्रव्यके विशेष-दोनों ज्ञात होते हैं, इसलिये द्रव्य अनन्य तथा अन्य-अन्य दोनों भासित होता है ॥ ११४ ॥

अब, समस्त विरोधोंको दूर करनेवाली सप्तभङ्गी प्रगट करते हैं:—

गाथा ११५

अन्वयार्थः—[द्रव्यं] द्रव्य [अस्ति इति च] किसी पर्यायसे 'अस्ति' [नास्ति

स्यादस्त्येव १ स्यान्नास्त्येव २ स्यादवक्तव्यमेव ३ स्यादस्तिनास्त्येव ४ स्यादस्त्यवक्तव्य-
मेव ५ स्यान्नास्त्यवक्तव्यमेव ६ स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्यमेव ७, स्वरूपेण १ पररूपेण २ स्वपर-
रूपयौगपद्येन ३ स्वपररूपक्रमेण ४ स्वरूपस्वपररूपयौगपद्याभ्यां ५ पररूपस्वपररूपयौगपद्याभ्यां
६ स्वरूपपररूपस्वपररूपयौगपद्यैरादिश्यमानस्य स्वरूपेण सतः, पररूपेणासतः, स्वपररूपाभ्यां
युगपद्वक्तुमशक्यस्य, स्वपररूपाभ्यां क्रमेण सतोऽसतश्च, स्वरूपस्वपररूपयौगपद्याभ्यां सतो

इति च] किसी पर्यायसे 'नास्ति' [पुनः] और [अवक्तव्यम् इति भवति] किसी पर्यायसे
'अवक्तव्य' है, [केनचित् पर्यायेण तु तदुभयं] और किसी पर्यायसे 'अस्ति-नास्ति'
(दोनों) [वा] अथवा [अन्यत् आदिष्टम्] किसी पर्यायसे अन्य तीन भंगरूप कहा
गया है ।

टीका:—द्रव्य (१) स्वरूपापेक्षासे 'स्यात् अस्ति'; (२) पररूपकी अपेक्षासे
'स्यात् नास्ति'; (३) स्वरूप-पररूपकी युगपत् अपेक्षासे 'स्यात् अवक्तव्य'; (४)
स्वरूप-पररूपके क्रमकी अपेक्षासे 'स्यात् अस्ति-नास्ति'; (५) स्वरूपकी और
स्वरूप-पररूपकी युगपत् अपेक्षासे 'स्यात् अस्तिअवक्तव्य'; (६) पररूपकी और
स्वरूप-पररूपकी युगपत् अपेक्षासे 'स्यात् नास्ति अवक्तव्य'; और (७) स्वरूपकी,
पररूपकी तथा स्वरूप-पररूपकी युगपत् अपेक्षासे 'स्यात् अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य' है ।

द्रव्यका कथन करनेमें, (१) जो स्वरूपसे 'सत्' है; (२) जो पररूपसे 'असत्'
है; (३) जिसका स्वरूप और पररूपसे युगपत् कथन अशक्य है; (४) जो स्वरूपसे और
पररूपसे क्रमशः 'सत् और असत्' है; (५) जो स्वरूपसे और स्वरूप-पररूपसे युगपत्
'सत् और अवक्तव्य' है; (६) जो पररूपसे, और स्वरूप-पररूपसे युगपत् 'असत् और
अवक्तव्य' है; तथा (७) जो स्वरूपसे, पर-रूप और स्वरूपपररूपसे युगपत् 'सत्, असत् और
अवक्तव्य' है;—ऐसे अनन्त धर्मोंवाले द्रव्यके एक एक धर्मका आश्रय लेकर^१विवक्षित-

१—'स्यात्'—कथंचित् ; किसीप्रकार; किसी अपेक्षासे । (प्रत्येक द्रव्य स्वचतुष्टयकी अपेक्षासे-स्व
द्रव्य, स्व-क्षेत्र, स्व काल और स्व-भावकी अपेक्षासे—'अस्ति' है । शुद्ध जीवका स्वचतुष्टय इसप्रकार है:—
शुद्ध गुणपर्यायोंका आधारभूत शुद्धात्मद्रव्य द्रव्य है; लोकाकाशप्रमाण शुद्ध असंख्यप्रदेश क्षेत्र है; शुद्ध
पर्यायरूपसे परिणत वर्तमान समय काल है, और शुद्ध चैतन्यभाव है ।) २. अवक्तव्य = जो कहा न जा सके ।
(एक ही साथ स्वरूप तथा पररूपकी अपेक्षासे द्रव्य कथनमें नहीं आसकता, इसलिये 'अवक्तव्य' है ।)
३—विवक्षित (कथनीय) धर्मको मुख्य करके उसका प्रतिपादन करनेसे और अविवक्षित (न कहने योग्य)
धर्मको गौण करके उसका निषेध करनेसे सप्तभंगी प्रगट होती है ।

वक्तुमशक्यस्य च, पररूपस्वरूपरूपयौगपद्याभ्यामसतो वक्तुमशक्यस्य च, स्वरूपपररूपस्वरूपरूप-
यौगपद्यैः सतोऽसतो वक्तुमशक्यस्य चानन्तधर्मणो द्रव्यस्यैकैकं धर्ममाश्रित्य विवक्षिताविवक्षित-
विधिप्रतिषेधाभ्यामवतरन्ती सप्तमङ्गिकैवकारविश्रान्तमश्रान्तसमुच्चार्यमाणस्यात्कारामोघमन्त्रपदेन
समस्तमपि विप्रतिषेधविषमोहमुदस्यति ॥ ११५ ॥

अथ निर्धार्यमाणत्वेनोदाहरणीकृतस्य जीवस्य मनुष्यादिपर्यायाणां क्रियाफलत्वेना-
न्यत्वं द्योतयति—

एसो ति णत्थि कोई ण एत्थि किग्गिया महावणिव्वता ।

किग्गिया द्वि णत्थि अफला धम्मो जदि णिप्फलो परमो ॥ ११६ ॥

एष इति नास्ति कश्चिन्न नास्ति क्रिया स्वभावनिर्वृत्ता ।

क्रिया द्वि नास्त्याफला धर्मो यदि निःफलः परमः ॥ ११६ ॥

अविवक्षितताके विधि-निषेधके द्वारा प्रगट होनेवाली सप्तभंगी सतत सम्यक्तया
उच्चारित करनेपर 'स्यात्काररूपी अमोघ मंत्र पदके द्वारा 'एव' कारमें रहनेवाले
समस्त विरोध-विषके मोहको दूर करती है ॥ ११५ ॥

अब, जिसका निर्धार करना है, इसलिये जिसे उदाहरणरूप बनाया गया है
ऐसे जीवकी मनुष्यादि पर्यायों क्रियाका फल है इसलिये उनका अन्यत्व (अर्थात् वे
पर्यायों बदलती रहती हैं, इमप्रकार) प्रकाशित करते हैं:—

गाथा ११६

अन्वयार्थः—[एषः इति कश्चित् नास्ति] (मनुष्यादि पर्यायोंमें) 'यही'
ऐसी कोई (शाश्वत पर्याय) नहीं है; [स्वभाव निर्वृत्ता क्रिया नास्ति न] (क्योंकि

१—स्याद्वादमें अनेकान्तका सूचक 'स्यात्' शब्द सम्यक्तया प्रयुक्त होता है। वह 'स्यात्' पद एकान्तवाद-
में रहनेवाले समस्त विरोधरूपी विषके भ्रमको नष्ट करनेके लिये रामबाण मंत्र है। २—अनेकान्तात्मक
वस्तुस्वभावकी अपेक्षासे रहित एकान्तवादमें मिथ्या एकान्तको सूचित करता हुआ जो 'एव' या 'ही' शब्द
प्रयुक्त होता है वह वस्तुस्वभावसे विपरीत निरूपण करता है, इसलिये उसका यहाँ निषेध किया है।
(अनेकान्तात्मक वस्तुस्वभावका ध्यान चूके बिना, जिस अपेक्षासे वस्तुका कथन चल रहा हो उस अपेक्षासे
उसका निर्णीतत्व,—नियमबद्धत्व,—निरपवादत्व बतलानेके लिये 'एव' या 'ही' शब्द प्रयुक्त होता है, उसका
यहाँ निषेध नहीं समझना चाहिये ।)

इह हि संसारिणो जीवस्यानादिकर्मपुद्गलोपाधिसन्निधिप्रत्ययप्रवर्तमानप्रतिभणविवर्तनस्य क्रिया किल स्वभावनिर्धृचैवास्ति । ततस्तस्य मनुष्यादिपर्यायेषु न कश्चनाप्येष एवेति टङ्कोत्कीर्णोऽस्ति, तेषां पूर्वपूर्वोपमर्दप्रवृत्तक्रियाफलत्वेनोत्तरोत्तरोपमर्द्यमानत्वात् फलममिलष्येत वा मोहसंवलनाविलयनात् क्रियायाः । क्रिया हि तावच्चेतनस्य पूर्वोत्तरदशाविशिष्टचैतन्यपरिणामात्मिका । सा पुनरणोरण्वन्तरसंगतस्य परिणतिरिवात्मनो मोहसंवलितस्य द्व्यणुककार्यस्येव मनुष्यादि-

संसारी जीवके) स्वभावनिष्पन्न क्रिया नहीं हो सो बात नहीं है; (अर्थात् विभावस्वभावसे उत्पन्न होनेवाली रागद्वेषमय क्रिया अवश्य है ।) [यदि] और यदि [परमः धर्मः निःफलः] परमधर्म अफल है तो [क्रिया हि अफला नास्ति] क्रिया अवश्य अफल नहीं है; (अर्थात् एक वीतरागभाव ही मनुष्यादिपर्यायरूप फल उत्पन्न नहीं करती; रागद्वेषमय क्रिया तो अवश्य वह फल उत्पन्न करती है ।)

टीका:—यहाँ (इस विश्वमें), अनादिकर्मपुद्गलकी उपाधिके सदभावके आश्रय (कारण) से जिसके प्रतिक्षण 'विवर्तन' होता रहता है ऐसे संसारी जीवको क्रिया वास्तवमें स्वभाव निष्पन्न ही है; इसलिये उसके मनुष्यादि पर्यायोंमेंसे कोई भी पर्याय 'यही' है ऐसी टङ्कोत्कीर्ण नहीं है; क्योंकि वे पर्यायें पूर्व-पूर्व पर्यायोंके नाशमें प्रवर्तमान क्रिया फलरूप होनेसे 'उत्तर-उत्तर' पर्यायोंके द्वारा नष्ट होती हैं । और क्रियाका फल तो, मोहके साथ 'मिलनका नाश न हुआ होनेसे मानना चाहिये; क्योंकि-प्रथम तो, क्रिया चेतनकी पूर्वोत्तर दशासे 'विशिष्ट चैतन्य परिणाम स्वरूप है; और वह (क्रिया) जैसे-दूसरे अणुके साथ युक्त (किसी अणुकी परिणति 'द्विअणुक कार्यकी निष्पादक है, उसी प्रकार मोहके साथ मिलित आत्माके संबंधमें, मनुष्यादि कार्यकी निष्पादक होनेसे सफल ही है; और जैसे दूसरे अणुके साथका संबंध जिसका नष्ट होगया है ऐसे अणुकी परिणति द्वि-अणुक कार्यकी निष्पादक नहीं है, उसीप्रकार मोहके साथ मिलनका

१. विवर्तन = विपरिणमन; पलटा (फेरफार) होते रहना ।

२. उत्तर उत्तर — बाढ़की । (मनुष्यादिपर्यायें रागद्वेषमय क्रियाकी फलरूप हैं, इसलिये कोई भी पर्याय पूर्व पर्यायको नष्ट करती है और बाढ़की पर्यायसे स्वयं नष्ट होती है ।) ३. मिलन — मिल जाना; मिश्रितपना; संबंध; जुड़ान । ४. विशिष्ट — भेदयुक्त । (पूर्वकी और पश्चात्की अवस्थाके भेदसे भेदयुक्त चैतन्य परिणाम आत्माकी क्रिया है ।) ५. द्विअणुककार्यकी निष्पादक = दो अणुओंसे बने हुये स्कंधरूप कार्यकी उत्पादक ।

कार्यस्य निष्पादकत्वात्सफलैव । सैव मोहसंवलनविलयने पुनरणोरुच्छिन्नाण्वन्तरसंगमस्य परिणतिरिव द्रव्यणुककार्यस्येव मनुष्यादिकार्यस्यानिष्पादकत्वात् परमद्रव्यस्वभावभूततया परमधर्माख्या भवत्यफलैव ॥ ११६ ॥

अथ मनुष्यादिपर्यायाणां जीवस्य क्रियाफलत्वं व्यनक्ति—

कम्मं णामसमकम्मं सभावमध अण्णो महावेण ।

अभिभूय णरं तिरियं णेरइयं वा सुरं कुणदि ॥ ११७ ॥

कर्म नामममाख्यं स्वभावमथात्मनः स्वभावेन ।

अभिभूय नरं तिर्यञ्चं नैरयिकं वा सुरं करोति ॥ ११७ ॥

क्रिया खल्वात्मना प्राप्यत्वात्कर्म, तन्निमित्तप्राप्तपरिणामः पुद्गलोऽपि कर्म, तत्कार्यभूता

नाश होने पर वही क्रिया—द्रव्यकी परमस्वभावभूत होनेसे 'परमधर्म' नामसे कही जाने-वाली—मनुष्यादि कार्यकी निष्पादक न होनेसे अफल ही है ।

भावार्थः— चैतन्यपरिणति आत्माकी क्रिया है । मोह रहित क्रिया मनुष्यादि पर्यायरूप फल उत्पन्न नहीं करती, और मोह सहित क्रिया अवश्य मनुष्यादि पर्यायरूप फल उत्पन्न करती है । मोह सहित भाव एक प्रकारके नहीं होते, इसलिये उसके फलरूप मनुष्यादि पर्यायों भी टंकोत्कीर्ण—शाश्वत एक रूप नहीं होतीं ॥ ११६ ॥

अब, यह व्यक्त करते हैं कि मनुष्यादि पर्यायों जीवको क्रियाके फल हैं—

गाथा ११७

अन्वयार्थः—[अथ] वहाँ [नामममाख्यं कर्म] 'नाम' संज्ञावाला कर्म [स्वभावेन] अपने स्वभावसे [आत्मनः स्वभावं अभिभूय] जीवके स्वभावका पराभव करके, [नरं तिर्यञ्चं नैरयिकं वा सुरं] मनुष्य, तिर्यच, नारक अथवा देव (इन पर्यायों)को [करोति] करता है ।

टीकाः—क्रिया वास्तवमें आत्माके द्वारा प्राप्य होनेसे कर्म है, (अर्थात् आत्मा क्रियाको प्राप्त करता है—पहुँचता है—इसलिये वास्तवमें क्रिया ही आत्माका कर्म है ।)

१. मूल गाथामें प्रयुक्त 'क्रिया' शब्दसे मोहसहित क्रिया समझनी चाहिये । मोहरहित क्रियाको तो 'परम धर्म' नाम दिया गया है ।

मनुष्यादिपर्याया जीवस्य क्रियाया मूलकारणभूतायाः प्रवृत्तत्वात् क्रियाफलमेव स्युः । क्रियाऽभावे पुद्गलानां कर्मत्वाभावात्तत्कार्यभूतानां तेषामभावात् । अथ कथं ते कर्मणः कार्यभावमायान्ति, कर्मस्वभावेन जीवस्वभावमभिभूय क्रियमाणत्वात् प्रदीपवत् । तथाहि—यथा खलु ज्योतिः-स्वभावेन तैलस्वभावमभिभूय क्रियमाणः प्रदीपो ज्योतिःकार्यं तथा कर्मस्वभावेन जीवस्वभावमभिभूय क्रियमाणा मनुष्यादिपर्यायाः कर्मकार्यम् ॥ ११७ ॥

अथ कुतो मनुष्यादिपर्यायेषु जीवस्य स्वभावाभिभवो भवतीति निर्धारयति—

परिणारयतिरियगुरा जीवा खलु णामकम्मणिव्वत्ता ।

ण हि ते लद्धमहावा परिणममाणा मकम्माणि ॥ ११८ ॥

उसके निमित्तसे परिणमन (द्रव्यकर्मरूप) को प्राप्त होता हुआ पुद्गल भी कर्म है । उस (पुद्गलकर्म) की कार्यभूत मनुष्यादि पर्यायें मूलकारणभूत जीवकी क्रियासे प्रवर्तमान होनेसे क्रियाफल ही हैं; क्योंकि क्रियाके अभावमें पुद्गलोंको कर्मत्वका अभाव होनेसे उस (पुद्गल कर्म) की कार्यभूत मनुष्यादि पर्यायोंका अभाव होता है ।

वहाँ, वे मनुष्यादि पर्यायें कर्मके कार्य कैसे हैं ? (सो कहते हैं कि—) वे कर्मस्वभावके द्वारा जीवके स्वभावका पराभव करके की जाती हैं, इसलिये; दीपककी भाँति । यथा:—ज्योति (लौ) के स्वभावके द्वारा तेलके स्वभावका पराभव करके किया जानेवाला दीपक ज्योतिका कार्य है, उसीप्रकार कर्मस्वभावके द्वारा जीवके स्वभावका पराभव करके की जानेवाली मनुष्यादि पर्यायें कर्मके कार्य हैं ।

भावार्थः—मनुष्यादि पर्यायें ११६ वीं गाथामें कही गई रागद्वेषमय क्रियाके फल हैं; क्योंकि उस क्रियासे कर्मबन्ध होता है, और कर्म जीवके स्वभावका पराभव करके मनुष्यादि पर्यायोंको उत्पन्न करते हैं ॥ ११७ ॥

अब यह निर्णय करते हैं कि मनुष्यादि पर्यायोंमें जीवके स्वभावका पराभव किस कारणसे होता है ? :—

१. ज्योति = ज्योति ज्योत, अग्नि ।

नरनारकतिर्यक्सुरा जीवाः खलु नामकर्मनिर्वृत्ताः ।

न हि ते लब्धस्वभावाः परिणममानाः स्वकर्माणि ॥ ११८ ॥

अमी मनुष्यादयः पर्याया नामकर्मनिर्वृत्ताः सन्ति तावत् । न पुनरेतावतापि तत्र जीवस्य स्वभावाभिभवोऽस्ति । यथा कनकबद्धमाणिक्यकङ्कणेषु माणिक्यस्य । यत्तत्र नैव जीवः स्वभाव-मुपलभते तत् स्वकर्मपरिणमनात् पयःपूरवत् । यथा खलु पयःपूरः प्रदेशस्वादाभ्यां पित्तुमन्द-

गाथा ११८

अन्वयार्थः—[नरनारकतिर्यक्सुराः जीवाः] मनुष्य, नारक, तिर्यच और देवरूप जीव [खलु] वास्तवमें [नामकर्म निर्वृत्ताः] नामकर्मसे निष्पन्न हैं । [हि] वास्तवमें [स्वकर्माणि] वे अपने कर्मरूपसे [परिणममानाः] परिणमित होते हैं इसलिये [ते न लब्धस्वभावाः] उन्हें स्वभावकी उपलब्धि नहीं है ।

टीकाः—प्रथम तो यह मनुष्यादि पर्यायें नामकर्मसे निष्पन्न हैं, किन्तु इतनेसे भी वहाँ जीवके स्वभावका पराभव नहीं है; जैसे कनकबद्ध (सुवर्णमें जड़े हुये) माणिकवाले कंकणोंमें माणिकके स्वभावका पराभव नहीं होता । जो वहाँ जीव स्वभावको उपलब्ध नहीं करता—अनुभव नहीं करता सो स्वकर्मरूप परिणमित होनेसे है, पानीके पूर (बाढ़)की भाँति । जैसे—पानीका पूर प्रदेशसे और स्वादसे निम्बं—चन्दनादि-वनराजिरूप (नीम, चन्दन इत्यादि वृक्षोंकी लम्बी पंक्तिरूप) परिणमित होता हुआ (अपने) ^१द्रवत्व और ^२स्वादुत्वरूप स्वभावको उपलब्ध नहीं करता, उसीप्रकार आत्मा भी प्रदेशसे और भावसे स्वकर्मरूप परिणमित होनेसे (अपने) अमूर्तत्व और ^३निरुपराग-विशुद्धिमत्वरूप स्वभावको उपलब्ध नहीं करता ।

भावार्थः—मनुष्यादि पर्यायोंमें कर्म कहीं जीवके स्वभावको न तो हनता है और न आच्छादित करता है; परन्तु वहाँ जीव स्वयं ही अपने दोषसे कर्मानुसार परिणमन करता है, इसलिये उसे अपने स्वभावकी उपलब्धि नहीं है । जैसे पानीका पूर प्रदेशकी अपेक्षासे वृक्षोंके रूपसे परिणमित होता हुआ अपने प्रवाहीपनेरूप स्वभावको

१. द्रवत्व = प्रवाहीपना । २. स्वादुत्व = स्वादिष्टपना । ३. निरुपराग विशुद्धिमत्त्व = उपराग (मलिनता, विकार) रहित विशुद्धिवालापना [अरूपीपना और निर्विकार-विशुद्धिवालापना आत्माका स्वभाव है ।]

चन्दनादिवनराजीं परिणमन्न द्रव्यत्वस्वादुत्वस्वभावमुपलभते, तथात्मापि प्रदेशभावाम्यां कर्म-
परिणमनान्नामूर्तत्वनिरुपरागविशुद्धिमत्त्वस्वभावमुपलभते ॥ ११८ ॥

अथ जीवस्य द्रव्यत्वेनावस्थितत्वेऽपि पर्यायैरनवस्थितत्वं द्योतयति—

जायदि एव ण णस्सदि खणभंगसमुब्भवे जणे कोई ।

जो हि भवो सो विलयो संभवविलय ति ते णाणा ॥ ११९ ॥

जायते नैव न नश्यति क्षणभङ्गसमुद्भवे जने कश्चित् ।

यो हि भवः स विलयः संभवविलयाविति तौ नाना ॥ ११९ ॥

इदं तावन्न कश्चिज्जायते न म्रियते च । अथ च मनुष्यदेवतिर्यङ्मनारकात्मको जीवलोकः

उपलब्ध करता हुआ अनुभव नहीं करता, और स्वादकी अपेक्षासे वृक्षरूप परिणमित होता हुआ अपने स्वादिष्टपनेरूप स्वभावको उपलब्ध नहीं करता, उसीप्रकार आत्मा भी प्रदेशकी अपेक्षासे स्वकर्मानुसार परिणमित होता हुआ अपने अमूर्तत्वरूप स्वभावको उपलब्ध नहीं करता और भावकी अपेक्षासे स्वकर्मरूप परिणमित होता हुआ उपरागसे रहित विशुद्धवालापनारूप अपने स्वभावको उपलब्ध नहीं करता । इससे यह निश्चित होता है कि मनुष्यादि पर्यायोंमें जीवोंको अपने ही दोषसे अपने स्वभावकी अनुपलब्धि है, कर्मादिक अन्य किसी कारणसे नहीं । 'कर्म जीवके स्वभावका पराभव करता है' यह कहना तो उपचार कथन है; परमार्थसे ऐसा नहीं है ॥ ११८ ॥

अब, जीवकी द्रव्यरूपसे 'अवस्थितता होने पर भी पर्यायोंसे अनवस्थितता (अनित्यता-अस्थिरता) प्रकाशते हैं:—

गाथा ११९

अन्वयार्थः— [क्षणभङ्गसमुद्भवे जने] प्रतिक्षण उत्पाद और विनाशवाले जीव-
लोकमें [कश्चित्] कोई [न एव जायते] उत्पन्न नहीं होता, और [न नश्यति] न नष्ट
होता है; [हि] क्योंकि [यः भवः सः विलयः] जो उत्पाद है वही विनाश है; [संभव-
विलयौ इति तौ नाना] और उत्पाद तथा विनाश, इसप्रकार वे अनेक (भिन्न) भी हैं ।

टीकाः—प्रथम तो यहाँ न कोई जन्म लेता है और न मरता है, (अर्थात् इस
लोकमें कोई न तो उत्पन्न होता है और न नाशको प्राप्त होता है; और (ऐसा होने

प्रतिक्षणपरिणामित्वादुत्संगितक्षणभङ्गोत्पादः । न च विप्रतिषिद्धमेतत्, संभवविलययोरेकत्व-
नानात्वाभ्याम् । यदा खलु भङ्गोत्पादयोरेकत्वं तदा पूर्वपक्षः, यदा तु नानात्वं तदोत्तरः ।
तथाहि—यथा य एव घटस्तदेव कुण्डमित्युक्ते घटकुण्डस्वरूपयोरेकत्वासंभवात्तदुभयाधारभूता
मृत्तिका संभवति, तथा य एव संभवः स एव विलय इत्युक्ते संभवविलयस्वरूपयोरेकत्वासंभवा-
त्तदुभयाधारभूतं ध्रौव्यं संभवति । ततो देवादिपर्यायि संभवति मनुष्यादिपर्यायि विलीयमाने
च य एव संभवः स एव विलय इति कृत्वा तदुभयाधारभूतं ध्रौव्यवज्जीवद्रव्यं संभाव्यत
एव । ततः सर्वदा द्रव्यत्वेन जीवष्टकोत्कीर्णोऽवतिष्ठते । अपि च यथाऽन्यो घटोऽन्यत्कुण्डमित्युक्ते
तदुभयाधारभूताया मृत्तिकाया अन्यत्वासंभवात् घटकुण्डस्वरूपे संभवतः, तथान्यः संभवोऽन्यो
विलय इत्युक्ते तदुभयाधारभूतस्य ध्रौव्यस्यान्यत्वासंभवात्संभवविलयस्वरूपे संभवतः । ततो

पर भी) मनुष्य-देव-तिर्यन्-नारकात्मक जीवलोक प्रतिक्षण परिणामी होनेसे क्षण-
क्षणमें होनेवाले विनाश और उत्पादके साथ (भी) जुड़ा हुआ है । और यह विरोधको
प्राप्त नहीं होता; क्योंकि उद्भव और विलयका एकत्व और अनेकत्व है । जब उद्भव
और विलयका एकत्व है तब पूर्वपक्ष है, और जब अनेकत्व है तब उत्तरपक्ष है । (अर्थात्—
जब उत्पाद और विनाशके एकत्वकी अपेक्षा ली जाय तब यह पक्ष फलित होता है
कि—‘न तो कोई उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है’; और जब उत्पाद तथा विनाशके
अनेकत्वकी अपेक्षा ली जाय तब प्रतिक्षण होनेवाले विनाश और उत्पादका पक्ष फलित
होता है ।) वह इसप्रकार है:—

जैसे:—‘जो घड़ा है वही कूंडा है’ ऐसा कहा जानेपर, घड़े और कूंडेके
स्वरूपका एकत्व असम्भव होनेसे, उन दोनोंकी आधारभूत मिट्टी प्रगट होती है, उसी-
प्रकार ‘जो उत्पाद है वही विनाश है’ ऐसा कहा जानेपर उत्पाद और विनाशके स्वरूप-
का एकत्व असम्भव होनेसे उन दोनोंका आधारभूत ध्रौव्य प्रगट होता है; इसलिये
देवादिपर्यायिके उत्पन्न होने और मनुष्यादि पर्यायिके नष्ट होने पर, ‘जो उत्पाद है वही
विलय है’ ऐसा माननेसे (इस अपेक्षासे) उन दोनोंका आधारभूत ध्रौव्यवान् जीवद्रव्य
प्रगट होता है (लक्षमें आता है); इसलिये सर्वदा द्रव्यत्वसे जीव टंकोत्कीर्ण रहता है ।

और फिर, जैसे—‘अन्य घड़ा है और अन्य कूंडा है’ ऐसा कहा जानेपर उन
दोनोंकी आधारभूत मिट्टीका अन्यत्व (भिन्न-भिन्नत्व) असंभवित होनेसे घड़ेका और
कूंडेका (दोनोंका भिन्न भिन्न) स्वरूप प्रगट होता है, उसीप्रकार अन्य उत्पाद है और

देवादिपर्याये संभवति मनुष्यादिपर्याये विलीयमाने चान्यः संभवोऽन्यो विलय इति कृत्वा संभवविलयवन्तौ देवादिमनुष्यादिपर्यायौ संभाव्येते । ततः प्रतिक्षणं पर्यायैर्जीवोऽनवस्थितः ॥ ११९ ॥

अथ जीवस्यानवस्थितत्वहेतुमुद्योतयति—

तम्हा दु णत्थि कोई महावसमवट्टिदो त्ति संसारे ।

संसारो पुण किरिया संसरमाणस्स दव्वस्स ॥ १२० ॥

तस्मात्तु नास्ति कश्चित् स्वभावसमवस्थित इति संसारे ।

संसारः पुनः क्रिया संसरतो द्रव्यस्य ॥ १२० ॥

यतः खलु जीवो द्रव्यत्वेनावस्थितोऽपि पर्यायरनवस्थितः, ततः प्रतीयते न कश्चिदपि संसारे स्वभावेनावस्थित इति । यच्चात्रानवस्थितत्वं तत्र संसार एव हेतुः । तस्य मनुष्यादिपर्यायात्म-

अन्य व्यय है' ऐसा कहा जानेपर, उन दोनोंके आधारभूत ध्रौव्यका अन्यत्व असंभवित होनेसे उत्पाद और व्ययका स्वरूप प्रगट होता है; इसलिये देवादि पर्यायके उत्पन्न होने पर और मनुष्यादि पर्यायके नष्ट होने पर, 'अन्य उत्पाद है और अन्य व्यय है' ऐसा माननेसे (इस अपेक्षासे) उत्पाद और व्ययवाली देवादिपर्याय और मनुष्यादिपर्याय प्रगट होती है (लक्षमें आती है); इसलिये जीव प्रतिक्षण पर्यायोंसे अनवस्थित है ॥ ११९ ॥

अथ, जीवकी अनवस्थितताका हेतु प्रगट करते हैं:—

गाथा १२०

अन्वयार्थः—[तस्मात् तु] इसलिये [संसारे] संसारमें [स्वभावसमवस्थितः इति] स्वभावसे अवस्थित ऐसा [कश्चित् नास्ति] कोई नहीं है; (अर्थात् संसारमें किसीका स्वभाव केवल एकरूप रहनेवाला नहीं है); [संसारः पुनः] और संसार तो [संसरतः] संसरण करते हुये (गोल फिरते हुये, परिवर्तित होते हुये) [द्रव्यस्य] द्रव्यकी [क्रिया] क्रिया है ।

टीका:—वास्तवमें जीव द्रव्यत्वसे अवस्थित होनेपर भी पर्यायोंसे अनवस्थित है; इससे यह प्रतीत होता है कि संसारमें कोई भी स्वभावसे अवस्थित नहीं है (अर्थात् किसीका स्वभाव केवल अविचल-एकरूप रहनेवाला नहीं है); और यहाँ जो

कत्वात् स्वरूपेणैव तथाविधत्वात् । अथ यस्तु परिणममानस्य द्रव्यस्य पूर्वोत्तरदशापरित्यागो-
पादानात्मकः क्रियाख्यः परिणामस्तत्संसारस्य स्वरूपम् ॥ १२० ॥

अथ परिणामात्मके संसारे कुतः पुद्गलरत्नेषु येन तस्य मनुष्यादिपर्यायात्मकत्वमित्यत्र
समाधानमुपवर्णयति—

आदा कम्ममलिमसो परिणामं लहदि कम्मसंयुक्तं ।

ततो सिलिसदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामो ॥ १२१ ॥

आत्मा कर्ममलीमसः परिणामं लभते कर्मसंयुक्तम् ।

ततः श्लिष्यति कर्म तस्मात् कर्म तु परिणामः ॥ १२१ ॥

यो हि नाम संसारनामायमात्मनस्तथाविधः परिणामः स एव द्रव्यकर्मरत्नेषहेतुः । अथ

अनवस्थितता है उसमें संसार ही हेतु है; क्योंकि वह (संसार) मनुष्यादि पर्यायात्मक
है, कारण कि वह स्वरूपसे ही वैसा है, (अर्थात् संसारका स्वरूप ही ऐसा है ।) उसमें
परिणमन करते हुये द्रव्यका पूर्वोत्तर दशाका त्यागग्रहणात्मक क्रिया नामक परिणाम है
सो वह संसारका स्वरूप है ॥ १२० ॥

अब परिणामात्मक संसारमें किस कारणसे पुद्गलका संबंध होता है—कि
जिससे वह (संसार) मनुष्यादि पर्यायात्मक होता है ?—इसका यहाँ समाधान करते हैं:—

गाथा १२१

अन्वयार्थः—[कर्ममलीमसः आत्मा] कर्मसे मलिन आत्मा [कर्मसंयुक्तं परिणामं]
कर्मसंयुक्त परिणामको (द्रव्यकर्मके संयोगसे होनेवाले अशुद्ध परिणामको) [लभते]
प्राप्त करता है, [ततः] उससे [कर्म श्लिष्यति] कर्म चिपक जाता है (द्रव्यकर्मका
बंध होता है); [तस्मात् तु] इसलिये [परिणामः कर्म] परिणाम कर्म है ।

टीका:—‘संसार’ नामक जो यह आत्माका तथाविध (उसप्रकारका)
परिणाम है वही द्रव्यकर्मके चिपकनेका हेतु है । अब, उसप्रकारके परिणामका हेतु कौन
है ? (इसके उत्तरमें कहते हैं कि:) द्रव्यकर्म उसका हेतु है, क्योंकि ‘द्रव्यकर्मकी संयुक्ततासे
ही वह देखा जाता है ।

१.—द्रव्यकर्मके संयोगसे ही अशुद्ध परिणाम होते हैं, द्रव्यकर्मके बिना वे कभी नहीं होते। इसलिये
द्रव्यकर्म अशुद्ध परिणामका कारण है ।

तथाविधपरिणामस्यापि को हेतुः, द्रव्यकर्म हेतुः तस्य, द्रव्यकर्मसंयुक्तत्वेनेवोपलम्भात् । एवंसतीतरे-
तराश्रयदोषः न हि । अनादिप्रसिद्धद्रव्यकर्माभिसंबद्धस्यात्मनःप्राक्तनद्रव्यकर्मणस्तत्र हेतुत्वेनोपादा-
नात् । एवं कार्यकारणभूतनवपुराणद्रव्यकर्मत्वादात्मनस्तथाविधपरिणामो द्रव्यकर्मैव । तथात्मा
चात्मपरिणामकर्तृत्वाद्द्रव्यकर्मकर्ताप्युपचारात् ॥ १२१ ॥

अथ परमार्थादात्मनो द्रव्यकर्माकर्तृत्वबुध्योत्थति—

परिणामो सयमादा सा पुण किरिय ति होदि जीवमया ।
किरिया कम्म ति मदा तम्हा कम्मस्स ण दु कत्ता ॥ १२२ ॥

परिणामः स्वयमात्मा सा पुनः क्रियेति भवति जीवमयी ।

क्रिया कर्मेति मता तस्मात्कर्मणो न तु कर्ता ॥ १२२ ॥

(शंकाः—) ऐसा होनेसे 'इतरेतराश्रयदोष आयागा ! (समाधान) नहीं आयागा ; क्योंकि अनादिसिद्ध द्रव्यकर्मके साथ संबद्ध आत्माका जो पूर्वका 'द्रव्यकर्म है उसका वहाँ हेतुरूपसे ग्रहण (स्वीकार) किया गया है ।

इसप्रकार नवीन द्रव्यकर्म जिसका कार्यभूत है और पुराना द्रव्यकर्म जिसका कारणभूत है, ऐसा आत्माका तथाविधपरिणाम होनेसे, वह उपचारसे द्रव्यकर्म ही है, और आत्मा भी अपने परिणामका कर्ता होनेसे द्रव्यकर्मका कर्ता भी उपचारसे है ॥ १२१ ॥

अब, परमार्थसे आत्माके द्रव्यकर्मका अकर्तृत्व प्रकाशित करते हैं :—

गाथा १२२

अन्वयार्थः—[परिणामः] परिणाम [स्वयम्] स्वयं [आत्मा] आत्मा है,

१. एक असिद्ध बातको सिद्ध करनेके लिये दूसरी असिद्ध बातका आश्रय लिया जाय, और फिर उस दूसरी बातको सिद्ध करनेके लिये पहलीका आश्रय लिया जाय,—सो इस तर्क-दोषको इतरेतराश्रय-दोष कहा जाता है ।

द्रव्यकर्मका कारण अशुद्ध परिणाम कहा है; फिर उस अशुद्ध परिणामके कारणके संबंधमें पूछे जानेपर, उसका कारण पुनः द्रव्यकर्म कहा है, इसलिये शंकाकारको शंका होती है कि इस बातमें इतरेतराश्रय दोष आता है । २. नवीन द्रव्यकर्मका कारण अशुद्ध आत्मपरिणाम है, और उस अशुद्ध आत्म-परिणामका कारण वहका बही (नवीन) द्रव्यकर्म नहीं किंतु पहलेका (पुराना) द्रव्यकर्म है; इसलिये इसमें इतरेतराश्रय दोष नहीं आता ।

आत्मपरिणामो हि तावत्स्वयमात्मैव, परिणामिनः परिणामस्वरूपकर्तृत्वेन परिणामादनन्यत्वात् । यश्च तस्य तथाविधः परिणामः सा जीवमय्येव क्रिया, सर्वद्रव्याणां परिणामलक्षणक्रियाया आत्ममयत्वाभ्युपगमात् । या च क्रिया सा पुनरात्मना स्वतन्त्रेण प्राप्यत्वात्कर्म । ततस्तस्य परमार्थादात्मा आत्मपरिणामात्मकस्य भावकर्मण एव कर्ता, न तु पुद्गलपरिणामात्मकस्य द्रव्यकर्मणः । अथ द्रव्यकर्मणः कः कर्तेति चेत् । पुद्गलपरिणामो हि तावत्स्वयं पुद्गल एव, परिणामिनः परिणामस्वरूपकर्तृत्वेन परिणामादनन्यत्वात् । यश्च तस्य तथाविधः परिणामः सा पुद्गलमय्येव क्रिया, सर्वद्रव्याणां परिणामलक्षणक्रियाया आत्ममयत्वाभ्युपगमात् । या च क्रिया सा पुनः पुद्गलेन स्वतन्त्रेण प्राप्यत्वात्कर्म । ततस्तस्य परमार्थात् पुद्गलात्मा आत्मपरि-

[सा पुनः] और वह [जीवमयी क्रिया इति भवति] जीवमय क्रिया है; [क्रिया] क्रियाको [कर्म इति मता] कर्म माना गया है; [तस्मात्] इसलिये आत्मा [कर्मणः कर्ता तु न] द्रव्य कर्मका कर्ता तो नहीं है ।

टीका:—प्रथम तो आत्माका परिणाम वास्तवमें स्वयं आत्मा ही है, क्योंकि परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता होनेसे परिणामसे अनन्य है; और जो उस (आत्मा) का तथाविध परिणाम है वह जीवमयी ही क्रिया है, क्योंकि सर्व द्रव्योंकी परिणामलक्षणक्रिया आत्ममयता (निजमयता) से स्वीकार की गई है; और फिर, जो (जीवमयी) क्रिया है वह आत्माके द्वारा स्वतंत्रतया 'प्राप्य होनेसे कर्म है । इसलिये परमार्थतः आत्मा अपने परिणामस्वरूप भावकर्मका ही कर्ता है; किन्तु पुद्गलपरिणामस्वरूप द्रव्यकर्मका नहीं ।

अब यहाँ यह प्रश्न होता है कि '(जीव भावकर्मका ही कर्ता है तब फिर) द्रव्यकर्मका कर्ता कौन है ?' (इसका उत्तर इसप्रकार है:—) प्रथम तो पुद्गलका परिणाम वास्तवमें स्वयं पुद्गल ही है, क्योंकि परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता होनेसे परिणामसे अनन्य है; और जो उस (पुद्गल) का तथाविध परिणाम है वह पुद्गलमयी ही क्रिया है, क्योंकि सर्व द्रव्योंकी परिणामस्वरूप क्रिया निजमय होती है, यह स्वीकार किया गया है; और फिर, जो (पुद्गलमयी) क्रिया है वह पुद्गलके द्वारा

१—प्राप्य=प्राप्त होने योग्य, (जो स्वतंत्रतया करे सो कर्ता है; और कर्ता जिसे प्राप्त करे सो कर्म है ।)

णामात्मकस्य द्रव्यकर्मण एव कर्ता, न त्वात्मपरिणामात्मकस्य भावकर्मणः । तत आत्मात्मस्वरूपेण परिणमति न पुद्गलस्वरूपेण परिणमति ॥ १२२ ॥

अथ किं तत्स्वरूपं येनात्मा परिणमतीति तदावेदयति—

परिणमदि चेदणाए आदा पुण चेदणा तिधाभिमदा ।

सा पुण णाणे कम्मे फलम्मि वा कम्मणो भणिदा ॥ १२३ ॥

परिणमति चेतनया आत्मा पुनः चेतना त्रिधाभिमता ।

सा पुनः ज्ञाने कर्मणि फले वा कर्मणो भणिता ॥ १२३ ॥

यतो हि नाम चैतन्यमात्मनः स्वधर्मव्यापकत्वं, ततश्चेतनैवात्मनः स्वरूपं तथा खल्व्वात्मा परिणमति । यः कश्चनाप्यात्मनः परिणामः स सर्वोऽपि चेतनां नातिवर्तत इति तात्पर्यम् ।

स्वतंत्रतया प्राप्य होनेसे कर्म है । इसलिये परमार्थतः पुद्गल अपने परिणामस्वरूप उस द्रव्यकर्मका ही कर्ता है, किन्तु आत्माके परिणामस्वरूप भावकर्मका नहीं ।

इससे (यह समझना चाहिये कि) आत्मा आत्मस्वरूप परिणमित होता है, पुद्गलस्वरूप परिणमित नहीं होता ॥ १२२ ॥

अब, यह कहते हैं कि वह कौनसा स्वरूप है जिसरूप आत्मा परिणमित होता है ? :—

गाथा १२३

अन्वयार्थः—[आत्मा] आत्मा [चेतनया] चेतनारूपसे [परिणमति] परिणमित होता है । [पुनः] और [चेतना] चेतना [त्रिधा अभिमता] तीन प्रकारसे मानी-गई है; [पुनः] और [सा] वह [ज्ञाने] ज्ञानसंबंधी, [कर्मणि] कर्मसंबंधी [वा] अथवा [कर्मणः फले] कर्मफल संबंधी [भणिता] कही गई है ।

टीकाः—[जिससे चैतन्य आत्माका 'स्वधर्मव्यापकत्व' है, उससे चेतना ही आत्माका स्वरूप है; उसरूप (चेतनारूप) वास्तवमें आत्मा परिणमित होता है । आत्माका जो कुछ भी परिणाम हो वह सब ही चेतनाका उल्लंघन नहीं करता, (अर्थात् आत्माका कोई भी परिणाम चेतनाको किञ्चित्मात्र भी नहीं छोड़ता—बिना

चेतना पुनर्ज्ञानकर्मकर्मफलत्वेन त्रेधा । तत्र ज्ञानपरिणतिज्ञानचेतना, कर्मपरिणतिः कर्मचेतना, कर्मफलपरिणतिः कर्मफलचेतना ॥ १२३ ॥

अथ ज्ञानकर्मकर्मफलस्वरूपमुपवर्णयति—

णाणं अट्टवियप्पो कम्मं जीवेण जं समारद्धं ।

तमणेगविधं भणितं फलं ति सौख्यं व दुक्खं वा ॥ १२४ ॥

ज्ञानमर्थविकल्पः कर्म जीवेन यत्समारब्धम् ।

तदनेकविधं भणितं फलमिति सौख्यं वा दुःखं वा ॥ १२४ ॥

अर्थविकल्पस्तावत् ज्ञानम् । तत्र कः खन्वर्थः, स्वपरविभागेनावस्थितं विश्वं, विकल्पस्त-

चेतनाके बिलकुल नहीं होता) —यह तात्पर्य है । और चेतना ज्ञानरूप, कर्मरूप और कर्मफलरूपसे तीन प्रकारकी है । उसमें ज्ञानपरिणति ज्ञानचेतना, कर्मपरिणति कर्मचेतना और कर्मफलपरिणति कर्मफलचेतना है ॥ १२३ ॥

अब ज्ञान, कर्म और कर्मफलका स्वरूप वर्णन करते हैं :—

गाथा १२४

अन्वयार्थः—[अर्थविकल्पः] अर्थ विकल्प (अर्थात् स्व-पर पदार्थोंका भिन्नतापूर्वक युगपत् अवभासन) [ज्ञानं] ज्ञान है; [जीवेण] जीवके द्वारा [यत् समारब्धं] जो किया जा रहा हो वह [कर्म] कर्म है, [तत् अनेकविधं] वह अनेक प्रकारका है; [सौख्यं वा दुःखं वा] सुख अथवा दुःख [फलं इति भणितम्] कर्मफल कहा गया है ।

टीकाः—प्रथम तो, अर्थविकल्प ज्ञान है । वहाँ, अर्थ क्या है ? स्व-परके विभागपूर्वक अवस्थित 'विश्व' अर्थ है । उसके आकारोंका 'अवभासन' विकल्प हैं । और दर्पणके निजविस्तारकी भाँति (अर्थात् जैसे दर्पणके निज विस्तारमें स्व और पर आकार एक ही साथ प्रकाशित होते हैं, उसीप्रकार) जिसमें एक ही साथ स्व-पराकार अवभासित होते हैं, ऐसा अर्थविकल्प ज्ञान है ।

१. विश्व = समस्त पदार्थ-द्रव्य गुण पर्याय । (पदार्थोंमें स्व और पर—ऐसे दो विभाग हैं । जो जाननेवाले आत्माका अपना हो वह स्व है, और दूसरा सब, पर है ।)

२. अवभासन = अवभासन; प्रकाशन; ज्ञात होना; प्रगट होना ।

दाकारावभासनम् । यस्तु मुकुरुन्दहृदयाभोग इव युगपदवभासमानस्वपराकारोर्ध्विकल्पस्तद् ज्ञानम् । क्रियमाणमात्मना कर्म, क्रियमाणः खन्वात्मा प्रतिक्षणं तेन तेन भावेन भवता यः तद्भावः स एव कर्मात्मना प्राप्यत्वात् । तत्त्वेकविधमपि द्रव्यकर्मोपाधिसन्निधिसद्भावासद्भावाभ्यामनेकविधम् । तस्य कर्मणो यन्निष्पाद्यं सुखदुःखं तत्कर्मफलम् । तत्र द्रव्यकर्मोपाधिसान्निध्यासद्भावात्कर्म तस्य फलमनाकुलत्वलक्षणं प्रकृतिभूतं सौख्यं, यत्तु द्रव्यकर्मोपाधिसान्निध्यासद्भावा-

जो आत्माके द्वारा किया जाता है वह कर्म है । प्रतिक्षण उस उस भावसे होता हुआ आत्माके द्वारा वास्तवमें किया जानेवाला जो उसका भाव है वही, आत्माके द्वारा 'प्राप्य होने से कर्म है । और वह (कर्म) एक प्रकारका होनेपर भी, द्रव्यकर्मरूप उपाधिकी निकटताके सद्भाव और असद्भावके कारण अनेक प्रकारका है ।

उस कर्मसे उत्पन्न किया जानेवाला सुख-दुःख कर्मफल है । वहाँ, द्रव्यकर्मरूप उपाधिकी निकटताके असद्भावके कारण जो कर्म होता है, उसका फल अनाकुलत्व-लक्षण 'प्रकृतिभूत सुख है; और द्रव्यकर्मरूप उपाधिकी निकटताके सद्भावके कारण जो कर्म होता है, उसका फल 'विकृति-(विकार)भूत दुःख है, क्योंकि वहाँ सुखके लक्षणका अभाव है ।

इसप्रकार ज्ञान, कर्म और कर्मफलका स्वरूप निश्चित हुआ ।

भावार्थः—जिसमें स्व, स्वरूपसे और पर, पर-रूपसे (परस्पर एकमेक हुये बिना, स्पष्टभिन्नतापूर्वक) एक ही साथ प्रतिभासित हो सो ज्ञान है । जीवके द्वारा किया जानेवाला भाव (जीवका) कर्म है । उसके मुख्य दो भेद हैं (१) निरुपाधिक (स्वाभाविक) शुद्धभावरूप कर्म, और (२) औपाधिक शुभाशुभभावरूप कर्म ।

(उस कर्मके द्वारा उत्पन्न होनेवाला सुख अथवा दुःख कर्मफल है । वहाँ, द्रव्य-कर्मरूप उपाधिमें युक्त न होनेसे जो निरुपाधिक शुद्ध भावरूप कर्म होता है, उसका फल अनाकुलतालक्षणरूप स्वभावभूत सुख है; और द्रव्यकर्मरूप उपाधिमें युक्त होनेसे जो

१. आत्मा अपने भावको प्राप्त करता है, इसलिये वह भाव ही आत्माका कर्म है ।

२. प्रकृतिभूत = स्वभावभूत । (सुख स्वभावभूत है ।)

३. विकृतिभूत = विकारभूत (दुःख विकारभूत है, स्वभावभूत नहीं है ।)

त्कर्म तस्य फलं सौख्यलक्षणाभावाद्विकृतिभूतं दुःखम् । एवं ज्ञानकर्मकर्मफलस्वरूप-
मिक्षयः ॥ १२४ ॥

अथ ज्ञानकर्मकर्मफलान्यात्मत्वेन निश्चिनोति—

अप्या परिणामप्या परिणामो एणकम्मफलभावी ।

तम्हा एणं कम्मं फलं च आदा मुणेदव्वो ॥ १२५ ॥

आत्मा परिणामात्मा परिणामो ज्ञानकर्मफलभावी ।

तस्मात् ज्ञानं कर्म फलं चात्मा ज्ञातव्यः ॥ १२५ ॥

आत्मा हि तावत्परिणामात्मैव, परिणामः स्वयमात्मेति स्वयमुक्तत्वात् । परिणामस्तु
चेतनात्मकत्वेन ज्ञानं कर्म कर्मफलं वा भवितुं शीलः, तन्मयत्वाच्चेतनायाः । ततो ज्ञानं कर्म

श्रीपाधिक शुभाशुभभावरूप कर्म होता है, उसका फल विकारभूत दुःख है, क्योंकि उसमें
अनाकुलता नहीं, किन्तु आकुलता है ।

इसप्रकार ज्ञान, कर्म और कर्मफलका स्वरूप कहा गया ॥ १२४ ॥

अब ज्ञान, कर्म और कर्मफलको आत्मारूपसे निश्चित करते हैं—

गाथा १२५

अन्वयार्थः— [आत्मा परिणामात्मा] आत्मा परिणामात्मक है; [परिणामः]
परिणाम [ज्ञानकर्मफलभावी] ज्ञानरूप, कर्मरूप और कर्मफलरूप होता है; [तस्मात्]
इसलिये [ज्ञानं, कर्म, फलं च] ज्ञान, कर्म और कर्मफल [आत्मा ज्ञातव्यः] आत्मा है
ऐसा समझना ।

टीकाः—प्रथम तो आत्मा वास्तवमें परिणामस्वरूप ही है, क्योंकि 'परिणाम
स्वयं आत्मा है' ऐसा (११२ वीं गाथामें भगवत् कुन्दकुन्दाचार्य देवने) स्वयं कहा
है; और परिणाम चेतनास्वरूप होनेसे ज्ञान,-कर्म और कर्मफलरूप होनेके स्वभाववाला
है, क्योंकि चेतना तन्मय (ज्ञानमय, कर्ममय अथवा कर्मफलमय) होती है । इसलिये
ज्ञान, कर्म और कर्मफल आत्मा ही है ।

इसप्रकार वास्तवमें शुद्ध द्रव्यके निरूपणमें परद्रव्यके सम्पर्क (सम्बन्ध-

कर्मफलं चात्मैव । एवं हि शुद्धद्रव्यनिरूपणायां परद्रव्यसंपर्कसंभवात्पर्यायाणां द्रव्यान्तः-
प्रलयाच्च शुद्धद्रव्य एवात्मावतिष्ठते ॥ १२५ ॥

अथैवमात्मनो ज्ञेयतामापन्नस्य शुद्धत्वनिश्चयात् ज्ञानतत्त्वसिद्धौ शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भो
भवतीति तमभिनन्दन् द्रव्यसामान्यवर्णनाद्युपसंहरति—

कर्ता करणं कर्म फलं च अप्य ति णिच्छिदो समणो ।
परिणमदि एव अणणं जदि अप्पाणं लहदि सुद्धं ॥ १२६ ॥

कर्ता करणं कर्म कर्मफलं चात्मेति निश्चितः श्रमणः ।

परिणमति नैवान्यद्यदि आत्मानं लभते शुद्धम् ॥ १२६ ॥

संग) का असंभव होनेसे और पर्यायें द्रव्यके भीतर 'प्रलीन हो जानेसे आत्मा शुद्ध-
द्रव्य ही रहता है ॥ १२५ ॥

अब, इसप्रकार ज्ञेयत्वको प्राप्त आत्माकी शुद्धताके निश्चयसे ज्ञानतत्त्वकी
सिद्धि होनेपर शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धि (अनुभव, प्राप्ति) होती है; इसप्रकार
उसका अभिनन्दन करते हुये (अर्थात् आत्माकी शुद्धताके निर्णयकी प्रशंसा करते हुये
धन्यवाद देते हुये) द्रव्यसामान्यके वर्णनका उपसंहार करते हैं:—

गाथा १२६

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [श्रमणः] श्रमण [कर्ता, करणं, कर्म, कर्मफलं
च आत्मा] 'कर्ता, करण, कर्म और कर्मफल आत्मा है' [इति निश्चितः] ऐसा
निश्चयवाला होता हुआ [अन्यत्] अन्यरूप [न एव परिणमति] परिणमित नहीं ही
हो तो वह [शुद्धं आत्मानं] शुद्ध आत्माको [लभते] उपलब्ध करता है ।

१. प्रलीन हो जाना = अत्यंत लीन हो जाना; मग्न हो जाना; डूब जाना; अदृश्य हो जाना ।

२. ज्ञेयत्वको प्राप्त = ज्ञेयभूत । (आत्मा ज्ञानरूप भी और ज्ञेयरूप भी है, इस ज्ञेयत्व प्रज्ञापन
अधिकारमें यहाँ द्रव्य सामान्यका निरूपण किया जा रहा है; उसमें आत्मा ज्ञेयभूतरूपसे समाविष्ट
हुआ है ।)

यो हि नामैवं कर्तारं करणं कर्म कर्मफलं चात्मानमेव निश्चित्य न खलु परद्रव्यं परिणमति स एव विश्रान्तपरद्रव्यसंपर्कं द्रव्यान्तःप्रलीनपर्यायं च शुद्धमात्मानमुपलभते, न पुनरन्यः । तथाहि—यदा नामानादिप्रसिद्धपौद्गलिककर्मबन्धनोपाधिसंनिधिप्रघावितोपरागरंजितात्मवृत्ति-र्जपापुष्पसंनिधिप्रघावितोपरागरंजितात्मवृत्तिः स्फटिकमणिरिव परारोपितविकारोऽहमासं संसारी तदापि न नाम मम कोऽप्यासीत्, तदाप्यहमेक एवोपरक्तचित्स्वभावेन स्वतन्त्रः कर्तासम्, अहमेक एवोपरक्तचित्स्वभावेन साधकतमः कारणमासम्, अहमेक एवोपरक्तचित्परिणमनस्व-

टीकाः—जो पुरुष इसप्रकार 'कर्ता' करण, कर्म और कर्मफल आत्मा ही है' यह निश्चय 'करके वास्तवमें परद्रव्यरूप परिणमित नहीं होता वही पुरुष, जिसका परद्रव्यके साथ संपर्क रुक गया है, और जिसकी पर्यायें द्रव्यके भीतर प्रलीन होगई हैं ऐसे शुद्धात्माको उपलब्ध करता है; परन्तु अन्य कोई (पुरुष) ऐसे शुद्ध आत्माको उपलब्ध नहीं करता ।

इसीको स्पष्टतया समझाते हैंः—

"जब अनादिसिद्ध पौद्गलिक कर्मकी बन्धनरूप उपाधिकी निकटतासे उत्पन्न हुये 'उपरागके द्वारा जिसकी स्वपरिणति रंजित (विकृत मलिन) थी ऐसा मैं जपा कुसुमकी निकटतासे उत्पन्न हुये उपराग (लालिमासे जिसकी स्वपरिणति रंजित (रंगी हुई) हो ऐसे स्फटिक मणिकी भाँति-परके द्वारा 'आरोपित विकारवाला होनेसे संसारी था, तब भी (अज्ञानदशामें भी) वास्तवमें मेरा कोई भी (संबंधी) नहीं था । तब भी मैं अकेला ही 'कर्ता था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्यरूप स्वभावसे स्वतंत्र था (अर्थात् स्वाधीनतया कर्ता था) ; मैं अकेला ही करण था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्यरूप स्वभावके द्वारा साधकतम (उत्कृष्टसाधन)

१. 'कर्ता करण इत्यादि आत्मा ही है' ऐसा निश्चय होने पर दो बातें निश्चित हो जाती हैं;—एक तो यह कि 'कर्ता, करण इत्यादि आत्मा ही है, पुद्गलादि नहीं, अर्थात् आत्माका परद्रव्यके साथ संबंध नहीं है;' दूसरी—'अभेद दृष्टिमें कर्ता, करण इत्यादि भेद नहीं हैं, यह सब एक आत्मा ही है, अर्थात् पर्यायें द्रव्यके भीतर लीन हो गई हैं ।'
२. उपराग = किसी पदार्थमें, अन्य उपाधिकी समीपताके निमित्तसे होनेवाला उपाधिके अनुरूप विकारी भाव; औपाधिक भाव; विकार; मलिनता ।
३. आरोपित = (नवीन अर्थात् औपाधिकरूपसे) किये गये । [विकार स्वभावभूत नहीं थे, किन्तु उपाधिके निमित्तसे औपाधिकरूपसे (नवीन) हुये थे ।]
४. कर्ता, करण और कर्मके अर्थोंके लिये १६ वीं गाथाका भावार्थ देखना चाहिये ।

भावेनात्मना प्राप्यः कर्मासम्, अहमेक एव चोपरक्तचित्परिणमनस्वभावस्य निष्पाद्यं सौख्यं विपर्यस्तलक्षणं दुःखाख्यं कर्मफलमासम् । इदानीं पुनरनादिप्रसिद्धपौद्गलिककर्मबन्धनोपाधिसन्निधिष्वंसविस्फुरितसुविशुद्धसहजात्मवृत्तिर्जपापुष्पसंनिधिष्वंसविस्फुरितसुविशुद्धसहजात्मवृत्तिः स्फटिकमणिरिव विश्रान्तपरारोपितविकारोऽहमेकान्तेनास्मि मुमुक्षुः, इदानीमपि न नाम मम कोऽप्यस्ति, इदानीमप्यहमेक एव सुविशुद्धचित्स्वभावेन स्वतन्त्रः कर्तास्मि, अहमेक एव च सुविशुद्धचित्स्वभावेन साधकतमः करणमस्मि, अहमेक एव च सुविशुद्धचित्परिणमनस्वभावेनात्मना प्राप्यः कर्मास्मि, अहमेक एव च सुविशुद्धचित्परिणामनस्वभावस्य निष्पाद्यमनाकुलत्वलक्षणं सौख्याख्यं कर्मफलमस्मि । एवमस्य बन्धपद्धतौ मोक्षपद्धतौ चात्मानमेकमेव भावयतः परमाणो-

था; मैं अकेला ही कर्म था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्यरूप परिणमित होनेके स्वभावके कारण आत्मासे प्राप्य था; और मैं अकेला ही सुखसे विपरीत लक्षणवाला, 'दुःख' नामक कर्मफल था,—जो कि उपरक्त चैतन्यरूपपरिणमित होनेके स्वभावसे उत्पन्न किया जाता था ।

और अब, अनादिसिद्ध पौद्गलिक कर्मकी बन्धनरूप उपाधिकी निकटताके नाशसे जिसकी सुविशुद्ध सहज (स्वाभाविक) स्वपरिणति प्रगट हुई है ऐसा मैं-जपाकुसुमकी निकटताके नाशसे जिसकी सुविशुद्ध सहज स्वपरिणति प्रगट हुई हो ऐसे स्फटिकमणिकी भाँति—जिसका परके द्वारा आरोपित विकार रूक गया है, ऐसा होनेसे एकान्ततः मुमुक्षु (केवल मोक्षार्थी) हूँ; अभी भी (मुमुक्षु दशामें—ज्ञानदशामें भी) वास्तवमें मेरा कोई भी नहीं है । अभी भी मैं अकेला ही कर्ता हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही सुविशुद्ध चैतन्यरूप स्वभावसे स्वतन्त्र हूँ, (अर्थात् स्वाधीनतया कर्ता हूँ); मैं अकेला ही करण हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही सुविशुद्धचैतन्यरूप स्वभावसे साधकतम हूँ; मैं अकेला ही कर्म हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही सुविशुद्ध चैतन्यरूप परिणमित होनेके स्वभावके कारण आत्मासे प्राप्य हूँ और मैं अकेला ही अनाकुलतालक्षणवाला, 'सुख' नामक कर्मफल हूँ;—जो कि 'सुविशुद्धचैतन्यरूपपरिणमित होनेके स्वभावसे उत्पन्न किया जाता है ।'

१. सुविशुद्ध चैतन्यपरिणमनस्वभाव आत्माका कर्म है, और वह कर्म अनाकुलता स्वरूपसुखको उत्पन्न करता है, इसलिये सुख कर्मफल है । सुख आत्माकी ही अवस्था होनेसे आत्मा ही कर्मफल है ।

विवैकत्वभावनोन्मुखस्य परद्रव्यपरिणतिर्न जातु जायते । परमाणुरिवभावितैकत्वश्च परेण नो संपृच्यते । ततः परद्रव्यासंपृक्तत्वात्सुविशुद्धो भवति । कर्तृकरणकर्मकर्मफलानि चात्मत्वेन भावयन् पर्यायैर्न संकीर्यते, ततः पर्यायासंकीर्णत्वाच्च सुविशुद्धो भवतीति ॥ १२६ ॥

वसंततिलका छन्द ।

द्रव्यान्तरव्यतिकरादपसारितात्मा-
सामान्यमजितसमस्तविशेषजातः ।

इसप्रकार बंधमार्गमें तथा मोक्षमार्गमें आत्मा अकेला ही है, इसप्रकार 'भानेवाला यह पुरुष, परमाणुकी भाँति एकत्व भावनामें उन्मुख होनेसे, (अर्थात् एकत्वके आनेमें तत्पर होनेसे), उसे परद्रव्यरूप परिणति-किंचित् नहीं होती; और परमाणुकी भाँति (जैसे एकत्वभावसे परिणमित परमाणु परके साथ संगको प्राप्त नहीं होता उसीप्रकार—), एकत्वको भानेवाला पुरुष परके साथ संपृक्त नहीं होता; इसलिये परद्रव्यके साथ असंबद्धताके कारण वह सुविशुद्ध होता है । और, कर्ता, करण, कर्म, तथा कर्मफलको आत्मारूपसे भाता हुआ वह पुरुष पर्यायोसे संकीर्ण (खंडित) नहीं होता; और इसलिये—पर्यायोके द्वारा संकीर्ण न होनेसे सुविशुद्ध होता है ॥ १२६ ॥

[अत्र, इस श्लोक द्वारा इसी आशयको व्यक्त करके शुद्धनयकी महिमा की जाती है:—]

अर्थ:—जिसने अन्य द्रव्यसे भिन्नताके द्वारा आत्माको एक ओर हटा लिया है (अर्थात् परद्रव्योंसे अलग दिखाया है) तथा जिसने समस्त विशेषोंके समूहको सामान्यमें लीन किया है (अर्थात् समस्त पर्यायोंको द्रव्यके भीतर डुबोया हुआ दिखाया है) ऐसा जो यह, उद्धत मोहकी लक्ष्मी (ऋद्धिशोभा) को लूट लेनेवाला शुद्धनय है, उसने उत्कट विवेकके द्वारा तत्त्वको (आत्मस्वरूपको) विविक्त किया है ।

१. भाना — अनुभव करना; समझना; चिन्तन करना ['किसी जीवका—अज्ञानी या ज्ञानीका परके साथ संबन्ध नहीं है । बंधमार्गमें आत्मा स्वयं निजको निजसे बाँधता था और निजको अर्थात् अपने दुःख-पर्यायरूप फलको, भोगता था । अत्र मोक्षमार्गमें आत्मा स्वयं निजको निजसे मुक्त करता है । और निजको—अर्थात् अपने सुखपर्यायरूप फलको—भोगता है'—ऐसे एकत्वको सम्यग्दृष्टि जीव भाता है,— अनुभव करता है,—समझता है,—चिन्तन करता है । मिथ्यादृष्टि इससे विपरीतभावनावाला होता है ।]

२. संपृक्त = संपर्कवाला, संबंधवाला; संगवाला ।

३. सम्यग्दृष्टि जीव भेदोंको न भाकर अभेद आत्माको ही भाता—अनुभव करता है ।

४. विविक्त = शुद्ध, अकेला, अलग ।

इत्येष शुद्धनय उद्धतमोहलक्ष्मी-
लुण्टाक उत्कटविवेकविबिक्ततत्त्वः ॥ ७ ॥

मंदाक्रांता छंद ।

इत्युच्छेदात्परपरिणतेः कर्तृकर्मादिभेद-
भ्रान्तिध्वंसादपि च सुचिराल्लब्धशुद्धात्मतत्त्वः ।
सञ्चिन्मात्रे महसि विशदे मूर्च्छितश्चेतनोऽयं
स्वास्थ्यत्युद्यत्सहजमहिमा सर्वदा मुक्त एव ॥ ८ ॥

अनुष्टुप् छंद ।

द्रव्यसामान्यविज्ञाननिम्नं कृत्वेति मानसम् ।
तद्विशेषपरिज्ञानप्राग्भारः क्रियतेऽधुना ॥ ९ ॥

इति प्रवचनसारवृत्तौ तत्त्वदीपिकायां श्रीमदमृतचंद्रसूरिविरचितायां ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापने
सामान्यद्रव्यप्रज्ञापनसमाप्तम् ॥

[अब शुद्धनयके द्वारा शुद्ध आत्मस्वरूपको प्राप्त करनेवाले आत्माकी महिमा
श्लोक द्वारा कह कर, द्रव्यसामान्यके वर्णनकी पूर्णाहुति की जाती है:—]

अर्थ:—इसप्रकार परपरिणतिके उच्छेद (परद्रव्यरूप परिणमनके नाश)
से, तथा कर्ता, कर्म इत्यादि भेदोंकी भ्रान्तिके भी नाशसे अन्तमें जिसने शुद्ध
आत्मतत्त्वको उपलब्ध किया है,—ऐसा यह आत्मा, चैतन्यमात्ररूप विशद (निर्मल)
तेजमें लीन होता हुआ, अपनी सहज (स्वाभाविक) महिमाकी प्रकाशमत्तासे सर्वदा
मुक्त ही रहेगा ।

[अब, श्लोक द्वारा नवीन विषयको—द्रव्यविशेषके वर्णनको सूचित किया जाता है:—]

अर्थ:—इसप्रकार द्रव्यसामान्यके ज्ञानसे मनको गंभीर करके, अब द्रव्य-
विशेषके परिज्ञानका प्रारंभ किया जाता है ।

इसप्रकार (श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत) श्री प्रवचनसार शास्त्रकी
श्रीमदमृतचन्द्र सूरि विरचित तत्त्वदीपिका नामकी टीकामें ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापनमें
द्रव्यसामान्यप्रज्ञापन समाप्त हुआ ।

अथ द्रव्यविशेषप्रज्ञापनं तत्र द्रव्यस्य जीवाजीवत्वविशेषं निश्चिनोति—

द्रव्यं जीवमजीवं जीवो पुण चेदणोवओगमओ ।

पुण्णलद्रव्यप्पमुहं अचेदणं हवदि य अज्जीवं ॥ १२७ ॥

द्रव्यं जीवोऽजीवो जीवः पुनश्चेतनोपयोगमयः ।

पुद्गलद्रव्यप्रमुखोऽचेतनो भवति अजीवः ॥ १२७ ॥

इह हि द्रव्यमेकत्वनिबन्धनभूतं द्रव्यत्वसामान्यमनुज्ज्ञदेव तदधिरूढविशेषलक्षणसद्भा-
वादन्योन्यव्यवच्छेदेन जीवाजीवत्वविशेषमुपद्वीकते । तत्र जीवस्यात्मद्रव्यमेवैका व्यक्तिः । अजी-
वस्य पुनः पुद्गलद्रव्यं धर्मद्रव्यमधर्मद्रव्यं कालद्रव्यमाकाशद्रव्यं चेति पञ्च व्यक्तयः । विशेषलक्षण
जीवस्य चेतनोपयोगमयत्वं, अजीवस्य पुनश्चेतनत्वम् । तत्र यत्र स्वधर्मव्यापकत्वात्स्वरूपत्वेन

अब, द्रव्यविशेषका प्रज्ञापन करते हैं, (अर्थात् द्रव्यविशेषोंको द्रव्यके भेदोंको
बतलाते हैं); उसमें (प्रथम) द्रव्यके जीवाजीवत्वरूप विशेषका निश्चय करते हैं,
(अर्थात् द्रव्यके जीव और अजीव-दो भेद बतलाते हैं) :—

गाथा १२७

अन्वयार्थः—[द्रव्यं] द्रव्य [जीवः अजीवः] जीव और अजीव है । [पुनः]
उसमें [चेतनोपयोगमयः] चेतनामय तथा उपयोगमय सो [जीवः] जीव है, [च]
और [पुद्गलद्रव्यप्रमुखः अचेतनः] पुद्गल द्रव्यादिक अचेतन द्रव्य [अजीवः भवति]
अजीव है ।

टीकाः—यहाँ (इस विश्वमें) द्रव्य, एकत्वके कारणभूत द्रव्यत्वसामान्यको
छोड़े विना ही, उसमें रहनेवाले विशेषलक्षणोंके सद्भावके कारण एक-दूसरेसे पृथक्
किये जानेपर जीवत्वरूप और अजीवत्वरूप विशेषको प्राप्त होता है । उसमें, जीवका
आत्मद्रव्य ही एक भेद है; और अजीवके पुद्गल द्रव्य, धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, कालद्रव्य,
तथा आकाशद्रव्य-यह पाँच भेद हैं । जीवका विशेषलक्षण चेतनोपयोगमयत्व (चेतना-
मयता और उपयोगमयता) है; और अजीवका अचेतनत्व है । उसमें जहाँ स्वधर्मोंमें
व्याप्त होनेसे (जीवके) स्वरूपत्वसे प्रकाशित होती हुई, अविनाशिनी, भगवती,
संवेदनरूप चेतनाके द्वारा, तथा चेतनापरिणामलक्षण, 'द्रव्यपरिणतिरूप उपयोगके
द्वारा जिसमें निष्पन्नत्व (रचनारूपत्व) अवतरित प्रतिभासित होता है वह जीव

१—चेतनाका परिणामस्वरूप उपयोग जीवद्रव्यकी परिणति है ।

द्योतमानयानपायिन्या भगवत्या संविचिरूपया चेतनया तत्परिणामलक्षणेन द्रव्यवृत्तिरूपेणो-
पयोगेन च निर्वृत्तत्वमवतीर्णं प्रतिभाति स जीवः । यत्र पुनरुपयोगसहचरिताया यथोदितल-
क्षणायाश्चेतनाया अभावाद्बहिरन्तश्चाचेतनत्वमवतीर्णं प्रतिभाति सोऽजीवः ॥ १२७ ॥

अथ लोकालोकत्वविशेषं निश्चिनोति—

पुद्गलजीवणिबद्धो धर्माधर्मास्तिकायकालाढ्यो ।
वद्वदि आगासे जो लोगो सो सबकाले तु ॥ १२८ ॥

पुद्गलजीवनिबद्धो धर्माधर्मास्तिकायकालाढ्यः ।

वर्तते आकाशे यो लोकः स सर्वकाले तु ॥ १२८ ॥

अस्ति हि द्रव्यस्य लोकालोकत्वेन विशेषविशिष्टत्वं स्वलक्षणसद्भावात् । स्वलक्षणं हि लोक-
स्य षड्द्रव्यसमवायात्मकत्वं, अलोकस्य पुनः केवलाकाशात्मकत्वम् । तत्र सर्वद्रव्यव्यापिनि

है । और जिसमें उपयोगके साथ रहनेवाली, यथोक्त लक्षणवाली चेतनाका अभाव होनेसे बाहर तथा भीतर अचेतनत्व अवतरित प्रतिभासित होता है, वह अजीव है ।

भावार्थः—द्रव्यत्वरूप सामान्यकी अपेक्षासे द्रव्योंमें एकत्व है, तथापि विशेषलक्षणोंकी अपेक्षासे उनके जीव और अजीव दो भेद हैं । जो द्रव्य भगवती चेतनाके द्वारा और चेतनाके परिणामस्वरूप उपयोग द्वारा रचित है वह जीव है, और जो चेतनारहित होनेसे अचेतन है वह अजीव है । जीवका एक ही भेद है; अजीवके पांच भेद हैं । इन सबका विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा ॥१२७॥

अब (द्रव्यके) लोकालोकत्वरूपभेदका निश्चय करते हैंः—

गाथा १२८

अन्वयार्थः—[आकाशे] आकाशमें [यः] जो भाग [पुद्गलजीवनिबद्धः] पुद्गल और जीवसे संयुक्त है, तथा [धर्माधर्मास्तिकायकालाढ्यः वर्तते] धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, और कालसे समृद्ध है, [सः] वह [सर्वकाले तु] सर्वकालमें [लोकः] लोक है । (शेष केवल आकाश अलोक है ।)

टीकाः—वास्तवमें द्रव्य लोकत्व और अलोकत्वके भेदसे विशेषवान् है, क्योंकि अपने अपने लक्षणोंका सद्भाव है । लोकका स्वलक्षण षड्द्रव्य समवायात्मकत्व

१—यथोक्त लक्षणवाली = ऊपर कहे अनुसार लक्षणवाली (चेतनाका लक्षण ऊपर ही कहने में आया है ।)

परममहत्याकाशे यत्र यावति जीवपुद्गलौ गतिस्थितिधर्माणौ गतिस्थिती आस्कन्दतस्तद्गति-स्थितिनिबन्धनभूतौ च धर्माऽधर्मावभिव्याप्यावस्थितौ, सर्वद्रव्यवर्तनानिमित्तभूतश्च कालो नित्य-दुर्ललितस्तत्तावदाकाशं शेषाप्यशेषाणि द्रव्याणि चेत्यमीषां समवाय आत्मत्वेन स्वलक्षणं यस्य स लोकः । यत्र यावति पुनराकाशे जीवपुद्गलयोर्गतिस्थिती न संभवतो धर्माधर्मौ नावस्थितौ न कालो दुर्ललितस्तावत्केवलमाकाशमात्मत्वेन स्वलक्षणं यस्य सोऽलोकः ॥ १२८ ॥

अथ क्रियाभावतद्भावविशेषं निश्चिनोति—

उत्पादद्विदिभंगा पोग्गलजीवप्पगस्स लोक्कस्स ।

परिणामादो जायंते संघातादो व भेदादो ॥ १२९ ॥

उत्पादस्थितिभङ्गाः पुद्गलजीवात्मकस्य लोकस्य ।

परिणामाजायन्ते संघाताद्वा भेदात् ॥ १२९ ॥

(छह द्रव्योंकी समुदायस्वरूपता) है, और अलोकका केवल आकाशात्मकत्व (मात्र आकाशस्वरूपत्व) है । वहाँ, सर्वद्रव्योंमें व्याप्त होने वाले परममहान आकाशमें, जहाँ जितनेमें गति-स्थिति धर्मवाले जीव तथा पुद्गल गतिस्थितिको प्राप्त होते हैं, (जहाँ जितनेमें) उन्हें, गतिस्थितिमें निमित्तभूत धर्म तथा अधर्म व्याप्त होकर रहते हैं और (जहाँ जितनेमें) सर्व द्रव्योंके वर्तनामें निमित्तभूत काल सदा वर्तता है, वह उतना आकाश तथा शेष समस्त द्रव्य उनका समुदाय जिसका स्वरूपतासे स्वलक्षण है, वह लोक है; और जहाँ जितने आकाशमें जीव तथा पुद्गलकी गति—स्थिति नहीं होती, धर्म तथा अधर्म नहीं रहते, और काल नहीं पाया जाता, उतना केवल आकाश जिसका स्वरूपतासे स्वलक्षण है, वह अलोक है ॥ १२८ ॥

अब, 'क्रिया' रूप और 'भाव' रूप जो द्रव्यके भाव हैं उनकी अपेक्षासे द्रव्यका भेद निश्चित करते हैं:—

गाथा १२९

अन्वयार्थः—[पुद्गलजीवात्मकस्य लोकस्य] पुद्गल-जीवात्मक लोकके [परिणामात्] परिणमनसे, और [संघातात् वा भेदात्] संघात (मिलने) और भेद

१. स्वरूपतासे = निजरूपसे (षट्द्रव्यसमुदाय ही लोक है, अर्थात् वही लोकका स्वत्व है—स्वरूप है । इसलिये लोकके स्वरूपतासे षट्द्रव्योंका समुदाय लोकका स्व-लक्षण है ।)

क्रियाभाववत्त्वेन केवलभाववत्त्वेन च द्रव्यस्यास्ति विशेषः । तत्र भाववन्तौ क्रियावन्तौ च पुद्गलजीवौ परिणामाद्भेदसंघाताभ्यां चोत्पद्यमानावतिष्ठमानभज्यमानत्वात् । शेषद्रव्याणि तु भाववन्त्येव परिणामादेवोत्पद्यमानावतिष्ठमानभज्यमानत्वादिति निश्चयः । तत्र परिणाममात्र-लक्षणो भावः, परिस्पन्दलक्षणा क्रिया । तत्र सर्वाण्यपि द्रव्याणि परिणामस्वभावत्वात् परिणामेनोपात्तान्वयव्यतिरेकाण्यवतिष्ठमानोत्पद्यमानभज्यमानानि भाववन्ति भवन्ति । पुद्गलास्तु परिस्पन्दस्वभावत्वात्परिस्पन्देन भिन्नाः संघातेन संहताः पुनर्भेदेनोत्पद्यमानावतिष्ठमानभज्यमानाः क्रियावन्तश्च भवन्ति । तथा जीवा अपि परिस्पन्दस्वभावत्वात्परिस्पन्देन नूतनकर्मनोकर्मपुद्गलेभ्यो

(पृथक् होने) से [उत्पादस्थितिभंगाः] उत्पाद, ध्रौव्य, और व्यय [जायन्ते] होते हैं ।

टीकाः—कोई द्रव्य 'भाव' तथा 'क्रियावाले' होनेसे, और कोई द्रव्य केवल 'भाव' वाले होनेसे,—इस अपेक्षासे द्रव्यके भेद होते हैं । उसमें पुद्गल तथा जीव (१) भाववाले तथा (२) क्रियावाले हैं, क्योंकि (१) परिणाम द्वारा, तथा (२) संघात और भेदके द्वारा वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं । शेष द्रव्य तो भाववाले ही हैं, क्योंकि वे परिणामके द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं; — ऐसा निश्चय है ।

उसमें, 'भाव'का लक्षण परिणाममात्र है; (और) 'क्रिया'का लक्षण परिस्पन्द (कम्पन) है । इसमें समस्त ही द्रव्य भाववाले हैं, क्योंकि परिणाम स्वभाववाले होनेसे परिणामके द्वारा अन्वय और व्यतिरेकोंको प्राप्त होते हुये वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं । पुद्गल तो (भाववाले होनेके अतिरिक्त) क्रियावाले भी होते हैं, क्योंकि परिस्पन्द स्वभाववाले होनेसे परिस्पन्दके द्वारा पृथक् पुद्गल एकत्रित होजाते हैं इसलिये, और एकत्रित-मिले हुये पुद्गल पुनः पृथक् होजाते हैं, इसलिये (इस अपेक्षासे) वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं । तथा जीव भी (भाववाले होनेके अतिरिक्त) क्रियावाले भी होते हैं, क्योंकि परिस्पन्द स्वभाववाले होनेसे परिस्पन्दके द्वारा नवीन कर्म—नोकर्म-

१. अन्वय, स्थायित्वको और व्यतिरेक, उत्पाद तथा व्ययत्वको बतलाते हैं ।

२. पृथक् पुद्गल कम्पनके द्वारा एकत्रित होते हैं । तब वे पृथक्तया नष्ट होते पुद्गलरूपसे टिकते और एकत्रितरूपसे उत्पन्न होते हैं ।

भिन्नास्तैः सह संघातेन संहताः पुनर्भेदेनोत्पद्यमानावतिष्ठमानभज्यमानाः क्रियावन्तश्च भवन्ति । १२९।

अथ द्रव्यविशेषो गुणविशेषादिति प्रज्ञापयति—

लिंगोहिं जेहिं द्रव्यं जीवमजीवं च हवदि विण्णादं ।

तेऽतद्भावविशिष्टा मुत्तामुत्ता गुणा णेया ॥ १३० ॥

लिंगैर्वैर्द्रव्यं जीवोऽजीवश्च भवतिविज्ञातम् ।

तेऽतद्भावविशिष्टा मूर्तामूर्ता गुणा ज्ञेयाः ॥ १३० ॥

द्रव्यमाश्रित्य परानाश्रयत्वेन वर्तमानैर्लिङ्गयते गम्यते द्रव्यमेतैरिति लिङ्गानि गुणाः । ते च यद्द्रव्यं भवति न तद्गुणा भवन्ति, ये गुणा भवन्ति ते न द्रव्यं भवतीति द्रव्यादतद्भावेन विशिष्टाः सन्तो लिङ्गलिङ्गिप्रसिद्धौ तल्लिङ्गत्वमुपदौक ते । अथ ते द्रव्यस्य जीवोऽयमजीवोऽयमित्यादिविशेषमुत्पादयन्ति, स्वयमपि तद्भावविशिष्टत्वेनोपाचविशेषत्वात् । यतो हि यस्य यस्य

रूप पुद्गलोसे भिन्न जीव उनके साथ एकत्रित होनेसे और 'कर्म-नोकर्मरूप पुद्गलोंके साथ एकत्रित हुये जीव बादमें पृथक् होनेसे, (इस अपेक्षासे) वे उत्पन्न होते हैं, टिकते हैं और नष्ट होते हैं ॥ १२६ ॥

अब यह बतलाते हैं कि-गुण-विशेष (गुणोंके भेद) से द्रव्य-विशेष (द्रव्योंका भेद) होता है:—

वाथा १३०

अन्वयार्थः—[यैः लिंगैः] जिन लिंगोंसे [द्रव्यं] द्रव्य [जीवः अजीवः च] जीव और अजीवके रूपमें [विज्ञातं भवति] ज्ञात होता है, [ते] वे [अतद्भावविशिष्टाः] अतद्भाव विशिष्ट (अतद्भावके द्वारा द्रव्यसे भिन्न) [मूर्तामूर्ताः] मूर्त-अमूर्त [गुणाः] गुण [ज्ञेयाः] जानने चाहिये ।

टीका:—द्रव्यका आश्रय लेकर और परके आश्रयके बिना प्रवर्तमान होनेसे जिनके द्वारा द्रव्य 'लिंगित' (प्राप्त) होता है—पहचाना जा सकता है, ऐसे लिंग गुण हैं । वे (गुण), 'जो द्रव्य हैं वे गुण नहीं हैं और जो गुण हैं वे द्रव्य नहीं हैं' इस अपेक्षासे

१. ज्ञानावरणादि कर्मरूप और शरीरादि नोकर्मरूप पुद्गलोंके साथ मिला हुआ जीव कंपनसे पुनः पृथक् होजाता है । तब वह (उन पुद्गलोंके साथ) एकत्रिततया नष्ट, जीवत्वेन स्थिर और (उनसे) पृथक्त्वेन उत्पन्न होता है ।

द्रव्यस्य यो यः स्वभावस्तस्य तस्य तेन तेन विशिष्टत्वाचेष्टामस्ति विशेषः । अत एव च मूर्तानाममूर्तानां च द्रव्याणां मूर्तत्वेनामूर्तत्वेन च तद्भावेन विशिष्टत्वादिमे मूर्ता गुणा इमे अमूर्ता इति तेषां विशेषो निश्चयेयः ॥ १३० ॥

अथ मूर्तामूर्तगुणानां लक्षणसंबन्धमाख्याति—

मुक्ता इन्द्रियगोष्ठ्या पौगलद्वयपुष्पा अणुगविधा ।
द्व्याणममुक्ताणं गुणा अमुक्ता मुणोदव्वा ॥ १३१ ॥

मूर्ता इन्द्रियग्राह्याः पुद्गलद्रव्यात्मका अनेकविधाः ।
द्रव्याणाममूर्तानां गुणा अमूर्ता ज्ञातव्याः ॥ १३१ ॥

द्रव्यसे अतद्भावके द्वारा विशिष्ट (भिन्न) रहते हुये, लिंग और लिंगीके रूपमें प्रसिद्धि (परिचय)के समय द्रव्यके लिंगत्वको प्राप्त होते हैं । अब, वे द्रव्यमें 'यह जीव है, यह अजीव है' ऐसा भेद उत्पन्न करते हैं, क्योंकि स्वयं भी तद्भावके द्वारा विशिष्ट होनेसे विशेषको प्राप्त हैं । जिस जिस द्रव्यका जो जो स्वभाव हो उस उसका उस उसके द्वारा विशिष्टत्व होनेसे उनमें विशेष (भेद) हैं; और इसीलिये मूर्त तथा अमूर्त द्रव्योंका मूर्तत्व-अमूर्तत्वरूप तद्भावके द्वारा विशिष्टत्व होनेसे उनमें इसप्रकारके भेद निश्चित करना चाहिये कि 'यह मूर्त गुण हैं और यह अमूर्तगुण हैं ॥ १३० ॥

अब मूर्त और अमूर्त गुणोंके लक्षण तथा संबंध (अर्थात् उनका किन द्रव्योंके साथ संबंध है यह) कहते हैं:—

गाथा १३१

अन्वयार्थः—[इन्द्रियग्राह्याः मूर्ताः] इन्द्रियग्राह्य-मूर्तगुण [पुद्गलद्रव्यात्मकाः] पुद्गल द्रव्यात्मक [अनेक विधाः] अनेक प्रकारके हैं; [अमूर्तानां द्रव्याणां] अमूर्त द्रव्योंके [गुणाः] गुण [अमूर्ताः ज्ञातव्याः] अमूर्त जानना चाहिये ।

१. अतद्भाव = (कथंचित्) उसरूप नहीं होना वह;

२. लिंगी = लिंगवाला, (विशेषगुण लिंगचिह्न है और लिंगी द्रव्य है) ।

३. तद्भाव = उसरूप, उस-पना; उस-पनासे होना; स्वरूप ।

४. विशिष्ट = विशेषतावाला; खास; भिन्न ।

मूर्तानां गुणानामिन्द्रियग्राह्यत्वं लक्षणम् । अमूर्तानां तदेव विपर्यस्तम् । ते च मूर्ताः पुद्गलद्रव्यस्य, तस्यैवेकस्य मूर्तत्वात् । अमूर्ताः शेषद्रव्याणां, पुद्गलादन्येषां सर्वेषामप्यमूर्तत्वात् ॥ १३१ ॥

अथ मूर्तस्य पुद्गलद्रव्यस्य गुणान् गृणाति—

वर्णरसगंधफामा विज्जंते पुग्गलस्स सुहुमादो ।

पुढवीपरियत्तस्स य सद्दो सो पोग्गलो चित्तो ॥ १३२ ॥

वर्णरसगंधस्पर्शा विद्यन्ते पुद्गलस्य सूक्ष्मात् ।

पृथिवीपर्यन्तस्य च शब्दः स पुद्गलश्चित्रः ॥ १३२ ॥

इन्द्रियग्राह्याः किल स्पर्शरसगन्धवर्णास्तद्विषयत्वात्, ते चेन्द्रियग्राह्यत्वव्यक्तिशक्तिवशात् गृह्यमाणा अगृह्यमाणाश्च आ एकद्रव्यात्मकसूक्ष्मपर्यायात्परमाणोः आ अनेकद्रव्यात्मकस्थूलपर्यायात्पृथिवीस्कन्धाच्च सकलस्यापि पुद्गलस्याविशेषेण विशेषगुणत्वेन विद्यन्ते । ते च मूर्त-

टीकाः—मूर्तं गुणोंका लक्षण इन्द्रियग्राह्यत्व है; और अमूर्तगुणोंका उससे विपरीत है; (अर्थात् अमूर्त गुण इन्द्रियोंसे ज्ञात नहीं होते ।) और मूर्तगुण पुद्गलद्रव्यके हैं, क्योंकि वही (पुद्गल ही) एक मूर्त है; और अमूर्तगुण शेष द्रव्योंके हैं, क्योंकि पुद्गलके अतिरिक्त शेष सभी द्रव्य अमूर्त हैं ॥ १३१ ॥

अब मूर्त पुद्गल द्रव्यके गुण कहते हैं:—

गाथा १३२

अन्वयार्थः—[वर्णरसगंधस्पर्शाः] वर्ण, रस, गंध और स्पर्श (गुण) [सूक्ष्मात्] सूक्ष्मसे लेकर [पृथिवीपर्यन्तस्य च] पृथ्वी पर्यन्तके [पुद्गलस्य] (सर्व) पुद्गलके [विद्यन्ते] होते हैं; [चित्रः शब्दः] जो विविध प्रकारका शब्द है [सः] वह [पुद्गलः] पुद्गल अर्थात् पौद्गलिक पर्याय है ।

टीकाः—स्पर्श, रस, गंध और वर्ण इन्द्रियग्राह्य हैं क्योंकि वे इन्द्रियोंके विषय हैं । वे इन्द्रियग्राह्यताकी व्यक्ति और 'शक्तिके वशसे भले ही इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किये जाते हों या न किये जाते हों तथापि वे एक द्रव्यात्मक सूक्ष्म पर्यायरूप

१. परमाणु, कार्मणवर्गणा इत्यादिमें इन्द्रियग्राह्यता व्यक्त नहीं है, तथापि शक्तिरूपसे अवश्य होती है; इसीलिये बहुतसे परमाणु स्कंधरूप होकर स्थूलता धारण करके इन्द्रियोंसे ज्ञात होते हैं ।

त्वादेव शेषद्रव्याणामसंभवन्तः पुद्गलमधिगमयन्ति । शब्दस्यापीन्द्रियग्राह्यत्वाद्गुणत्वं न खन्वा-
शङ्कनीयं, तस्य वैचित्र्यप्रपञ्चितवैश्वरूपस्याप्यनेकद्रव्यात्मकपुद्गलपर्यायत्वेनाभ्युपगम्यमानत्वात् ।
गुणत्वे वा न तावदमूर्तद्रव्यगुणः शब्दः गुणगुणिनोरविभक्तप्रदेशत्वेनैकवेदनवेद्यत्वाद्मूर्तद्रव्य-
स्यापि श्रवणेन्द्रियविषयत्वापत्तेः । पर्यायलक्षणेनोत्खातगुणलक्षणत्वान्मूर्तद्रव्यगुणोऽपि न
भवति । पर्यायलक्षणं हि कादाचित्कत्वं गुणलक्षणं तु नित्यत्वम् । ततः कादाचित्कत्वोत्खात-
नित्यत्वस्य न शब्दस्यास्ति गुणत्वम् । यत्तु तत्र नित्यत्वं तत्तदारम्भकपुद्गलानां तद्गुणानां च

परमाणुसे लेकर अनेक द्रव्यात्मक स्थूल पर्यायरूप पृथ्वीस्कंध तकके समस्त पुद्गलके,
अविशेषतया विशेषगुणोंके रूपमें होते हैं; और उनके मूर्त होनेके कारण ही,
(पुद्गलके अतिरिक्त) शेष द्रव्योंके न होनेसे वे पुद्गलको बतलाते हैं ।

ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि शब्द भी इन्द्रियग्राह्य होनेसे गुण होगा;
क्योंकि वह (शब्द) 'विचित्रताके द्वारा विश्वरूपत्व (अनेकानेकप्रकारत्व)
दिखलाता है, फिर भी उसे अनेक द्रव्यात्मक पुद्गलपर्यायके रूपमें स्वीकार किया
जाता है ।

यदि शब्दको (पर्याय न मानकर) गुण माना जाय, तो वह क्यों योग्य
नहीं है उसका समाधान:—

प्रथम तो, शब्द अमूर्त द्रव्यका गुण नहीं है, क्योंकि गुण-गुणीमें अभिन्न
प्रदेशत्व होनेसे, वे (गुण-गुणी) 'एक वेदनसे वेद्य होनेसे अमूर्त द्रव्यके भी श्रवणेन्द्रियकी
विषयभूतता आजायगी ।

(दूसरे, शब्दमें) पर्यायके लक्षणसे गुणका लक्षण उत्थापित होनेसे शब्द
मूर्त द्रव्यका गुण भी नहीं है । पर्यायका लक्षण कादाचित्कत्व (अनित्यत्व) है,
और गुणका लक्षण नित्यत्व है; इसलिये (शब्दमें) अनित्यत्वसे नित्यत्वके उत्थापित

१. विचित्रता = विविधता (शब्द भाषात्मक, अभाषात्मक, प्रायोगिक, वैश्वसिक आदि अनेक प्रकारके हैं ।)

२. एक वेदनसे वेद्य = एक ज्ञानसे ज्ञात होने योग्य (नैयायिक शब्दको आकाशका गुण मानते हैं, किन्तु
यह मान्यता अप्रमाण है । गुण-गुणीके प्रदेश अभिन्न होते हैं, इसलिये जिस इन्द्रियसे गुण ज्ञात होता
है । उसीसे गुणी-भी ज्ञात होना चाहिए । शब्द कर्णेन्द्रियसे जाना जाता है, इसलिये आकाश भी
कर्णेन्द्रियसे ज्ञात होना चाहिये । किन्तु वह तो किसी भी इन्द्रियसे ज्ञात होता नहीं है । इसलिये
शब्द आकाशादि अमूर्तिक द्रव्योंका गुण नहीं है ।)

स्पर्शादीनामेव न शब्दपर्यायस्येति दृढतरं ग्राह्यम् । न च पुद्गलपर्यायत्वे शब्दस्य पृथिवीस्कन्ध-
स्येव स्पर्शनादीन्द्रियविषयत्वम् । अपां घ्राणेन्द्रियाविषयत्वात्, ज्योतिषो घ्राणरसनेन्द्रियाविषय-
त्वात्, मरुतो घ्राणरसनचक्षुरिन्द्रियाविषयत्वाच्च । न चागन्धागन्धरसागन्धरसवर्णाः, एवमप-
ज्योतिर्मारुतः, सर्वपुद्गलानां स्पर्शादिचतुष्कोपेतत्वाभ्युपगमात् । व्यक्तस्पर्शादिचतुष्कानां च
चन्द्रकान्तारणियवानामारम्भकैरेव पुद्गलैरव्यक्तगन्धाव्यक्तगन्धरसाव्यक्तगन्धरसवर्णानामप्यज्यो-

होनेसे (अर्थात् शब्द कभी कभी ही होता है, और नित्य नहीं है, इसलिये) शब्द
गुण नहीं है । जो वहाँ नित्यत्व है वह उसे (शब्दको) उत्पन्न करनेवाले पुद्गलोंका
और उनके स्पर्शादिक गुणोंका ही है, शब्द पर्यायका नहीं,—इसप्रकार अतिदृढ़ता पूर्वक
ग्रहण करना चाहिये ।

और, “यदि शब्द पुद्गलकी पर्याय हो तो वह पृथ्वीस्कंधकी भाँति
स्पर्शनादिक इन्द्रियोंका विषय होना चाहिये, अर्थात् जैसे पृथ्वीस्कंधरूप पुद्गलपर्याय
सर्व इन्द्रियोंसे ज्ञात होती है उसीप्रकार शब्दरूपपुद्गल पर्याय भी सभी इन्द्रियोंसे
ज्ञात होनी चाहिये” (ऐसा तर्क किया जाय तो) ऐसा भी नहीं है; क्योंकि पानी
(पुद्गलकी पर्याय है, फिर भी) घ्राणेन्द्रियका विषय नहीं है; अग्नि घ्राणेन्द्रिय तथा
रसनेन्द्रियका विषय नहीं है, और वायु घ्राण, रसना, तथा चक्षुइन्द्रियका विषय नहीं
है । और ऐसा भी नहीं है कि—पानी गंध रहित है (इसलिये नाकसे अग्राह्य है),
अग्नि गंध तथा रस रहित है (इसलिये नाक तथा जीभसे अग्राह्य है); और वायु
गंध, रस तथा वर्ण रहित है (इसलिये नाक, जीभ तथा आँखोंसे अग्राह्य है);
क्योंकि सभी पुद्गल स्पर्शादि चतुष्कयुक्त स्वीकार किये गये हैं । क्योंकि जिनके

१. चतुष्क = चतुष्टय, चारका समूह । [समस्त पुद्गलोंमें—पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इन सबहीमें
स्पर्शादि चारों गुण होते हैं । मात्र अन्तर इतना ही है कि पृथ्वीमें चारों गुण व्यक्त हैं, पानीमें गंध
अव्यक्त है, अग्निमें गंध तथा रस अव्यक्त है, और वायुमें गंध, रस तथा वर्ण अव्यक्त हैं । इस बातकी
सिद्धिके लिये युक्ति इसप्रकार है:— चन्द्रकान्त मणिरूप पृथ्वीमेंसे पानी भरता है; अरणिकी-लकड़ी-
मेंसे अग्नि प्रगट होती है और जौ खानेसे पेटमें वायु उत्पन्न होती है । इसलिये—(१) चंद्रकान्त-
मणिमें, (२) अरणि-लकड़ीमें, और (३) जौ में रहनेवाले चारों गुण (१) पानीमें, (२) अग्निमें,
और (३) वायुमें होने चाहिये । मात्र अन्तर इतना ही है कि उन गुणोंमेंसे कुछ अप्रगटरूपसे
परिणामित हुये हैं । और फिर, पानीमेंसे मोतीरूप पृथ्वीकाय और अग्निमेंसे काजलरूप पृथ्वीकायके
उत्पन्न होने पर चारों गुण प्रगट होते हुये देखे जाते हैं ।]

तिरुदरमरुतामारम्भदर्शनात् । न च क्वचित्कस्यचित् गुणस्य व्यक्ताव्यक्तत्वं कादाचित्कपरिणाम-
बैचित्र्यप्रत्ययं नित्यद्रव्यस्वभावप्रतिघाताय । ततोऽस्तु शब्दः पुद्गलपर्याय एवेति ॥ १३२ ॥

अथामूर्तानां शेषद्रव्याणां गुणान् गृणाति—

आकाशस्यावगाहो धर्मद्रव्यस्य गमनहेतुत्वं ।
धर्मेदरद्रव्यस्य तु गुणो पुणो ठाणकारणदा ॥ १३३ ॥
कालस्य वर्तना से गुणोवत्रोगो ति अप्पणो भणितो ।
णेया संखेवादी गुणा हि मुत्तिप्पहीणाणं ॥ १३४ ॥ जुगलं ।

आकाशस्यावगाहो धर्मद्रव्यस्य गमनहेतुत्वम् ।

धर्मेदरद्रव्यस्य तु गुणः पुनः स्थानकारणता ॥ १३३ ॥

कालस्य वर्तना स्यात् गुण उपयोग इति आत्मनो भणितः ।

जेयाः संखेपाद्गुणा हि मूर्तिप्रहीणानाम् ॥ १३४ ॥ युगलम् ।

स्पर्शादिचतुष्क व्यक्त हैं ऐसे (१) चन्द्रकान्तमणिको, (२) अरणिको, और (३) जौ को जो पुद्गल उत्पन्न करते हैं उन्हींके द्वारा (१) जिसकी गंध अव्यक्त है ऐसे पानीकी, (२) जिसकी गंध तथा रस अव्यक्त है ऐसी अग्निकी, और (३) जिसकी गंध, रस तथा वर्ण अव्यक्त है ऐसी उदरवायुकी उत्पत्ति होती देखी जाती है ।

और कहीं (किसी पर्यायमें) किसी गुणकी कादाचित्क परिणामकी विचित्रताके कारण होनेवाली व्यक्तता या अव्यक्तता नित्य द्रव्यस्वभावका प्रतिघात नहीं करती । (अर्थात् अनित्यपरिणामके कारण होनेवाली गुणकी प्रगटता और अप्रगटता नित्य द्रव्यस्वभावके साथ कहीं विरोधको प्राप्त नहीं होती ।)

इसलिये शब्द पुद्गलकी पर्याय ही है ॥ १३२ ॥

अब, शेष अमूर्त द्रव्योंके गुण कहते हैं:—

गाथा १३३-३४

अन्वयार्थः— [आकाशस्यावगाहः] आकाशका अवगाह, [धर्मद्रव्यस्य गमन-
हेतुत्वं] धर्मद्रव्यका गमनहेतुत्व [तु पुनः] और [धर्मेदरद्रव्यस्य गुणः] अधर्म
द्रव्यका गुण [स्थानकारणता] स्थानकारणता है । [कालस्य] कालका गुण [वर्तना
स्यात्] वर्तना है, [आत्मनः गुणः] आत्माका गुण [उपयोगः इति भणितः] उपयोग

विशेषगुणो हि युगपत्सर्वद्रव्याणां साधारणावगाहहेतुत्वमाकाशस्य, सकृत्सर्वेषां गमन-परिणामिनां जीवपुद्गलानां गमनहेतुत्वं धर्मस्य, सकृत्सर्वेषां स्थानपरिणामिनां जीवपुद्गलानां स्थानहेतुत्वमधर्मस्य; अशेषशेषद्रव्याणां प्रतिपर्यायं समयवृत्तिहेतुत्वं कालस्य, चैतन्यपरिणामो जीवस्य । एवममूर्तानां विशेषगुणसंक्षेपाधिगमे लिङ्गम् । तत्रैककालमेव सकलद्रव्यसाधारणावगाहसंपादनमसर्वगतत्वादेव शेषद्रव्याणामसंभवदाकाशमधिगमयति । तथैकवारमेव गतिपरिणत-

कहा है । [भूर्तिप्रहीणानां गुणाः हि] इसप्रकार अमूर्त द्रव्योंके गुण [संक्षेपात्] संक्षेपसे [ज्ञेयाः] जानना चाहिये ।

टीका:—युगपत् सर्वद्रव्योंके साधारण अवगाहका हेतुत्व आकाशका विशेष गुण है । एक ही साथ सर्व गतिरूप परिणमित जीव-पुद्गलोंके गमनका हेतुत्व धर्मका विशेष गुण है । एक ही साथ सर्व स्थितिरूप परिणमित जीव-पुद्गलोंके स्थिर होनेका हेतुत्व अधर्मका विशेषगुण है । (कालके अतिरिक्त) शेष समस्त द्रव्योंकी प्रति-पर्यायमें समयवृत्तिका हेतुत्व (समय-समयकी परिणतिका निमित्तत्व) कालका विशेष गुण है । चैतन्य परिणाम जीवका विशेष गुण है । इसप्रकार अमूर्त द्रव्योंके विशेष गुणोंका संक्षिप्त ज्ञान होने पर अमूर्त द्रव्योंको जाननेके लिए (चिह्न, लक्षण, साधन) प्राप्त होते हैं; अर्थात् उन-उन विशेष गुणोंके द्वारा उन-उन अमूर्त द्रव्योंका अस्तित्व-ज्ञान होता है—सिद्ध होता है । (इसीको स्पष्टता पूर्वक समझते हैं:—)

वहाँ एक ही कालमें समस्त द्रव्योंको साधारण अवगाहका संपादन (अवगाह हेतुत्वरूप लिंग) आकाशको बतलाता है; क्योंकि शेष द्रव्योंके सर्वगत न होनेसे उनके वह संभव नहीं है ।

इसीप्रकार एक ही कालमें गति परिणत समस्त जीव-पुद्गलोंको लोक तक गमनका हेतुत्व धर्मको बतलाता है; क्योंकि काल और पुद्गल अप्रदेशी हैं इसलिये उनके वह संभव नहीं है; जीव समुद्घातको छोड़कर अन्यत्र लोकके असंख्यातवें भाग मात्र है, इसलिये उसके वह संभव नहीं है लोक अलोककी सीमा अचलित होनेसे वह आकाशके संभव नहीं है, और विरुद्ध कार्यका हेतु होनेसे अधर्मके वह संभव नहीं है ।

(काल और पुद्गल एकप्रदेशी हैं, इसलिये वे लोक तक गमनमें निमित्त नहीं हो सकते; जीव समुद्घातको छोड़कर अन्य कालमें लोकके असंख्यातवें भागमें

१. अवगाह = लीन होना; मज्जित होना, अवकाश प्राप्त करना । (एक ही कालमें सर्व द्रव्योंको सामान्य अवकाशकी प्राप्तिमें आकाशद्रव्य निमित्तभूत है ।)

समस्तजीवपुद्गलानामालोकाद्गमनहेतुत्वमप्रदेशत्वात्कालपुद्गलयोः समुद्घातादन्यत्र लोकासंख्येय-
भागमात्रत्वाजीवस्य लोकालोकसीम्नोऽचलितत्वादाकाशस्य विरुद्धकार्यहेतुत्वादधर्मस्यासंभवद्धर्म-
मधिगमयति । तथैकवारमेव स्थितिपरिणतसमस्तजीवपुद्गलानामालोकात्स्थानहेतुत्वमप्रदेशत्वात्का-
लपुद्गलयोः, समुद्घातादन्यत्र लोकासंख्येयभागमात्रत्वाजीवस्य, लोकालोकसीम्नोऽचलितत्वादा-

ही रहता है, इसलिये वह भी लोक तक गमनमें निमित्त नहीं हो सकता; यदि आकाश गतिमें निमित्त हो तो जीव और पुद्गलोंकी गति अलोकमें भी होने लगे, जिससे लोकालोककी मर्यादा ही न रहेगी; इसलिये गतिहेतुत्व आकाशका भी गुण नहीं है; अधर्म द्रव्य तो गतिसे विरुद्ध-स्थितिकार्यमें निमित्तभूत है, इसलिये वह भी गतिमें निमित्त नहीं हो सकता । इसप्रकार गतिहेतुत्वगुण धर्मनामक द्रव्यका अस्तित्व बतलाता है ।)

इसीप्रकार एक ही कालमें स्थिति परिणत समस्त जीव-पुद्गलोंको लोक तक स्थितिका हेतुत्व अधर्मको बतलाता है; क्योंकि काल और पुद्गल अप्रदेशी हैं, इसलिये उनके वह संभव नहीं है; जीव समुद्घातको छोड़कर अन्यत्र लोकके असंख्यातवें भाग मात्र है, इसलिये उसके वह संभव नहीं है; लोक और अलोककी सीमा अचलित होनेसे आकाशके वह संभव नहीं है, और विरुद्ध कार्यका हेतु होनेसे धर्मके वह संभव नहीं है ।

इसीप्रकार (कालके अतिरिक्त) शेष समस्त द्रव्योंके, प्रत्येक पर्यायमें समयवृत्तिका हेतुत्व कालको बतलाता है, क्योंकि उनके, 'समयविशिष्टवृत्ति कारणान्तरसे साध्य होनेसे (अर्थात् उनके समयसे विशिष्टपरिणति अन्य कारणसे होती है, इसलिये) स्वतः उनके वह (समयवृत्ति हेतुत्व) संभवित नहीं है ।

इसीप्रकार चैतन्य परिणाम जीवको बतलाता है, क्योंकि वह चेतन है, इसलिये शेष द्रव्योंके वह संभव नहीं है ।

इसप्रकार गुण विशेषसे द्रव्यविशेष जानना चाहिये ।

भावार्थः—जैसा कि पहले बताया गया है,—स्पर्श, रस, गंध, वर्णसे पुद्गल द्रव्योंका अस्तित्व ज्ञात होता है । यहाँ अमूर्त द्रव्योंका अस्तित्व उनके विशेष लक्षणोंसे प्रगट किया गया है ।

१. कालसे अतिरिक्त द्रव्योंकी परिणति 'एक समयमें यह परिणति हुई है' इसप्रकार समयसे विशिष्ट है, अर्थात् व्यवहारसे उसमें समयकी अपेक्षा आती है, इसलिये उसमें द्रव्य-कालद्रव्य-निमित्त होना चाहिये ।

काशस्य, विरुद्धकार्यहेतुत्वाद्धर्मस्य चासंभवदधर्ममधिगमयति । तथा अशेषशेषद्रव्याणां प्रतिपर्याय समयवृत्तिहेतुत्वं कारणान्तरसाध्यत्वात्समयविशिष्टाया वृत्तेः स्वतस्तेषामसंभवत्कालमधिगमयति । तथा चैतन्यपरिणामश्चेतनत्वादेव शेषद्रव्याणामसंभवन् जीवमधिगमयति । एवं गुणविशेषा-
वृद्धव्यविशेषोऽधिगन्तव्यः ॥ १३३ । १३४ ॥

अथ द्रव्याणां प्रदेशवत्त्वाप्रदेशवत्त्वविशेषं प्रज्ञापयति—

जीवा पौद्गलकाया धम्माऽधम्मा पुणो य आगासं ।

सपदेसेहिं असंखादा एत्थि पदेस त्ति कालस्स ॥ १३५ ॥

जीवाः पुद्गलकाया धर्माधर्मौ पुनश्चाकाशम् ।

स्वप्रदेशैरसंख्याता न मन्ति प्रदेशा इति कालस्य ॥ १३५ ॥

चैतन्य परिणामरूप लक्षण अनुभवमें आता है इसलिये अनन्तजीव द्रव्योंका अस्तित्व ज्ञात होता है । जीवादि समस्त द्रव्य जिसके निमित्तसे अवगाह (अवकाश) को प्राप्त करते हैं, ऐसा कोई द्रव्य होना चाहिये; वह द्रव्य लोकालोकव्यापी आकाश है । जीव और पुद्गल गति करते हुये मालुम होते हैं, इसलिये जैसे मछलीको गति करनेमें निमित्तभूत जल है उसीप्रकार जीव और पुद्गलोंको गति करनेमें निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिये; वह द्रव्य लोकव्यापी धर्मद्रव्य है । जैसे मनुष्यको स्थितिमें निमित्तभूत पृथ्वी है उसीप्रकार जीव और पुद्गलोंकी स्थितिमें निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिये । वह द्रव्य लोकव्यापी अधर्मद्रव्य है । जैसे कुम्हारके चक्रके चलनेमें कील निमित्तभूत है उसीप्रकार (कालके अतिरिक्त) सर्व द्रव्योंके परिणमनमें निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिये; वह द्रव्य असंख्यात कालाणु हैं, जिनकी पर्यायें समय, घड़ी, दिन, वर्ष इत्यादिरूपसे व्यक्त होती हैं ।

इसप्रकार गुणभेदसे द्रव्यभेद निश्चित हुआ ॥ १३३-१३४ ॥

अब, द्रव्यका 'प्रदेशवत्त्व और अप्रदेशवत्त्वरूप विशेष (भेद) बतलाते हैं:—

भाषा १३५

अन्वयार्थः—[जीवाः] जीव [पुद्गलकायाः] पुद्गलकाय, [धर्माधर्मौ] धर्म, अधर्म [पुनः च] और [आकाशं] आकाश [स्वप्रदेशैः] स्वप्रदेशोंकी अपेक्षासे

प्रदेशवन्ति हि जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशानि अनेकप्रदेशवत्त्वात् । अप्रदेशः कालाणुः प्रदेशमात्रत्वात् । अस्ति च संवर्तविस्तारयोरपि लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशपरित्यागाजीवस्य द्रव्येण प्रदेशमात्रत्वादप्रदेशत्वेऽपि द्विप्रदेशादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशपर्यायिणानवधारितप्रदेशत्वात्पुद्गलस्य, सकललोकव्याप्यसंख्येयप्रदेशप्रस्ताररूपत्वात् धर्मस्य, सकललोकव्याप्यसंख्येयप्रदेशप्रस्ताररूपत्वादधर्मस्य, सर्वव्याप्यनन्तप्रदेशप्रस्ताररूपत्वादाकाशस्य च प्रदेशवत्त्वम् । कालाणोस्तु द्रव्येण प्रदेशमात्रत्वात्पर्यायेण तु परस्परसंपर्कसंभवादप्रदेशत्वमेवास्ति । ततः कालद्रव्यमप्रदेशं शेषद्रव्याणि प्रदेशवन्ति ॥ १३५ ॥

४. अब कामीः प्रदेशिनोऽप्रदेशान्भवस्वितः इति प्रज्ञापयति—

लोगालोगेषु एभो धम्माधम्महि आददो लोगो ।

सेसे पडुच्च कालो जीवा पुण पोग्गला सेमा ॥ १३६ ॥

[असंख्याताः] असंख्यात अर्थात् अनेक हैं; [कालस्य] कालके [प्रदेशाः इति] प्रदेश [न सन्ति] नहीं हैं ।

टीका:—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, और आकाश अनेक प्रदेशवाले होनेसे प्रदेशवान् हैं । कालाणुः प्रदेशमात्र (एक प्रदेशी) होनेसे अप्रदेशी है ।

(उपरोक्त बातको स्पष्ट करते हैं:—) संकोच-विस्तारके होने पर भी जीव लोकाकाशतुल्य असंख्य प्रदेशोंको नहीं छोड़ता, इसलिये वह प्रदेशवान् है; पुद्गल, यद्यपि द्रव्य अपेक्षासे प्रदेशमात्र (एकप्रदेशी) होनेसे अप्रदेशी है; तथापि दो प्रदेशोंसे लेकर संख्यात, असंख्यात और अनन्तप्रदेशोंवाली पर्यायोंकी अपेक्षासे अनिश्चित प्रदेशवाला होनेसे प्रदेशवान् है; सकल लोकव्यापी असंख्य प्रदेशोंके प्रस्ताररूप होनेसे धर्म प्रदेशवान् है; सकललोकव्यापी असंख्यप्रदेशोंके विस्ताररूप होनेसे अधर्म प्रदेशवान् है; और सर्वव्यापी अनन्तप्रदेशोंके विस्ताररूप होनेसे आकाश प्रदेशवान् है । कालाणु तो द्रव्यतः प्रदेशमात्र होनेसे और पर्यायतः परस्पर संपर्क न होनेसे अप्रदेशी ही है ।

इसलिये कालद्रव्य अप्रदेशी है और शेष द्रव्य प्रदेशवान् हैं ॥ १३५ ॥

अब, यह बतलाते हैं कि प्रदेशी और अप्रदेशी द्रव्य कहाँ रहते हैं:—

लोकालोकयोर्नभो धर्माधर्माभ्यामाततो लोकः ।

शेषौ प्रतीत्य कालो जीवाः पुनः पुद्गलाः शेषौ ॥ १३६ ॥

आकाशं हि तावत् लोकालोकयोरपि षड्द्रव्यसमवायासमवाययोरविभागेन वृत्तत्वात् । धर्माधर्मौ सर्वत्र लोके तन्निमित्तगमनस्थानानां जीवपुद्गलानां लोकाद्बहिस्तदेकदेशे च गमनस्थानासंभवात् । कालोऽपि लोके जीवपुद्गलपरिणामव्यज्यमानसमयादिपर्यायत्वात्, स तु लोकैकप्रदेश एवाप्रदेशत्वात् । जीवपुद्गलौ तु युक्तित एव लोके षड्द्रव्यसमवायात्मकत्वान्लोकस्य । किन्तु जीवस्य प्रदेशसंबर्तविस्तारधर्मत्वात् पुद्गलस्य बन्धहेतुभूतस्निग्धरूक्षगुणधर्मत्वाच्च तदेकदेशसर्वलोकनियमो नास्ति कालजीवपुद्गलानामित्येकद्रव्यापेक्षया एकदेश अनेकद्रव्यापेक्षया पुनरञ्जनचूर्णपूर्णसमुद्रकन्यायेन सर्वलोक एवेति ॥ १३६ ॥

गाथा १३६

अन्वयार्थः—[नभः] आकाश [लोकालोकयोः] लोकालोकमें है, [लोकः] लोक [धर्माधर्माभ्याम् आततः] धर्म और अधर्मसे व्याप्त है, [शेषौ प्रतीत्य] शेष दो द्रव्योंका आश्रय लेकर [कालः] काल है, [पुनः] और [शेषौ] व शेष दो द्रव्य [जीवाः पुद्गलाः] जीव और पुद्गल हैं ।

टीकाः—प्रथम तो, आकाश लोक तथा अलोकमें है, क्योंकि वह छह द्रव्योंके समवाय और असमवायमें विना विभागके रहता है । धर्म और अधर्म द्रव्य सर्वत्र लोकमें है, क्योंकि उनके निमित्तसे जिनकी गति और स्थिति होती है ऐसे जीव और पुद्गलोंकी गति या स्थिति लोकसे बाहर नहीं होती, और न लोकके एक-देशमें होती है, (अर्थात् लोकमें सर्वत्र होती है) । काल भी लोकमें है, क्योंकि जीव और पुद्गलोंके परिणामोंके द्वारा (कालकी) समयादि पर्यायें व्यक्त होती हैं; और वह काल लोकके एकप्रदेशमें ही है, क्योंकि वह अप्रदेशी है । जीव और पुद्गल तो युक्तिसे ही लोकमें हैं, क्योंकि लोक छह द्रव्योंका समवायस्वरूप है ।

और इसके अतिरिक्त (इतना विशेष जानना चाहिये कि), प्रदेशोंका संकोचविस्तार होना जीवका धर्म है, और बंधके हेतुभूत स्निग्ध-रूक्ष (—चिकने—रूखे) गुण पुद्गलका धर्म है, इसलिये जीव और पुद्गलका समस्त लोकमें या उसके एकदेशमें रहनेका नियम नहीं है । और, काल, जीव तथा पुद्गल एक द्रव्यकी अपेक्षासे लोकके एकदेशमें रहने हैं, और अनेक द्रव्योंकी अपेक्षासे अंजनचूर्ण (काजल) से भरी हुई डिब्बियाके न्यायानुसार समस्त लोकमें ही हैं ॥ १३६ ॥

अथ प्रदेशवत्त्वाप्रदेशवत्त्वसंभवप्रकारमाह्वयति—

जध ते णभप्पदेसा तधप्पदेसा ह्वंति सेमाणं ।
अपदेशो परमाणु तेण पदेसुब्भवो भणितो ॥ १३७ ॥

यथा ते नमःप्रदेशास्तथा प्रदेशा भवन्ति शेषाणाम् ।

अप्रदेशः परमाणुस्तेन प्रदेशोद्भवो भणितः ॥ १३७ ॥

सूत्रयिष्यते हि स्वयमाकाशस्य प्रदेशलक्षणमेकाणुव्याप्यत्वमिति । इह तु यथाकाशस्य प्रदेशास्तथाशेषद्रव्याणामिति प्रदेशलक्षणप्रकारैकत्वमाह्वयते । ततो यथैकाणुव्याप्येनांशेन गण्यमानस्याकाशस्यानन्तांशत्वादनन्तप्रदेशत्वं तथैकाणुव्याप्येनांशेन गण्यमानानां धर्माधर्मक-जीवानामसंख्येयांशत्वात् प्रत्येकमसंख्येयप्रदेशत्वम् । यथा चावस्थितप्रमाणयोर्धर्माधर्मयोस्तथा

अब, यह कहते हैं कि प्रदेशवत्त्व और अप्रदेशवत्त्व किस प्रकारसे संभव है:—

गाथा १३७

अन्वयार्थः—[यथा] जैसे [ते नमः प्रदेशाः] वे आकाशप्रदेश हैं [तथा] उसीप्रकार [शेषाणां] शेष द्रव्योंके [प्रदेशाः भवन्ति] प्रदेश हैं । अर्थात् जैसे-आकाशके प्रदेश परमाणुरूपी गजसे नापे जाते हैं, उसीप्रकार शेष द्रव्योंके प्रदेश भी इसीप्रकार नापे जाते हैं । [परमाणुः] परमाणु [अप्रदेशः] अप्रदेशी है; [तेन] उसके द्वारा [प्रदेशोद्भवः भणितः] प्रदेशोद्भव कहा है ।

टीका:— (भगवत् कृष्णकृष्ण-कहान) स्वयं ही (१४० वें) सूत्र द्वारा कहेंगे कि आकाशके प्रदेशका लक्षण एकाणुव्याप्यत्व (अर्थात् एक परमाणुसे व्याप्त होना वह प्रदेशका लक्षण है) है; और यहाँ (इस सूत्र या गाथामें) 'जिसप्रकार आकाशके प्रदेश हैं उसीप्रकार शेष द्रव्योंके प्रदेश हैं' इसप्रकार प्रदेशके लक्षणकी एकप्रकारता कही जाती है । इसलिये, जैसे एकाणुव्याप्य (जो एक परमाणुसे व्याप्य हो ऐसे) अंशके द्वारा गिने जाने पर आकाशके अनन्त अंश होनेसे आकाश अनन्तप्रदेशी है, उसीप्रकार एकाणुव्याप्य (—एक परमाणुसे व्याप्त हो उतना) अंशके द्वारा गिने जानेपर धर्म, अधर्म और एक जीवके असंख्यात अंश होनेसे वे—प्रत्येक असंख्यातप्रदेशी हैं । और जैसे 'अवस्थित प्रमाणवाले धर्म तथा अधर्म असंख्यातप्रदेशी हैं, उसीप्रकार

१. अवस्थित प्रमाण = नियत परिमाण, निश्चित माप; (धर्म तथा अधर्म द्रव्यका माप लोक जितना नियत है ।)

संवर्तविस्ताराभ्यामनवस्थितप्रमाणस्यापि शुष्कार्द्रत्वाभ्यां चर्मण इव जीवस्य स्वांशान्पबहुत्वा-
भावादसंख्येयप्रदेशत्वमेव । अमूर्तसंवर्तविस्तारसिद्धिश्च स्थूलकृशशुक्रशुक्रशरीरव्यापित्वादस्ति
स्वसंवेदनसाध्यैव । पुद्गलस्य तु द्रव्येणैकप्रदेशमात्रत्वादप्रदेशत्वे यद्योदिते सत्यपि द्विप्रदेशाद्यु-
द्भवहेतुभूततथाविधस्निग्धरूक्षगुणपरिणामशक्तिस्वभावात्प्रदेशोद्भवत्वमस्ति । ततः पर्यायेणानेक-
प्रदेशत्वस्यापि संभवात् द्रव्यादिसंख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशत्वमपि न्याय्यं पुद्गलस्य ॥ १३७ ॥

अथ कालाणोरप्रदेशत्वमेवेति नियमयति—

समञ्चो दु अप्पदेशो पदेसमेत्तस्स दव्वजादस्स ।

वदिवददो सो वट्टदि पदेसमागामदव्वस्स ॥१३८ ॥

संकोच-विस्तारके कारण अनवस्थित प्रमाणवाले जीवके-सूखे-गीले चमड़ेकी भाँति-
निज अंशोंका अल्पबहुत्व नहीं होता इसलिये असंख्यातप्रदेशित्व ही है ।

(यहाँ यह प्रश्न होता है कि अमूर्त जीवका संकोच-विस्तार कैसे संभव
है ? उसका समाधान किया जाता है:—)

अमूर्तके संकोच-विस्तारकी सिद्धि तो अपने अनुभवसे ही साध्य है, क्योंकि
(सबको स्वानुभवसे स्पष्ट है कि) जीव स्थूल तथा कृश शरीरमें तथा बालक और
कुमारके शरीरमें व्याप्त होता है ।

पुद्गल तो द्रव्यतः एकप्रदेशमात्र होनेसे यथोक्त (पूर्वकथित) प्रकारसे
अप्रदेशी है, तथापि दो प्रदेशादिके उद्भवके हेतुभूत तथाविध (उस प्रकारके)
स्निग्ध-रूक्ष गुणरूप परिणमित होनेकी शक्तिरूप स्वभावके कारण उसके प्रदेशोंका
उद्भव है । इसलिये पर्यायतः अनेक प्रदेशित्वका भी संभव होनेसे पुद्गलको द्विप्रदेशि-
त्वसे लेकर संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रदेशित्व भी न्याययुक्त है ॥ १३७ ॥

अब, यह नियम बतलाते हैं कि 'कालाणु अप्रदेशी ही है':—

१. अनवस्थित = अनियत; अनिश्चित; (सूखे-गीले चर्मकी भाँति जीव परचेत्रकी अपेक्षासे संकोच-
विस्तारको प्राप्त होनेसे अनिश्चित मापवाला है । ऐसा होने पर भी जैसे चमड़ेके निज अंश
कम-बढ़ नहीं होते उसीप्रकार जीवके निज अंश कम-बढ़ नहीं होते, इसलिये वह सदा नियत
असंख्यप्रदेशी ही है ।)
२. द्विप्रदेशी इत्यादि रूग्णोंकी उत्पत्तिके कारणभूत जो स्निग्ध-रूक्ष गुण हैं उनरूप परिणमित
होनेकी शक्ति पुद्गलका स्वभाव है ।

समयस्त्वप्रदेशः प्रदेशमात्रस्य द्रव्यजातस्य ।

व्यतिपततः स वर्तते प्रदेशमाकाशद्रव्यस्य ॥ १३८ ॥

अप्रदेश एव समयो द्रव्येण प्रदेशमात्रत्वात् न च तस्य पुद्गलस्येव पर्यायेणाप्यनेकप्रदेशत्वं यतस्तस्य निरन्तरं प्रस्तारविस्तृतप्रदेशमात्राप्रसंख्येयद्रव्यत्वेऽपि परस्परसंपर्कासंभवादेकैकमाकाश-

गाथा १३८

अन्वयार्थः—[समयः तु] काल तो [अप्रदेशः] अप्रदेशी है, [प्रदेशमात्रस्य द्रव्यजातस्य] प्रदेशमात्र पुद्गल-परमाणु [आकाश द्रव्यस्य प्रदेशं] आकाश द्रव्यके प्रदेशको [व्यतिपततः] मंदगतिसे उल्लंघन कर रहा हो तब [सः वर्तते] वह वर्तता है, अर्थात् निमित्तभूततया परिणमित होता है ।

टीकाः—काल, द्रव्यतः प्रदेशमात्र होनेसे, अप्रदेशी ही है । और उसे पुद्गलकी भाँति पर्यायतः भी अनेकप्रदेशित्व नहीं है; क्योंकि परस्पर अन्तरके विना 'प्रस्ताररूप विस्तृत प्रदेशमात्र असंख्यात कालद्रव्य होने पर भी परस्पर संपर्क न होनेसे एक एक आकाशप्रदेशको व्याप्त करके रहनेवाले कालद्रव्यकी वृत्ति तभी होती है (अर्थात् कालाणुकी परिणति तभी निमित्तभूत होती है) जब 'प्रदेशमात्र परमाणु उस (कालाणु) से व्याप्त एक आकाशप्रदेशको मन्दगतिसे उल्लंघन करता हो ।

भावार्थः—लोकाकाशके असंख्यातप्रदेश हैं । एक एक प्रदेशमें एक एक कालाणु रहा हुआ है । वे कालाणु स्निग्ध-रूक्षगुणके अभावके कारण रत्नोंकी राशिकी भाँति पृथक् पृथक् ही रहते हैं; पुद्गल परमाणुओंकी भाँति परस्पर मिलते नहीं हैं ।

जब पुद्गलपरमाणु आकाशके एक प्रदेशको मन्दगतिसे उल्लंघन करता है (अर्थात् एक प्रदेशसे दूसरे अन्तर-निकटतम प्रदेशपर मन्दगतिसे जाता है) तब उस (उल्लंघित किये जानेवाले) प्रदेशमें रहनेवाला कालाणु उसमें निमित्तभूतरूपसे

१. प्रस्तार = विस्तार । (असंख्यात कालद्रव्य समस्त लोकाकाशमें फैले हुये हैं । उनके परस्पर अन्तर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक आकाशप्रदेशमें एक एक कालद्रव्य रह रहा है ।)

२. प्रदेशमात्र = एकप्रदेशी (जब एकप्रदेशी ऐसा परमाणु किसी एक आकाशप्रदेशको मन्दगतिसे उल्लंघन कर रहा हो तभी उस आकाश प्रदेशमें रहनेवाले कालद्रव्यकी परिणति उसमें निमित्तभूतरूपसे वर्तती है ।)

प्रदेशमभिव्याप्य तस्युषःप्रदेशमात्रस्य परमाणोस्तदभिव्याप्तमेकमाकाशप्रदेशं मन्दगत्या व्यतिपतत-
एव वृत्तिः ॥ १३८ ॥

अथ कालपदार्थस्य द्रव्यपर्यायी प्रज्ञापयति—

वदिवददो तं देशं तस्सम समञ्चो तदो परो पुव्वो ।

जो अत्थो सो कालो समञ्चो उप्पणपद्धंसी ॥ १३९ ॥

व्यतिपततस्तं देशं तत्समः समयस्ततः परः पूर्वः ।

योऽर्थः स कालः समय उत्पन्नध्वंसी ॥ १३९ ॥

यो हि येन प्रदेशमात्रेण कालपदार्थेनाकाशस्य प्रदेशोऽभिव्याप्तस्तं प्रदेशं मन्दगत्या-
क्रमतः परमाणोस्तत्प्रदेशमात्रातिक्रमणपरिमाणेन तेन समो यः कालपदार्थसूक्ष्मवृत्तिरूपसमः

रहता है। इसप्रकार प्रत्येक कालाणु पुद्गलपरमाणुके एकप्रदेश तकके गमन पर्यंत ही सहकारीरूपसे रहता है, अधिक नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि कालद्रव्य पर्यायतः भी अनेकप्रदेशी नहीं है ॥ १३८ ॥

अब काल पदार्थके द्रव्य और पर्यायको बतलाते हैं :—

गाथा १३९

अन्वयार्थः—[तं देशं व्यतिपततः] परमाणु एक आकाशप्रदेशका (मन्दगतिसे) उल्लंघन करता है तब [तत्समः] उसके बराबर जो काल (लगता है) वह [समयः] 'समय' है; [ततः पूर्वः परः] उस (समय)से पूर्व तथा पश्चात् ऐसा (नित्य) [यः अर्थः] जो पदार्थ है [सः कालः] वह कालद्रव्य है; [समयः उत्पन्न-प्रध्वंशी] 'समय' उत्पन्नध्वंसी है ।

टीकाः—किसी प्रदेशमात्र कालपदार्थके द्वारा आकाशका जो प्रदेश व्याप्त हो उस प्रदेशको जब परमाणु मन्दगतिसे (अतिक्रम-उल्लंघन) करता है तब उस प्रदेशमात्र 'अतिक्रमणके 'परिमाणके बराबर जो कालपदार्थकी सूक्ष्मवृत्तिरूप 'समय' है, वह उस काल पदार्थकी पर्याय है। और ऐसी उस पर्यायसे पूर्वकी तथा बादकी

१. अतिक्रमण = उल्लंघन करना ।

२. परिमाण = माप

स तस्य कालपदार्थस्य पर्यायस्ततः एवंविधात्पर्यायात्पूर्वोत्तरवृत्तिवृत्तत्वेन व्यञ्जितनित्यत्वे योऽर्थः तत्तु द्रव्यम् । एवमनुत्पन्नाविध्वस्तो द्रव्यसमयः, उत्पन्नप्रध्वंसी पर्यायसमयः । अनंशः समयोऽयमाकाशप्रदेशस्यानंशत्वान्यथानुपपत्तेः । न चैकसमयेन परमाणोरालोकान्तगमनेऽपि समयस्य सांशत्वं विशिष्टगतिपरिणामाद्विशिष्टावगाहपरिणामवत् । तथाहि—यथा विशिष्टावगाहपरिणामादेकपरमाणुपरिमाणोऽनन्तपरमाणुस्कन्धः परमाणोरनंशत्वात् पुनरप्यनन्तांशत्वं न साधयति

वृत्तिरूपसे वर्तित होनेसे जिसका नित्यत्व प्रगट होता है, ऐसा पदार्थ द्रव्य है । इसप्रकार द्रव्यसमय (कालद्रव्य) अनुत्पन्न-अविनष्ट है और पर्यायसमय उत्पन्नध्वंसी है, (अर्थात् 'समय' पर्याय उत्पत्ति-विनाशवाली है ।) यह समय निरंश है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो आकाशके प्रदेशका निरंशत्व न बने ।

और एक समयमें परमाणु लोकके अन्त तक जाता है, फिर भी समयके अंश नहीं होते; क्योंकि जैसे (परमाणुके) विशिष्ट (खास प्रकारका) अवगाह परिणाम होता है उसीप्रकार (परमाणुके) विशिष्ट गतिपरिणाम होता है । इमे समझते हैं:—जैसे विशिष्ट अवगाहपरिणामके कारण एक परमाणुके परिमाणके बराबर अनन्त परमाणुओंका स्कन्ध बनता है तथापि वह स्कन्ध परमाणुके अनन्त अंशोंको सिद्ध नहीं करता, क्योंकि परमाणु निरंश है; उसीप्रकार जैसे एक कालाणुसे व्याप्त एक आकाशप्रदेशके अतिक्रमणके मापके बराबर एक 'समय'में परमाणु विशिष्टगतिपरिणामके कारण लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक जाता है तब (उस परमाणुके द्वारा उल्लंघित होनेवाले) असंख्य कालाणु 'समय'के असंख्य अंशोंको सिद्ध नहीं करते, क्योंकि 'समय' निरंश है ।

भावार्थः—परमाणुको एक आकाशप्रदेशसे दूसरे निकटवर्ती (अन्तर रहित) आकाशप्रदेश पर मन्दगतिसे जानेमें जितना काल लगता है उसे 'समय' कहते हैं । वह समय कालद्रव्यकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म पर्याय है । कालद्रव्य नित्य है; 'समय' उत्पन्न होता है और नष्ट होता है । जैसे आकाशप्रदेश आकाश द्रव्यका छोटेसे छोटा अंश है, उसके भाग नहीं होते, उसी प्रकार 'समय' कालद्रव्यकी छोटीसे छोटी निरंश पर्याय है, उसके भाग नहीं होते । यदि समयके भाग हों तो परमाणुके द्वारा एक समयमें

१. वृत्ति = वर्तना सो परिणति है (काल पदार्थ वर्तमान समयसे पूर्वकी परिणतिरूप तथा उसके बादकी परिणतिरूपसे परिणमित होता है, इसलिये उसका नित्यत्व प्रगट है ।)

तथा विशिष्टगतिपरिणामादेककालाणुव्याप्तैकाकाशप्रदेशातिक्रमणपरिमाणवच्छिन्नेनैकसमयेनैक-
स्मान्लोकान्ताद्द्वितीयं लोकान्तमाक्रामतः परमाणोरसंख्येयाः कालाणवः समयस्यानंशत्वाद-
संख्येयांशत्वं न साधयन्ति ॥ १३९ ॥

अथाकाशस्य प्रदेशलक्षणं सूत्रयति—

आगाममणुणिविद्वं आगामपदेससणया भणिदं ।

सव्वेसिं च अणुणं सकदि तं देदुमवगासं ॥ १४० ॥

उल्लंघन किये जानेवाले आकाशप्रदेशके भी उतने ही भाग होने चाहिये; किन्तु वह आकाशप्रदेश तो निरंश है; इसलिये 'समय' भी निरंश ही है ।

यहाँ प्रश्न होता है कि "जब पुद्गल-परमाणु शीघ्र गतिके द्वारा एक 'समय'में लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक पहुँच जाता है तब वह चौदह राजू तक आकाशप्रदेशोंमें श्रेणिवद्ध जितने कालाणु है उन सबको स्पर्श करता है । इसलिये असंख्य कालाणुओंको स्पर्श करनेसे 'समय'के असंख्य अंश होना चाहिये" । इसका समाधान यह है:—

जैसे अनन्त परमाणुओंका कोई स्कंध आकाशके एक प्रदेशमें समाकर परिमाणमें (कदमें) एक परमाणु जितना ही होता है, सो वह परमाणुओंके विशेष (खास) प्रकारके अवगाहपरिणामके कारण ही है; (परमाणुओंमें ऐसी ही कोई विशिष्ट प्रकारकी अवगाहपरिणामकी शक्ति है, जिसके कारण ऐसा होता है,) इससे कहीं परमाणुके अनन्त अंश नहीं होते; इसीप्रकार कोई परमाणु एक समयमें असंख्य कालाणुओंको उल्लंघन करके लोकके एक छोरसे दूसरे छोर तक पहुँच जाता है, सो वह परमाणुके विशेष प्रकारके गतिपरिणामके कारण ही है; (परमाणुमें ऐसी ही कोई विशिष्ट प्रकारके गतिपरिणामकी शक्ति है, जिसके कारण ऐसा होता है;) इससे कहीं 'समय'के असंख्य अंश नहीं होते ॥ १३९ ॥

अब, आकाशके प्रदेशका लक्षण सूत्र द्वारा कहते हैं:—

१. आकाशमें भी अवगाहगुणहेतुत्वके कारण ऐसी शक्ति है कि उसका एक प्रदेश भी अनन्त परमाणुओंको अवकाश देनेमें समर्थ है ।

आकाशमणुनिविष्टमाकाशप्रदेशसंज्ञया भणितम् ।

सर्वेषां चाणूनां शक्नोति तदातुमवकाशम् ॥ १४० ॥

आकाशस्यैकाणुव्याप्योऽशः किलाकाशप्रदेशः, स खन्वेकोऽपि शेषपञ्चद्रव्यप्रदेशानां परमसौक्ष्म्यपरिणतानन्तपरमाणुस्कन्धानां चावकाशदानसमर्थः । अस्ति चाविभागैकद्रव्यत्वेऽप्य-
शक्यनमाकाशस्य, सर्वेषामणूनामवकाशदानस्यान्यथानुपपत्तेः । यदि पुनराकाशस्यांशा न
स्युरिति मतिस्तदाङ्गुलीयुगलं नभसि प्रसार्य निरूप्यतां किमेकं क्षेत्रं किमनेकम् । एकं
चेत्किमभिन्नांशाविभागैकद्रव्यत्वेन किं वा भिन्नांशाविभागैकद्रव्यत्वेन । अभिन्नांशाविभागैकद्रव्य-

गाथा १४०

अन्वयार्थः—[अणुनिविष्टं आकाशं] एक परमाणु जितने आकाशमें रहता है उतने आकाशको [आकाशप्रदेशसंज्ञया] 'आकाशप्रदेश'के नामसे [भणितम्] कहा गया है । [च] और [तत्] वह [सर्वेषां अणूनां] समस्त परमाणुओंको [अवकाशं दातुं शक्नोति] अवकाश देनेको समर्थ है ।

टीकाः—आकाशका एक परमाणुसे व्याप्य अंश आकाशप्रदेश है; और वह एक (आकाशप्रदेश) भी शेष पाँच द्रव्योंके प्रदेशोंको तथा परम सूक्ष्मतरूपसे परिणमित अनन्त परमाणुओंके स्कन्धोंको अवकाश देनेमें समर्थ है । आकाश अविभाग (अखंड) एक द्रव्य है, फिर भी उसमें (प्रदेशरूप) अंशकल्पना हो सकती है, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो सर्व परमाणुओंको अवकाश देना नहीं बन सकेगा ।

ऐसा होने पर भी, यदि 'आकाशके अंश नहीं होते' (अर्थात् अंशकल्पना नहीं की जाती), ऐसी (किसीकी) मान्यता हो तो आकाशमें दो अंगुलियाँ फँलाकर बताइये कि 'दो अंगुलियोंका एक क्षेत्र है या अनेक ?' यदि एक है तो (प्रश्न होता है कि:—), (१) आकाश अभिन्न अंशोंवाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिये दो अंगुलियोंका एक क्षेत्र है या (२) भिन्न अंशोंवाला अविभाग एक द्रव्य है, इसलिये ? (१) यदि 'आकाश अभिन्न अंशोंवाला अविभाग एक द्रव्य है इसलिये दो अंगुलियोंका एक क्षेत्र है' ऐसा कहा जाय तो, जो अंश एक अंगुलिका क्षेत्र है वही अंश दूसरी अंगुलिका भी है, इसलिये दोमेंसे एक अंशका अभाव होगया । इसप्रकार दो इत्यादि (एकसे अधिक) अंशोंका अभाव होनेसे आकाश परमाणुकी

त्वेन चेत् येनांशेनैकस्या अङ्गुलेः क्षेत्रं तेनांशेनेतरस्या इत्यन्यतरांशाभावः । एवं द्रव्याद्यंशानामभावादाकाशस्य परमाणोरिव प्रदेशमात्रत्वम् । भिन्नांशाविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् अविभागैकद्रव्यस्यांशकल्पनमायातम् । अनेकं चेत् किं सविभागानेकद्रव्यत्वेन किं वाऽविभागैकद्रव्यत्वेन । सविभागानेकद्रव्यत्वेन चेत् एकद्रव्यस्याकाशस्यानन्तद्रव्यत्वं, अविभागैकद्रव्यत्वेन चेत् अविभागैकद्रव्यस्यांशकल्पनमायातम् ॥ १४० ॥

अथ तिर्यगूर्ध्वप्रचयावावेदयति—

एको व द्रुगे बहुगा संखातीदा तदो अणंता य ।

द्व्वाणं च पदेमा संति हि समय ति कालस्स ॥ १४१ ॥

भाँति प्रदेशमात्र सिद्ध हुआ ! (इसलिये यह तो घटित नहीं होता); (२) यदि यह कहा जाय कि 'आकाश भिन्न अंशोंवाला अविभाग एक द्रव्य है' (इसलिये दो अंगुलियोंका एक क्षेत्र है) तो (यह योग्य ही है, क्योंकि) अविभाग एक द्रव्यमें अंश-कल्पना फलित हुई ।

यदि यह कहा जाय कि (दो अंगुलियोंके) 'अनेक क्षेत्र है' (अर्थात् एकसे अधिक क्षेत्र हैं, एक नहीं) तो (प्रश्न होता है कि—), (१) 'आकाश सविभाग (खंड खंडरूप) अनेक द्रव्य है इसलिये दो अंगुलियोंके अनेक क्षेत्र हैं या (२) आकाश अविभाग एक द्रव्य होनेपर भी दो अंगुलियोंके अनेक क्षेत्र हैं ? (१) यदि आकाश सविभाग अनेक द्रव्य होनेसे दो अंगुलियोंके अनेक क्षेत्र हैं ऐसा माना जाय तो आकाश जो कि एक द्रव्य है उसे अनन्तद्रव्यत्व आजायगा; (इसलिये यह तो घटित नहीं होता); (२) यदि आकाश अविभाग एक द्रव्य होनेसे दो अंगुलियोंका अनेक क्षेत्र है ऐसा माना जाय तो (यह योग्य ही है, क्योंकि) अविभाग एकद्रव्यमें अंशकल्पना फलित हुई ॥ १४० ॥

अब, 'तिर्यक्प्रचय तथा 'ऊर्ध्वप्रचय बतलाते हैं:—

१. तिर्यक् = तिरछा; आड़ा; क्षेत्रापेक्षासे (प्रदेशोंका फैलाव) ।

२. ऊर्ध्व = ऊँचा; कालापेक्षासे ।

एको वा द्वौ बहवः संख्यातीतास्ततोऽनन्ताश्च ।

द्रव्याणां च प्रदेशाः सन्ति हि समया इति कालस्य ॥ १४१ ॥

प्रदेशप्रचयो हि तिर्यक्प्रचयः समयविशिष्टवृत्तिप्रचयस्तद्धर्षप्रचयः । तत्राकाशस्याव-
स्थितानन्तप्रदेशत्वाद्धर्माधर्मयोरवस्थितासंख्येयप्रदेशत्वाजीवस्यानवस्थितासंख्येयप्रदेशत्वात्पुद्गलस्य
द्रव्येणानेकप्रदेशत्वशक्तियुक्तैकप्रदेशत्वात्पर्यायेण द्विबहुप्रदेशत्वाच्चास्ति तिर्यक्प्रचयः । न पुनः
कालस्य शक्त्या व्यक्त्या चैकप्रदेशत्वात् । ऊर्ध्वप्रचयस्तु त्रिकोटिस्पर्शित्वेन सांशत्वाद्द्रव्यवृत्तेः
सर्वद्रव्याणामनिवारित एव । अयं तु विशेषः समयविशिष्टवृत्तिप्रचयः शेषद्रव्याणामूर्ध्वप्रचयः

गाथा १४१

अन्वयार्थः—[द्रव्याणां च] द्रव्योंके [एकः] एक, [द्वौ] दो, [बहवः]
बहुतसे, [संख्यातीताः] असंख्य, [वा] अथवा [ततः अनन्ताः च] अनन्त [प्रदेशाः]
प्रदेश [सन्ति हि] हैं । [कालस्य] कालके [ममयाः इति] 'समय' हैं ।

टीकाः—प्रदेशोंका प्रचय (समूह) तिर्यक्प्रचय और समयविशिष्ट
'वृत्तियोंका समूह ऊर्ध्वप्रचय है ।

वहाँ आकाश अवस्थित (निश्चल; स्थिर) अनन्तप्रदेशवाला है, धर्म तथा
अधर्म अवस्थित असंख्य प्रदेशवाले हैं, जीव अनवस्थित असंख्यप्रदेशी है, और पुद्गल
द्रव्यतः अनेक प्रदेशत्वकी शक्तिसे युक्त एकप्रदेशवाला है तथा पर्यायतः दो अथवा
बहुत (संख्यात, असंख्यात, और अनन्त) प्रदेशवाला है, इसलिये उनके तिर्यक्प्रचय
है; परन्तु कालके (तिर्यक्प्रचय) नहीं है, क्योंकि वह शक्ति तथा व्यक्ति (की अपेक्षा)
से एक प्रदेशवाला है ।

ऊर्ध्वप्रचय तो सर्व द्रव्योंके अनिवार्य ही है, क्योंकि द्रव्यकी वृत्ति तीन
कोटियोंको (भूत, वर्तमान और भविष्य-ऐसे तीनों कालोंको) स्पर्श करती है,
इसलिये अंशोंसे युक्त है । परन्तु इतना अन्तर है कि 'समयविशिष्ट वृत्तियोंका प्रचय
(कालको छोड़कर) शेष द्रव्योंका ऊर्ध्वप्रचय है, और समयोंका प्रचय कालद्रव्यका
ऊर्ध्वप्रचय है; क्योंकि शेष द्रव्योंकी वृत्ति समयसे अर्थान्तरभूत (अन्य) है, इसलिये वह

१. वृत्ति = वर्तना; परिणति; पर्याय; उत्पाद् व्यय ध्रौव्य; अस्तित्व ।

२. समयविशिष्ट = समयसे विशिष्ट; समयके निमित्तभूत होनेसे व्यवहारसे जिसमें समयकी
अपेक्षा होती है ।

समयप्रचयः एव कालस्योर्ध्वप्रचयः । शेषद्रव्याणां वृत्तेर्हि समयादर्थांतरभूतत्वादस्ति समयविशिष्ट-
त्वम् । कालवृत्तेस्तु स्वतः समयभूतत्वाच्चास्ति ॥ १४१ ॥

अथ कालपदार्थोर्ध्वप्रचयनिरन्वयत्वमुपहन्ति—

उत्पादो पद्धंसो विज्जदि जदि जस्स एकममयमिह ।

समयस्स सो वि समञ्चो मभावसमवट्ठिदो हवदि ॥१४२॥

उत्पादः प्रध्वंसो विद्यते यदि यस्यैकममये ।

ममयस्य सोऽपि समयः स्वभावसमवस्थितो भवति ॥ १४२ ॥

समयो हि समयपदार्थस्य वृत्त्यंशः तस्मिन् कस्याप्यवश्यमुत्पादप्रध्वंसौ संभवतः, परमाणोर्व्यतिपातोत्पद्यमानत्वेन कारणपूर्वत्वात् । तौ यदि वृत्त्यंशस्यैव किं यौगपद्येन किं क्रमेण, यौगपद्येन चेत् नास्ति यौगपद्यं सममेकस्य विरुद्धधर्मयोरनवतारात् । क्रमेण चेत् नास्ति क्रमः, वृत्त्यंशस्य सूक्ष्मत्वेन विभागाभावात् । ततो वृत्तिमान् कोऽप्यवश्यमनुसर्तव्यः, स च समयपदार्थ एव । तस्य खल्वेकस्मिन्नपि वृत्त्यंशे समुत्पादप्रध्वंसौ संभवतः । यो हि यस्य वृत्तिमतो यस्मिन्

(वृत्ति) समय विशिष्ट है, और कालद्रव्यकी वृत्ति तो स्वतः समयभूत है, इसलिये वह समयविशिष्ट नहीं है ॥ १४१ ॥

अब, कालपदार्थका ऊर्ध्वप्रचय 'निरन्वय है, इस बातका खंडन करते हैं:—

भाषा १४२

अन्वयार्थः—[यदि यस्य समयस्य] यदि कालका [एक समये] एक समयमें [उत्पादः प्रध्वंसः] उत्पाद और विनाश [विद्यते] पाया जाता है, [सः अपि समयः] तो वह भी काल [स्वभावसमवस्थितः] स्वभावमें अवस्थित अर्थात् ध्रुव [भवति] होता है ।

टीका:—समय काल पदार्थका ^२वृत्त्यंश है; उस वृत्त्यंशमें किसीके भी अवश्य उत्पाद तथा विनाश संभवित हैं; क्योंकि परमाणुके अतिक्रमणके द्वारा (समयरूपी वृत्त्यंश) उत्पन्न होता है, इसलिये वह कारणपूर्वक है । (परमाणुके द्वारा एक आकाशप्रदेशका मंदगतिसे उल्लंघन करना कारण है, और समयरूपी वृत्त्यंश उस कारणका कार्य है, इसलिये उसमें किसी पदार्थके उत्पाद तथा विनाश होता होना चाहिये ।)

१. निरन्वय = अन्वय रहित, एक प्रवाहरूप न होनेवाला, खंडित; एकरूपता सदृशतासे रहित ।

२. वृत्त्यंश = वृत्तिका अंश; सूक्ष्मातिसूक्ष्म परिणति अर्थात् पर्याय ।

वृत्त्यंशे तद्वृत्त्यंशविशिष्टत्वेनोत्पादः । स एव तस्यैव वृत्तिमतस्तस्मिन्नेव वृत्त्यंशे पूर्ववृत्त्यंश-
विशिष्टत्वेन प्रध्वंसः । यद्येवमुत्पादव्ययावेकस्मिन्नपि वृत्त्यंशे संभवतः समयपदार्थस्य कथं नाम
निरन्वयत्वं, यतः पूर्वोत्तरवृत्त्यंशविशिष्टत्वाभ्यां युगपदुपात्तप्रध्वंसोत्पादस्यापि स्वभावेनाप्रध्वस्ता-
नुत्पन्नत्वादवस्थितत्वमेव न भवेत् । एवमेकस्मिन् वृत्त्यंशे समयपदार्थस्योत्पादव्ययध्रौव्यवत्त्वं
सिद्धम् ॥ १४२ ॥

('किसी पदार्थके उत्पाद-विनाश होनेकी क्या आवश्यकता है ? उसके स्थान पर वृत्त्यंशको ही उत्पाद-विनाश होते हुये मानलें तो क्या हानि है ? ' इस तर्कका समाधान करते हैं--)

यदि उत्पाद और विनाश वृत्त्यंशके ही माने जायें तो, (प्रश्न होता है कि:—) (१) वे (उत्पाद तथा विनाश) युगपद् हैं या (२) क्रमशः ? (१) यदि 'युगपत्' कहा जाय तो युगपत्पना घटित नहीं होता, क्योंकि एक ही समय एकके दो विरोधी धर्म नहीं होते । (एक ही समय एक वृत्त्यंशके प्रकाश और अन्धकारकी भाँति उत्पाद और विनाश—दो विरुद्ध धर्म नहीं होते ।) (२) यदि 'क्रमशः है' ऐसा कहा जाय तो, क्रम नहीं बनता, (अर्थात् क्रम भी घटता नहीं) क्योंकि वृत्त्यंशके सूक्ष्म होनेसे उसमें विभागका अभाव है । इसलिये (समयरूपी वृत्त्यंशके उत्पाद तथा विनाश होना अशक्य होनेसे) कोई 'वृत्तिमान् अवश्य ढूँढना चाहिये । और वह (वृत्तिमान्) काल पदार्थ ही है । उसके (उस कालपदार्थको) वास्तवमें एक वृत्त्यंशमें भी उत्पाद और विनाश संभव है; क्योंकि जिस वृत्तिमान्के जिस वृत्त्यंशमें उस वृत्त्यंशकी अपेक्षासे जो उत्पाद है, वही (उत्पाद) उसी वृत्तिमान्के उसी वृत्त्यंशमें पूर्व वृत्त्यंशकी अपेक्षासे विनाश है । (अर्थात्—कालपदार्थके जिस वर्तमान पर्यायकी अपेक्षासे उत्पाद है, वही पूर्व पर्यायकी अपेक्षासे विनाश है ।)

यदि इसप्रकार उत्पाद और विनाश एक वृत्त्यंशमें भी संभवित हैं तो काल पदार्थ निरन्वय कैसे हो सकता है, कि जिससे पूर्व और पश्चात् वृत्त्यंशकी अपेक्षासे युगपत् विनाश और उत्पादको प्राप्त होता हुआ भी स्वभावसे अविनष्ट और अनुत्पन्न होनेसे वह (काल पदार्थ) अवस्थित न हो ? (काल पदार्थके एक वृत्त्यंशमें भी उत्पाद और विनाश युगपत् होते हैं, इसलिये वह निरन्वय अर्थात् खंडित नहीं है, इसलिये स्वभावतः अवश्य ध्रुव है ।)

इसप्रकार एक वृत्त्यंशमें कालपदार्थ उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यवाला है, यह सिद्ध हुआ ॥ १४२ ॥

अथ सर्ववृत्त्यंशेषु समयपदार्थस्योत्पादव्ययध्रौव्यवत्त्वं साधयति—

एगमिह संति समये संभवठिदिणामसणिणदा अट्टा ।

समयस्स मव्वकालं एम हि कालाणुसव्भावो ॥ १४३ ॥

एकस्मिन् सन्ति समये संभवस्थितिनाशसंज्ञिता अर्थाः ।

समयस्य सर्वकालं एष हि कालाणुसद्भावः ॥ १४३ ॥

अस्ति हि समस्तेष्वपि वृत्त्यंशेषु समयपदार्थस्योत्पादव्ययध्रौव्यत्वमेकस्मिन् वृत्त्यंशे तस्य दर्शनात्, उपपत्तिमच्चैतत् विशेषास्तित्वस्य सामान्यास्तित्वमन्तरेणानुपपत्तेः । अयमेव च समयपदार्थस्य सिद्धयति सद्भावः । यदि विशेषसामान्यास्तित्वे सिद्धयतस्तदा त अस्तित्वमन्तरेण न सिद्धयतः कथंचिदपि ॥ १४३ ॥

अथ कालपदार्थस्यास्तित्वान्यथानुपपत्त्या प्रदेशमात्रत्वं साधयति—

अब, (जैसे एक वृत्त्यंशमें कालपदार्थ उत्पाद व्यय ध्रौव्यवाला सिद्ध किया है (उमीप्रकार) सर्व वृत्त्यंशोंमें कालपदार्थ उत्पाद व्यय ध्रौव्यवाला है, यह सिद्ध करते हैं:—

गाथा १४३

अन्वयार्थः—[एकस्मिन् समये] एक एक समयमें [संभवस्थितिनाशसंज्ञिताः अर्थाः] उत्पाद, ध्रौव्य और व्यय नामक अर्थ [समयस्य] कालके [सर्वकालं] सदा [संति] होते हैं । [एषः हि] यही [कालाणुसद्भावः] कालाणुका सद्भाव है; (यही कालाणुके अस्तित्वकी सिद्धि है ।)

टीकाः—काल पदार्थके सभी वृत्त्यंशोंमें उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य होते हैं, क्योंकि (१४२ वीं गाथामें जैसा सिद्ध हुआ है तदनुसार) एक वृत्त्यंशमें वे (उत्पाद-व्ययध्रौव्य) देखे जाते हैं । और यह योग्य ही है, क्योंकि विशेष अस्तित्व सामान्य अस्तित्वके बिना नहीं हो सकता । यही कालपदार्थके सद्भावकी (अस्तित्वकी) सिद्धि है । (क्योंकि) यदि विशेष अस्तित्व और सामान्य अस्तित्व सिद्ध होते हैं तो वे अस्तित्वके बिना किसी भी प्रकारसे सिद्ध नहीं होते ॥ १४३ ॥

अब, कालपदार्थका अस्तित्व अन्यथा (अन्यप्रकारसे) नहीं बन सकता; इसलिये उसका प्रदेशमात्रत्व सिद्ध करते हैं:—

जस्स ण संति पदेसा पदेसमेत्तं व तच्चदो णादुं ।
सुराणं जाण तमत्थं अत्थंतरभूदमत्थीदो ॥ १४४ ॥

यस्य न सन्ति प्रदेशाः प्रदेशमात्रं वा तत्त्वतो ज्ञातुम् ।

शून्यं जानीहि तमर्थमर्थान्तरभूतमस्तित्वात् ॥१४४॥

अस्तित्वं हि तावदुत्पादव्ययध्रौव्यैक्यात्मिका वृत्तिः । न खलु सा प्रदेशमन्तरेण सूत्र्यमाणा कालस्य संभवति, यतः प्रदेशाभावे वृत्तिमदभावः । स तु शून्य एव, अस्तित्वसंज्ञाया वृत्तेरर्थान्तरभूतत्वात् । न च वृत्तिरेव केवला कालो भवितुमर्हति, वृत्तेर्हि वृत्तिमन्तरेणानुपपत्तेः । उपपत्तौ वा कथमुत्पादव्ययध्रौव्यैक्यात्मकत्वम् । अनाद्यन्तनिरन्तरानेकांशवशीकृतैकात्मकत्वेन पूर्वपूर्वांशप्रध्वंसादुत्तरोत्तरांशोत्पादादेकात्मध्रौव्यादिति चेत् । नैवम् । यस्मिन्नंशे प्रध्वंसो यस्मिंश्चोत्पादस्तयोः सहप्रवृत्त्यभावात् कुतस्त्यमैक्यम् । तथा प्रध्वस्तांशस्य सर्वथास्तमितत्वा-

गाथा १४४

अन्वयार्थः—[यस्य] जिस पदार्थके [प्रदेशाः] प्रदेश [प्रदेशमात्रं वा] अथवा एकप्रदेश भी [तत्त्वतः] परमार्थतः [ज्ञातुम् न संति] ज्ञात नहीं होते, [तं अर्थ] उस पदार्थको [शून्यं जानीहि] शून्य जानो- [अस्तित्वात् अर्थान्तरभूतम्] क्योंकि वह अस्तित्वसे अर्थान्तरभूत (अन्य) है ।

टीकाः—प्रथम तो, अस्तित्व उत्पाद, व्यय, और ध्रौव्यकी ऐकरूपवृत्ति है । वह प्रदेशके बिना ही कालके होती है यह कथन संभवित नहीं है, क्योंकि प्रदेशके अभावमें वृत्तिमान्का अभाव होता है । (और) वह तो शून्य ही है, क्योंकि अस्तित्व नामक वृत्तिसे अर्थान्तरभूत (अन्य) है ।

और (यदि यहाँ यह तर्क किया जाय कि 'मात्र समय पर्यायरूपवृत्ति ही माननी चाहिये, वृत्तिमान् कालाणु पदार्थकी क्या आवश्यकता है ? ' तो उसका समाधान इसप्रकार है:—) मात्र वृत्ति (समयरूप परिणति) ही काल नहीं हो सकती, क्योंकि वृत्तिमान्के बिना वृत्ति नहीं हो सकती । यदि (यह कहा जाय कि वृत्तिमान्के बिना भी) वृत्ति हो सकती है तो, (प्रश्न होता है कि—वृत्ति तो उत्पादव्यय-ध्रौव्यकी एकतास्वरूप होनी चाहिये;) अकेली वृत्ति उत्पाद व्यय ध्रौव्यकी एकतारूप कैसे हो सकती है ? यदि यह कहा जाय कि—'अनादि-अनन्त, अनन्तर (—परस्पर

दुत्पद्यमानांशस्य वासंभवितात्मलाभत्वात्प्रध्वंसोत्पादैक्यवर्तिध्रौव्यमेव कुतस्त्यम् । एवं सति नश्यति त्रैलक्षण्यं, उल्लसति क्षणभङ्गः, अस्तम्यैति नित्यं द्रव्यं, उदीयन्ते क्षणक्षयिणो भावाः । ततस्तत्त्वविप्लवभयात्कश्चिदवश्यमाश्रयभूतो वृत्तेर्वृत्तिमाननुसर्तव्यः । स तु प्रदेश एवाप्रदेशस्यान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वासिद्धेः । एवं सप्रदेशत्वे हि कालस्य कुत एकद्रव्यनिबन्धनं लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशत्वं नाभ्युपगम्येत । पर्यायसमयाप्रसिद्धेः । प्रदेशमात्रं हि द्रव्यसमयमतिक्रामतः परमाणोः पर्यायसमयः प्रसिद्धयति । लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशत्वे तु द्रव्यसमयस्य कुतस्त्या तत्सिद्धिः । लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशैकद्रव्यत्वेऽपि तस्यैकं प्रदेशमतिक्रामतः परमा-

अन्तर हुये बिना एकके बाद एक प्रवर्तमान) अनेक अंशोंके कारण 'एकात्मकता होती है इसलिये, पूर्व पूर्व अंशोंका नाश होता है, और उत्तर उत्तर अंशोंका उत्पाद होता है तथा एकात्मकरूप ध्रौव्य रहता है,—इसप्रकार मात्र (अकेली) वृत्ति भी उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यकी एकतास्वरूप हो सकती है' तो ऐसा नहीं है । (क्योंकि उस अकेली वृत्तिमें तो) जिस अंशमें नाश है और जिस अंशमें उत्पाद है वे दो अंश एक साथ प्रवृत्त नहीं होते, इसलिये (उत्पाद और व्ययका) ऐक्य कहाँसे हो सकता है ? तथा नष्ट अंशके सर्वथा अस्त होनेसे और उत्पन्न होनेवाला अंश अपने स्वरूपको प्राप्त न होनेसे (अर्थात् उत्पन्न नहीं हुआ है इसलिये) नाश और उत्पादकी एकतामें प्रवर्तमान ध्रौव्य कहाँसे हो सकता है ? ऐसा होनेपर त्रिलक्षणता (उत्पादव्ययध्रौव्यता) नष्ट हो जाती है, क्षणभंग (बौद्धसम्मत क्षणविनाश) उल्लसित हो उठता है, नित्य द्रव्य अस्त होजाता है, और क्षणविध्वंसी भाव उत्पन्न होते हैं । इसलिये 'तत्त्वविप्लवके भयसे अवश्य ही वृत्तिका आश्रयभूत कोई वृत्तिमान् ढूँढ़ना-स्वीकार करना योग्य है । वह तो प्रदेश ही है (अर्थात् वह वृत्तिमान् सप्रदेश ही होता है), क्योंकि अप्रदेशके अन्वय तथा व्यतिरेकका अनुविधायित्व असिद्ध है । (जो अप्रदेश होता है वह अन्वय तथा व्यतिरेकोंका अनुसरण नहीं कर सकता, अर्थात् उसमें ध्रौव्य तथा उत्पाद-व्यय नहीं हो सकते ।)

१. एकात्मकता = एकस्वरूपता (काल द्रव्यके बिना भी अनादि कालसे अनन्त काल तक समय एकके बाद एक परस्पर अन्तरके बिना ही प्रवर्तित होते हैं, इसलिये एक प्रवाहरूप बन जानेसे उसमें एकरूपत्व आता है—इसप्रकार शंकाकारका तर्क है ।)

२. तत्त्वविप्लव = वस्तुस्वरूपमें अंधाधुन्धी ।

णोस्तत्सिद्धिरिति चेन्नैवं । एकदेशवृत्तेः सर्ववृत्तित्वविरोधात् । सर्वस्यापि हि कालपदार्थस्य यः सूक्ष्मो वृत्त्यंशः स समयो न तु तदेकदेशस्य । तिर्यक्प्रचयस्योर्ध्वप्रचयत्वप्रसंगाच्च । तथाहि— प्रथममेकेन प्रदेशेन वर्तते ततोऽन्येन ततोऽप्यन्यतरेणेति तिर्यक्प्रचयोऽप्यूर्ध्वप्रचयीभूय प्रदेशमात्रं द्रव्यमवस्थापयति । ततस्तिर्यक्प्रचयस्योर्ध्वप्रचयत्वमनिच्छता प्रथममेव प्रदेशमात्रं कालद्रव्यं व्यवस्थापयितव्यम् ॥ १४४ ॥

(प्रश्नः) जब कि इसप्रकार काल सप्रदेश है तो उसके एकद्रव्यके कारणभूत लोकाकाश तुल्य असंख्यप्रदेश क्यों न मानने चाहिये ?

(उत्तरः) ऐसा हो तो पर्यायसमय सिद्ध नहीं होता, इसलिये असंख्य प्रदेश मानना योग्य नहीं है । परमाणुके द्वारा प्रदेशमात्र द्रव्य समयका उल्लंघन करने पर (अर्थात्—परमाणुके द्वारा एकप्रदेशमात्र कालाणुसे निकटके दूसरे प्रदेशमात्र कालाणु तक मंदगतिसे गमन करने पर) पर्यायसमय प्रसिद्ध होता है । यदि द्रव्यसमय लोकाकाशतुल्य असंख्यप्रदेशी हो तो पर्यायसमयकी सिद्धि कहाँसे होगी ?

‘यदि द्रव्यसमय अर्थात् कालपदार्थ लोकाकाश जितने असंख्य प्रदेशवाला एक द्रव्य हो तो भी परमाणुके द्वारा उसका एकप्रदेश उल्लंघित होनेपर पर्यायसमयकी सिद्धि हो जायगी,’ ऐसा कहा जाय तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि (उसमें दो दोष आते हैं) :—

(१) [द्रव्यके एकदेशकी परिणतिको सम्पूर्ण द्रव्यकी परिणति माननेका प्रसंग आता है ।] एकप्रदेशकी वृत्तिको सम्पूर्ण द्रव्यकी वृत्ति माननेमें विरोध है । सम्पूर्ण काल पदार्थका जो सूक्ष्म वृत्त्यंश है वह समय है, परन्तु उसके एकदेशका वृत्त्यंश वह समय नहीं ।

(२) तिर्यक्प्रचयको ऊर्ध्वप्रचयत्वका प्रसंग आता है । वह इसप्रकार है कि:—प्रथम, कालद्रव्य एकप्रदेशसे वर्ते, फिर दूसरे प्रदेशसे वर्ते और फिर अन्य-प्रदेशसे वर्ते (ऐसा प्रसंग आता है) इसप्रकार तिर्यक्प्रचय ऊर्ध्वप्रचय बनकर द्रव्यको प्रदेशमात्र स्थापित करता है । (अर्थात् तिर्यक्प्रचय ही ऊर्ध्वप्रचय है, ऐसा माननेका प्रसंग आता है, इसलिये द्रव्यप्रदेशमात्र ही सिद्ध होता है ।) इसलिये तिर्यक्प्रचयको ऊर्ध्वप्रचयत्व न मानने (चाहने) वालेको प्रथम ही कालद्रव्यको प्रदेशमात्र निश्चय करना चाहिये ॥ १४४ ॥

(इसप्रकार ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापनमें द्रव्यविशेषप्रज्ञापन समाप्त हुआ ।)

अथैवं ज्ञेयतत्त्वगृह्यत्वा ज्ञानज्ञेयविभागेनात्मानं निश्चिन्वन्नात्मनोऽत्यन्तविभक्तत्वाय व्यवहारजीवत्वहेतुमालोचयति—

मप्रदेशेहिं समग्रो लोको अट्टं हिं णिट्ठिदो णिच्चो ।

जो तं जाणदि जीवो प्राणचतुष्काभिसंबद्धो ॥ १४५ ॥

मप्रदेशैः समग्रो लोकोऽर्थेनिष्ठितो नित्यः ।

यस्मिन् जानाति जीवः प्राणचतुष्काभिसंबद्धः ॥ १४५ ॥

एवमाकाशपदार्थादाकालपदार्थाच्च समस्तैरेव संभावितप्रदेशसद्भावैः पदार्थैः समग्र एव यः समाप्तिं नीतो लोकस्तं खलु तदन्तःपातित्वेऽप्यचिन्त्यस्वपरपरिच्छेदशक्तिसंपदा जीव एव जानीते नन्वितरः । एवं शेषद्रव्याणि ज्ञेयमेव, जीवद्रव्यं तु ज्ञेयं ज्ञानं चेति ज्ञानज्ञेयविभागः । अथास्य जीवस्य महजविजृम्भितानन्तज्ञानशक्तिहेतुके त्रिसमयावस्थायित्वलक्षणे वस्तुस्वरूपभूततया

अब, इसप्रकार ज्ञेयतत्त्वको कहकर, ज्ञान और ज्ञेयके विभाग द्वारा आत्माको निश्चित करते हुये, आत्माको अत्यन्त विभक्त (भिन्न) करनेके लिये व्यवहारजीवत्वके हेतुका विचार करते हैं:—

भाषा १४५

अन्वयार्थः—[मप्रदेशैः अर्थैः] सप्रदेश पदार्थोंके द्वारा [निष्ठितः] समाप्तिको प्राप्त [समग्रः लोकः] सम्पूर्ण लोक [नित्यः] नित्य है, [तं] उसे [यः जानाति] जो जानता है [जीवः] वह जीव है,—[प्राणचतुष्काभिसंबद्धः] जो कि (संसार दशामें) चार प्राणोंसे संयुक्त है ।

टीका:—इसप्रकार जिन्हें प्रदेशका सद्भाव फलित हुआ है ऐसे आकाश-पदार्थसे लेकर काल पदार्थ तकके सभी पदार्थोंसे समाप्तिको प्राप्त जो समस्त लोक है उसे वास्तवमें, उसमें अंतःपाती होनेपर भी, स्वपरको जाननेकी अचिन्त्य शक्तिरूप सम्पत्तिके द्वारा जीव ही जानता है, दूसरा कोई नहीं । इसप्रकार शेष द्रव्य ज्ञेय ही हैं और जीवद्रव्य तो ज्ञेय तथा ज्ञान है;—इसप्रकार ज्ञान और ज्ञेयका विभाग है ।

१. छह द्रव्योंसे ही सम्पूर्ण लोक समाप्त हो जाता है, अर्थात् उनके अतिरिक्त लोकमें दूसरा कुछ नहीं है ।

२. अंतःपाती = अन्दर आ जानेवाला; अन्दर समाजानेवाला (-जीव लोकके भीतर आ जाता है)

सर्वदानपायिनि निश्चयजीवत्वे सत्यपि संसारावस्थायामनादिप्रवाहप्रवृत्तपुद्गलसंश्लेषदूषितात्मतया प्राणचतुष्काभिसंबद्धत्वं व्यवहारजीवत्वहेतुर्विभक्तव्योऽस्ति ॥ १४५ ॥

अथ के प्राणा इत्यावेदयति—

इन्द्रियपाणो य तथा बलपाणो तह य आउपाणो य ।
आणप्पाणप्पाणो जीवानं होंति पाणा ते ॥ १४६ ॥

इन्द्रियप्राणश्च तथा बलप्राणस्तथा आयुःप्राणश्च ।

आनपानप्राणो जीवानां भवन्ति प्राणास्ते ॥ १४६ ॥

अब, इस जीवको, सहजरूपसे (स्वभावसे ही) प्रगट अनन्तज्ञानशक्ति जिसका हेतु है और तीनों कालमें अवस्थायित्व (टिकना) जिसका लक्षण है ऐसा, वस्तुकास्वरूपभूत होनेसे सर्वदा अविनाशी निश्चयजीवत्व होनेपर भी, संसारावस्थामें अनादिप्रवाहरूपसे प्रवर्तमान पुद्गल संश्लेषके द्वारा स्वयं दूषित होनेसे उसके चार प्राणोंसे संयुक्तता है, जो कि व्यवहारजीवत्वका हेतु है, और विभक्त करने योग्य है ।

भावार्थः—षट् द्रव्योंका समुदाय लोक है । जीव उसे (अपनी) अचिन्त्य ज्ञानशक्तिसे जानता है; इसलिये जीवके अतिरिक्त शेष द्रव्य ज्ञेय हैं, और जीव ज्ञान तथा ज्ञेय है । वस्तुका स्वरूपभूत होनेसे जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा निश्चयजीवत्व जीवके सदा ही है । उस (निश्चय जीवत्व) का कारण स्वाभाविक अनन्तज्ञानशक्ति है । ऐसा निश्चयजीवत्व जीवके सदा होने पर भी वह, संसार दशामें स्वयं पुद्गलके संबंधसे दूषित होनेसे चार प्राणोंसे संयुक्त है, और इसलिये उसके व्यवहारजीवत्व भी है । उस व्यवहार जीवत्वकी कारणरूप जो चार प्राणोंसे संयुक्तता है । उससे जीवको भिन्न करना चाहिये ॥ १४५ ॥

अब, प्राण कौनसे हैं, सो बतलाते हैंः—

गाथा १४६

अन्वयार्थः—[इन्द्रिय प्राणः च] इन्द्रिय प्राण [तथा बलप्राणः] बलप्राण, [तथा च आयुःप्राणः] आयुप्राण [च] और [आनपानप्राणः] श्वासोच्छ्वास प्राण; [ते] यह (चार) [जीवानां] जीवोंके [प्राणाः] प्राण [भवन्ति] हैं ।

स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुः श्रोत्रपञ्चकमिन्द्रियप्राणाः, कायवाङ्मनस्त्रयं बलप्राणाः, भवधारण-
निमित्तमायुःप्राणः । उदञ्चनन्यञ्चनात्मको मरुदानपानप्राणः ॥ १४६ ॥

अथ प्राणाणां निरुक्त्या जीवत्वहेतुत्वं पौद्गलिकत्वं च सूत्रयति—

पाणेहिं चदुहिं जीवदि जीविस्मदि जो हि जीविदो पुव्वं ।

सो जीवो पाणा पुण पोग्गलदव्वेहिं णिव्वत्ता ॥ १४७ ॥

प्राणैश्चतुर्भिर्जीवति जीविष्यति यो हि जीवितः पूर्वम् ।

स जीवः प्राणाः पुनः पुद्गलद्रव्यैर्निर्वृत्ताः ॥ १४७ ॥

प्राणसामान्येन जीवति जीविष्यति जीवितवांश्च पूर्वमिति जीवः । एवमनादिसंतानप्रवर्त-

टीकाः—स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र,—यह पाँच इन्द्रियप्राण हैं; काय, वचन, और मन,—यह तीन बलप्राण हैं, भव धारणका निमित्त (अर्थात् मनुष्यादि पर्यायिकी स्थितिका निमित्त) आयुप्राण है; नीचे और ऊपर जाना जिसका स्वरूप है ऐसी वायु (श्वास) श्वासोच्छ्वास प्राण है ॥ १४६ ॥

अब, व्युत्पत्ति द्वारा प्राणोंको जीवत्वका हेतुत्व और उनका पौद्गलिकत्व सूत्र द्वारा कहते हैंः—

गाथा १४७

अन्वयार्थः— [यः हि] जो [चतुर्भिः प्राणैः] चार प्राणोंसे [जीवति] जीता है, [जीविष्यति] जियेगा, [जीवितः पूर्व] और पहले जीता था, [सः जीवः] वह जीव है । [पुनः] फिर भी [प्राणाः] प्राण तो [पुद्गलद्रव्यैः निर्वृत्ताः] पुद्गल द्रव्योंसे निष्पन्न (रचित) हैं ।

टीकाः—(व्युत्पत्तिके अनुसार) जो प्राणसामान्यसे जीता है, जियेगा, और पहले जीता था वह जीव है । इसप्रकार (प्राणसामान्य) अनादि संतानरूप (प्रवाहरूप) से प्रवर्तमान होनेसे (संसार दशामें) त्रिकाल स्थायी होनेसे प्राण-सामान्य जीवके जीवत्वका हेतु है ही, तथापि वह उसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि वह पुद्गलद्रव्यसे रचित है ।

मानतया त्रिसमयावस्थत्वात्प्राणसामान्यं जीवस्य जीवत्वहेतुरस्त्येव तथापि तन्न जीवस्य स्वभाव-
त्वमवाप्नोति पुद्गलद्रव्यनिर्वृत्तत्वात् ॥ १४७ ॥

अथ प्राणानां पौद्गलिकत्वं साधयति—

जीवो प्राणनिबद्धो बद्धो मोहादिर्एहिं कम्मंहिं ।

उपभुंजं कम्मफलं वज्झदि अण्णंहिं कम्मोहिं ॥ १४८ ॥

जीवः प्राणनिबद्धो बद्धो मोहादिकैः कर्मभिः ।

उपभुंजानः कर्मफलं बध्यतेऽन्यैः कर्मभिः ॥ १४८ ॥

यतो मोहादिभिः पौद्गलिककर्मभिर्बद्धत्वाज्जीवः प्राणनिबद्धो भवति । यतश्च प्राण-
निबद्धत्वात्पौद्गलिककर्मफलमुपभुञ्जानः पुनरप्यन्यैः पौद्गलिककर्मभिर्बध्यते । ततः पौद्गलिककर्म-
कार्यत्वात्पौद्गलिककर्मकारणत्वाच्च पौद्गलिका एव प्राणा निश्चीयन्ते ॥ १४८ ॥

अथ प्राणानां पौद्गलिककर्मकारणत्वमुन्मीलयति—

भावार्थः—यद्यपि निश्चयसे जीव सदा ही भावप्राणसे जीता है, तथापि
संसारदशामें व्यवहारसे उसे व्यवहारजीवत्वके कारणभूत इन्द्रियादि द्रव्यप्राणोंसे
जीवित कहा जाता है । ऐसा होनेपर भी वे द्रव्यप्राण आत्माका स्वरूप किंचित् मात्र
नहीं हैं, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्यसे निर्मित हैं ॥ १४७ ॥

अब, प्राणोंकी पौद्गलिकता सिद्ध करते हैं:—

माया १४८

अन्वयार्थः—[मोहादिकैः कर्मभिः] मोहादिक कर्मोंसे [बद्धः] बंधा हुआ
होनेसे [जीवः] जीव [प्राणनिबद्धः] प्राणोंसे संयुक्त होता हुआ [कर्मफलं उपभुंजानः]
कर्मफलको भोगता हुआ [अन्यैः कर्मभिः] अन्य कर्मोंसे [बध्यते] बन्धता है ।

टीका:—(१) मोहादिक पौद्गलिक कर्मोंसे बंधा हुआ होनेसे जीव प्राणोंसे
संयुक्त होता है, और (२) प्राणोंसे संयुक्त होनेके कारण पौद्गलिक कर्मफलको (मोही
रागी द्वेषी जीव मोह रागद्वेषपूर्वक) भोगता हुआ पुनः भी अन्य पौद्गलिक कर्मोंसे
बंधता है, इसलिये (१) पौद्गलिक कर्मके कार्य होनेसे, और (२) पौद्गलिक
कर्मके कारण होनेसे प्राण पौद्गलिक ही निश्चित होते हैं ॥ १४८ ॥

अब, प्राणोंके पौद्गलिक कर्मका कारणत्व प्रगट करते हैं:—

प्राणाबाधं जीवो मोहप्रद्वेषाभ्यां कुण्ठादि जीवाणं ।
जदि सो हवदि हि बन्धो प्राणावरणादिकम्मोहिं ॥ १४६ ॥

प्राणाबाधं जीवो मोहप्रद्वेषाभ्यां करोति जीवयोः ।

यदि स भवति हि बन्धो ज्ञानावरणादिकर्मभिः ॥ १४९ ॥

प्राणैर्हि तावजीवः कर्मफलमुपभुंक्ते, तदुपभुञ्जानो मोहप्रद्वेषावाप्नोति ताभ्यां स्वजीवपर-
जीवयोः प्राणाबाधं विदधाति । तदा कदाचित्परस्य द्रव्यप्राणानाबाध्य कदाचिदनाबाध्य स्वस्य
भावप्राणानुपरक्तत्वेन बाधमानो ज्ञानावरणादीनि कर्माणि बध्नाति । एवं प्राणाः पौद्गलिककर्म-
कारणतामुपयान्ति ॥ १४९ ॥

गाथा १४९

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [जीवः] जीव [मोहप्रद्वेषाभ्यां] मोह और
द्वेषके द्वारा [जीवयोः] (स्व तथा पर) जीवोंके [प्राणाबाधं करोति] प्राणोंको बाधा
पहुँचाते हैं, [सः हि] तो पूर्वकथित [ज्ञानावरणादिकर्मभिः बन्धः] ज्ञानावरणादिक
कर्मोंके द्वारा बन्ध [भवति] होता है ।

टीकाः—पहले तो प्राणोंसे जीव कर्मफलको भोगता है; उसे भोगता हुआ
मोह तथा द्वेषको प्राप्त होता है; और उनसे स्वजीव तथा परजीवके प्राणोंको बाधा
पहुँचाता है । वहाँ कदाचित् दूसरेके द्रव्य प्राणोंको बाधा पहुँचाकर और कदाचित्
बाधा न पहुँचाकर, अपने भाव प्राणोंको तो उपरक्ततासे (अवश्य ही) बाधा
पहुँचाता हुआ जीव ज्ञानावरणादि कर्मोंको बाँधता है । इसप्रकार प्राण पौद्गलिक
कर्मोंके कारणत्वको प्राप्त होते हैं ॥ १४६ ॥

१. बाधा — पीड़ा; उपद्रव, विघ्न ।

२. उपरक्तता = मलिनता, विकारिता; मोहादिपरिणामरूप परिणमित होना । [जैसे कोई पुरुष
तप्त लोहेके गोलेसे दूसरेको जलानेकी इच्छा करता हुआ प्रथम तो स्वयं अपनेको ही जलाता
है; फिर दूसरा जले या न जले—इसका कोई नियम नहीं है । इसीप्रकार जीव मोहादि-
परिणामरूप परिणमित होता हुआ प्रथम तो निर्विकार स्वसंवेदनज्ञानस्वरूप निज शुद्ध
भावप्राणोंको ही हानि पहुँचाता है, फिर दूसरेके द्रव्यप्राणोंकी हानि हो या न हो,—इसका
कोई नियम नहीं है ।

अथ पुद्गलप्राणसन्ततिप्रवृत्तिहेतुमन्तरङ्गमाह्वयति—

आदा कम्ममलिमसो धरेदि पाणे पुणो पुणो अणणे ।
ण चयदि जाव ममत्तं देहप्रधानेषु विसयेसु ॥१५०॥

आत्मा कर्ममलीमसो धारयति प्राणान् पुनः पुनरन्यान् ।

न त्यजति यावन्ममत्वं देहप्रधानेषु विषयेषु ॥१५०॥

येयमात्मनः पौद्गलिकप्राणानां संतानेन प्रवृत्तिः तस्या अनादिपौद्गलकर्ममूलं, शरीरादि-
ममत्वरूपमुपरक्तत्वमन्तरङ्गो हेतुः ॥ १५० ॥

अथ पुद्गलप्राणसंततिनिवृत्तिहेतुमन्तरङ्गं ग्राहयति—

अब पौद्गलिक प्राणोंकी संतति (प्रवाह-परम्परा) की प्रवृत्तिका अन्तरंगहेतु
सूत्र द्वारा कहते हैं:—

गमथा १५०

अन्वयार्थः—[यावत्] जब तक [देहप्रधानेषु विषयेषु] देहप्रधान विषयोंमें
[ममत्वं] ममत्वको [न त्यजति] नहीं छोड़ता, [कर्ममलीमसः आत्मा] तब तक
कर्मसे मलिन आत्मा [पुनः पुनः] पुनः पुनः [अन्यान् प्राणान्] अन्य-अन्य प्राणोंको
[धारयति] धारण करता है ।

टीका:—जो इस आत्माकी पौद्गलिक प्राणोंकी संतानरूप प्रवृत्ति है, उसका
अन्तरंगहेतु शरीरादिका ममत्वरूप उपरक्तत्व है, जिसका मूल (निमित्त) अनादि
पौद्गलिक कर्म है ।

भावार्थः—द्रव्य प्राणोंकी परम्परा चलते रहनेका अन्तरंग कारण अनादि
पुद्गलकर्मके निमित्तसे होनेवाला जीवका विकारी परिणमन है । जबतक जीव देहादि
विषयोंके ममत्वरूप विकारी परिणमनको नहीं छोड़ता तब तक उसके निमित्तसे
पुनः पुनः पुद्गलकर्म बँधते रहते हैं और उससे पुनः पुनः द्रव्य प्राणोंका सम्बन्ध
होता रहता है ॥ १५० ॥

अब पौद्गलिक प्राणोंकी संततिकी निवृत्तिका अन्तरङ्ग हेतु समझाते हैं:—

जो इन्द्रियादिविजई भवीय उवञ्चोगमप्पगं भादि ।
कम्मोहिं सो ण रंजदि किह तं प्राणा अणुचरंति ॥१५१॥

य इन्द्रियादिविजयी भूत्वोपयोगमात्मकं ध्यायति ।

कर्मभिः स न रज्यते कथं तं प्राणा अनुचरन्ति ॥ १५१ ॥

पुद्गलप्राणसंततिनिवृत्तेरन्तरङ्गो हेतुर्हि पौद्गलिककर्ममूलस्योपरक्तत्वस्याभावः । स तु समस्तेन्द्रियादिपरद्रव्यानुवृत्तिविजयिनो भूत्वा समस्तोपाश्रयानुवृत्तिव्यावृत्तस्यस्फटिकमणेरिवा-

गाथा १५१

अन्वयार्थः—[यः] जो [इन्द्रियादिविजयीभूत्वा] इन्द्रियादिका विजयी होकर [उपयोगं आत्मकं] उपयोगमात्र आत्माका [ध्यायति] ध्यान करता है, [सः] वह [कर्मभिः] कर्मोंके द्वारा [न रज्यते] रंजित नहीं होता; [तं] उसे [प्राणाः] प्राण [कथं] कैसे [अनुचरंति] अनुसरण कर सकते हैं ? (अर्थात् उसके प्राणोंका सम्बन्ध नहीं होता ।)

टीकाः—वास्तवमें पौद्गलिक प्राणोंके संततिकी निवृत्तिका अन्तरङ्ग हेतु पौद्गलिक कर्म जिसका कारण (-निमित्त) है ऐसी 'उपरक्तताका अभाव है । और वह अभाव, जो जीव समस्त इन्द्रियादिक परद्रव्योंके अनुसार परिणतिका विजयी होकर, (अनेक वर्णोंवाले) 'आश्रयानुसार सारी परिणतिसे व्यावृत्त (भिन्न २ जुदा) (पृथक् अलग) हुये स्फटिक मणिकी भाँति, अत्यन्त विशुद्ध उपयोगमात्र अकेले आत्मामें सुनिश्चलतया वसता है, उस (जीव) के होता है ।

यहाँ यह तात्पर्य है कि—आत्माकी अत्यन्त विभक्तता सिद्ध करनेके लिये व्यवहारजीवत्वके हेतुभूत पौद्गलिक प्राण इसप्रकार उच्छेद करने योग्य हैं ।

भावार्थः—जैसे अनेक रंगयुक्त आश्रयभूत वस्तुके अनुसार जो (स्फटिक मणिका) अनेकरंगी परिणमन है, उससे सर्वथा व्यावृत्त हुये स्फटिकमणिके उप-

१. उपरक्तता = विकृतपना; मलिनपना; रंजितपना; उपरागयुक्तपना, [उपरागके अर्थके लिये गाथा १२६ की फुटनोट देखो]

२. आश्रय = जिसमें स्फटिकमणि रखा हो वह वस्तु ।

त्यन्तविशुद्धमृपयोगमात्रमात्मानं मुनिश्चलं केवलमधिवसतः स्यात् । इदमत्र तात्पर्यं आत्मनो-
ऽत्यन्तविभक्तसिद्धये व्यवहारजीवत्वहेतवः पुद्गलप्राणा एवमुच्छेद्यव्याः ॥ १५१ ॥

अथ पुनरप्यात्मनोऽत्यन्तविभक्तत्वसिद्धये गतिविशिष्टव्यवहारजीवत्वहेतुपर्यायस्वरूप-
मृपवर्णयति—

अत्यन्तविभक्तसिद्धये हि अत्यन्तस्मृत्यन्तरमि संभूतो ।

अत्यो पञ्जाओ सो संस्थानादिप्रभेदैः ॥ १५२ ॥

अस्तित्वनिश्चितस्य अर्थस्यार्थान्तरे संभूतः ।

अर्थः पर्यायः स संस्थानादिप्रभेदैः ॥ १५२ ॥

स्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्वनिश्चितस्यैकस्यार्थस्य स्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्वनिश्चित एवा-
न्यस्मिन्नर्थे विशिष्टरूपतया संभावितात्मलाभोऽर्थोऽनेकद्रव्यात्मकः पर्यायः । स खलु पुद्गलस्य

रक्तताका अभाव है, उसीप्रकार अनेकप्रकारके कर्म व इन्द्रियादिके अनुसार जो
(आत्माका) अनेक प्रकारका विकारी परिणमन है, उससे सर्वथा व्यावृत्त हुये
आत्माके (जो एक उपयोगमात्र आत्मामें मुनिश्चलतया वसता है, उसके) उपरक्त-
ताका अभाव होता है । उस अभावसे पौद्गलिक प्राणोंकी परम्परा अटक जाती है ।

इसप्रकार पौद्गलिक प्राणोंका उच्छेद करने योग्य है ॥ १५१ ॥

अब फिर भी, आत्माकी अत्यन्त विभक्तता सिद्ध करनेके लिये, व्यवहार
जीवत्वकी हेतुभूत गतिविशिष्ट (देव-मनुष्यादि) पर्यायोंका स्वरूप कहते हैं:—

गाथा १५२

अन्वयार्थः—[अस्तित्वनिश्चितस्य अर्थस्य हि] अस्तित्वसे निश्चित अर्थ
(द्रव्य)का [अर्थान्तरे संभूतः] अन्य अर्थमें उत्पन्न [अर्थः] अर्थ (भाव) [स
पर्यायः] वह पर्याय है [संस्थानादिप्रभेदैः] कि जो संस्थानादि भेदों सहित
होती है ।

टीका:—स्वलक्षणभूत स्वरूप-अस्तित्वसे निश्चित एक अर्थ (द्रव्य)का,
स्वलक्षणभूत स्वरूपअस्तित्वसे ही निश्चित अन्य अर्थमें विशिष्ट (भिन्न-भिन्न) रूपसे
उत्पन्न होता हुआ अर्थ (भाव) अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है; जो कि वास्तवमें,
जैसे पुद्गलकी अन्य पुद्गलमें अन्य पुद्गलात्मकपर्याय उत्पन्न होती हुई देखी जाती

पुद्गलान्तर इव जीवस्य पुद्गले संस्थानादिविशिष्टतया समुपजायमानः संभाव्यत एव । उपपन्नश्चै-
वंविधः पर्यायः । अनेकद्रव्यसंयोगात्मत्वेन केवलजीवव्यतिरेकमात्रस्यैकद्रव्यपर्यायस्यास्खलि-
तस्यान्तरवभासनात् ॥ १५२ ॥

अथ पर्यायव्यक्तीर्दशयति—

णरणारयतिरियसुरा संठाणादीहिं अरणहा जादा ।

पज्जाया जीवाणं उदयादिहिं णामकम्मस्स ॥ १५३ ॥

नरनारकतिर्यक्सुराः संस्थानादिभिरन्यथा जाताः ।

पर्याया जीवानामुदयादिभिर्नामकर्मणः ॥ १५३ ॥

है उसीप्रकार जीवकी, पुद्गलमें संस्थानादिसे विशिष्टतया (संस्थान इत्यादिके भेद सहित) उत्पन्न होती हुई अनुभवमें अवश्य आती है । और ऐसी पर्याय योग्य घटित है; क्योंकि जो केवल जीवकी व्यतिरेकमात्र है ऐसी अस्खलित एक द्रव्य पर्याय ही अनेक द्रव्योंकी संयोगात्मकतया भीतर जात होती है ।

भावार्थः—यद्यपि प्रत्येक द्रव्यका स्वरूप-अस्तित्व सदा ही भिन्न-भिन्न रहता है तथापि, जैसे पुद्गलकी अन्य पुद्गलके संबंधसे स्कंधरूप पर्याय होती है उसीप्रकार जीवकी पुद्गलोंके संबंधसे देवादिक पर्याय होती है । जीवकी ऐसी अनेक द्रव्यात्मक देवादिपर्याय अयुक्त नहीं है; क्योंकि भीतर देखने पर, अनेक द्रव्योंका संयोग होने पर भी, जीव कहीं पुद्गलोंके साथ एकरूप पर्याय नहीं करता, परन्तु वहाँ भी मात्र जीवकी (पुद्गलपर्यायसे भिन्न) अस्खलित (अपनेसे च्युत न होनेवाली) एक द्रव्यपर्याय ही सदा प्रवर्तमान रहती है ॥ १५२ ॥

अब पर्यायके भेद बतलाते हैं:—

गाथा १५३

अन्वयार्थः—[नरनारकतिर्यक्सुराः] मनुष्य, नारक, तिर्यच और देव, [नाम-
कर्मणः उदयादिभिः] नामकर्मके उदयादिकके कारण [जीवानां पर्यायाः] जीवोंकी
पर्यायें हैं,—[संस्थानादिभिः] जो कि संस्थानादिके द्वारा [अन्यथा जाताः] अन्य-
अन्य प्रकारकी होती हैं ।

नारकस्तिर्यङ्मनुष्यो देव इति किल पर्याया जीवानाम् । ते खलु नामकर्मपुद्गलविपाक-
कारणत्वेनानेकद्रव्यसंयोगात्मकत्वात् कुकूलाङ्गारादिपर्याया जातवेदसः क्षोदखिन्वसंस्थानादिभि-
रिव संस्थानादिभिरन्यथैव भूता भवन्ति ॥ १५३ ॥

अथात्मनोऽन्यद्रव्यसंकीर्णत्वेऽप्यर्थनिश्चायकमस्तित्वं स्वपरविभावहेतुत्वेनोद्योतयति—

तं सद्भावनिबद्धं द्रव्यसद्भावं त्रिधा समारूपात् ।

जाणदि जो सविकल्पं न मुह्यति सोऽन्यद्रव्ये ॥ १५४ ॥

तं सद्भावनिबद्धं द्रव्यस्वभावं त्रिधा समारूपात् ।

जानाति यः सविकल्पं न मुह्यति सोऽन्यद्रव्ये ॥ १५४ ॥

यत्खलु स्वलक्षणभूतं स्वरूपास्तित्वमर्थनिश्चायकमारूपात् स खलु द्रव्यस्य स्वभाव एव,
सद्भावनिबद्धत्वाद्द्रव्यस्वभावस्य । यथासौ द्रव्यस्वभावो द्रव्यगुणपर्यायत्वेन स्थित्युत्पादव्ययत्वेन

टीकाः—नारक, तिर्यच, मनुष्य और देव,—जीवोंकी पर्यायें हैं । वे नाम-
कर्मरूप पुद्गलके विपाकके कारण अनेक द्रव्योंकी संयोगात्मक हैं; इसलिये जैसे
तुपकी अग्नि और अंगार इत्यादि अग्निकी पर्यायें चूरा और डली इत्यादि आकारोंसे
अन्य-अन्य प्रकारकी होती हैं, उसीप्रकार जीवकी, नारकादि पर्यायें संस्थानादिके
द्वारा अन्यान्य प्रकारकी ही होती हैं ॥ १५३ ॥

अब, आत्माकी अन्य द्रव्यके साथ संयुक्तता होने पर भी अर्थ निश्चायक
अस्तित्वको स्व-पर विभागके हेतुके रूपमें समझाते हैं:—

गाथा १५४

अन्वयार्थः—[यः] जो जीव [तं] उस (पूर्वोक्त) [सद्भावनिबद्धं]
अस्तित्व निष्पन्न, [त्रिधा समारूपात्] तीन प्रकारसे कथित, [सविकल्पं] भेदोंवाले
[द्रव्यस्वभावं] द्रव्यस्वभावको [जानाति] जानता है, [सः] वह [अन्य द्रव्ये]
अन्य द्रव्यमें [न मुह्यति] मोहको प्राप्त नहीं होता ।

टीकाः—जो, द्रव्यको निश्चित करनेवाला, स्वलक्षणभूत स्वरूपअस्तित्व कहा
गया है वह वास्तवमें द्रव्यका स्वभाव ही है; क्योंकि द्रव्यका स्वभाव अस्तित्व

१. अर्थ निश्चायक = द्रव्यका निश्चय करनेवाला; (द्रव्यका निर्णय करनेका साधन जो स्वरूपा-
स्तित्व है वह स्वपरका भेद करने में साधनभूत है, इसप्रकार इस गाथामें समझाते हैं ।)

च त्रितयीं विकल्पभूमिकामधिरूढः परिज्ञायमानः परद्रव्ये मोहमपोह्य स्वपरविभागहेतुर्भवति ततः स्वरूपास्तित्वमेव स्वपरविभागसिद्धये प्रतिपदमवधार्यम् । तथाहि—यच्चेतनत्वान्वयलक्षणं द्रव्यं यश्चेतनाविशेषत्वलक्षणो गुणो यश्चेतनत्वव्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तत्रयात्मकं, या पूर्वोत्तरव्यतिरेकस्पर्शिना चेतनत्वेन स्थितिर्यावुत्तरपूर्वव्यतिरेकत्वेन चेतनस्योत्पादव्ययौ तत्रयात्मकं च स्वरूपास्तित्वं यस्य नु स्वभावोऽहं स खन्वयमन्यः । यच्चाचेतनत्वान्वयलक्षणं द्रव्यं योऽचेतनाविशेषत्वलक्षणो गुणो योऽचेतनत्वव्यतिरेकलक्षणः पर्यायस्तत्रयात्मकं, या पूर्वोत्तरव्यतिरेकस्पर्शिनाचेतनत्वेन स्थितिर्यावुत्तरपूर्वव्यतिरेकत्वेनाचेतनस्योत्पादव्ययौ तत्रयात्मकं च स्वरूपा-

निष्पन्न (अस्तित्वका बना हुआ) है । द्रव्य-गुण-पर्यायरूपसे तथा ध्रौव्य-उत्पाद-व्ययरूपसे त्रयात्मक भेद भूमिकामें आरूढ द्रव्यस्वभाव ज्ञात होता हुआ, परद्रव्यके प्रति मोहको दूर करके स्व-परके विभागका हेतु होता है, इसलिये स्वरूपअस्तित्व ही स्व-परके विभागकी सिद्धिके लिये पद पद पर अवधारित करना (लक्ष्यमें लेना) चाहिये । वह इसप्रकार है:—

(१) चेतनत्वका अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा द्रव्य (२) चेतनाविशेषत्व (चेतनाका विशेषपना) जिसका लक्षण है ऐसा गुण, और (३) चेतनत्वका व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी पर्याय—यह त्रयात्मक (ऐसा स्वरूप—अस्तित्व), तथा (१) पूर्व और उत्तर व्यतिरेकको स्पर्श करनेवाले चेतनत्वरूपसे जो ध्रौव्य और (२-३) चेतनके उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद और व्यय,—यह त्रयात्मक स्वरूप-अस्तित्व जिसका स्वभाव है ऐसा मैं वास्तवमें यह अन्य हूँ, (अर्थात् मैं पुद्गलसे ये भिन्न रहा ।) और (१) अचेतनत्वका अन्वय जिसका लक्षण है ऐसा द्रव्य, (२) अचेतना विशेषत्व जिसका लक्षण है ऐसा गुण, और (३) अचेतनत्वका व्यतिरेक जिसका लक्षण है ऐसी पर्याय,—यह त्रयात्मक (ऐसा स्वरूपअस्तित्व) तथा (१) पूर्व और उत्तर व्यतिरेकको स्पर्श करनेवाले अचेतनत्वरूपसे जो ध्रौव्य और (२-३) अचेतनके उत्तर तथा पूर्व व्यतिरेकरूपसे जो उत्पाद और व्यय,—यह

१. त्रयात्मक = तीनस्वरूप; तीनके समूहस्वरूप (द्रव्यका स्वभाव द्रव्य, गुण और पर्याय,—इसप्रकार तीन भेदोंवाला तथा ध्रौव्य, उत्पाद और व्यय,—ऐसे तीन भेदोंवाला है ।)

२. पूर्व अर्थात् पहलेका, और उत्तर अर्थात् बादका । (चेतन पूर्व और उत्तरकी—दोनों पर्यायोंको स्पर्श करता है; इस अपेक्षासे ध्रौव्य है; बादकी अर्थात् वर्तमान पर्यायकी अपेक्षासे उत्पाद है और पहलेकी पर्यायकी अपेक्षासे व्यय है ।)

स्तित्वम् यस्य तु स्वभावः पुद्गलस्य स खल्वयमन्यः । नास्ति मे मोहोऽस्ति स्वपरवि-
भागः ॥ १५४ ॥

अथात्मनोऽत्यन्तविभक्तत्वाय परद्रव्यसंयोगकारणस्वरूपमालोचयति—

अप्पा उवओगप्पा उवओगोणाणदंसणं भणितो ।

सो वि सुहो असुहो वा उवओगो अप्पणो हवदि ॥ १५५ ॥

आत्मा उपयोगात्मा उपयोगो ज्ञानदर्शनं भणितः ।

सोऽपि शुभोऽशुभो वा उपयोग आत्मनो भवति ॥ १५५ ॥

त्रयात्मक स्वरूपअस्तित्व जिस पुद्गलका स्वभाव है वह वास्तवमें (मुझसे) अन्य है । (इसलिये) मुझे मोह नहीं है; स्वपरका विभाग है ।

भावार्थः—मनुष्य, देव इत्यादि अनेकद्रव्यात्मक पर्यायोंमें भी जीवका स्वरूप-
अस्तित्व और प्रत्येक परमाणुका स्वरूपास्तित्व सर्वथा भिन्न भिन्न है । सूक्ष्मतासे
देखने पर वहाँ जीव और पुद्गलका स्वरूपास्तित्व (अर्थात् अपने अपने द्रव्यगुणपर्याय
और ध्रौव्य-उत्पाद-व्यय) स्पष्टतया भिन्न जाना जा सकता है । स्वपरका भेद करनेके
लिये जीवको इस स्वरूपास्तित्वको पद पद पर लक्ष्यमें लेना योग्य है । यथाः—(यह
जाननेमें आता हुआ) चेतन, द्रव्य-गुण-पर्याय और चेतन ध्रौव्य-उत्पाद-व्यय जिसका
स्वभाव है ऐसा मैं इस (पुद्गल) से भिन्न रहा; और यह अचेतन द्रव्य-गुण-पर्याय
तथा अचेतन ध्रौव्य उत्पाद व्यय जिसका स्वभाव है ऐसा पुद्गल मुझसे भिन्न रहा ।
इसलिये मुझे परके प्रति मोह नहीं है; स्व-परका भेद है ॥ १५४ ॥

अब, आत्माको अत्यन्त विभक्त करनेके लिये परद्रव्यके संयोगके कारणका
स्वरूप कहते हैंः—

गाथा १५५

अन्वयार्थः—[आत्मा उपयोगात्मा] आत्मा उपयोगात्मक है; [उपयोगः]
उपयोग [ज्ञानदर्शनं भणितः] ज्ञान-दर्शन कहा गया है; [अपि] और [आत्मनः]
आत्माका [सः उपयोगः] वह उपयोग [शुभः अशुभः वा] शुभ अथवा अशुभ
[भवति] होता है ।

आत्मनो हि परद्रव्यसंयोगकारणमुपयोगविशेषः उपयोगो हि तावदात्मनः स्वभावश्चै-
तन्यानुविधायिपरिणामत्वात् । स तु ज्ञानं दर्शनं च साकारनिराकारत्वेनोभयरूपत्वाच्चैतन्यस्य
अथायमुपयोगो द्वेषा विनिष्पद्यते शुद्धाशुद्धत्वेन । तत्र शुद्धो निरुपरागः, अशुद्धः सोपरागः । स
तु विशुद्धिसंक्लेशरूपत्वेन द्वैविध्यादुपरागस्य द्विविधः शुभोऽशुभश्च ॥ १५५ ॥

अथात्र क उपयोगः परद्रव्यसंयोगकारणमित्यावेदयति—

उपयोगो यदि हि शुद्धो पुण्यं जीवस्य संचयं जाति ।

अशुद्धो वा तद्य पापं तेमिमभावे ण चयमत्थि ॥ १५६ ॥

उपयोगो यदि हि शुभः पुण्यं जीवस्य संचयं याति ।

अशुभो वा तथा पापं तयोरभावे न चयोऽस्ति ॥ १५६ ॥

टीकाः—वास्तवमें आत्माका परद्रव्यके संयोगका कारण 'उपयोगविशेष है ।
प्रथम तो उपयोग वास्तवमें आत्माका स्वभाव है, क्योंकि वह चैतन्यानुविधायी,
(उपयोग चैतन्यका अनुसरण करके होनेवाला) परिणाम है । और वह ज्ञान तथा
दर्शन है, क्योंकि चैतन्य ^१साकार और ^३निराकार—उभयरूप है । अब इस उपयोगके
दो भेद हैं,—शुद्ध और अशुद्ध । उसमेंसे शुद्ध निरुपराग (निर्विकार) है; और अशुद्ध
सोपराग (सविकार) है । वह अशुद्धोपयोग शुभ और अशुभ—दो प्रकारका है,
क्योंकि उपराग विशुद्धिरूप और संक्लेशरूप दो प्रकारका है । (अर्थात् विकार
मन्दकषायरूप और तीव्रकषायरूपसे दो प्रकारका है ।)

भावार्थः—आत्मा उपयोगस्वरूप है । प्रथम तो उपयोगके दो भेद हैं—
शुद्ध और अशुद्ध । और फिर अशुद्धोपयोगके दो भेद हैं, शुभ तथा अशुभ ॥१५५॥

अब यह कहते हैं कि इसमें कौनसा उपयोग परद्रव्यके संयोगका कारण हैः—

गाथा १५६

अन्वयार्थः—[उपयोगः] उपयोग [यदि हि] यदि [शुभः] शुभ हो तो
[जीवस्य] जीवके [पुण्यं] पुण्य [संचयं याति] संचयको प्राप्त होता है, [तथा वा

१. उपयोगविशेष = उपयोगका भेद, प्रकार या अमुक प्रकारका उपयोग । (अशुद्धोपयोग परद्रव्यके
संयोगका कारण है; यह १५६ वीं गाथामें कहेंगे ।)

२. साकार = आकार या भेदयुक्त; सविकल्प; विशेष ।

३. निराकार = आकार रहित; भेदरहित; निर्विकल्प; सामान्य ।

उपयोगो हि जीवस्य परद्रव्यसंयोगकारणमशुद्धः । स तु विशुद्धिसंक्लेशरूपोपरागवशात् शुभाशुभत्वेनोपात्तद्वैविध्यः । पुण्यपापत्वेनोपात्तद्वैविध्यस्य परद्रव्यस्य संयोगकारणत्वेन निर्वर्तयति । यदा तु द्विविधस्याप्यस्याशुद्धस्याभावः क्रियते तदा खलूपयोगः शुद्ध एवावतिष्ठते । स पुनरकारणमेव परद्रव्यसंयोगस्य ॥ १५६ ॥

अथ शुभोपयोगस्वरूपं प्ररूपयति—

जो जाणादि जिणिंदे पेन्द्रदि मिद्धे तहेव अणगारं ।

जीवेषु साणुकंपो उवओगो सो सुहो तम्म ॥ १५७ ॥

यो जानाति जिनेन्द्रान् पश्यति सिद्धांस्तथैवानागारान् ।

जीवेषु सानुकम्प उपयोगः स शुभस्तस्य ॥ १५७ ॥

अशुभः] और यदि अशुभ हो तो [पापं] पाप संचय होता है । [तयोः अभावे] उन दोनोंके अभावमें [चयः नास्ति] संचय नहीं होता ।

टीका:—जीवका परद्रव्यके संयोगका कारण अशुद्ध उपयोग है । और वह विशुद्ध तथा संक्लेशरूप उपरागके कारण शुभ और अशुभरूपसे द्विविधताको प्राप्त होता हुआ, जो पुण्य और पापरूपसे द्विविधताको प्राप्त होता है ऐसा जो परद्रव्य उसके संयोगके कारणरूप काम करता है । उपराग मन्दकपायरूप और तीव्रकषायरूपसे दो प्रकारका है, इसलिये अशुद्ध उपयोग भी शुभाशुभके भेदसे दो प्रकारका है । उसमेंसे शुभोपयोग पुण्यरूप परद्रव्यके संयोगका कारण होता है और अशुभोपयोग पापरूप परद्रव्यके संयोगका कारण होता है ।) किन्तु जब दोनों प्रकारके अशुद्धोपयोगका अभाव किया जाता है तब वास्तवमें उपयोग शुद्ध ही रहता है; और वह परद्रव्यके संयोगका अकारण ही है । (अर्थात् शुद्धोपयोग परद्रव्यके संयोगका कारण नहीं है ।) ॥ १५६ ॥

अब शुभोपयोगका स्वरूप कहते हैं:—

गाथा १५७

अन्वयार्थः—[यः] जो [जिनेन्द्रान्] जिनेन्द्रोंको [जानाति] जानता है, [सिद्धान् तथैव अनागारान्] सिद्धों तथा अनगारों (आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधुओं) की [पश्यति] श्रद्धा करता है, [जीवेषु सानुकम्पः] और जीवोंके प्रति अनुकम्पायुक्त है, [तस्य] उसके [सः] वह [शुभः उपयोगः] शुभ उपयोग है ।

विशिष्टक्षयोपशमदशाविश्रान्तदर्शनचारित्रमोहनीयपुद्गलानुवृत्तिपरत्वेन परिग्रहीत शोभ-
नोपरागत्वात् परमभट्टारकमहादेवाधिदेवपरमेश्वरार्हत्सिद्धसाधुश्रद्धाने समस्तभूतग्रामानुकम्पाचरणे
च प्रवृत्तः शुभ उपयोगः ॥ १५७ ॥

अथाशुभोपयोगस्वरूपं प्ररूपयति—

विषयकषायवगाढो दुःश्रुतिदुश्चित्तदुष्टगोष्ठियुतो ।

उग्रो उन्मार्गपरो उवश्रोगो जस्म सो अशुभो ॥ १५८ ॥

विषयकषायावगाढो दुःश्रुतिदुश्चित्तदुष्टगोष्ठियुतः ।

उग्र उन्मार्गपर उपयोगो यस्य सोऽशुभः ॥ १५८ ॥

विशिष्टोदयदशाविश्रान्तदर्शनचारित्रमोहनीयपुद्गलानुवृत्तिपरत्वेन परिग्रहीताशोभनोपरा-

टीका:—विशिष्ट क्षयोपशमदशामें रहनेवाले दर्शनमोहनीय और चारित्र-
मोहनीयरूप पुद्गलोंके अनुसार परिणतिमें लगा होनेसे शुभ उपरागका ग्रहण करनेसे,
जो (उपयोग) परमभट्टारक महादेवाधिदेव, परमेश्वर-अर्हत, सिद्धकी और साधुकी
श्रद्धा करनेमें तथा समस्त जीवसमूहकी अनुकम्पाका आचरण करनेमें प्रवृत्त है, वह
शुभोपयोग है ॥ १५७ ॥

अब अशुभोपयोगका स्वरूप कहते हैं:—

गाथा १५८

अन्वयार्थः—[यस्य उपयोगः] जिसका उपयोग [विषयकषायावगाढः]
विषय-कषायमें अवगाढ (मग्न) है, [दुःश्रुतिदुश्चित्तदुष्टगोष्ठियुतः] कुश्रुति, कुविचार
और कुसंगतिमें लगा हुआ है, [उग्रः] उग्र है तथा [उन्मार्गपरः] उन्मार्गमें लगा
हुआ है, [सः अशुभः] उसका वह अशुभोपयोग है ।

टीका:—विशिष्ट उदयदशामें रहनेवाले दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीय-
रूप पुद्गलोंके अनुसार परिणतिमें लगा होनेसे अशुभउपरागको ग्रहण करनेसे, जो
(उपयोग) परम भट्टारक, महादेवाधिदेव, परमेश्वर-अर्हत सिद्ध और साधुको छोड़कर

१. उपरागका अर्थ गाथा १२६ के टिप्पणमें देखें ।

गत्वात्परमभङ्गारकमहादेवाधिदेवपरमेश्वरार्हत्तिद्धसाधुभ्योऽन्यत्रोन्मार्गश्रद्धाने विषयकषायदुःश्रवण-
दुराशयदुष्टसेवनोग्रताचरणे च प्रवृत्तोऽशुभोपयोगः ॥ १५८ ॥

अथ परद्रव्यसंयोगकारणविनाशमभ्यस्यति—

अशुभोवश्रोगरहितो सुभोवजुत्तो ण अणदवियम्हि ।

होज्जं मज्झत्थोऽहं णाणप्पगमप्पगं भाए ॥ १५९ ॥

अशुभोपयोगरहितः शुभोपयुक्तो न अन्यद्रव्ये ।

भवन्मध्यस्थोऽहं ज्ञानात्मकमात्मकं ध्यायामि ॥ १५९ ॥

यो हि नामार्थ परद्रव्यसंयोगकारणत्वेनोपन्यस्तोऽशुद्ध उपयोगः स खलु मन्दतीव्रोदय-
दशाविश्रान्तपरद्रव्यानुवृत्तितन्त्रत्वादेव प्रवर्तते न पुनरन्यस्मात् । ततोऽहमेषसर्वस्मिन्नेव परद्रव्ये
मध्यस्थो भवामि । एवं भवंश्राहं परद्रव्यानुवृत्तितन्त्रत्वाभावात् शुभेनाशुभेन वाशुद्धोपयोगेन

अन्य-उन्मार्गकी श्रद्धा करनेमें तथा विषय, कषाय, कुश्रवण, कुविचार, कुसंग और
उग्रताका आचरण करनेमें प्रवृत्त है, वह अशुभोपयोग है ॥ १५८ ॥

अब, परद्रव्यके संयोगके कारण (अशुद्धोपयोग)के विनाशका अभ्यास
बतलाते हैं:—

गाथा १५९

अन्वयार्थः—[अन्य द्रव्ये] अन्य द्रव्यमें [मध्यस्थः] मध्यस्थ [भवन्]
होता हुआ [अहम्] मैं [अशुभोपयोगरहितः] अशुभोपयोग रहित होता हुआ, (तथा)
[शुभोपयुक्तः न] शुभोप(योग)युक्त नहीं होता हुआ [ज्ञानात्मकम्] ज्ञानात्मक
[आत्मकं] आत्माको [ध्यायामि] ध्याता हूँ ।

टीका:—जो यह (१५९ वीं गाथामें) परद्रव्यके संयोगके कारणरूपमें कहा-
गया अशुद्धोपयोग है वह वास्तवमें मन्द-तीव्र उदयदशामें रहनेवाले परद्रव्यानुसार
परिणतिके आधीन होनेसे ही प्रवर्तित होता है, किन्तु अन्य कारणसे नहीं । इसलिये
यह मैं समस्त परद्रव्यमें मध्यस्थ होऊँ । और इसप्रकार मध्यस्थ होता हुआ मैं पर-
द्रव्यानुसार परिणतिके आधीन न होनेसे शुभ अथवा अशुभ-अशुद्धोपयोगसे मुक्त होकर,
मात्र स्वद्रव्यानुसार परिणतिको ग्रहण करनेसे जिसको शुद्धोपयोग सिद्ध हुआ है, ऐसे

निर्मुक्तो भूत्वा केवलस्वद्रव्यालुपृच्छिपरिग्रहात् प्रसिद्धशुद्धोपयोग उपयोमात्मनात्मन्येव नित्यं निश्चलमुपयुक्तस्तिष्ठामि । एष मे परद्रव्यसंयोगकारणविनाशभ्यासः ॥ १५९ ॥

अथ शरीरादावपि परद्रव्ये माध्यस्थं प्रकटयति—

णाणं देहो ए मणो ए चैव वाणी ए कारणं तेसिं ।

कर्ता ए ए कारयिदा अणुमंता एव कर्त्तीणं ॥ १६० ॥

नाहं देहो न मनो न चैव वाणी न कारणं नेषाम् ।

कर्ता न न कारयिता अनुमन्ता नैव कर्त्तृणाम् ॥ १६० ॥

शरीरं च वाचं च मनश्च परद्रव्यत्वेनाहं प्रपद्ये, ततो न तेषु कश्चिदपि मम पक्षपातोऽस्ति । सर्वत्राप्यहमत्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । तथाहि—न खल्वहं शरीरवाङ्मनसां स्वरूपाधारभूतमचेतनद्रव्यमस्मि, तानि खलु मां स्वरूपाधारमन्तरेणाप्यात्मनः स्वरूपं धारयन्ति । ततोऽहं शरीरवाङ्मनःपक्षपातमपास्यात्यन्तं मध्यस्थोऽस्मि । न च मे शरीरवाङ्मनःकारणाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, तानि खलु मां कारणमन्तरेणापि कारणवन्ति भवन्ति । ततोऽहं तत्कारणत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्रशरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यत्वमस्ति, तानि खलु मां

उपयोगरूप निजस्वरूपके द्वारा आत्मामें ही सदा निश्चलतया उपयुक्त रहता हूँ । यह मेरा परद्रव्यके संयोगके कारणके विनाशका अभ्यास है ॥ १५९ ॥

अब, शरीरादि परद्रव्यके प्रति भी मध्यस्थता प्रगट करते हैं:—

गाथा १६०

अन्वयार्थः—[अहं न देहः] मैं न देह हूँ, [न मनः] न मन हूँ, [च एव] और [न वाणी] न वाणी हूँ; [तेषां कारणं न] उनका कारण नहीं हूँ [कर्ता न] कर्ता नहीं हूँ, [कारयिता न] करानेवाला नहीं हूँ; [कर्त्तृणां अनुमन्ता न एव] (और) कर्ताका अनुमोदक नहीं हूँ ।

टीका:—मैं शरीर, वाणी और मनको परद्रव्यके रूपमें समझता हूँ, इसलिये मुझे उनके प्रति कुछ भी पक्षपात नहीं है । मैं उन सबके प्रति अत्यन्त मध्यस्थ हूँ । यथा:—

वास्तवमें मैं शरीर, वाणी और मनके स्वरूपका आधारभूत अचेतन द्रव्य नहीं हूँ मैं स्वरूपाधार (हुवे) विना भी वे वास्तवमें अपने स्वरूपको धारण करते हैं । इसलिये मैं शरीर, वाणी और मनका पक्षपात छोड़कर अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

कर्तारमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं तत्कर्तृत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्रशरीरवाङ्मनःकारकाचेतन द्रव्यप्रयोजकत्वमस्ति, तानि खलु मां कारकप्रयोजकमन्तरेणापि क्रियमाणानि । ततोऽहं तत्कारकप्रयोजकत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः । न च मे स्वतन्त्रशरीरवाङ्मनःकारकाचेतनद्रव्यानुज्ञातृत्वमस्ति, तानि खलु मां कारकानुज्ञातारमन्तरेणापि क्रियमाणानि ततोऽहं तत्कारकानुज्ञातृत्वपक्षपातमपास्यास्म्ययमत्यन्तं मध्यस्थः ॥ १६० ॥

अथ शरीरवाङ्मनसां परद्रव्यत्वं निश्चिनोति—

देहो य मणो वाणी पोग्गलद्ववप्पग ति णिदिट्ठा ।

पोग्गलद्ववं हि पुणो पिंडो परमाणुदव्वाणं ॥ १६१ ॥

और मैं शरीर, वाणी तथा मनका कारण अचेतन द्रव्य नहीं हूँ । मैं कारण (हुवे) विना भी वे वास्तवमें कारणवान् हूँ । इसलिये उनके कारणत्वका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं स्वतन्त्र ऐसे शरीर, वाणी तथा मनका कर्ता अचेतन द्रव्य नहीं हूँ मैं कर्ता (हुये) विना भी वे वास्तवमें किये जाते हैं । इसलिये उनके कर्तृत्वका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं स्वतन्त्र ऐसे शरीर, वाणी तथा मनका कारक (कर्ता) जो अचेतन द्रव्य है उसका प्रयोजक नहीं हूँ । मैं कारक प्रयोजक विना भी (अर्थात् मैं उनके कर्ताका प्रयोजक उनके करानेवाला हुये विना भी) वे वास्तवमें किये जाते हैं । इसलिये यह मैं उनके कर्ताके प्रयोजकत्वका पक्षपात छोड़कर अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

और मैं स्वतन्त्र ऐसे शरीर, वाणी तथा मनका कारक जो अचेतन द्रव्य है, उसका अनुमोदक नहीं हूँ । मैं कारक-अनुमोदक विना भी (उनके कर्ताका अनुमोदक हुये विना भी) वे वास्तवमें किये जाते हैं । इसलिये उनके कर्ताके अनुमोदकत्वका पक्षपात छोड़कर यह मैं अत्यन्त मध्यस्थ हूँ ।

अथ शरीर, वाणी और मनका परद्रव्यत्व निश्चित करते हैं:—

देहश्च मनो वाणी पुद्गलद्रव्यात्मका इति निर्दिष्टाः ।

पुद्गलद्रव्यमपि पुनः पिण्डः परमाणुद्रव्याणाम् ॥ १६१ ॥

शरीरं च वाक् च मनश्च श्रेष्ठ्यपि परद्रव्यं पुद्गलद्रव्यात्मकत्वात् । पुद्गलद्रव्यत्वं तु तेषां पुद्गलद्रव्यस्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्वनिश्चितत्वात् । तथाविधपुद्गलद्रव्यं त्वनेकपरमाणुद्रव्याणामेकपिण्डपर्यायेण परिणामः । अनेकपरमाणुद्रव्यस्वलक्षणभूतस्वरूपास्तित्वानामनेकत्वैऽपि कथंचिदेकत्वेनावभासनात् ॥ १६१ ॥

अथात्मनः परद्रव्यत्वामावं परद्रव्यकर्तृत्वाभावं च साधयति—

णाहं पोग्गलमइओ ण ते मया पोग्गला कया पिंडं ।

तम्हा हि ण देहोऽहं कत्ता वा तस्म देहस्स ॥ १६२ ॥

नाहं पुद्गलमयो न ते मया पुद्गलाः कृताः पिण्डम् ।

तस्माद्धि न देहोऽहं कर्ता वा तस्य देहस्य ॥ १६२ ॥

गाथा १६१

अन्वयार्थः—[देहः च मनः वाणी] देह, मन और वाणी [पुद्गल द्रव्यात्मकाः] पुद्गल द्रव्यात्मक [इति निर्दिष्टाः] हैं, ऐसा (वीतरागदेवने) कहा है [अपि पुनः] और [पुद्गल द्रव्यं] वे पुद्गल द्रव्य [परमाणुद्रव्याणां पिण्डः] परमाणुद्रव्योंका पिण्ड है ।

टीकाः—शरीर वाणी और मन तीनों ही परद्रव्य हैं, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्यात्मक हैं । उनके पुद्गलद्रव्यत्व है, कि वे पुद्गल द्रव्यके स्वलक्षणभूत स्वरूपास्तित्वमें निश्चित (रहे हुये) हैं । उस प्रकारका 'पुद्गलद्रव्य अनेक परमाणुद्रव्योंका एक पिण्ड पर्यायरूपसे परिणाम है, क्योंकि अनेक परमाणुद्रव्योंके स्वलक्षणभूत स्वरूपास्तित्व अनेक होने पर भी कथंचित् (स्निग्धत्व-रूक्षत्वकृत बंध परिणामकी अपेक्षासे एकत्वरूप अवभासित होते हैं ॥ १६१ ॥

अब आत्माके परद्रव्यत्वका अभाव और परद्रव्यके कर्तृत्वका अभाव सिद्ध करते हैंः—

गाथा १६२

अन्वयार्थः—[अहं पुद्गलमयः न] मैं पुद्गलमय नहीं हूँ, और [ते पुद्गलाः]

१. शरीरादिरूप

यदेतत्प्रकरणनिर्धारितं पुद्गलात्मकमन्तर्नीतवाङ्मनोद्वैतं शरीरं नाम परद्रव्यं न तावदह-
मस्मि, ममापुद्गलमयस्य पुद्गलात्मकशरीरत्वविरोधात् । न चापि तस्य कारणद्वारेण कर्तृद्वारेण
कर्तृप्रयोजकद्वारेण कर्तृनुमन्तृद्वारेण वा शरीरस्य कर्ताहमस्मि, ममानेकपरमाणुद्रव्यैकपिण्ड-
पर्यायपरिणामस्याकर्तुरनेकपरमाणुद्रव्यैकपिण्डपर्यायपरिणामात्मकशरीरकर्तृत्वस्य सर्वथा विरो-
धात् ॥ १६२ ॥

अथ कथं परमाणुद्रव्याणां पिण्डपर्यायपरिणतिरिति संदेहमपनुदति—

अप्रदेशो परमाणु पदेसमेत्तो य सयमसदो जो ।

णिद्धो वा लुक्खो वा दुपदेसादित्तमणुहवदि ॥ १६३ ॥

अप्रदेशः परमाणुः प्रदेशमात्रश्च स्वयमशब्दो यः ।

स्निग्धो वा रूक्षो वा द्विप्रदेशादित्वमनुभवति ॥ १६३ ॥

वे पुद्गल [मया] मेरे द्वारा [पिण्डं न कृताः] पिण्डरूप नहीं किये गये हैं;
[तस्मात् हि] इसलिये [अहं न देहः] मैं देह नहीं हूँ, [वा] तथा [तस्य देहस्य
कर्ता] उस देहका कर्ता नहीं हूँ ।

टीकाः—प्रथम तो जो यह प्रकरणसे निर्धारित पुद्गलात्मक शरीर नामक
परद्रव्य है,—जिसके भीतर वाणी और मनका समावेश होजाता है;—वह मैं नहीं हूँ;
क्योंकि मुझ अपुद्गलात्मकका पुद्गलात्मक शरीररूप होनेमें विरोध है । और इसी-
प्रकार उस (शरीर) के कारण द्वारा, कर्ता द्वारा, कर्तकि प्रयोजक द्वारा या कर्तकि
अनुमोदक द्वारा शरीरका कर्ता मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं अनेक परमाणु द्रव्योंके एकपिण्ड
पर्यायरूप परिणामका अकर्ता हूँ, (इसलिये) मेरे अनेक परमाणु द्रव्योंके एकपिण्ड
पर्यायरूप परिणामात्मक शरीरका कर्ता होनेमें सर्वथा विरोध है ॥ १६२ ॥

अब इस संदेहको दूर करते हैं कि “परमाणुद्रव्योंकी पिण्ड पर्यायरूप परिणति
कैसे होती है ?”—

गाथा १६३

अन्वयार्थः—[परमाणुः] परमाणु [यः अप्रदेशः] जो कि अप्रदेश है,
[प्रदेशमात्रः] प्रदेशमात्र है, [च] और [स्वयं अशब्दः] स्वयं अशब्द है, [स्निग्धः
वा रूक्षः वा] वह स्निग्ध अथवा रूक्ष होता हुआ [द्विप्रदेशादित्वम् अनुभवति]
द्विप्रदेशादित्वका अनुभव करता है ।

परमाणुर्हि द्वयादिप्रदेशानामभावादप्रदेशः, एकप्रदेशसद्भावात्प्रदेशमात्रः, स्वयमनेक-परमाणुद्रव्यात्मकशब्दपर्यायव्यक्त्यसंभवादशब्दश्च । यतश्चतुःस्पर्शपञ्चरसद्विगन्धपञ्चवर्णानामवि-रोधेन सद्भावात् स्निग्धो वा रूक्षो वा स्यात् । तत एव तस्य पिण्डपर्यायपरिणतिरूपा द्विप्रदेशा-दित्वानुभूतिः । अथैवं स्निग्धरूक्षत्वं पिण्डत्वसाधनम् ॥ १६३ ॥

अथ कीदृशं तस्निग्धरूक्षत्वं परमाणोरित्यावेदयति—

एगुत्तरमेगादी अणुस्स णिद्धत्तणं च लुक्खत्तं ।

परिणामादो भणितं जाव अणंतत्तमणुभवदि ॥ १६४ ॥

एकोत्तरमेकाद्यणोः स्निग्धत्वं वा रूक्षत्वम् ।

परिणामाद्भणितं यावदनन्तत्वमनुभवति ॥ १६४ ॥

टीकाः—वास्तवमें परमाणु द्विआदि (दो-तीन आदि) प्रदेशोंके अभावके कारण अप्रदेश है, एक प्रदेशके सद्भावके कारण प्रदेशमात्र है, और स्वयं अनेक परमाणु द्रव्यात्मक शब्दपर्यायकी प्रगटताका असंभव होनेसे अशब्द है । (वह परमाणु) अविरोधपूर्वक चार स्पर्श, पाँच रस, दो गंध और पाँच वर्णोंके सद्भावके कारण स्निग्ध अथवा रूक्ष होता है, इसीलिये उसे पिण्ड पर्याय-परिणतिरूप द्विप्रदेशादित्वकी अनुभूति होती है । इसप्रकार स्निग्धरूक्षत्व पिण्डत्वका कारण है ॥ १६३ ॥

अब यह बतलाते हैं कि परमाणुके वह स्निग्ध रूक्षत्व किसप्रकारका होता हैः—

गाथा १६४

अन्वयार्थः—[अणोः] परमाणुके [परिणामात्] परिणमनके कारण [एकादि] एक (अविभागी प्रतिच्छेद) से लेकर [एकोत्तरं] एक-एक बढ़ते हुये [यावत्] जब तक [अनन्तत्वम् अनुभवति] अनन्तत्वको (अनन्त अविभागी प्रतिच्छेद-त्वको) प्राप्त हो, तब तक [स्निग्धत्वं वा रूक्षत्वं] स्निग्धत्व अथवा रूक्षत्व होता है; ऐसा [भणितम्] (जिनेन्द्रदेवने) कहा है ।

१. एक परमाणुकी दूसरे एक परमाणुके साथ पिण्डरूप परिणति द्विप्रदेशित्वकी अनुभूति है; एक परमाणुकी अन्य दो परमाणुओंके साथ पिण्डरूप परिणति त्रिप्रदेशित्वका अनुभव है । इसप्रकार परमाणु अन्य परमाणुओंके साथ पिण्डरूप परिणमित होनेपर अनेक प्रदेशित्वका अनुभव करता है ।

परमाणोर्हि तावदस्ति परिणामः तस्य वस्तुस्वभावत्वेनानतिक्रमात् । ततस्तु परिणामा-
दुपात्तकादाचित्कवैचित्र्यं चित्रगुणयोगित्वात्परमाणोरेकाद्येकोचरानन्तावसानाविभागपरिच्छेद-
व्यापि स्निग्धत्वं वा रूक्षत्वं वा भवति ॥ १६४ ॥

अथात्र कीदृशास्निग्धरूक्षत्वात्पिण्डत्वमित्यावेदयति—

शिद्धा वा लुक्खा वा अणुपरिणामा समा व विषमा वा ।

समतो दुराधिगा यदि वज्झन्ति हि आदिपरिहीणा ॥ १६५ ॥

स्निग्धा वा रूक्षा वा अणुपरिणामाः समा वा विषमा वा ।

समतो द्व्यधिका यदि बध्यन्ते हि आदिपरिहीनाः ॥ १६५ ॥

टीकाः—प्रथम तो परमाणुके परिणाम होता है, क्योंकि वह (परिणाम)
वस्तुका स्वभाव होनेसे उल्लंघन नहीं किया जासकता । और उस परिणामके कारण
जो 'कादाचित्क' विचित्रता धारण करता है ऐसा, एकसे लेकर एक-एक बढ़ते हुये
अनन्त अविभागीप्रतिच्छेदों तक व्याप्त होनेवाला स्निग्धत्व अथवा रूक्षत्व परमाणुके
होता है, क्योंकि परमाणु अनेक प्रकारके गुणोंवाला है ।

भावार्थः—परमाणु परिणमन वाला है, इसलिये उसके स्निग्धत्व और
रूक्षत्व एक अविभागी-^३प्रतिच्छेदसे लेकर अनन्त अविभागी प्रतिच्छेदों तक तरतमता-
को प्राप्त होते हैं ।

अब यह बतलाते हैं कि कैसे स्निग्धत्व-रूक्षत्वसे पिण्डता होती हैः—

गाथा १६५

अन्वयार्थः—[अणुपरिणामाः] परमाणु-परिणाम [स्निग्धाः वा रूक्षाः वा]
स्निग्ध हों या रूक्ष हों [समाः वा विषमाः वा] सम (अंशवाले) हों, या विषम (अंश-

१. कादाचित्क = किसी समय हो ऐसा; क्षणिक; अनित्य

२. विचित्रता = अनेकरूपता; विविधता; अनेकरूपता (चिकनापन और रूखापन परिणामके
कारण क्षणिक अनेकरूपता—तरतमता, तारतम्यताधारण करता है) ।

३. किसी गुणमें (अर्थात् गुणकी पर्यायमें) अंशकल्पना करनेपर, उसका जो छोट्टेसे छोट्टा
(निरंश) अंश होता है उसे उस गुणका (अर्थात् गुणकी पर्यायका) अविभागप्रतिच्छेद कहा
जाता है (बकरीसे गायके दूधमें और गायसे भैंसके दूधमें सचिकणताके अविभागीप्रतिच्छेद
अधिक होते हैं । धूलसे राखमें और राखसे बालूममें रूक्षताके अविभागी प्रतिच्छेद अधिक होते
हैं ।)

समतो द्वयधिकगुणाद्धि स्निग्धरूक्षत्वाद्बन्ध इत्युत्सर्गः, स्निग्धरूक्षद्वयधिकगुणत्वस्य हि परिणामकत्वेन बन्धसाधनत्वात् । न खन्वेकगुणात् स्निग्धरूक्षत्वाद्बन्ध इत्यपवादः एकगुण-स्निग्धरूक्षत्वस्य हि परिणम्यपरिणामकत्वाभावेन बन्धस्यासाधनत्वात् ॥ १६५ ॥

अथ परमाणुनां पिण्डत्वस्य यथोदितहेतुत्वमवधारयति—

णिद्धत्तणेण दुगुणो चदुगुणणिद्धेण बंधमणुभवदि ।

लुक्खेण वा तिगुणिदो अणु वज्झदि पंचगुणजुत्तो ॥१६६॥

वाले) हों [यदि समतः द्वयधिकाः] यदि समानसे दो अधिक अंश वाले हों तो [बध्यन्ते हि] बंधते हैं, [आदि परिहीनाः] जघन्यांश वाले नहीं बंधते ।

टीकाः— समानसे दो गुण (अंश) अधिक स्निग्धत्व या रूक्षत्व हो तो बंध होता है, यह उत्सर्ग (सामान्य नियम) है; क्योंकि स्निग्धत्व या रूक्षत्वकी द्विगुणाधिकताका होना परिणामक (परिणमन करानेवाला) है, इसलिये बंधका कारण है ।

यदि एक गुण स्निग्धत्व या रूक्षत्व हो तो बंध नहीं होता, यह अपवाद है; क्योंकि एक गुण स्निग्धत्व या रूक्षत्वके परिणम्य परिणामकताका अभाव होनेसे बंधके कारणत्वका अभाव है ॥ १६५ ॥

अब यह निश्चित करते हैं कि परमाणुओंके पिण्डत्वमें यथोक्त (उपरोक्त) हेतु हैः—

१. परिणम्य = परिणमन करने योग्य । [दश अंश स्निग्धतावाला परमाणु बारह अंश रूक्षता वाले परमाणुके साथ बंधकर स्कंध बननेपर, दश अंश स्निग्धतावाला परमाणु बारह अंश रूक्षतारूप परिणमित होजाता है; अथवा दश अंश स्निग्धतावाला परमाणु बारह अंश स्निग्धतावाले परमाणुके साथ बंधकर स्कंध बनने पर, दश अंश स्निग्धतावाला परमाणु बारह अंश स्निग्धतारूप परिणमित होजाता है; इसलिये कम अंशवाला परमाणु परिणम्य है और दो अधिक अंशवाला परमाणु परिणामक है । एक अंश स्निग्धता या रूक्षता वाला परमाणु (सामान्य नियमानुसार) परिणामक तो है ही नहीं, किन्तु जघन्यभावमें वर्तित होनेसे परिणम्य भी नहीं है । इसप्रकार जघन्यभाव बंधका कारण नहीं है ।]

स्निग्धत्वेन द्विगुणश्चतुर्गुणस्निग्धेन बन्धमनुभवति ।

रूक्षेण वा त्रिगुणितोऽणुर्वध्यते पञ्चगुणयुक्तः ॥ १६६ ॥

यथोदितहेतुकमेव परमाणूनां पिण्डत्वमवधार्य द्विचतुर्गुणयोस्त्रिपञ्चगुणयोश्च द्वयोः स्निग्धयोः द्वयो रूक्षयोर्द्वयोः स्निग्धरूक्षयोर्वा परमाण्वोर्बन्धस्य प्रसिद्धेः । उक्तं च “णिद्धा

गाथा १६६

अन्वयार्थः—[स्निग्धत्वेन द्विगुणः] स्निग्धरूपसे दो अंशवाला परमाणु [चतुर्गुणस्निग्धेन] चार अंश वाले स्निग्ध (अथवा रूक्ष) परमाणुके साथ [बंधं अनुभवति] बंधका अनुभव करता (प्राप्त होता) है । [वा] अथवा [रूक्षेण त्रिगुणितः अणुः] रूक्षरूपसे तीन अंशवाला परमाणु [पञ्चगुणयुक्तः] पाँच अंशवालेके साथ युक्त होता हुआ [बध्यते] बंधता है ।

टीकाः—यथोक्त हेतुसे ही परमाणुओंके पिण्डत्व होता है,—यह निश्चित करना चाहिये; क्योंकि दो और चार गुणवाले तथा तीन और पाँच गुणवाले दो स्निग्ध परमाणुओंके अथवा दो रूक्ष परमाणुओंके अथवा दो स्निग्ध-रूक्षपरमाणुओंके (—एक स्निग्ध और एक रूक्ष परमाणुके) बंधकी प्रसिद्धि है । कहा भी है किः—

“णिद्धा णिद्धेण बज्झंति लुक्खा लुक्खा य पोग्गला ।

णिद्धलुक्खा य बज्झंति रूक्खारूवी य पोग्गला ॥”

“णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिण्ण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिण्ण ।

णिद्धस्स लुक्खेण हवेदि बंधो जहण्णवज्जे विममे ममे वा ॥”

[अर्थः—पुद्गल ‘रूपी’ और ‘अरूपी’ होते हैं । उनमेंसे स्निग्ध पुद्गल स्निग्धके साथ बंधते हैं, रूक्ष पुद्गल रूक्षके साथ बंधते हैं । स्निग्ध और रूक्ष भी बंधते हैं ।

१. किसी एक परमाणुकी अपेक्षासे विसदृशजातिका समान अंशवाला दूसरा परमाणु ‘रूपी’ कहलाता है, और शेष सब परमाणु उसकी अपेक्षासे ‘अरूपी’ कहलाते हैं । जैसे—पाँच अंश स्निग्धतावाले परमाणुको पाँच अंश रूक्षतावाला दूसरा परमाणु ‘रूपी’ है और शेष सब परमाणु उसके लिये ‘अरूपी’ हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि—विसदृशजातिके समान अंशवाले परमाणु परस्पर ‘रूपी’ हैं; और सदृशजातिके अथवा असमान अंशवाले परमाणु परस्पर ‘अरूपी’ हैं ।

णिद्रेण बज्झंति लुक्खा लुक्खा य पोग्गला । णिद्वलुक्खा य बज्झंति रूखरूवी य पोग्गला ॥”
 “णिद्वस्स णिद्रेण दुराहिण्ण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिण्ण । णिद्वस्स लुक्खेण हवेदि बंधो
 जहण्णवज्जे विसमे समे वा ॥” ॥ १६६ ॥

अथात्मनः पुद्गलपिण्डकर्तृत्वाभावमवधारयति—

दुपदेसादी खंधा सुहुमा वा वादरा ससंठाणा ।
 पुढविजलतेउवाऊ सगपरिणामेहिं जायंते ॥ १६७ ॥

जघन्यके अतिरिक्त सम अंशवाला हो, या विषम अंशवाला हो, स्निग्धका दो अधिक अंशवाले स्निग्ध परमाणुके साथ, रूक्षका दो अधिक अंशवाले रूक्ष परमाणुके साथ, और स्निग्धका (दो अधिक अंशवाले) रूक्ष परमाणुके साथ बंध होता है ।]

भावार्थः—दो अंशोंसे लेकर अनन्त अंश स्निग्धता या रूक्षतावाला परमाणु उससे दो अधिक अंश स्निग्धता या रूक्षतावाले परमाणुके साथ बंधकर स्कंध बनता है । जैसेः—२ अंश स्निग्धतावाला परमाणु ४ अंश स्निग्धतावाले परमाणुके साथ बंधता है; ९१ अंश स्निग्धतावाला परमाणु ९३ अंश रूक्षतावाले परमाणुके साथ बंधता है; ५३३ अंश रूक्षतावाला परमाणु ५३५ अंश रूक्षतावाले परमाणुके साथ बंधता है; ७००६ अंश रूक्षतावाला परमाणु ७००८ अंश स्निग्धतावाले परमाणुके साथ बंधता है । इन उदाहरणोंके अनुसार दो से लेकर अनन्त (अविभागीप्रतिच्छेदों) अंशों तक समझ लेना चाहिये ।

मात्र एक अंशवाले परमाणुमें जघन्य भावके कारण बंधकी योग्यता नहीं है, इसलिये एक अंशवाला स्निग्ध या रूक्ष परमाणु तीन अंशवाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणुके साथ भी नहीं बंधता ।

इसप्रकार, (एक अंशवालेके अतिरिक्त) दो परमाणुओंके बीच यदि दो अंशोंका अन्तर हो तब ही वे बंधते हैं; दो से अधिक या कम अंशोंका अन्तर हो तो बंध नहीं होता । जैसेः—पाँच अंश स्निग्धता या रूक्षतावाला परमाणु सात अंशोंवाले परमाणुके साथ बंधता है; परन्तु पाँच अंशोंवाला परमाणु आठ या छह अंशोंवाले (अथवा पाँच अंशोंवाले) परमाणुके साथ नहीं बंधता ॥ १६६ ॥

अब, आत्माके, पुद्गलोंके पिण्डके कर्तृत्वका अभाव निश्चित करते हैंः—

द्विप्रदेशादयः स्कन्धाः सूक्ष्मा वा बादराः ससंस्थानाः ।
पृथिवीजलतेजोवायवः स्वकपरिणामैर्जायन्ते ॥ १६७ ॥

एवममी समुपजायमाना द्विप्रदेशादयः स्कन्धा विशिष्टावगाहनशक्तिवशादुपाचसौक्ष्म्य-
स्थौल्यविशेषा विशिष्टाकारधारणशक्तिवशाद्गृहीतविचित्रसंस्थानाः सन्तो यथास्वं स्पर्शादिचतुष्क-
स्याविर्भावतिरोभावस्वशक्तिवशमासाद्य पृथिव्यप्तेजोवायवः स्वपरिणामैरेव जायन्ते । अतोऽवधा-
र्यते द्व्यणुकाद्यनन्तानन्तपुद्गलानां न पिण्डकर्ता पुरुषोऽस्ति ॥ १६७ ॥

अज्ञात्मनः पुद्गलपिण्डानेतृत्वाभावमवधारयति—

ओगाढगाढणिचिदो पुग्गलकायेहिं सव्वदो लोंगो ।
सुहुमेहिं वादरेहि य अण्णाओग्गेहिं जोग्गेहिं ॥ १६८ ॥

गाथा १६७

अन्वयार्थः—[द्विप्रदेशादयः स्कन्धाः] द्विप्रदेशादिक (दो से लेकर अनन्तप्रदेश
वाले) स्कंध [सूक्ष्माः वा बादराः] जो कि सूक्ष्म अथवा वादर होते हैं, और—
[ससंस्थानाः] संस्थानों (आकारों) सहित होते हैं, वे [पृथिवीजलतेजोवायवः]
पृथ्वी, जल, तेज और वायुरूप [स्वकपरिणामैः जायन्ते] अपने परिणामोंसे होते हैं ।

टीकाः—इस (पूर्वोक्त) प्रकारसे यह उत्पन्न होनेवाले द्विप्रदेशादिक
स्कंध—जिनने विशिष्ट अवगाहनकी शक्तिके वश सूक्ष्मता और स्थूलतारूप भेद
ग्रहण किये हैं, और जिनने विशिष्ट आकार धारण करनेकी शक्तिके वश होकर
विचित्र संस्थान ग्रहण किये हैं वे—अपनी योग्यतानुसार 'स्पर्शादिचतुष्कके आविर्भाव
और तिरोभावकी स्वशक्तिके वश होकर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायुरूप अपने
परिणामोंसे ही होते हैं । इससे निश्चित होता है कि द्वि-अणुकादि अनन्तानन्त पुद्गलोंका
पिण्डकर्ता आत्मा नहीं है ॥ १६७ ॥

अब यह निश्चित करते हैं कि आत्मा पुद्गलपिण्डका लानेवाला नहीं हैः—

१. स्पर्शादिचतुष्क = स्पर्श, रस, गंध और वर्ण । (स्पर्शादिकी प्रगटता और अप्रगटता पुद्गलकी
शक्ति है ।)

अवगाढगाढनिचितः पुद्गलकायैः सर्वतो लोकः ।

सूक्ष्मैर्बादरैश्चाप्रायोग्यैर्योग्यैः ॥ १६८ ॥

यतो हि सूक्ष्मत्वपरिणतैर्बादरपरिणतैश्चानतिसूक्ष्मत्वस्थूलत्वात् कर्मत्वपरिणमनशक्तियोगिभिरतिसूक्ष्मस्थूलतया तदयोगिभिश्चावगाहविशिष्टत्वेन परस्परमबाधमानैः स्वयमेव सर्वत एव पुद्गलकायैर्गाढं निचितो लोकः । ततोऽवधार्यते न पुद्गलपिण्डानामानेता पुरुषोऽस्ति ॥ १६८ ॥

अथात्मनः पुद्गलपिण्डानां कर्मत्वकर्तृत्वाभावमवधारयति—

कम्पत्तणपाञ्चोग्गा खंधा जीवस्म परिणइं पप्पा ।

गच्छन्ति कम्मभावं ए हि ते जीवेण परिणमिदा ॥ १६९ ॥

कर्मत्वप्रायोग्याः स्कन्धा जीवस्य परिणतिं प्राप्य ।

गच्छन्ति कर्मभावं न हि ते जीवेन परिणमिताः ॥ १६९ ॥

गाथा १६८

अन्वयार्थः—[लोकः] लोक [सर्वतः] सर्वतः [सूक्ष्मैः बादरैः] सूक्ष्म तथा बादर [च] और [अप्रायोग्यैः योग्यैः] कर्मत्वके अयोग्य तथा योग्य [पुद्गलकायैः] पुद्गल स्कंधोंके द्वारा [अवगाढगाढनिचितः] (विशिष्ट प्रकारसे) अवगाहित होकर गाढ (-घनिष्ट) भरा हुआ है ।

टीकाः—सूक्ष्मतया परिणत तथा बादररूप परिणत, अतिसूक्ष्म अथवा अतिस्थूल न होनेसे कर्मरूप परिणत होनेकी शक्तिवाले, तथा अति सूक्ष्म अथवा अति स्थूल होनेसे कर्मरूप परिणत होनेकी शक्तिसे रहित—पुद्गल स्कंधोंके द्वारा, अवगाहकी विशिष्टताके कारण परस्पर बाधक हुये विना स्वयमेव सर्वतः लोक गाढ भरा हुआ है । इससे निश्चित होता है कि पुद्गलपिण्डोंका लानेवाला आत्मा नहीं है ।

भावार्थः—इस लोकमें सर्वत्र जीव हैं और कर्मबंधके योग्य पुद्गल वर्गणा भी सर्वत्र है । जीवके जैसे परिणाम होते हैं उसीप्रकारका कर्मबंध होता है । ऐसा नहीं है कि आत्मा किसी बाहरके स्थानसे कर्मयोग्य पुद्गल लाकर बंध करता है ॥ १६८ ॥

अब यह निश्चित करते हैं कि आत्मा पुद्गलपिण्डोंको कर्मरूप नहीं करताः—

गाथा १६९

अन्वयार्थः—[कर्मत्वप्रायोग्याः स्कंधाः] कर्मत्वके योग्य स्कंध [जीवस्यपरिणतिं

यतो हि तुल्यक्षेत्रावगाहजीवपरिणाममात्रं बहिरङ्गसाधनमाश्रित्य जीवं परिणमयितार-
मन्तरेणापि कर्मत्वपरिणमनशक्तियोगिनः पुद्गलस्कन्धाः स्वयमेव कर्मभावेन परिणमन्ति ।
ततोऽवधार्यते न पुद्गलपिण्डानां कर्मत्वकर्ता पुरुषोऽस्ति ॥ १६९ ॥

अथात्मनः कर्मत्वपरिणतपुद्गलद्रव्यात्मकशरीरकर्तृत्वाभावमवधारयति—

ते ते कम्मत्तगदा पोग्गलकाया पुणो वि जीवस्म ।

संजायन्ते देहा देहन्तरसंकमं पप्पा ॥ १७० ॥

ते ते कर्मत्वगताः पुद्गलकायाः पुनरपि जीवस्य ।

संजायन्ते देहा देहान्तरसंकमं प्राप्य ॥ १७० ॥

प्राप्य] जीवकी परिणतिको प्राप्त करके [कर्मभावं गच्छन्ति] कर्मभावको प्राप्त होते हैं; [न हि ते जीवेन परिणमिताः] जीव उनको परिणमाता नहीं है ।

टीका:— कर्मरूप परिणमित होनेकी शक्तिवाले पुद्गल स्कंध, तुल्य (समान) क्षेत्रावगाह जीवके परिणाममात्रका—जो कि बहिरंग साधन है, उसका—आश्रय लेकर, जीव उनको परिणमाने वाला नहीं होने पर भी, स्वयमेव कर्मभावसे परिणमित होते हैं । इससे निश्चित होता है कि पुद्गल पिण्डोंको कर्मरूप करनेवाला आत्मा नहीं है ।

भावार्थ:—समान क्षेत्रमें रहनेवाले जीवके विकारी परिणामको निमित्तमात्र करके कार्मणवर्गणार्थं स्वयमेव अपनी अन्तरंगशक्तिसे ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमित होजाती हैं; जीव उन्हें कर्मरूप परिणमित नहीं करता ॥ १६९ ॥

अब आत्माके कर्मरूप परिणत पुद्गलद्रव्यात्मक शरीरके कर्तृत्वका अभाव निश्चित करते हैं (अर्थात् यह निश्चित करते हैं कि कर्मरूपपरिणतपुद्गलद्रव्यस्वरूप शरीरका कर्ता आत्मा नहीं है) :—

गाथा १७०

अन्वयार्थ:—[कर्मत्वगताः] कर्मरूप परिणत [ते ते] वे वे [पुद्गलकायाः] पुद्गल पिण्ड [देहान्तर संक्रमं प्राप्य] देहान्तररूप परिवर्तनको प्राप्त करके [पुनः अपि] पुनः पुनः [जीवस्य] जीवके [देहाः] शरीर [संजायन्ते] होते हैं ।

ये ये नामाभी यस्य जीवस्य परिणामं निमित्तमात्रीकृत्य पुद्गलकायाः स्वयमेव कर्म-
त्वेन परिणमन्ति, अथ ते ते तस्य जीवस्यानादिसंतानप्रवृत्तिशरीरान्तरसंक्रान्तिमाश्रित्य
स्वयमेव च शरीराणि जायन्ते । अतोऽवधार्यते न कर्मत्वपरिणतपुद्गलद्रव्यात्मकशरीरकर्ता
पुरुषोऽस्ति ॥ १७० ॥

अथात्मनः शरीरत्वाभावमवधारयति—

ओरालिञ्चो य देहो देहो वेउव्विञ्चो य तेजइञ्चो ।

आहारय कम्मइञ्चो पुग्गलद्वव्वप्पगा सव्वे ॥ १७१ ॥

औदारिकश्च देहो देहो वैक्रियिकश्च तैजसः ।

आहारकः कार्मणः पुद्गलद्रव्यात्मकाः सर्वे ॥ १७१ ॥

यतो हौदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि सर्वाण्यपि पुद्गलद्रव्यात्मकानि ।
ततोऽवधार्यते न शरीरं पुरुषोऽस्ति ॥ १७१ ॥

टीकाः—जिस जीवके परिणामको निमित्तमात्र करके जो जो यह पुद्गल
पिण्ड स्वयमेव कर्मरूप परिणत होते हैं, वे जीवके अनादिसंततिरूप प्रवर्तमान देहान्तर
(भवांतर) रूप परिवर्तनका आश्रय लेकर (वे वे पुद्गलपिण्ड) स्वयमेव शरीर
(शरीररूप, शरीरके होनेमें निमित्तरूप) बनते हैं । इससे निश्चित होता है कि
कर्मरूप परिणत पुद्गलद्रव्यात्मक शरीरका कर्ता आत्मा नहीं है ।

भावार्थः—जीवके परिणामको निमित्तमात्र करके जो पुद्गल स्वयमेव कर्मरूप
परिणत होते हैं । वे पुद्गल ही अन्य भवमें शरीरके बननेमें निमित्तभूत होते हैं,
और नोकर्मपुद्गल स्वयमेव शरीररूप परिणमित होते हैं इसलिये शरीरका कर्ता
आत्मा नहीं है ॥ १७० ॥

अब आत्माके शरीरत्वका अभाव निश्चित करते हैंः—

गाथा १७१

अन्वयार्थः—[औदारिकः च देहः] औदारिक शरीर, [वैक्रियिकः देहः]
वैक्रियिक शरीर, [तैजसः] तैजस शरीर, [आहारकः] आहारक शरीर [च] और
[कार्मणः] कार्मण शरीर—[सर्वे] सब [पुद्गलद्रव्यात्मकाः] पुद्गलद्रव्यात्मक है ।

टीकाः—औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस और कार्मण—सभी शरीर
पुद्गलद्रव्यात्मक हैं । इससे निश्चित होता है कि आत्मा शरीर नहीं है ॥ १७१ ॥

अथ किं तर्हि जीवस्य शरीरादिसर्वपरद्रव्यविभागसाधनमसाधारणं स्वलक्षणमित्या-
वेदयति—

अरसमरूपमगंधं अव्यक्तं चेदणागुणमसद् ।

जाण अलिङ्गग्रहणं जीवमणिद्विट्टसंटाणं ॥ १७२ ॥

अरसमरूपमगन्धमव्यक्तं चेतनागुणमशब्दम् ।

जानीह्यलिङ्गग्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानम् ॥ १७२ ॥

आत्मनो हि रसरूपगन्धगुणाभावस्वभावत्वात्स्पर्शगुणव्यक्त्यभावस्वभावत्वात् शब्दपर्याया-
भावस्वभावत्वात्तथा तन्मूलादलिङ्गग्राह्यत्वात्सर्वसंस्थानाभावस्वभावत्वाच्चपुद्गलद्रव्यविभागसाधनम-
रसत्वमरूपत्वमगन्धत्वमव्यक्तत्वमशब्दत्वमलिङ्गग्राह्यत्वमसंस्थानत्वं चास्ति । सकलपुद्गलापुद्गला-
जीवद्रव्यविभागसाधनं तु चेतनागुणत्वमस्ति । तदेव च तस्य स्वजीवद्रव्यमात्राश्रितत्वेन स्व-

तत्र फिर जीवका, शरीरादि सर्वपरद्रव्योंसे विभागका साधनभूत, असाधारण
स्वलक्षण क्या है, सो कहते हैं:—

गाथा १७२

अन्वयार्थः—[जीवम्] जीवको [अरसम्] रसरहित, [अरूपम्] रूप रहित,
[अगंधम्] गन्धरहित, [अव्यक्तम्] अव्यक्त, [चेतनागुणम्] चेतनागुणयुक्त,
[अशब्दम्] शब्दरहित, [अलिङ्गग्रहणम्] लिङ्ग द्वारा ग्रहण न होने योग्य, और
[अनिर्दिष्टसंस्थानम्] जिसका कोई संस्थान नहीं कहा गया है, ऐसा [जानीहि] जानो ।

टीका:—आत्मा (१) रसगुणके अभावरूप स्वभाववाला होनेसे, (२)
रूपगुणके अभावरूप स्वभाववाला होनेसे, (३) गंधगुणके अभावरूप स्वभाववाला होनेसे,
(४) स्पर्शगुणरूप व्यक्तताके अभावरूप स्वभाववाला होनेसे, (५) शब्दपर्यायिके अभावरूप
स्वभाववाला होनेसे, तथा (६) इन सबके कारण (अर्थात् रस-रूप-गंध इत्यादिके
अभावरूप स्वभावके कारण) लिङ्गके द्वारा अग्राह्य होनेसे, और (७) सर्व संस्थानोंके
अभावरूप स्वभाववाला होनेसे, आत्माको पुद्गलद्रव्यसे विभागका साधनभूत (१)
अरसत्व, (२) अरूपत्व, (३) अगन्धत्व, (४) अव्यक्तता, (५) अशब्दत्व, (६)
अलिङ्गग्राह्यत्व, और (७) असंस्थानत्व है । पुद्गल तथा अपुद्गल-समस्त अजीव
द्रव्योंसे विभागका साधन तो चेतनागुणमयत्व है; और वही, मात्र स्वजीवद्रव्याश्रित

लक्षणतां विभ्राणं शेषद्रव्यान्तरविभागं साधयति । अलिङ्गग्राह्य इति वक्तव्ये यदलिङ्गग्रहणमित्युक्तं तद्बहुतरार्थप्रतिपत्तये । तथाहि (१) न लिंगैरिन्द्रियैर्ग्राह्यतामापन्नस्य ग्रहणं यस्येत्यतीन्द्रियज्ञानमयत्वस्य प्रतिपत्तिः । (२) न लिंगैरिन्द्रियैर्ग्राह्यतामापन्नस्य ग्रहणं यस्येतीन्द्रियप्रत्यक्षाविषयत्वस्य । (३) न लिंगादिन्द्रियगम्याद्धूमादग्नेरिव ग्रहणं यस्येतीन्द्रियप्रत्यक्षपूर्वकानुमानाविषयत्वस्य । (४) न लिंगादेव परैः ग्रहणं यस्येत्यनुमेयमात्रत्वाभावस्य । (५) न लिंगादेव परेषां ग्रहणं यस्येत्यनुमातृमात्रत्वाभावस्य । (६) न लिंगात्स्वभावेन ग्रहणं यस्येति प्रत्यक्षज्ञातृत्वस्य । (७) न लिंगेनोपयोगाख्यलक्षणेन ग्रहणं ज्ञेयार्थालम्बनं यस्येति बहिरर्थालम्बनज्ञानाभावस्य । (८) न

होनेसे स्वलक्षणत्वको धारण करता हुआ, आत्माका शेष अन्य द्रव्योंसे विभाग (भेद) सिद्ध करता है ।

जहाँ 'अलिङ्गग्राह्य' कहना है वहाँ जो 'अलिङ्गग्रहण' कहा है, वह बहुतसे अर्थोंकी प्रतिपत्ति (प्राप्ति, प्रतिपादन) करनेके लिये है । वह इसप्रकार है:— (१) ग्राहक (जायक), जिसके लिंगोंके द्वारा अर्थात् इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण (जानना) नहीं होता वह अलिङ्गग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा अतीन्द्रियज्ञानमय है' इस अर्थकी प्राप्ति होती है । (२) ग्राह्य (ज्ञेय), जिसका लिंगोंके द्वारा अर्थात् इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण (जानना) नहीं होता वह अलिङ्गग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा इन्द्रियप्रत्यक्षका विषय नहीं है' इस अर्थकी प्राप्ति होती है । (३) जैसे धुंयेंसे अग्निका ग्रहण (ज्ञान) होता है, उसीप्रकार लिंग द्वारा, अर्थात् इन्द्रियगम्य (इन्द्रियोंसे जानने योग्य चिह्न) द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिङ्गग्रहण है । इसप्रकार 'आत्मा इन्द्रियप्रत्यक्षपूर्वक अनुमानका विषय नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (४) दूसरोंके द्वारा— मात्र लिंग द्वारा ही जिसका ग्रहण नहीं होता वह अलिङ्गग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा अनुमेय मात्र (केवल अनुमानसे ही ज्ञात होने योग्य) नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (५) जिसके लिंगसे ही परका ग्रहण नहीं होता वह अलिङ्गग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा अनुमाता मात्र (केवल अनुमान करनेवाला ही) नहीं है, ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (६) जिसके लिंगके द्वारा नहीं किन्तु स्वभावके द्वारा ग्रहण होता है वह अलिङ्गग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (७) जिसके लिंग द्वारा अर्थात् उपयोगनामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है अर्थात् ज्ञेय पदार्थोंका आलम्बन नहीं है, वह अलिङ्गग्रहण है, इसप्रकार 'आत्माके बाह्य पदार्थोंका आलम्बनवाला ज्ञान नहीं है', ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है ।

लिंगस्योपयोगाख्यलक्षणस्य ग्रहणं स्वयमाहरणं यस्येत्यनाहार्यज्ञानत्वस्य । (९) न लिंगस्यो-
पयोगाख्यलक्षणस्य ग्रहणं परेण हरणं यस्येत्याहार्यज्ञानत्वस्य । (१०) न लिंगे उपयोगाख्य-
लक्षणे ग्रहणं सूर्य इवोपरागो यस्येति शुद्धोपयोगस्वभावस्य । (११) न लिंगादुपयोगाख्यलक्षणा-
द्ग्रहणं पौद्गलिककर्मादानं यस्येति द्रव्यकर्मासंपृक्तत्वस्य । (१२) न लिंगेभ्य इन्द्रियेभ्यो ग्रहणं
विषयाणामुपभोगो यस्येति विषयोपभोक्तृत्वाभावस्य । (१३) न लिंगात्मनो वेन्द्रियादिलक्षणाद्-
ग्रहणं जीवस्य धारणं यस्येति शुक्रार्तवानुविधायित्वाभावस्य । (१४) न लिंगस्य मेहनाकारस्य
ग्रहणं यस्येति लौकिकसाधनमात्रत्वाभावस्य । (१५) न लिंगेनामेहनाकारेण ग्रहणं लोक-

(८) जो लिंगको अर्थात् उपयोग नामक लक्षणको ग्रहण नहीं करता, अर्थात् स्वयं
(कहीं बाहरसे) नहीं लाता, सो अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा जो कहींसे नहीं
लाया जाता ऐसे ज्ञानवाला है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है ।

(९) लिंगका अर्थात् उपयोगनामक लक्षणका ग्रहण अर्थात् परसे हरण नहीं
हो सकता, सो अलिंग ग्रहण है; इसप्रकार 'आत्माका ज्ञान हरण नहीं किया जा सकता',
ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है ।

(१०) जिसे लिंगमें अर्थात् उपयोगनामक लक्षणमें ग्रहण अर्थात् सूर्यकी भाँति
उपराग (मलिनता, विकार) नहीं है वह अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा
शुद्धोपयोग स्वभावी है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (११) लिंग द्वारा अर्थात्
उपयोगनामक लक्षण द्वारा ग्रहण अर्थात् पौद्गलिक कर्मका ग्रहण जिसके नहीं है,
वह अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा द्रव्यकर्मसे असंयुक्त (असंबद्ध) है', ऐसे
अर्थकी प्राप्ति होती है । (१२) जिसे लिंगोंके द्वारा अर्थात् इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण
अर्थात् विषयोंका उपभोग नहीं है सो अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा विषयोंका
उपभोक्ता नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (१३) लिंग द्वारा अर्थात् मन अथवा
इन्द्रियादि लक्षणके द्वारा ग्रहण अर्थात् जीवत्वको धारण कर रखना जिसके नहीं है
वह अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा शुक्र और रजके अनुसार होनेवाला नहीं है'
ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (१४) लिंगका अर्थात् मेहनाकार (पुरुषादिकी इन्द्रियका

व्याप्तिर्यस्येति कुहुकप्रसिद्धसाधनाकारलोकव्याप्तित्वाभावस्य । (१६) न लिंगानां स्त्रीपुंनपुंसक-
वेदानां ग्रहणं यस्येति स्त्रीपुंनपुंसकद्रव्यभावाभावस्य । (१७) न लिंगानां धर्मध्वजानां ग्रहणं
यस्येति बहिरङ्गयतिलिंगाभावस्य । (१८) न लिंगं गुणो ग्रहणमर्थावबोधो यस्येति गुण-
विशेषानालीढशुद्धद्रव्यत्वस्य । (१९) न लिंगं पर्यायो ग्रहणमर्थावबोधविशेषो यस्येति
पर्यायविशेषानालीढशुद्धद्रव्यत्वस्य । (२०) न लिंगं प्रत्यभिज्ञानहेतुर्ग्रहणमर्थावबोधसामान्यं
यस्येति द्रव्यानालीढशुद्धपर्यायत्वस्य ॥ १७२ ॥

अथ कथममूर्तस्यात्मनः स्निग्धरूक्षत्वाभावाद्बन्धो भवतीति पूर्वपक्षयति—

आकार)का ग्रहण जिसके नहीं है सो अलिंगग्रहण है; इसप्रकार आत्मा लौकिक-
साधनमात्र नहीं है, ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (१५) लिंगके द्वारा अर्थात्
अमेहनाकारके द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात् लोकमें व्यापकत्व नहीं है सो अलिंगग्रहण
है; इसप्रकार 'आत्मा पाखण्डियोंके प्रसिद्ध साधनरूप आकार वाला—लोक
व्याप्तिवाला नहीं है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (१६) जिसके लिंगोंका, अर्थात्
स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेदोंका ग्रहण नहीं है वह अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा
द्रव्यसे तथा भावसे स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक नहीं है', इस अर्थकी प्राप्ति होती है ।
(१७) लिंगोंका अर्थात् धर्मचिह्नोंका ग्रहण जिसके नहीं है वह अलिंगग्रहण है;
इसप्रकार 'आत्माके बहिरंग यतिलिंगोंका अभाव है' इस अर्थकी प्राप्ति होती है ।
(१८) लिंग अर्थात् गुणरूप ग्रहण अर्थात् अर्थावबोध (पदार्थज्ञान) जिसके नहीं
है सो अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा गुण-विशेषसे आलिंगित न होने वाला
शुद्ध द्रव्य है', ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है । (१९) लिंग अर्थात् पर्यायरूप ग्रहण,
अर्थात् अर्थावबोध विशेष जिसके नहीं है सो अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा
पर्याय विशेषसे आलिंगित न होनेवाला शुद्ध द्रव्य है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है ।
(२०) लिंग अर्थात् प्रत्यभिज्ञानका कारणरूप ग्रहण अर्थात् अर्थावबोध सामान्य
जिसके नहीं है वह अलिंगग्रहण है; इसप्रकार 'आत्मा द्रव्यसे नहीं आलिंगित ऐसी
शुद्ध पर्याय है' ऐसे अर्थकी प्राप्ति होती है ॥ १७२ ॥

अब, अमूर्त आत्माके, स्निग्धरूक्षत्वका अभाव होनेसे बंध कैसे हो सकता
है ? ऐसा पूर्व पक्ष उपस्थित करते हैं—

मृत्तो रूवादिगुणो वज्रमदि फासेहिं अरणमरणोहिं ।
तद्विवरीदो अण्पा वज्रमदि किध पोग्गलं कम्मं ॥१७३॥

मूर्तो रूपादिगुणो बध्यते स्पर्शैरन्योन्यैः ।

तद्विपरीत आत्मा बध्नाति कथं पौद्गलं कर्म ॥ १७३ ॥

मूर्तयोहि तावत्पुद्गलयो रूपादिगुणयुक्तत्वेन यथोदितस्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेषादन्यो-
न्यबन्धोऽवधार्यते एव । आत्मकर्मपुद्गलयोस्तु स कथमवधार्यते । मूर्तस्य कर्मपुद्गलस्यरूपादिगुण-
युक्तत्वेन यथोदितस्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेषसंभवेऽप्यमूर्तस्यात्मनो रूपादिगुणयुक्तत्वाभावेन यथो-
दितस्निग्धरूक्षत्वस्पर्शविशेषसंभवनया चैकाङ्गविकलत्वात् ॥ १७३ ॥

अथैवममूर्तस्याप्यात्मनो बन्धो भवतीति सिद्धान्तयति—

रूवादिएहिं गहिदो पेच्छदि जाणादि रूवमादीणि ।

दन्वाणि गुणे य जधा तह वंधो तेण जाणीहि ॥ १७४ ॥

गाथा १७३

अन्वयार्थः—[मूर्तः] मूर्त (पुद्गल) [रूपादिगुणः] रूपादिगुणयुक्त होनेसे
[अन्योन्यैः स्पर्शैः] परस्पर (बंधयोग्य) स्पर्शसे [बध्यते] बंधता है; (परन्तु)
[तद्विपरीतः आत्मा] उससे विपरीत (अमूर्त) आत्मा [पौद्गलिकं कर्म] पौद्गलिक
कर्मको [कथं] कैसे [बध्नाति] बांधता है ?

टीकाः—मूर्त ऐसे दो पुद्गल तो रूपादिगुणयुक्त होनेसे यथोक्त स्निग्ध-
रूक्षत्वरूप स्पर्शविशेष (बंधयोग्य स्पर्श) के कारण उनका पारस्परिक बंध अवश्य
समभा जा सकता है, किन्तु आत्मा और कर्मपुद्गलका बंध कैसे समभा जा सकता
है ? क्योंकि मूर्त कर्मपुद्गल रूपादिगुणयुक्त है, इसलिये उसके यथोक्त स्निग्ध-
रूक्षत्वरूप स्पर्शविशेषका असंभव होने पर भी अमूर्त आत्माके रूपादिगुणयुक्तता नहीं है
इसलिये उसके यथोक्त स्निग्धरूक्षत्वरूप स्पर्शविशेषका असंभव होनेसे एक अंग विकल
है । (अर्थात् बंधयोग्य दो अंगोंमेंसे एक अंग अयोग्य है,—स्पर्शगुणरहित होनेसे
बंधकी योग्यतावाला नहीं है ।) ॥ १७३ ॥

अब यह सिद्धान्त निश्चित करते हैं कि आत्माके अमूर्त होने पर भी
इसप्रकार बंध होता हैः—

रूपादिकैः रहितः पश्यति जानाति रूपादीनि ।

द्रव्याणि गुणांश्च यथा तथा बन्धन्नेन जानीहि ॥ १७४ ॥

येन प्रकारेण रूपादिरहितो रूपिणि द्रव्याणि तद्गुणांश्च पश्यति जानाति च, तेनैव प्रकारेण रूपादिरहितो रूपिभिः कर्मपुद्गलैः किल बध्यते । अन्यथा कथममूर्तो मूर्तं पश्यति

गाथा १७४

अन्वयार्थः—[यथा] जैसे [रूपादिकैः रहितः] रूपादिरहित (जीव) [रूपादीनि] रूपादिको-[द्रव्याणि गुणान् च] द्रव्योंको तथा गुणोंको (रूपी द्रव्योंको और उनके गुणोंको)-[पश्यति जानाति] देखता है और जानता है [तथा] उसीप्रकार [तेन] उमके साथ (अरूपीका रूपीके साथ) [बंधः जानीहि] बंध जानो ।

टीकाः—जैसे रूपादिरहित (जीव) रूपी द्रव्योंको तथा उनके गुणोंको देखता है तथा जानता है उसीप्रकार रूपादिरहित (जीव) रूपी कर्मपुद्गलोंके साथ बंधता है; क्योंकि यदि ऐसा न हो तो यहाँ भी (देखने-जाननेके संबंधमें भी) यह प्रश्न अनिवार्य है कि अमूर्त मूर्तको कैसे देखता-जानता है ?

और ऐसा भी नहीं है कि यह (अरूपीका रूपीके साथ बंध होनेकी) बात अत्यन्त दुर्घट है इसलिये उसे दाष्टान्तरूप बनाया है, परन्तु आबालगोपाल सभीको प्रगट (ज्ञात) हो जाय इसलिये दृष्टान्त द्वारा समझाया गया है । यथाः—बालगोपालका पृथक् रहनेवाले मिट्टीके बँलको अथवा (सच्चे) बँलको देखने और जानने पर बँलके साथ संबंध नहीं है तथापि विषयरूपसे रहनेवाला बँल जिनका निमित्त है ऐसे उपयोगारूढ़ वृषभाकार दर्शन-ज्ञानके साथका संबंध बँलके साथके संबंधरूप व्यवहारका साधक अवश्य है; इसीप्रकार आत्मा अरूपित्वके कारण स्पर्शशून्य है, इसलिये उसका कर्मपुद्गलोंके साथ संबंध नहीं है, तथापि एकावगाहरूपसे रहनेवाले कर्म पुद्गल जिनके निमित्त हैं ऐसे उपयोगारूढ़ रागद्वेषादिभावोंके साथका संबंध कर्मपुद्गलोंके साथके बंधरूप व्यवहारका साधक अवश्य है ।

भावार्थः—आत्माके अमूर्तिक होनेपर भी वह मूर्तिककर्म-पुद्गलोंके साथ कैसे बँधता है ? इस प्रश्नका उत्तर देते हुये आचार्यदेवने कहा है कि—आत्माके अमूर्तिक होने पर भी वह मूर्तिक पदार्थोंको कैसे जानता है ? जैसे वह मूर्तिक पदार्थोंको जानता है उसीप्रकार मूर्तिक कर्मपुद्गलोंके साथ बँधता है ।

जानाति चेत्यत्रापि पर्यनुयोगस्थानिवार्यत्वात् । न चैतदत्यन्तदुर्घटत्वाद्वाष्टान्तिकीकृतं, किन्तु दृष्टान्तद्वारेणाबालगोपालप्रकटितम् । तथाहि—यथा बालकस्य गोपालकस्य वा पृथगवस्थितं मृद्बलीवर्दं बलीवर्दं वा परयतो जानतश्च न बलीवर्देन सहास्ति संबन्धः, विषयभाववस्थित-बलीवर्दनिमित्तोपयोगाधिरूढबलीवर्दाकारदर्शनज्ञानसंबन्धो बलीवर्दसंबन्धव्यवहारसाधकस्त्वस्त्येव, तथा किलात्मनो नीरूपत्वेन स्पर्शशून्यत्वात् कर्मपुद्गलैः सहास्ति संबन्धः, एकावगाहभाववस्थितकर्म-पुद्गलनिमित्तोपयोगाधिरूढरागद्वेषादिभावसंबन्धः कर्मपुद्गलबन्धव्यवहारसाधकस्त्वस्त्येव ॥ १७४ ॥

वास्तवमें अरूपी आत्माका रूपीपदार्थोंके साथ कोई संबंध न होनेपर भी अरूपीका रूपीके साथ संबंध होनेका व्यवहार भी विरोधको प्राप्त नहीं होता । जहाँ यह कहा जाता है कि 'आत्मा मूर्तिक पदार्थको जानता है' वहाँ परमार्थतः अमूर्तिक आत्माका मूर्तिक पदार्थके साथ कोई संबंध नहीं है; उसका तो मात्र उस मूर्तिक पदार्थके आकाररूप होनेवाले ज्ञानके साथ ही संबंध है, और उस पदार्थाकार ज्ञानके साथके संबंधके कारण ही 'अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पदार्थको जानता है' ऐसा अमूर्तिक-मूर्तिकका संबंधरूप व्यवहार सिद्ध होता है । इसीप्रकार जहाँ यह कहा जाता है कि 'अमुक आत्माका मूर्तिक कर्मपुद्गलोंके साथ बंध है' वहाँ परमार्थतः अमूर्तिक आत्माका मूर्तिक कर्म-पुद्गलोंके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । आत्माका तो कर्म-पुद्गल जिसमें निमित्त हैं ऐसे रागद्वेषादि भावोंके साथ ही सम्बन्ध (बंध) है, और उन कर्म-निमित्तक रागद्वेषादि भावोंके साथ सम्बन्ध होनेसे ही 'इस आत्माका मूर्तिक कर्मपुद्गलोंके साथ बंध है' ऐसा अमूर्तिक-मूर्तिकका बन्धरूप व्यवहार सिद्ध होता है ।

यद्यपि मनुष्यको स्त्री-पुत्र-धनादिके साथ वास्तवमें कोई सम्बन्ध नहीं है, वे उस मनुष्यसे सर्वथा भिन्न हैं, तथापि स्त्री पुत्र धनादिके प्रति राग करने-वाले मनुष्यको रागका बन्धन होनेसे, और उस रागमें स्त्रीपुत्रधनादिके निमित्त होनेसे व्यवहारसे यह अवश्य कहा जाता है कि 'इस मनुष्यको स्त्रीपुत्रधनादिका बन्धन है'; इसीप्रकार, यद्यपि आत्माका कर्मपुद्गलोंके साथ वास्तवमें कोई सम्बन्ध नहीं है, वे आत्मासे सर्वथा भिन्न हैं, तथापि रागद्वेषादि भाव करनेवाले आत्माको रागद्वेषादि भावोंका बन्धन होनेसे और उन भावोंमें कर्मपुद्गल निमित्त होनेसे व्यवहारसे यह अवश्य कहा जासकता है कि 'इस आत्माको कर्मपुद्गलोंका बन्धन है' ॥ १७४ ॥

अथ भावबन्धस्वरूपं ज्ञापयति—

उपयोगमत्रो जीवो मुञ्जति रज्जेदि वा पटुस्सेदि ।

पप्पा विविधे विसये जो हि पुणो तेहि संबन्धो ॥ १७५ ॥

उपयोगमयो जीवो मुञ्जति रज्ज्यति वा प्रद्वेष्टि ।

प्राप्य विविधान् विषयान् यो हि पुनस्तैः संबन्धः ॥ १७५ ॥

अथमात्मा सर्व एव तावत्सविकल्पनिर्विकल्पपरिच्छेदात्मकत्वादुपयोगमयः । तत्र यो हि नाम नानाकारान् परिच्छेद्यानर्थानासाद्य मोहं वा रागं वा द्वेषं वा समुपैति स नाम तैः परप्रत्ययैरपि मोहरागद्वेषैरुपरक्तात्मस्वभावत्वाभीलपीतरक्तोपाश्रयप्रत्ययनीलपीतरक्तत्वैरुपरक्तस्वभावः स्फटिकमणिरिव स्वयमेक एव तद्भावाद्वितीयत्वाद्बन्धो भवति ॥ १७५ ॥

अथ भावबन्धका स्वरूपं वतलाते हैं:—

गाथा १७५

अन्वयार्थः—[यः हि पुनः] जो [उपयोगमयः जीवः] उपयोगमय जीव [विविधान् विषयान्] विविध विषयोंको [प्राप्य] प्राप्त करके [मुञ्जति] मोह करता है, [रज्ज्यति] राग करता है, [वा] अथवा [प्रद्वेष्टि] द्वेष करता है, (वह जीव) [तैः] उनके द्वारा (मोह-राग-द्वेषके द्वारा) [संबन्धः] बन्धरूप है ।

टीका:—प्रथम तो यह आत्मा सर्व ही उपयोगमय है, क्योंकि वह सविकल्प और निर्विकल्प प्रतिभासस्वरूप है (अर्थात् ज्ञान-दर्शनस्वरूप है ।) उसमें जो आत्मा विविधाकार प्रतिभासित होनेवाले पदार्थोंको प्राप्त करके मोह, राग अथवा द्वेष करता है, वह काला, पीला, और लाल आश्रय जिनका निमित्त है ऐसे कालेपन, पीलेपन और ललाईके द्वारा उपरक्त स्वभाववाले स्फटिक मणिकी भाँति—पर जिनका निमित्त है ऐसे मोह, राग और द्वेषके द्वारा उपरक्त (विकारी-मलिन-कलुषित,) आत्मस्वभाववाला होनेसे, स्वयं अकेला ही बन्धरूप है, क्योंकि मोह-राग-द्वेषादि भाव उसका ३द्वितीय है ॥ १७५ ॥

१. आश्रय = जिसमें स्फटिकमणि रखा हो वह पात्र ।

२. द्वितीय = दूसरा ['बन्ध तो दोके बीच होता है, अकेला आत्मा बन्धस्वरूप कैसे हो सकता है ?' इस प्रश्नका उत्तर यह है कि—एक तो आत्मा और दूसरा मोहरागद्वेषादिभाव होनेसे, मोहरागद्वेषादिभावके द्वारा मलिनस्वभाववाला आत्मा स्वयं ही भावबन्ध है ।]

अथ भावबन्धयुक्ति द्रव्यबन्धस्वरूपं प्रज्ञापयति—

भावेण जेष जीवो पेच्छदि जाणादि आगतं विसये ।

रज्जदि तेणैव पुणो वज्जदि कम्म ति उवदेसो ॥ १७६ ॥

भावेन येन जीवः पश्यति जानात्यागतं विषये ।

रज्यति तेनैव पुनर्बध्यते कर्मेत्युपदेशः ॥ १७६ ॥

अथमात्मा साकारनिराकारपरिच्छेदात्मकत्वात्परिच्छेद्यतामापद्यमानमर्थजातं येनैव मोहरूपेण रागरूपेण द्वेषरूपेण वा भावेन पश्यति जानाति च तेनैवोपरज्यत एव । योऽयमुपरागः स खलु स्निग्धरूक्षत्वस्थानीयो भावबन्धः । अथ पुनस्तेनैव पौद्गलिकं कर्म बध्यत एव, इत्येष भावबन्धप्रत्ययो द्रव्यबन्धः ॥ १७६ ॥

अथ पुद्गलजीवतदुभयबन्धस्वरूपं ज्ञापयति—

अब, भावबंधकी युक्ति और द्रव्यबन्धका स्वरूप कहते हैं:—

गाथा १७६

अन्वयार्थः—[जीवः] जीव [येन भावेन] जिस भावसे [विषये आगतं] विषयागत पदार्थको [पश्यति जानाति] देखता है और जानता है, [तेन एव] उसीसे [रज्यति] उपरक्त होता है; [पुनः] और (उसीसे) [कर्म बध्यते] कर्म बंधता है; —[इति] ऐसा [उपदेशः] उपदेश है ।

टीका:— यह आत्मा साकार और निराकार प्रतिभासस्वरूप (ज्ञान और दर्शनस्वरूप) होनेसे प्रतिभास्य (प्रतिभासित होने योग्य) पदार्थसमूहको जिस मोहरूप, रागरूप या द्वेषरूप भावसे देखता है और जानता है, उसीसे उपरक्त होता है । जो यह उपराग (विकार) है वह वास्तवमें 'स्निग्धरूक्षत्वस्थानीय भावबंध है । और उसीसे अवश्य पौद्गलिक कर्म बंधता है । इसप्रकार यह द्रव्यबंधका निमित्त भावबंध है ॥ १७६ ॥

अब पुद्गलबंध, जीवबंध और उन दोनोंके बंधका स्वरूप कहते हैं:—

१. स्निग्धरूक्षत्वस्थानीय = स्निग्धता और रूक्षताके समान । (जैसे पुद्गलमें विशिष्ट स्निग्धता-रूक्षता बन्ध है, उसीप्रकार जीवमें रागद्वेषरूप विकार भावबन्ध है)

फासेहिं पुग्गलाणं बंधो जीवस्स रागमादीहिं ।
अरणोरणमवगाहो पुग्गलजीवप्पगो भणितो ॥ १७७ ॥

स्पर्शैः पुद्गलानां बन्धो जीवस्य रागादिभिः ।
अन्योन्यमवगाहः पुद्गलजीवात्मको भणितः ॥ १७७ ॥

यस्तावदत्र कर्मणां स्निग्धरूपत्वस्पर्शविशेषैरेकत्वपरिणामः स केवलपुद्गलबन्धः । यस्तु जीवस्यौपाधिकमोहरागद्वेषपर्यायैरेकत्वपरिणामः स केवलजीवबन्धः । यः पुनः जीवकर्मपुद्गलयोः परस्परपरिणामनिमित्तमात्रत्वेन विशिष्टतरः परस्परमवगाहः स तदुभयबन्धः ॥ १७७ ॥

अथ द्रव्यबन्धस्य भावबन्धहेतुकत्वमुजीवयति—

सपदेशो सो अण्णा तेषु पदेमेषु पुग्गला काया ।
पविमंति जहाजोग्गं चिट्ठंति य जंति वज्जंति ॥ १७८ ॥

सप्रदेशः स आत्मा तेषु प्रदेशेषु पुद्गलाः कायाः ।
प्रविशन्ति यथायोग्यं तिष्ठन्ति च यान्ति बध्यन्ते ॥ १७८ ॥

गाथा १७७

अन्वयार्थः—[स्पर्शैः] स्पर्शोके साथ [पुद्गलानां बंधः] पुद्गलोंका बंध, [रागादिभिः जीवस्य] रागादिके साथ जीवका बंध, और [अन्योन्यम् अवगाहः] अन्योन्य अवगाह [पुद्गलजीवात्मकः भणितः] पुद्गलजीवात्मक बंध कहा गया है ।

टीकाः—प्रथम तो यहाँ, कर्मोंका जो स्निग्धतारूक्षतारूप स्पर्शविशेषोंके साथ एकत्वपरिणाम है सो केवल पुद्गलबंध है; और जीवका औपाधिक मोह-राग-द्वेषरूप पर्यायोंके साथ जो एकत्व परिणाम है सो केवल जीवबंध है; और जीव तथा कर्मपुद्गलके परस्पर परिणामके निमित्तमात्रसे जो विशिष्टतरपरस्पर अवगाह है सो उभयबंध है । [अर्थात् जीव और कर्मपुद्गल एक दूसरेके परिणाममें निमित्तमात्र हों, ऐसा जो (विशिष्टप्रकारका-खासप्रकारका) उनका एकक्षेत्रावगाह संबंध है सो वह पुद्गलजीवात्मक बंध है ।] । १७७ ।

अब, यह बतलाते हैं कि द्रव्यबंधका हेतु भावबंध हैः—

गाथा १७८

अन्वयार्थः—[सः आत्मा] वह आत्मा [सप्रदेशः] सप्रदेश है; [तेषु प्रदे-

अयमात्मा लोकाकाशतुल्यासंख्येयप्रदेशत्वात्सप्रदेशः अथ तेषु तस्य प्रदेशेषु कायवाह-
मनोवर्गणालम्बनः परिस्पन्दो यथा भवति तथा कर्मपुद्गलकायाः स्वयमेव परिस्पन्दवन्तः
प्रविशन्त्यपि तिष्ठन्त्यपि गच्छन्त्यपि च । अस्ति चेज्जीवस्य मोहरागद्वेषरूपो भावो बध्यतेऽपि
च । ततोऽवधार्यते द्रव्यबन्धस्य भावबन्धो हेतुः ॥ १७८ ॥

अथ द्रव्यबन्धहेतुत्वेन रागपरिणाममात्रस्य भावबन्धस्य निश्चयबन्धत्वं साधयति—

रक्तो बंधदि कम्मं मुच्चदि कम्पेहिं रागरहिदप्पा ।

एसो बंधसमासो जीवाणं जाण णिच्छयदो ॥ १७६ ॥

रक्तो बध्नाति कर्म मुच्यते कर्मभी रागरहितात्मा ।

एष बन्ध समासो जीवानां जानीहि निश्चयतः ॥ १७९ ॥

शेषु] उन प्रदेशोंमें [पुद्गलाः कायाः] पुद्गलसमूह [प्रविशन्ति] प्रवेश करते हैं,
[यथायोग्यं तिष्ठन्ति] यथायोग्य रहते हैं, [यान्ति] जाते हैं, [च] और] बध्यन्ते]
बंधते हैं ।

टीकाः—यह आत्मा लोकाकाशतुल्य असंख्यप्रदेशी होनेसे सप्रदेश है । उसके
इन प्रदेशोंमें कायवर्गणा, वचनवर्गणा और मनोवर्गणाका आलम्बनवाला परिस्पन्द
(कम्पन) जिस प्रकारसे होता है उस प्रकारसे कर्मपुद्गलके समूह स्वयमेव परिस्पन्द-
वाले होते हुये प्रवेश भी करते हैं, रहते भी हैं, और जाते भी हैं; और यदि जीवके
मोह-राग-द्वेषरूप भाव हों तो बंधते भी हैं । इसलिये निश्चित होता है कि द्रव्यबंधका
हेतु भावबंध है ॥ १७८ ॥

अब, यह सिद्ध करते हैं कि—राग परिणाममात्र जो भावबन्ध है सो द्रव्य-
बन्धका हेतु होनेसे वही निश्चयबन्ध हैः—

गाथा १७९

अन्वयार्थः—[रक्तः] रागी आत्मा [कर्म बध्नाति] कर्म बांधता है,
[रागरहितात्मा] रागरहित आत्मा [कर्मभिः मुच्यते] कर्मोंसे मुक्त होता है; —[एषः]
यह [जीवानां] जीवोंके [बंधममासः] बन्धका संक्षेप [निश्चयतः] निश्चयसे
[जानीहि] जानो ।

यतो रागपरिणत एवाग्निवेन द्रव्यकर्मणा बध्यते न वैराग्यपरिणतः, अग्निवेन द्रव्य-
कर्मणा रागपरिणतो न मुच्यते वैराग्यपरिणत एव, बध्यत एव संस्पृशतैवाग्निवेन द्रव्यकर्मणा
चिरसंचितेन पुराणेन च न मुच्यते रागपरिणतः, मुच्यत एव संस्पृशतैवाग्निवेन द्रव्यकर्मणा
चिरसंचितेन पुराणेन च वैराग्यपरिणतो न बध्यते । ततोऽवधार्यते द्रव्यबन्धस्य साधकतमत्वा-
द्रागपरिणाम एव निश्चयेन बन्धः ॥ १७९ ॥

अब परिणामस्य द्रव्यबन्धसाधकतमरागविशिष्टत्वं सविशेषं प्रकटयति—

परिणामादो बंधो परिणामो रागदोसमोहजुदो ।

असुहो मोहपदोसो सुहो व असुहो हवदि रागो ॥ १८० ॥

परिणामाद्बन्धः परिणामो रागद्वेषमोहयुतः ।

अशुभौ मोहप्रद्वेषौ शुभो वाशुभो भवति रागः ॥ १८० ॥

टीका:—रागपरिणत जीव ही नवीन द्रव्यकर्मसे बँधता है, वैराग्यपरिणत
नहीं । रागपरिणत जीव नवीन द्रव्यकर्मसे मुक्त नहीं होता, वैराग्यपरिणत ही मुक्त
होता है । रागपरिणत जीव संस्पर्श करने (सम्बन्धमें आने)वाले नवीन द्रव्यकर्मसे,
और चिरसंचित पुराने द्रव्यकर्मसे बँधता ही है, मुक्त नहीं होता । वैराग्यपरिणत
जीव संस्पर्श करने (सम्बन्धमें आने)वाले नवीन द्रव्यकर्मसे और चिरसंचित
पुराने द्रव्यकर्मसे मुक्त ही होता है, बँधता नहीं है । इससे निश्चित होता है कि—
द्रव्यबन्धका साधकतम (उत्कृष्ट हेतु) होनेसे रागपरिणाम ही निश्चयसे
बन्ध है ॥ १७६ ॥

अब, परिणामका द्रव्यबन्धके साधकतम रागसे विशिष्टत्व सविशेष प्रगट
करते हैं (अर्थात् यह भेद सहित प्रगट करते हैं कि परिणाम द्रव्यबन्धके उत्कृष्ट
हेतुभूत रागसे विशेषतावाला होता है):—

गाथा १८०

अन्वयार्थः—[परिणामात् बंधः] परिणामसे बन्ध है, [परिणामः रागद्वेष-
मोहयुतः] (जो) परिणाम राग-द्वेष-मोहयुक्त है । [मोहप्रद्वेषौ अशुभौ] (उनमेंसे)
मोह और द्वेष अशुभ है, [रागः] राग [शुभः वा अशुभः] शुभ अथवा अशुभ
[भवति] होता है ।

द्रव्यबन्धोऽस्ति तावद्विशिष्टपरिणामात् । विशिष्टत्वं तु परिणामस्य रागद्वेषमोहमयत्वेन । तत्र शुभाशुभत्वेन द्वैतानुवर्ति । तत्र मोहद्वेषमयत्वेनाशुभत्वं, रागमयत्वेन तु शुभत्वं चाशुभत्वं च । विशुद्धिसंक्लेशाङ्गत्वेन रागस्य द्वैविध्यात् भवति ॥ १८० ॥

अथ विशिष्टपरिणामविशेषमविशिष्टपरिणामं च कारणे कार्यभूपचर्य कार्यत्वेन निर्दिशति—
सुहपरिणामो पुण्यं अशुभो पावति भणियमाणेषु ।

परिणामो णरणगदो दुःखस्वयकारणं समये ॥ १८१ ॥

शुभपरिणामः पुण्यमशुभः पापमिति भणितमन्येषु ।

परिणामोऽनन्यगतो दुःखक्षयकारणं समये ॥ १८१ ॥

द्विविधस्तावत्परिणामः परद्रव्यप्रवृत्तः स्वद्रव्यप्रवृत्तश्च । तत्र परद्रव्यप्रवृत्तः परोपरक्तत्वा-
द्विशिष्टपरिणामः, स्वद्रव्यप्रवृत्तस्तु परानुपरक्तत्वादविशिष्टपरिणामः । तत्रोक्तौ द्वौ विशिष्टपरि-

टीकाः—प्रथम तो द्रव्यबन्ध विशिष्ट परिणामसे होता है । परिणामकी विशिष्टता राग-द्वेष-मोहमयताके कारण है । वह शुभत्व और अशुभत्वके कारण द्वैतका अनुसरण करता है । (अर्थात् दो प्रकारका है); उसमेंसे 'मोह-द्वेषमयतासे अशुभत्व होता है, और रागमयतासे शुभत्व तथा अशुभत्व होता है, क्योंकि 'राग-विशुद्धि तथा संक्लेशयुक्त होनेसे दो प्रकारका होता है ॥ १८० ॥

अब विशिष्ट परिणामके भेदको तथा अविशिष्ट परिणामको, कारणमें कार्यका उपचार करके कार्यरूपसे बतलाते हैंः—

गाथा १८१

अन्वयार्थः—[अन्येषु] परके प्रति [शुभ परिणामः] शुभ परिणाम [पुण्यम्] पुण्य है, और [अशुभः] अशुभ परिणाम [पापम्] पाप है, [इति भणनम्] ऐसा कहा है; [अनन्यगतः परिणामः] जो दूसरेके प्रति प्रवर्तमान नहीं है ऐसा परिणाम [समये] समय पर [दुःखक्षयकारणम्] दुःख क्षयका कारण है ।

टीकाः—प्रथम तो परिणाम दो प्रकारका है—परद्रव्यप्रवृत्त (—परद्रव्यके प्रति प्रवर्तमान) और स्वद्रव्यप्रवृत्त । इनमेंसे परद्रव्यप्रवृत्तपरिणाम परके द्वारा उपरक्त

१. मोहमय परिणाम और द्वेषमय परिणाम अशुभ हैं ।

२. धर्मानुराग विशुद्धिवाला होनेसे धर्मानुरागमय परिणाम शुभ है । विषयानुराग संक्लेशमय होनेसे विषयानुरागमय परिणाम अशुभ है ।

णामस्य विशेषी, शुभपरिणामोऽशुभपरिणामश्च । तत्र पुण्यपुद्गलबन्धकारणत्वात् शुभपरिणामः पुण्यं, पापपुद्गलबन्धकारणत्वादशुभपरिणामः पापम् । अविशिष्टपरिणामस्य तु शुद्धत्वेनैकत्वा-
न्नास्ति विशेषः । स काले संसारदुःखहेतुकर्मपुद्गलक्षयकारणत्वात्संसारदुःखहेतुकर्मपुद्गलक्षयात्मको मोक्ष एव ॥ १८१ ॥

अथ जीवस्य स्वपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्तिसिद्धये स्वपरविभागं दर्शयति—

भणिता पुढविप्पमुहा जीवणिकायाध थावरा य तमा ।

अगणा ते जीवादो जीवो वि य तेहिंदो अगणो ॥१८२॥

भणिताः पृथिवीप्रमुखा जीवणिकाया अथ स्थावराश्च त्रसाः ।

अन्ये ते जीवाजीवोऽपि च तेभ्योऽन्यः ॥ १८२ ॥

(परके निमित्तसे विकारी) होनेसे विशिष्ट परिणाम है, और स्वद्रव्यप्रवृत्त परिणाम परके द्वारा उपरक्त न होनेसे अविशिष्ट परिणाम है । उसमें विशिष्ट परिणामके पूर्वोक्त दो भेद हैं—शुभपरिणाम और अशुभ परिणाम । उनमें, पुण्यरूप पुद्गलके बंधका कारण होनेसे शुभपरिणाम पुण्य है, और पापरूप पुद्गलके बंधका कारण होनेसे अशुभ परिणाम पाप है । अविशिष्ट परिणाम तो शुद्ध होनेसे एक है, इसलिये उसके भेद नहीं हैं । वह (अविशिष्ट परिणाम) यथाकाल संसार दुःखके हेतुभूत कर्मपुद्गलके क्षयका कारण होनेसे संसारदुःखका हेतुभूत कर्मपुद्गलका क्षयस्वरूप मोक्ष ही है ।

भावार्थः—परके प्रति प्रवर्तमान शुभपरिणाम पुण्यका कारण है, और अशुभपरिणाम पापका कारण है; इसलिये यदि कारणमें कार्यका उपचार किया जाय तो शुभपरिणाम पुण्य है और अशुभपरिणाम पाप । स्वात्मद्रव्यमें प्रवर्तमान शुद्ध परिणाम मोक्षका कारण है; इसलिये यदि कारणमें कार्यका उपचार किया जाय तो, शुद्ध परिणाम मोक्ष है ॥ १८१ ॥

अब, जीवकी स्वद्रव्यमें प्रवृत्ति और परद्रव्यसे निवृत्तिकी सिद्धिके लिये स्व-परका विभाग बतलाते हैं:—

गाथा १८२

अन्ववार्थः—[अथ] अब [स्थावराः च त्रसाः] स्थावर और त्रस जो [पृथिवीप्रमुखाः] पृथ्वी आदि, [जीव निकायाः] जीवणिकाया [भणिताः] कहे गये हैं,

य एते पृथिवीप्रसृतयः षड्जीवनिकायास्त्रसस्थावरभेदेनाभ्युपगम्यन्ते ते स्वस्वचेतनत्वा-
दन्ये जीवात्, जीवोऽपि च चेतनत्वादन्यस्तेभ्यः । अत्र षड्जीवनिकायात्मनः परद्रव्यमेक
एवात्मा स्वद्रव्यम् ॥ १८२ ॥

अथ जीवस्य स्वपरद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तत्वेन स्वपरविभागज्ञानाज्ञाने अवधारयति—

जो एवि जाणदि एवं परमप्पाणं सदावमामेज्ज ।

कीरदि अज्भवसाणं अहं ममेदं ति मोहादो ॥ १८३ ॥

यो नैव जानात्येवं परमात्मानं स्वभावमासाद्य ।

कुरुतेऽध्यवसानमहं ममेदमिति मोहान् ॥ १८३ ॥

यो हि नाम नैवं प्रतिनियतचेतनाचेतनत्वस्वभावेन जीवपुद्गलयोः स्वपरविभागं
पश्यति स एवाहमिदं ममेदमित्यात्मात्मीयत्वेन परद्रव्यमध्यवस्यति मोहाभान्यः । अतो

[ते] वे [जीवात् अन्ये] जीवसे अन्य हैं, [च] और [जीवः अपि] जीव भी
[तेभ्यः अन्यः] उनसे अन्य है ।

टीका:—जो यह पृथ्वी इत्यादि षट् जीवनिकाय त्रसस्थावरके भेद पूर्वक
माने जाते हैं, वे वास्तवमें अचेतनत्वके कारण जीवसे अन्य हैं, और जीव भी चेतनत्वके
कारण उनसे अन्य है । यहाँ (यह कहा है कि) षट् जीवनिकाय आत्माको परद्रव्य
है, आत्मा एक ही स्वद्रव्य है ॥ १८२ ॥

अब, यह निश्चित करते हैं कि—जीवको स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त
स्वपरके विभागका ज्ञान है, और परद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त स्व-परके विभागका
अज्ञान है:—

गाथा १८३

अन्वयार्थः—[यः] जो [एवं] इसप्रकार [स्वभावम् आसाद्य] स्वभावको
प्राप्त करके (जीव-पुद्गलके स्वभावको निश्चित करके) [परम् आत्मानं] परको
और स्व को [न एव जानाति] नहीं जानता, [मोहात्] वह मोहसे '[अहम्] यह
मैं हूँ, [इदंमम] यह मेरा है' [इति] इसप्रकार [अध्यवसानं] अध्यवसान [कुरुते]
करता है ।

टीका:—जो आत्मा इसप्रकार जीव और पुद्गलके (अपने-अपने) निश्चित
चेतनत्व और अचेतनत्वरूप स्वभावके द्वारा स्व-परके विभागको नहीं देखता, वही

जीवस्य परद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तं स्वपरपरिच्छेदाभावमात्रमेव सामर्थ्यात्स्वद्रव्यप्रवृत्तिनिमित्तं तदभावः ॥ १८३ ॥

अथात्मनः किं कर्मेति निरूपयति—

कुर्वन् सभावमादा हवदि हि कत्ता सगस्स भावस्म ।

पोग्गलदव्वमयाणं ण दु कत्ता सव्वभावाणं ॥ १८४ ॥

कुर्वन् स्वभावमात्मा भवति हि कर्ता स्वकस्य भावस्य ।

पुद्गलद्रव्यमयानां न तु कर्ता सर्वभावानाम् ॥ १८४ ॥

आत्मा हि तावत्स्वं भावं करोति तस्य स्वधर्मत्वादात्मनस्तथाभवनशक्तिसंभवेनावश्यमेव कार्यत्वात् । स तं च स्वतन्त्रः कुर्वाणस्तस्य कर्तावश्यं स्यात्, क्रियमाणश्चात्मना स्वो भावस्तेना-

आत्मा 'यह मैं हूँ, यह मेरा है' इसप्रकार मोहसे परद्रव्यमें अपनेपनका अध्यवसान करता है, दूसरा नहीं । इससे (यह निश्चित हुआ कि) जीवको परद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त स्वपरके ज्ञानका अभावमात्र ही है, और (कहे बिना भी) सामर्थ्यसे (यह निश्चित हुआ कि) स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका निमित्त उसका अभाव है ।

भावार्थः—जिसे स्व-परका भेद विज्ञान नहीं है वही परद्रव्यमें अहंकार-ममकार करता है, भेदविज्ञानी नहीं । इसलिये परद्रव्यमें प्रवृत्तिका कारण भेदविज्ञानका अभाव ही है, और स्वद्रव्यमें प्रवृत्तिका कारण भेदविज्ञान ही है ॥ १८३ ॥

अब यह निरूपण करते हैं कि आत्माका कर्म क्या हैः—

गाथा १८४

अन्वयार्थः—[स्वभावं कुर्वन्] अपने भावको करता हुआ [आत्मा] आत्मा [हि] वास्तवमें [स्वकस्य भावस्य] अपने भावका [कर्ता भवति] कर्ता है; [तु] परन्तु [पुद्गलद्रव्यमयानां सर्वभावानां] पुद्गलद्रव्यमय सर्व भावोंका [कर्ता न] कर्ता नहीं है ।

टीकाः—प्रथम तो आत्मा वास्तवमें स्व (अपने) भावको करता है, क्योंकि वह (भाव) उसका स्व धर्म है, इसलिये आत्माको उसरूप होनेकी (परिणमित होनेकी) शक्तिका संभव है, अतः वह (भाव) अवश्यमेव आत्माका कार्य है ।

१. उसका अभाव = स्वपरके ज्ञानके अभावका अभाव; स्व-परके ज्ञानका सद्भाव ।

प्यत्वात्तस्य कर्मावश्यं स्यात् । एवमात्मनः स्वपरिणामः कर्म न त्वात्मा पुद्गलस्य भावान् करोति तेषां परधर्मत्वादात्मनस्तथाभवनशक्त्यसंभवेनाकार्यत्वात् स तानकुर्वाणो न तेषां कर्ता स्यात् अक्रियमाणाश्चात्मना ते न तस्य कर्म स्युः । एवमात्मनः पुद्गलपरिणामो न कर्म ॥१८४॥

अथ कथमात्मनः पुद्गलपरिणामो न कर्म स्यादिति संदेहमपनुदति—

गेरहृदि एव ण मुञ्चति करेदि ण हि पोग्गलाणि कम्माणि ।

जीवो पुग्गलमज्जे वट्टणवि सब्बकालेषु ॥ १८५ ॥

गृह्णाति नैव न मुञ्चति करोति न हि पुद्गलानि कर्माणि ।

जीवः पुद्गलमध्ये वर्तमानोऽपि सर्वकालेषु ॥ १८५ ॥

न खन्वात्मनः पुद्गलपरिणामः कर्म परद्रव्योपादानहानशून्यत्वात्, यो हि यस्य परिणमयिता दृष्टः स न तदुपादानहानशून्यो दृष्टः, यथाग्निरयःपिण्डस्य । आत्मा तु

(इसप्रकार) वह (आत्मा) उसे (स्व भावको) स्वतंत्रतया करता हुआ उसका कर्ता अवश्य है, और स्व भाव आत्माके द्वारा किया जाता हुआ आत्माके द्वारा प्राप्य होनेसे अवश्य ही आत्माका कर्म है । इसप्रकार स्वपरिणाम आत्माका कर्म है ।

परन्तु, आत्मा पुद्गलके भावोंको नहीं करता, क्योंकि वे परके धर्म हैं, इसलिये आत्माके उस-रूप होनेकी शक्तिका असंभव होनेसे वे आत्माका कार्य नहीं हैं । (इसप्रकार) वह (आत्मा) उन्हें न करता हुआ उनका कर्ता नहीं होता, और वे आत्माके द्वारा न किये जाते हुये उसका कर्म नहीं हैं । इसप्रकार पुद्गल-परिणाम आत्माका कर्म नहीं है ॥ १८४ ॥

अब, इस संदेहको दूर करते हैं कि पुद्गल परिणाम आत्माका कर्म क्यों नहीं है?—

गाथा १८५

अन्वयार्थः—[जीवः] जीव [सर्वकालेषु] सभी कालोंमें [पुद्गलमध्ये वर्तमानः अपि] पुद्गलके मध्यमें रहता हुआ भी [पुद्गलानि कर्माणि] पौद्गलिक कर्मोंको [हि] वास्तवमें [गृह्णाति न एव] न तो ग्रहण करता है, [न मुञ्चति] न छोड़ता है, और [न करोति] न करता है ।

टीकाः—वास्तवमें पुद्गलपरिणाम आत्माका कर्म नहीं है, क्योंकि वह परद्रव्यके ग्रहण-त्यागसे रहित है । जो जिसका परिणमन करानेवाला देखा जाता है

तुल्यक्षेत्रवर्तित्वेऽपि परद्रव्योपादानहानशून्य एव । ततो न स पुद्गलानां कर्मभावेन परिणमयिता स्यात् ॥ १८५ ॥

अथात्मनः कुतस्तर्हि पुद्गलकर्ममिरूपादानं हानं चेति निरूपयति—

स इदाणि कर्ता सं मगपरिणामस्म द्रव्यजातस्म ।

आदीयदे कदाई विमुच्चदे कम्मधूलीहिं ॥ १८६ ॥

स इदानीं कर्ता सन् स्वकपरिणामस्य द्रव्यजातस्य ।

आदीयते कदाचित्त्रिमुच्यते कर्मधूलिभिः ॥ १८६ ॥

सोऽयमात्मा परद्रव्योपादानहानशून्योऽपि सांप्रतं संसारावस्थायां निमित्तमात्रीकृत-परद्रव्यपरिणामस्य स्वपरिणाममात्रस्य द्रव्यत्वभूतत्वात्केवलस्य कलयन् कर्तृत्वं तदेव तस्य

वह उसके ग्रहण-त्यागसे रहित नहीं देखा जाता; जैसे—अग्नि लोहेके गोलेमें ग्रहण त्याग रहित होती है । आत्मा तो तुल्य क्षेत्रमें वर्तता हुआ भी (परद्रव्यके साथ एक क्षेत्रावगाही होनेपर भी) परद्रव्यके ग्रहण-त्यागसे रहित ही है । इसलिये वह पुद्गलोंको कर्मभावसे परिणमित करानेवाला नहीं है ॥ १८५ ॥

तब फिर (यदि आत्मा पुद्गलोंको कर्मरूप परिणमित नहीं करता) तो आत्मा किसप्रकार पुद्गल कर्मोंके द्वारा ग्रहण किया जाता है और छोड़ा जाता है ? इसका निरूपण करते हैं:—

गाथा १८६

अन्वयार्थः—[सः] वह [इदानीं] अभी (संसारावस्थामें) [द्रव्यजातस्य] द्रव्यसे (आत्मद्रव्यसे) उत्पन्न होनेवाले [स्वकपरिणामस्य] (अशुद्ध) स्वपरिणामका [कर्ता सन्] कर्ता होता हुआ [कर्मधूलिभिः] कर्मरजसे [आदीयते] ग्रहण किया जाता है, और [कदाचित् त्रिमुच्यते] कदाचित् छोड़ा जाता है ।

टीका:—वह यह आत्मा परद्रव्यके ग्रहण-त्यागसे रहित होता हुआ भी अभी संसारावस्थामें, परद्रव्यपरिणामको निमित्तमात्र करते हुये केवल स्वपरिणाम-मात्रका—उस स्वपरिणामके द्रव्यत्वभूत होनेसे—कर्तृत्वका अनुभव करता हुआ, उसके इसी स्वपरिणामको निमित्तमात्र करके कर्मपरिणामको प्राप्त होती हुई पुद्गल-रजके द्वारा विशिष्ट अवगाह्रूपसे ग्रहण किया जाता है और कदाचित् छोड़ा जाता है ।

स्वपरिणामं निमित्तमाश्रीकृत्योपात्तकर्मपरिणामाभिः पुद्गलधूलीभिर्विचिष्टावगाहरूपेणोपादीयते कदाचिन्मुच्यते च ॥ १८६ ॥

अथ किंकृतं पुद्गलकर्मणां वैचित्र्यमिति निरूपयति—

परिणमदि जदा अर्पा सुहृद्भिः असुहृद्भिः रागदोसजुदो ।
तं पविमदि कर्मरयं णाणावरणादिभावेहिं ॥ १८७ ॥

परिणमति यदात्मा शुभेऽशुभे रागद्वेषयुतः ।

तं प्रविशति कर्मरजो ज्ञानावरणादिभावेः ॥ १८७ ॥

अस्ति खन्वात्मनः शुभाशुभपरिणामकाले स्वयमेव समुपात्तवैचित्र्यकर्मपुद्गलपरिणामः नवधनाम्बुनो भूमिसंयोगपरिणामकाले समुपात्तवैचित्र्यान्यपुद्गलपरिणामवत् । तथाहि—यथा

भावार्थः— अभी संसारावस्थामें जीव पौद्गलिक कर्मपरिणामको निमित्तमात्र करके अपने अशुद्ध परिणामका ही कर्ता होता है, (क्योंकि वह अशुद्धपरिणाम स्वद्रव्यसे उत्पन्न होता है), परद्रव्यका कर्ता नहीं होता । इसप्रकार जीव अपने अशुद्धपरिणामका कर्ता होने पर जीवके उसी अशुद्धपरिणामको निमित्तमात्र करके कर्मरूप परिणमित होती हुई पुद्गलरज विशेष अवगाहरूपसे जीवको ग्रहण करती है, और कभी (स्थितिके अनुसार रहकर अथवा जीवके शुद्ध परिणामको निमित्तमात्र करके) छोड़ती है ॥ १८६ ॥

अब पुद्गल कर्मोंकी विचित्रता (ज्ञानावरण, दर्शनावरणादिरूप अनेक-प्रकारता) को कौन करता है ? इसका निरूपण करते हैंः—

गाथा १८७

अन्वयार्थः—[यदा] जब [आत्मा] आत्मा [रागद्वेषयुतः] रागद्वेषयुक्त होता हुआ [शुभे अशुभे] शुभ और अशुभमें [परिणमति] परिणमित होता है, तब [कर्मरजः] कर्मरज [ज्ञानावरणादिभावेः] ज्ञानावरणादिरूपसे [तं] उसमें [प्रविशति] प्रवेश करती है ।

टीकाः— जैसे नवमेघजलके भूमिसंयोगरूप परिणामके समय अन्य पुद्गल-परिणाम स्वयमेव वैचित्र्यको प्राप्त होते हैं, उसीप्रकार आत्माके शुभाशुभ परिणामके

१. कर्मपरिणतपुद्गलोंका जीवके साथ विशेष अवगाहरूपसे रहनेको ही यहाँ कर्म पुद्गलोंके द्वारा जीवका 'ग्रहण होना' कहा है ।

यदा नवधनाम्बुभूमिसंयोगेन परिणमति तदान्ये पुद्गलाः स्वयमेव समुपाचवैचित्र्यैः साद्वलशि-
लीन्द्रशक्रमोपादिभावैः परिणमन्ते, तथा यदायमात्मा रागद्वेषवशीकृतः शुभाशुभभावेन परिण-
मति तदा अन्ये योगद्वारेण प्रविशन्तः कर्मपुद्गलाः स्वयमेव समुपाचवैचित्र्यैर्ज्ञानावरणादिभावैः
परिणमन्ते । अतः स्वभावकृतं कर्मणां वैचित्र्यं न पुनरात्मकृतम् ॥ १८७ ॥

अथैक एव आत्मा बन्ध इति विभावयति—

सपदेसो सो अप्पा क्सायितो मोहरागदोसेहिं ।

कम्मरजेहिं मिलिट्ठो बंधो त्ति परूविदो समये ॥ १८८ ॥

सप्रदेशः स आत्मा कषायितो मोहरागद्वेषैः ।

कर्मरजोभिः श्लिष्टो बन्ध इति प्ररूपितः समये ॥ १८८ ॥

समय कर्मपुद्गलपरिणाम वास्तवमें स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त होते हैं । वह इसप्रकार है कि—जैसे, जब नया मेघजल भूमिसंयोगरूप परिणमित होता है तब अन्य पुद्गल स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त हरियाली, कुकुरमुत्ता (छत्ता), और इन्द्रगोप (चातुर्मासमें उत्पन्न लाल कीड़ा) आदिरूप परिणमित होता है, इसीप्रकार जब यह आत्मा राग द्वेषके वशीभूत होता हुआ शुभाशुभभावरूप परिणमित होता है तब अन्य, योगद्वारोंसे प्रविष्ट होते हुये कर्मपुद्गल स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त ज्ञानावरणादि भावरूप परिणमित होते हैं ।

इससे (यह निश्चित हुआ कि) कर्मोंकी विचित्रता (विविधता)का होना 'स्वभावकृत' है, किन्तु आत्मकृत नहीं ॥ १८७ ॥

अब यह समझाते हैं कि अकेला ही आत्मा बंध है—

गाथा १८८

अन्वयार्थः—[सप्रदेशः] प्रदेशयुक्त [सः आत्मा] वह आत्मा [समये] यथाकाल [मोहरागद्वेषैः] मोह-राग-द्वेषके द्वारा [कषायितः] कषायित होनेसे [कर्मरजोभिः श्लिष्टः] कर्मरजसे लिप्त या बद्ध होता हुआ [बंध इति प्ररूपितः] 'बंध' कहा गया है ।

१. स्वभावकृत = कर्मोंके अपने स्वभावसे किया हुआ ।

यथात्र सप्रदेशत्वे सति लोभ्रादिभिः कषायितत्वात् मञ्जिष्ठुरङ्गादिभिरुपश्लिष्टमेकं रक्तं दृष्टं वासः, तथात्मापि सप्रदेशत्वे सति काले मोहरागद्वेषैः कषायितत्वात् कर्मरजोभिरुपश्लिष्ट एको बन्धो द्रष्टव्यः शुद्धद्रव्यविषयत्वान्निश्चयस्य ॥ १८८ ॥

अथ निश्चयव्यवहाराविरोधं दर्शयति—

एसो बन्धममामो जीवाणं णिच्छयेण णिदिष्टो ।

अरहन्तेहि जदीणं व्यवहारो अरणहा भणितो ॥ १८९ ॥

एष बन्धममामो जीवानां निश्चयेन निर्दिष्टः ।

अर्हद्भिर्यतीनां व्यवहारोऽन्यथा भणितः ॥ १८९ ॥

रागपरिणाम एवात्मनः कर्म, स एव पुण्यपापद्वैतम् । रागपरिणामस्यैवात्मा कर्ता तस्यै-
वोपादाता हाता चेत्येष शुद्धद्रव्यनिरूपणात्मको निश्चयनयः यस्तु पुद्गलपरिणाम आत्मनः कर्म
स एव पुण्यपापद्वैतं पुद्गलपरिणामस्यात्मा कर्ता तस्योपादाता हाता चेति सोऽशुद्धद्रव्यनिरूप-

टीकाः—जैसे जगतमें वस्त्र प्रदेशवान् होनेसे लोध, फिटकरी आदिसे कषायित (कसैला) होता है, जिससे वह मंजीठादिके रंगसे संबद्ध होता हुआ अकेला ही रंगा हुआ देखा जाता है, इसीप्रकार आत्मा भी प्रदेशवान् होनेसे यथाकाल मोह-
राग द्वेषके द्वारा कषायित (मलिन—रंगा हुआ) होनेसे कर्मरजके द्वारा श्लिष्ट होता हुआ अकेला ही बंध है; ऐसा देखना (मानना) चाहिये, क्योंकि निश्चयका विषय शुद्ध द्रव्य है ॥ १८८ ॥

अब निश्चय और व्यवहारका अविरोध बतलाते हैंः—

गाथा १८९.

अन्वयार्थः—[एषः] यह (पूर्वोक्त प्रकारसे), [जीवानां] जीवोंके [बन्धसमासः] बंधका संक्षेप [निश्चयेन] निश्चयसे [अर्हद्भिः] अर्हन्त भगवानने [यतीनां] यतियोंसे [निर्दिष्टः] कहा है; [व्यवहारः] व्यवहार [अन्यथा] अन्य-
प्रकारसे [भणितः] कहा है ।

टीकाः—रागपरिणाम ही आत्माका कर्म है, वही पुण्य-पापरूप द्वैत है, आत्मा रागपरिणामका ही कर्ता है, उसीका ग्रहण करनेवाला है और उसीका त्याग

णात्मको व्यवहारनयः । उभावप्येतौ स्तः, शुद्धाशुद्धत्वेनोभयथा द्रव्यस्य प्रतीयमानत्वात् । किन्त्वत्र निश्चयनयः साधकतमत्वादुपात्तः, साध्यस्य हि शुद्धत्वेन द्रव्यस्य शुद्धत्वद्योतकत्वाभि-
श्चयनय एव साधकतमो न पुनरशुद्धत्वद्योतको व्यवहारनयः ॥ १८९ ॥

अथाशुद्धनयादशुद्धात्मलाम एवेत्यावेदयति—

ण चयदि जो दु ममत्तिं अहं ममेदं ति देहदविणेषु ।
सो मामरणं चत्ता पडिवरणो ह्योदि उम्मगं ॥ १९० ॥

करनेवाला है;—यह, शुद्धद्रव्यका 'निरूपणस्वरूप निश्चयनय है । और जो पुद्गल-
परिणाम आत्माका कर्म है, वही पुण्य-पापरूप द्वैत है, आत्मा पुद्गल परिणामका
कर्ता है, उसका ग्रहण करनेवाला और छोड़नेवाला है,—यह नय अशुद्धद्रव्यका
'निरूपणस्वरूप व्यवहारनय है । यह दोनों (नय) हैं; क्योंकि शुद्धतया और
अशुद्धतया—दोनों प्रकारसे द्रव्यकी प्रतीति की जाती है । किन्तु यहाँ निश्चयनय
साधकतम (उत्कृष्टसाधक) होनेसे 'ग्रहण किया गया है; (क्योंकि) साध्यके शुद्ध
होनेसे द्रव्यके शुद्धत्वका द्योतक (प्रकाशक) होनेसे निश्चयनय ही साधकतम है, किन्तु
अशुद्धत्वका द्योतक व्यवहारनय (साधकतम) नहीं ॥ १८९ ॥

अब यह कहते हैं कि अशुद्धनयसे अशुद्ध आत्माकी ही प्राप्ति होती है:—

१-२. निश्चयनय मात्र स्वद्रव्यके परिणामको बतलाता है, इसलिये उसे शुद्धद्रव्यका कथन करनेवाला
कहा है, और व्यवहारनय परद्रव्यके परिणामको आत्मपरिणाम बतलाता है इसलिये उसे
अशुद्धद्रव्यका कथन करनेवाला कहा है । यहाँ शुद्धद्रव्यका कथन एक द्रव्याश्रित परिणामकी
अपेक्षासे जानना चाहिये, और अशुद्ध द्रव्यका कथन एक द्रव्यके परिणाम अन्यद्रव्यमें आरोपित
करनेकी अपेक्षासे जानना चाहिये ।

३ निश्चयनय उपादेय है और व्यवहारनय हेय है ।

प्रश्न:—द्रव्य सामान्यका आलम्बन ही उपादेय है, फिर भी यहाँ राग परिणामकी ग्रहण-त्यागरूप
पर्यायोंको स्वीकार करनेवाले निश्चयनयको उपादेय क्यों कहा है ?

उत्तर:—'रागपरिणामका कर्ता भी आत्मा है और वीतराग परिणामका भी; अज्ञान दशा भी आत्मा
स्वतंत्रतया करता है और ज्ञानदशा भी';—ऐसे यथार्थज्ञानके भीतर द्रव्यसामान्यका ज्ञान गर्भितरूपसे
समाविष्ट हो जाता है । यदि विशेषका भलीभाँति यथार्थ ज्ञान हो तो यह विशेषोंको करनेवाला
सामान्यका ज्ञान होना ही चाहिये । द्रव्यसामान्यके ज्ञानके बिना पर्यायोंका यथार्थ ज्ञान ही

न त्यजति यस्तु ममतामहं ममेदमिति देहद्रविणेषु ।

स श्रामर्ष्यं त्यक्त्वा प्रतिपन्नो भवत्युन्मार्गम् ॥ १९० ॥

यो हि नाम शुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकनिश्चयनयनिरपेक्षोऽशुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकव्यवहार-
नयोपजनितमोहः सन् अहमिदं ममेदमित्यात्मात्मीयत्वेन देहद्रविणादौ परद्रव्ये ममत्वं न
जहाति स खलु शुद्धात्मपरिणतिरूपं श्रामर्ष्याख्यं मार्गं दूरादपहायाशुद्धात्मपरिणतिरूपमुन्मार्ग-
मेव प्रतिपद्यते । अतोऽवधार्यते अशुद्धनयादशुद्धात्मलाभ एव ॥ १९० ॥

अथ शुद्धनयात् शुद्धात्मलाभ एवेत्यवधारयति—

गाथा १९०

अन्वयार्थः—[यः तु] जो [देहद्रविणेषु] देह-धनादिकमें [अहं मम इदम्]
'मैं यह हूँ और यह मेरा है' [इति ममतां] ऐसी ममताको [न त्यजति] नहीं छोड़ता,
[सः] वह [श्रामर्ष्यं त्यक्त्वा] श्रमणताको छोड़कर [उन्मार्गं प्रतिपन्नः भवति]
उन्मार्गका आश्रय लेता है ।

टीकाः—जो आत्मा शुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप निश्चयनयसे निरपेक्ष रहकर
अशुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप व्यवहार नयसे जिसे मोह उत्पन्न हुआ है ऐसा वर्तता
हुआ 'मैं यह हूँ और यह मेरा है' इसप्रकार आत्मीयतासे देह धनादिक परद्रव्यमें
ममत्व नहीं छोड़ता वह आत्मा वास्तवमें शुद्धात्मपरिणतिरूप श्रामर्ष्यनामक मार्गको
दूरसे छोड़कर अशुद्धात्मपरिणतिरूप उन्मार्गका ही आश्रय लेता है । इससे निश्चित
होता है कि अशुद्धनयसे अशुद्धात्माकी ही प्राप्ति होती है ॥ १९० ॥

अब यह निश्चित करते हैं कि शुद्धनयसे शुद्धात्माकी ही प्राप्ति होती हैः—

नहीं सकता । इसलिये उपरोक्त निश्चयनयमें द्रव्यसामान्यका ज्ञान गर्भितरूपसे समाविष्ट हो ही
जाता है । जो जीव बंधमार्गरूप पर्यायमें तथा मोक्षमार्गरूप पर्यायमें आत्मा अकेला ही है, इसप्रकार
यथार्थतया (द्रव्यसामान्यकी अपेक्षा सहित) जानता है, वह जीव परद्रव्यसे संपृक्त नहीं होता,
और द्रव्यसामान्यके भीतर पर्यायोंको डुबाकर, एकरूप करके सुविशुद्ध होता है । इसप्रकार
पर्यायोंके यथार्थ ज्ञानमें द्रव्यसामान्यका ज्ञान अपेक्षित होनेसे और द्रव्य पर्यायोंके यथार्थज्ञानमें
द्रव्यसामान्यका आलम्बनरूप अभिप्राय अपेक्षित होनेसे उपरोक्त निश्चयनयको उपादेय कहा है ।
[विशेष जाननेके लिये १२६ वीं गाथाकी टीका देखनी चाहिये ।]

१. निश्चयनयसे निरपेक्ष = निश्चयनयके प्रति उपेक्षावान्; उसे न गिनने-माननेवाला ।

२. आत्मीयतासे = निजरूपसे [अज्ञानी जीव शरीर, धन इत्यादि परद्रव्यको अपना मानकर उसमें
ममत्त्व करता है ।]

णाहं ह्योमि परेसिं ए मे परे सन्ति णाणमहमेको ।

इदि जो भायदि भाणे सो अप्पाणं हवदि भादा ॥ १६१ ॥

नाहं भवामि परेषां न मे परे सन्ति ज्ञानमहमेकः ।

इति यो ध्यायति ध्याने स आत्मा भवति ध्याता ॥ १९१ ॥

यो हि नाम स्वविषयमात्रप्रवृत्ताशुद्धद्रव्यनिरूपणात्मकव्यवहारनयाविरोधमध्यस्थः शुद्ध-
द्रव्यनिरूपणात्मकनिश्चयनयापहस्तितमोहः सन् नाहं परेषामस्मि न परे मे सन्तीति स्वपरयोः
परस्परस्वस्वामिसंबन्धमुद्धूय शुद्धज्ञानमेवैकमहमित्यनात्मानमुत्सृज्यात्मानमेवात्मत्वेनोपादाय
परद्रव्यज्यावृत्तत्वादात्मन्येवैकस्मिन्नग्रे चिन्तां निरुणद्धि स खल्वेकाग्रचिन्तानिरोधकस्तस्मिन्ने-
काग्रचिन्तानिरोधसमये शुद्धात्मा स्यात् । अतोऽवधार्यते शुद्धनयादेव शुद्धात्मलामः ॥ १९१ ॥

गाथा १९१

अन्वयार्थः—[अहं परेषां न भवामि] मैं परका नहीं हूँ, [परे मे न सन्ति]
पर मेरे नहीं हैं, [ज्ञानम् अहम् एकः] मैं एक ज्ञान हूँ [इति यः ध्यायति]
इसप्रकार जो ध्यान करता है, [सः आत्मा] वह आत्मा [ध्याने] ध्यानकालमें
[ध्याता भवति] ध्याता होता है ।

टीकाः—जो आत्मा, मात्र अपने विषयमें प्रवर्तमान अशुद्धद्रव्यके निरूपण-
स्वरूप व्यवहारनयमें अविरोधरूपसे मध्यस्थ रहकर, शुद्धद्रव्यके निरूपणस्वरूप
निश्चयनयके द्वारा जिसने मोहको दूर किया है ऐसा होता हुआ, 'मैं परका नहीं हूँ,
पर मेरे नहीं हैं' इसप्रकार स्व-परके परस्पर 'स्वस्वामिसंबन्धको छोड़ कर, 'शुद्धज्ञान
ही एक मैं हूँ' इसप्रकार अनात्माको छोड़कर, आत्माको ही आत्मरूपसे ग्रहण करके,
परद्रव्यसे भिन्नत्वके कारण आत्मारूप ही एक अग्रमें चिन्ताको रोकता है, वह
एकाग्रचिन्तानिरोधक (एक विषयमें विचारको रोकनेवाला आत्मा) उस
एकाग्रचिन्तानिरोधके समय वास्तवमें शुद्धात्मा होता है । इससे निश्चित होता है
कि शुद्धनयसे ही शुद्धात्माकी प्राप्ति होती है ॥ १६१ ॥

१. जिसपर स्वामित्व है वह पदार्थ और स्वामीके बीचके संबंधको; स्व-स्वामि संबंध कहा जाता है ।

२. अग्र = विषय; ध्येय; आलम्बन;

३. एकाग्रचिन्तानिरोध = एक ही विषयमें-ध्येयमें विचारको रोकना; [एकाग्रचिन्तानिरोध नामक
ध्यान है ।]

अथ ध्रुवत्वात् शुद्ध आत्मैवोपलम्बनीय इत्युपदिशति—

एवं गाणप्याणं दंसणभूदं अदिंदियमहत्थं ।

ध्रुवमचलमणालम्बं मरणेऽहं अप्पगं सुद्धं ॥ १६२ ॥

एव ज्ञानात्मानं दर्शनभूतमतीन्द्रियमहार्थम् ।

ध्रुवमचलमनालम्बं मन्येऽहमात्मकं शुद्धम् ॥ १६२ ॥

आत्मनो हि शुद्ध आत्मैव सदहेतुकत्वेनानाद्यनन्तत्वात् स्वतःसिद्धत्वाच्च ध्रुवो न किंच-
नाप्यन्यत् । शुद्धत्वं चात्मनः परद्रव्यविभागेन स्वधर्माविभागेन चैकत्वात् । तच्च ज्ञानात्मक-

अब यह उपदेश देते हैं कि ध्रुवत्वके कारण शुद्धात्मा ही उपलब्ध करने योग्य है:—

शाखा १९२

अन्वयार्थः—[अहम्] मैं [आत्मकं] आत्माको [एवं] इसप्रकार [ज्ञानात्मानं] ज्ञानात्मक, [दर्शनभूतम्] दर्शनभूत, [अतीन्द्रियमहार्थं] अतीन्द्रिय महापदार्थ, [ध्रुवम्] ध्रुव, [अचलम्] अचल, [अनालम्बं] निरालम्ब और [शुद्धम्] शुद्ध [मन्ये] मानता हूँ ।

टीका:—शुद्धात्मा सत् और अहेतुक होनेसे अनादि-अनन्त और स्वतः सिद्ध है, इसलिये आत्माके शुद्धात्मा ही ध्रुव है, (उसके) दूसरा कुछ भी ध्रुव नहीं है । आत्मा शुद्ध इसलिये है कि उसे परद्रव्यसे विभाग (भिन्नत्व) और स्वधर्मसे अविभाग है इसलिये एकत्व है । वह एकत्व आत्माके (१) ज्ञानात्मकत्वके कारण, (२) दर्शनभूतत्वके कारण, (३) अतीन्द्रिय महापदार्थत्वके कारण, (४) अचलताके कारण, और (५) निरालम्बत्वके कारण है ।

इनमेंसे (१-२) जो ज्ञानको ही अपनेमें धारण कर रखता है, और जो स्वयं दर्शनभूत है ऐसे आत्माका अतन्मय (ज्ञान-दर्शन रहित ऐसा) परद्रव्यसे भिन्नत्व है और स्वधर्मसे अभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व है; (३) और जो प्रतिनिश्चित स्पर्श-रस-गंध-वर्णरूप गुण तथा शब्दरूपपर्यायको ग्रहण करनेवाली

१. सत् = विद्यमान; अस्तित्ववाला; होनेवाला ।

२. अहेतुक = जिसका कोई कारण नहीं है ऐसा; अकारण ।

३. प्रतिनिश्चित = प्रतिनियत । [प्रत्येक इन्द्रिय अपने-अपने नियत विषयको ग्रहण करती है; जैसे चक्षु वर्णको ग्रहण करती है ।]

त्वादर्शनभूतत्वादतीन्द्रियमहार्थत्वादचलत्वादनालम्बत्वाच्च । तत्र ज्ञानमेवात्मनि विश्रतः स्वयं दर्शनभूतस्य चातन्मयपरद्रव्यविभागेन स्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा प्रतिनियतस्पर्शरस-गन्धवर्णगुणशब्दपर्यायग्राहीण्यनेकानीन्द्रियाण्यतिक्रम्य सर्वस्पर्शरसगन्धवर्णगुणशब्दपर्यायग्राह-कस्यैकस्य सतो महतोऽर्थस्येन्द्रियात्मकपरद्रव्यविभागेन स्पर्शादिग्रहणात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा क्षणक्षयप्रवृत्तपरिच्छेद्यपर्यायग्रहणमोक्षणाभावेनाचलस्य परिच्छेद्यपर्या-यात्मकपरद्रव्यविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्वधर्माविभागेन चास्त्येकत्वम् । तथा नित्यप्रवृत्त-परिच्छेद्यद्रव्यालम्बनाभावेनानालम्बस्य परिच्छेद्यपरद्रव्यविभागेन तत्प्रत्ययपरिच्छेदात्मकस्वधर्मा-विभागेन चास्त्येकत्वम् । एवं शुद्ध आत्मा चिन्मात्रशुद्धनयस्य तावन्मात्रनिरूपणात्मकत्वात्

अनेक इन्द्रियोंका अतिक्रम (उल्लंघन) करके समस्त स्पर्श-रस-गंध-वर्णरूप गुणों और शब्दरूप पर्यायको ग्रहण करनेवाला एक सत् महापदार्थ है, ऐसे आत्माका इन्द्रियात्मक परद्रव्यसे भिन्नत्व है, और स्पर्शादिके ग्रहण स्वरूप (ज्ञानस्वरूप) स्वधर्मसे अभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व है, (४) और क्षण विनाशरूपसे प्रवर्तमान ज्ञेय पर्यायोंको (प्रतिक्षण नष्ट होनेवाली ज्ञातव्य पर्यायोंको) ग्रहण करने और छोड़नेका अभाव होनेसे जो अचल है ऐसे आत्माको ज्ञेयपर्यायस्वरूप परद्रव्यसे भिन्नत्व है, और तन्निमित्तक ज्ञानस्वरूप स्वधर्मसे अभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व है; (५) और नित्यरूपसे प्रवर्तमान (शाश्वत ऐसा) ज्ञेयद्रव्योंके आलम्बनका अभाव होनेसे जो निरालम्ब है ऐसे आत्माका ज्ञेय-परद्रव्योंसे भिन्नत्व है, और तन्निमित्तक ज्ञानस्वरूप स्वधर्मसे अभिन्नत्व है, इसलिये उसके एकत्व है ।

इसप्रकार आत्मा शुद्ध है, क्योंकि चिन्मात्र शुद्धनय उतना ही मात्र निरूपण-स्वरूप है (अर्थात् चैतन्यमात्र शुद्धनय आत्माको मात्र शुद्ध ही निरूपित करता है ।) और यह एक ही (यह शुद्धात्मा एक ही) ध्रुवत्वके कारण उपलब्ध करने योग्य है । किसी पथिकके शरीरके अंगोंके साथ संसर्गमें आनेवाली मार्गके वृक्षोंकी अनेक छायाके समान अन्य अध्रुव (पदार्थों)से क्या प्रयोजन है ?

भावार्थः—आत्मा (१) ज्ञानात्मक, (२) दर्शनरूप, (३) इन्द्रियोंके विना ही सबको जाननेवाला महा पदार्थ, (४) ज्ञेय-परपर्यायोंका ग्रहण-त्याग न करनेसे अचल, और (५) ज्ञेय-परद्रव्योंका आलम्बन न लेनेसे निरालम्ब है; इसलिये वह

१. ज्ञेय पर्यायों जिसकी निमित्त हैं ऐसा जो ज्ञान, उस-स्वरूप स्वधर्मसे (ज्ञानस्वरूप निजधर्मसे) आत्माकी अभिन्नता है ।

अयमेक एव च ध्रुवत्वादुपलब्धव्यः किमन्यैरध्वनीनाङ्गसंगच्छमानानेकमार्गपादपञ्चायास्थानी-
यैरध्रुवैः ॥ १६२ ॥

अथाध्रुवत्वादात्मनोऽन्यन्नोपलभनीयमित्युपदिशति—

देहा वा द्रविणा वा सुहृदुक्त्वा वाथ सत्तुमित्तजणा ।

जीवस्य ण संति ध्रुवा ध्रुवोवन्नोगप्पगो अप्पा ॥ १६३ ॥

देहा वा द्रविणानि वा सुखदुःखे वाथ शत्रुमित्रजनाः ।

जीवस्य न सन्ति ध्रुवा ध्रुव उपयोगात्मक आत्मा ॥ १९३ ॥

आत्मनो हि परद्रव्याविभागेन परद्रव्योपरज्यमानस्वधर्मविभागेन चाशुद्धत्वनिबन्धनं न
किंचिर्नाप्यन्यदसद्वेतुमत्त्वेनाद्यन्तवत्त्वात्परतः सिद्धत्वाच्च ध्रुवमस्ति ध्रुव उपयोगात्मा शुद्ध आत्मैव ।
अतोऽध्रुवं शरीरादिकमुपलभ्यमानमपि नोपलभे शुद्धात्मानमुपलभे ध्रुवम् ॥ १९३ ॥

एक है । इसप्रकार एक होनेसे वह शुद्ध है । ऐसा शुद्धात्मा ध्रुव होनेसे, वही एक
उपलब्ध करने योग्य है ॥ १६२ ॥

अब, यह उपदेश देते हैं कि अध्रुवत्वके कारण आत्माके अतिरिक्त दूसरा
कुछ भी उपलब्ध करने योग्य नहीं है—

गाथा १९३

अन्वयार्थः—[देहाः वा] शरीर, [द्रविणानि वा] धन, [सुखदुःखे] सुख
दुःख [वा अथ] अथवा [शत्रुमित्रजनाः] शत्रुमित्रजन (यह कुछ) [जीवस्य]
जीवके [ध्रुवाः न सन्ति] ध्रुव नहीं हैं; [ध्रुवः] ध्रुव तो [उपयोगात्मकः आत्मा]
उपयोगात्मक आत्मा है ।

टीकाः—जो परद्रव्यसे अभिन्न होनेके कारण और परद्रव्यके द्वारा उपरक्त
होनेवाले स्वधर्मसे भिन्न होनेके कारण आत्माको अशुद्धपनेका कारण है, ऐसा
(आत्माके अतिरिक्त) दूसरा कोई भी ध्रुव नहीं है, क्योंकि वह असत् और

१. उपरक्त = मलिन; विकारी [परद्रव्यके निमित्तसे आत्माका स्वधर्म उपरक्त होता है ।]

२. असत् = अस्तित्वरहित (अनित्य); [धन देहादिक पुद्गल पर्याय हैं, इसलिये असत् हैं, इसीलिये
आदि-अन्तवाली हैं ।]

अथैवं शुद्धात्मोपलम्भात्किं स्यादिति निरूपयति—

जो एवं जाणित्ता भ्नादि परं अप्पगं विसुद्धप्पा ।

सागारोऽणागारो खवेदि सो मोहदुर्गंठिं ॥ १६४ ॥

य एवं ज्ञात्वा ध्यायति परमात्मानं विशुद्धात्मा ।

साकारोऽनाकारः क्षययति स मोहदुर्ग्रन्थिम् ॥ १६४ ॥

अमुना यथोदितेन विधिना शुद्धात्मानं ध्रुवमधिगच्छतस्तस्मिन्नेव प्रवृत्तेः शुद्धात्मत्वं स्यात् । ततोऽनन्तशक्तिचिन्मात्रस्य परमस्यात्मन एकाग्रसंचेतनलक्षणं ध्यानं स्यात्, ततः सा

हेतुमान् होनेसे आदि-अन्तवाला और परतः सिद्ध है; ध्रुव तो उपयोगात्मक शुद्ध आत्मा ही है । ऐसा होनेसे मैं उपलभ्यमान अध्रुव शरीरादिको उपलब्ध नहीं करता, और ध्रुव शुद्धात्माको उपलब्ध करता हूँ ॥ १६३ ॥

इसप्रकार शुद्धात्माकी उपलब्धिसे क्या होता है यह अब निरूपण करते हैं:—

गाथा १९४

अन्वयार्थः—[यः] जो [एवं ज्ञात्वा] ऐसा जानकर [विशुद्धात्मा] विशुद्धात्मा होता हुआ [परमात्मानं] परम आत्माका [ध्यायति] ध्यान करता है, [सः] वह [साकारः अनाकारः] साकार हो या अनाकार, [मोहदुर्ग्रंथिं] मोहदुर्ग्रंथिका [क्षययति] क्षय करता है ।

टीका:—इस यथोक्त विधिके द्वारा जो शुद्धात्माको ध्रुव जानता है, उसे उसीमें प्रवृत्तिके द्वारा शुद्धात्मत्व होता है; इसलिये अनन्तशक्तिवाले चिन्मात्र परम आत्माका एकाग्रसंचेतनलक्षण ध्यान होता है; और इसलिये (उन ध्यानके कारण) साकार (सविकल्प) उपयोगवालेको या अनाकार (निर्विकल्प) उपयोगवालेको—दोनोंको अविशेषरूपसे एकाग्रसंचेतनकी प्रसिद्धि होनेसे—अनादि संसारसे बँधी हुई अतिदृढ़ मोहदुर्ग्रंथि छूट जाती है ।

१. हेतुमान् = सहेतुक; जिसकी उत्पत्तिमें कोई भी निमित्त हो ऐसा । [देह धनादिकी उत्पत्तिमें कोई भी निमित्त होता है, इसलिये वे परतः सिद्ध हैं; स्वतः सिद्ध नहीं ।]

२. चिन्मात्र = चैतन्यमात्र [परम आत्मा केवल चैतन्यमात्र है, जो कि अनन्त शक्तिवाला है ।

३. एक अग्रका (विषयका, ध्येयका) संचेतन अर्थात् अनुभवन ध्यानका लक्षण है ।

कारोपयुक्तस्यानाकारोपयुक्तस्य वाविशेषेणैकाग्रचेतनप्रसिद्धेरासंसारबद्धदृढतरमोहदुर्ग्रन्थेरुद्ग्रथनं स्यात् । अतः शुद्धात्मोपलम्भस्य मोहग्रन्थिभेदः फलम् ॥ १९४ ॥

अथ मोहग्रन्थिभेदात्किं स्यादिति निरूपयति—

जो निहृदमोहगंठी रागपदोसे खवीय सामरणे ।

होज्जं समसुहदुःखो सो सोक्खं अक्खयं लहदि ॥ १९५ ॥

यो निहृतमोहग्रन्थी रागप्रद्वेषौ क्षयित्वा श्रमण्ये ।

भवेत् समसुखदुःखः स सौख्यमक्षयं लभते ॥ १९५ ॥

मोहग्रन्थिभ्रमणाद्धि तन्मूलरागद्वेषभ्रमणं ततः समसुखदुःखस्य परममाध्यस्थलक्षणे श्रामण्ये भवनं ततोऽनाकुलत्वलक्षणाभयसौख्यलामः । अतो मोहग्रन्थिभेदादक्षयसौख्यं फलम् ॥ १९५ ॥

इससे (यह कहा गया है कि) मोहग्रन्थि भेद (दर्शनमोहरूपी गाँटका टूटना) शुद्धात्माकी उपलब्धिका फल है ॥ १९४ ॥

अब यह कहते हैं कि मोहग्रन्थिके टूटनेसे क्या होता है:—

गाथा १९५

अन्वयार्थः—[यः] जो [निहृतमोहग्रन्थी] मोहग्रन्थिको नष्ट करके, [रागप्रद्वेषौ क्षयित्वा] रागद्वेषका क्षय करके, [समसुख दुःखः] सुख-दुःखमें समान होता हुआ [श्रमण्ये भवेत्] श्रमणता (मुनित्व)में परिणमित होता है, [सः] वह [अक्षयं सौख्यं] अक्षय सौख्यको [लभते] प्राप्त करता है ।

टीका:—मोहग्रन्थिका क्षय करनेसे, मोहग्रन्थि जिसका मूल है ऐसे राग द्वेषका, क्षय होता है; उससे, जिसे सुख-दुःख समान हैं ऐसे जीवका परम मध्यस्थता जिसका लक्षण है ऐसी श्रमणतामें परिणमन होता है; और उससे अनाकुलता जिसका लक्षण है ऐसे अक्षय सुखकी प्राप्ति होती है ।

इससे (यह कहा है कि) मोहरूपी ग्रन्थिके छेदनेसे अक्षय सौख्यरूप फल होता है ॥ १९५ ॥

अथैकाग्रसंचेतनलक्षणं ध्यानमशुद्धत्वमात्मनो नावहतीति निश्चिनोति—

जो खविदमोहकलुषां विसयविरक्तो मणां गिरुंभित्ता ।
समवद्विदो महावे सो अप्पाणं हवदि भादा ॥ १९६ ॥

यः क्षपितमोहकलुषो विषयविरक्तो मनो निरुध्य ।

समवस्थितः स्वभावे स आत्मानं भवति ध्याता ॥ १९६ ॥

आत्मनो हि परिक्षपितमोहकलुषस्य तन्मूलपरद्रव्यप्रवृत्त्यभावाद्विषयविरक्तत्वं स्यात्,
ततोऽधिकरणभूतद्रव्यान्तराभावादुदधिमभ्यप्रवृत्तैकपोतपतत्रिण इव अनन्यशरणस्य मनसो

अब, 'एकाग्र संचेतन जिसका लक्षण है, ऐसा ध्यान आत्मामें अशुद्धता नहीं लाता,—यह निश्चित करते हैं:—

गाथा १९६

अन्वयार्थः—[यः] जो [क्षपितमोहकलुषः] मोहमलका क्षय करके [विषय विरक्तः] विषयसे विरक्त होकर, [मनः निरुध्य] मनका निरोध करके, [स्वभावे समवस्थितः] स्वभावमें समवस्थित है, [सः] वह [आत्मानं] आत्माका [ध्याता भवति] ध्यान करनेवाला है ।

टीका:—जिसने मोहमलका क्षय किया है ऐसे आत्माके, मोहमल जिसका मूल है ऐसी 'परद्रव्यप्रवृत्तिका अभाव होनेसे विषयविरक्तता होती है; उससे, समुद्रके मध्यगत जहाजके पक्षीकी भाँति, अधिकरणभूत द्रव्यान्तरोंका अभाव होनेसे जिसे अन्य कोई शरण नहीं रहा है ऐसे मनका निरोध होता है । [अर्थात्—जैसे समुद्रके बीचमें पहुँचे हुये किसी एकाकी जहाज पर बैठे हुये पक्षीको उस जहाजके अतिरिक्त अन्य किसी जहाजका, वृक्षका या भूमि इत्यादिका आधार न होनेसे दूसरा कोई शरण नहीं है, इसलिये उसका उड़ना बन्द हो जाता है, उसीप्रकार विषयविरक्तता होनेसे मनको आत्मद्रव्यके अतिरिक्त किन्हीं अन्यद्रव्योंका आधार नहीं रहता इसलिये दूसरा कोई शरण न रहनेसे मन निरोधको प्राप्त होता है]; और इसलिये, मन जिसका मूल है ऐसी चंचलताका विलय होनेके कारण अनन्त-

१. एकाग्र = जिसका एक ही विषय (अलंबन) हो ऐसा ।

२. परद्रव्य प्रवृत्ति = परद्रव्यमें प्रवर्तन ।

निरोधः स्यात् । ततस्तन्मूलचञ्चलत्वविलयादनन्तसहजचैतन्यात्मनि स्वभावे समवस्थानं स्यात् । तच्च स्वरूपप्रवृत्तानाकुलैकाग्रसंचेतनत्वात् ध्यानमित्युपगीयते । अतः स्वभावावस्थान-रूपत्वेन ध्यानमात्मनोऽनन्यत्वात् नाशुद्धत्वायेति ॥ १९६ ॥

अथोपलब्धशुद्धात्मा सकलज्ञानी किं ध्यायतीति प्रश्नमासूत्रयति—

निहतघनघातिकर्मा पञ्चकसं सर्वभावतत्त्वग्रह ।
ऐयान्तगतो भ्रमणो भादि कमट्टं असंदेहो ॥ १९७ ॥

निहतघनघातिकर्मा प्रत्यक्षं सर्वभावतत्त्वज्ञः ।

ज्ञेयान्तगतः भ्रमणो ध्यायति कमर्थमसंदेहः ॥ १९७ ॥

लोको हि मोहसद्भावे ज्ञानशक्तिप्रतिबन्धकसद्भावे च सतृष्णत्वादप्रत्यक्षार्थत्वानवच्छिन्न-विषयत्वाभ्यां चाभिलषितं जिज्ञासितं संदिग्धं चार्थं ध्यायन् दृष्टः, भगवान् सर्वज्ञस्तु निहतघन-

सहजचैतन्यात्मक स्वभावमें 'समवस्थान' होता है । वह स्वभाव समवस्थान तो स्वरूपमें प्रवर्तमान, अनाकुल, एकाग्रसंचेतन होनेसे ध्यान कहा जाता है ।

इससे (यह निश्चित हुआ कि—) ध्यान, स्वभाव समवस्थानरूप होनेके कारण आत्मासे अनन्य होनेसे अशुद्धताका कारण नहीं होता ॥ १९६ ॥

अब, सूत्रद्वारा यह प्रश्न करते हैं कि जिनने शुद्धात्माको उपलब्ध किया है ऐसे सकलज्ञानी (सर्वज्ञ) क्या ध्याते हैं ?—

गाथा १९७

अन्वयार्थः—[निहतघनघातिकर्मा] जिनने घनघातिकर्मका नाश किया है, [प्रत्यक्षं सर्वभावतत्त्वज्ञः] जो सर्व पदार्थोंके स्वरूपको प्रत्यक्ष जानते हैं, और [ज्ञेयान्तगतः] जो ज्ञेयोंके पारको प्राप्त हैं, [असंदेहः भ्रमणः] ऐसे संदेहरहित भ्रमण [कम् अर्थ] किस पदार्थको [ध्यायति] ध्याते हैं ?

टीकाः—लोकको (१) मोहका सद्भाव होनेसे तथा (२) ज्ञानशक्तिके प्रतिबन्धकका सद्भाव होनेसे, (१) वह तृष्णा सहित है, तथा (२) उसे पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं हैं, और वह विषयको अवच्छेदपूर्वक नहीं जानता, इसलिये वह (लोक)

१. समवस्थान = स्थिरतया-दृढतया रहना-टिकना ।

२. ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञानशक्तिका प्रतिबंधक अर्थात् ज्ञानके रुकनेमें निमित्तभूत है ।

३. अवच्छेदपूर्वक = पृथक्करण करके; सूक्ष्मतासे; विशेषतासे; स्पष्टतासे; ।

घातिकर्मतया मोहाभावे ज्ञानशक्तिप्रतिबन्धकाभावे च निरस्ततृष्णत्वात्प्रत्यक्षसर्वभावतत्त्वज्ञेयान्त-
गतत्वाभ्यां च नाभिलषति न जिज्ञासति न संदिग्धति च कुतोऽभिलषितो जिज्ञासितः संदिग्ध-
श्चार्थः । एवं सति किं ध्यायति ॥ १९७ ॥

अथैतदुपलब्धशुद्धात्मा सकलज्ञानी ध्यायतीत्युत्तरमाह्वयति—

‘अभिलषित, ‘जिज्ञासित और ‘संदिग्ध पदार्थका ध्यान करता हुआ दिखाई देता है; परन्तु घनघातिकर्मका नाश किया जानेसे (१) मोहका अभाव होनेके कारण तथा (२) ज्ञानशक्तिके प्रतिबन्धकका अभाव होनेसे, (१) तृष्णा नष्ट की गई है, तथा (२) समस्त पदार्थोंका स्वरूप प्रत्यक्ष है, तथा ज्ञेयोंका पार पा लिया है, इसलिये भगवान सर्वज्ञदेव अभिलाषा नहीं करते, जिज्ञासा नहीं करते, और संदेह नहीं करते; तब फिर (उनके) अभिलषित, जिज्ञासित और संदिग्ध पदार्थ कहाँसे हो सकता है? जब कि ऐसा है तब फिर वे क्या ध्याते हैं ?

भावार्थः—लोकके (जगत्के सामान्य जीव समुदायके) मोहकर्मका सद्भाव होनेसे वह तृष्णा सहित है, इसलिये उसे इष्ट पदार्थकी अभिलाषा होती है; और उसके ज्ञानावरणीय कर्मका सद्भाव होनेसे वह बहुतसे पदार्थोंको तो जानता ही नहीं है, तथा जिस पदार्थको जानता है उसे भी पृथक्करण पूर्वक सूक्ष्मतासे—स्पष्टतासे नहीं जानता, इसलिये उसे अज्ञात पदार्थको जाननेकी इच्छा (जिज्ञासा) होती है, और अस्पष्टतया जाने हुये पदार्थके संबंधमें संदेह होता है। ऐसा होनेसे उसके अभिलषित, जिज्ञासित और संदिग्ध पदार्थका ध्यान संभवित होता है। परन्तु सर्वज्ञ भगवानके तो मोह कर्मका अभाव होनेसे वे तृष्णारहित हैं, इसलिये उनके अभिलाषा नहीं है; और उनके ज्ञानावरणीय कर्मका अभाव होनेसे वे समस्त पदार्थोंको जानते हैं तथा प्रत्येक पदार्थको अत्यन्त स्पष्टतापूर्वक परिपूर्णतया जानते हैं, इसलिये उन्हें जिज्ञासा या सन्देह नहीं है। इसप्रकार उन्हें किसी पदार्थके प्रति अभिलाषा, जिज्ञासा या सन्देह नहीं होता; तब फिर उन्हें किस पदार्थका ध्यान होता है ? ॥ १९७ ॥

अब, सूत्र द्वारा (उपरोक्त गाथाके प्रश्नका) उत्तर देते हैं कि—जिसने शुद्धात्माको उपलब्ध किया है वह सकलज्ञानी इस (परमसौख्य)का ध्यान करता है:—

४. अभिलषित = जिसकी इच्छा-चाह होय वह।

५. जिसकी जिज्ञासा जानने की इच्छा हो वह।

६. जिन जिनमें संदेह हो-संशय हो।

सर्वाबाधविजुतो समंतसर्वस्वमोक्खणाण्डुतो ।

भूतो अस्खातीतो भादि अणस्खो परं मोक्खं ॥ १६८ ॥

सर्वाबाधवियुक्तः समन्तसर्वाक्षसौख्यज्ञानाढयः ।

भूतोऽभातीतो ध्याप्रत्यनक्षः परं सौख्यम् ॥ १९८ ॥

अयमात्मा यदैव सहजसौख्यज्ञानबाधायतनानामसार्वदिकासकलपुरुषसौख्यज्ञानायतनानां
चाक्षाणामभावात्स्वयमनक्षत्वेन वर्तते तदैव परेषामभातीतो भवन् निराबाधसहजसौख्यज्ञानत्वात्
सर्वाबाधवियुक्तः, सार्वदिकसकलपुरुषसौख्यज्ञानपूर्णत्वात्समन्तसर्वाक्षसौख्यज्ञानाढयश्च भवति ।

गाथा १९८

अन्वयार्थः—[अनक्षः] अनिन्द्रिय और [अभातीतः भूतः] इन्द्रियातीत हुआ
आत्मा [सर्वाबाधवियुक्तः] सर्व बाधा रहित और [समंतसर्वाक्षसौख्यज्ञानाढयः] सम्पूर्ण
आत्मामें समंत (सर्वप्रकारके, परिपूर्ण) सौख्य तथा ज्ञानसे समृद्ध रहता हुआ
[परं सौख्यं] परम सौख्यका [ध्यायति] ध्यान करता है ।

टीकाः—जब यह आत्मा, जो सहज सुख और ज्ञानकी बाधाके 'आयतन
हैं (ऐसी) तथा जो 'असकल आत्मामें 'असर्वप्रकारके सुख और ज्ञानके आयतन
हैं ऐसी इन्द्रियोंके अभावके कारण स्वयं 'अतीन्द्रिय'रूपसे वर्तता है, उसी समय वह
दूसरोंको 'इन्द्रियातीत' (इन्द्रियअगोचर) वर्तता हुआ निराबाध सहजसुख और
ज्ञानवाला होनेसे 'सर्वबाधा रहित' तथा सकल आत्मामें सर्वप्रकारके (परिपूर्ण)
सुख और ज्ञानसे परिपूर्ण होनेसे 'समस्त आत्मामें समंत सौख्य और ज्ञानसे समृद्ध'
होता है । इसप्रकारका वह आत्मा सर्व अभिलाषा, जिज्ञासा और संदेहका असंभव
होनेपर भी अपूर्व और अनाकुलत्व लक्षण परमसौख्यका ध्यान करता है; अर्थात्
अनाकुलत्वसंगत एक 'अग्र' के संचेतनमात्ररूपसे अवस्थित रहता है, (अर्थात्
अनाकुलताके साथ रहनेवाले एक आत्मारूपी विषयके अनुभवनरूप ही मात्र स्थित
रहता है) और ऐसा अवस्थान सहज ज्ञानानन्दस्वभाव सिद्धत्वकी सिद्धि ही है ।

१ आयतन — निवास; स्थान ।

२. असकल आत्मामें — आत्माके सर्व प्रदेशोंमें नहीं किन्तु थोड़े ही प्रदेशोंमें ।

३. असर्वप्रकारके = सभी प्रकारके नहीं किन्तु अमुक ही प्रकारके; अपूर्ण [यह अपूर्ण सुख
परमार्थतः सुखाभास होने पर भी, उसे 'सुख' कहनेकी अपारमार्थिक रूढ़ि है ।]

एवंभूतश्च सर्वाभिलाषजिज्ञासासंदेहासंभवेऽप्यपूर्वमनाकुलत्वलक्षणं परमसौख्यं ध्यायति । अनाकुलत्वसंगतैकाग्रसंवेतनमात्रेणावतिष्ठत इति यावत् । ईदृशमवस्थानं च सहजज्ञानानन्दस्वभावस्य सिद्धत्वस्य सिद्धिरेव ॥ १९८ ॥

अथायमेव शुद्धात्मोपलम्बलभणो मोक्षस्य मार्ग इत्यवधारयति—

एवं जिना जिणिंदा सिद्धा मग्गं समुट्ठिदा समणा ।

जादा णमोत्थु तेमिं तस्स य णिव्वाणमग्गस्स ॥ १९९ ॥

एवं जिना जिनेन्द्राः सिद्धा मार्गं समुत्थिताः श्रमणाः ।

जाता नमोऽस्तु तेभ्यस्तस्मै च निर्वाणमार्गाय ॥ १९९ ॥

(अर्थात् इसप्रकार स्थित रहना, सहजज्ञान और आनन्द जिसका स्वभाव है ऐसे सिद्धत्वकी प्राप्ति ही है ।)

भावार्थः—१९७ वीं गाथामें प्रश्न उपस्थित किया गया था कि सर्वज्ञ-भगवानको किसी पदार्थके प्रति अभिलाषा, जिज्ञासा या सन्देह नहीं है तब फिर वे किस पदार्थका ध्यान करते हैं ? उसका उत्तर इस गाथामें इसप्रकार दिया गया है किः—एक अग्र (विषय)का संवेदन ध्यान है । सर्व आत्मप्रदेशोंमें परिपूर्ण आनन्द और ज्ञानसे भरे हुये सर्वज्ञ भगवान परमानन्दसे अभिन्न निजात्मारूपी एक विषयका संवेदन करते हैं इसलिये उनके परमानन्दका ध्यान है, अर्थात् वे परमसौख्यका ध्यान करते हैं ॥ १९८ ॥

अब, यह निश्चित करते हैं कि—‘यही (पूर्वोक्त ही) शुद्ध आत्माकी उपलब्धि जिसका लक्षण है, ऐसा मोक्षका मार्ग है’—

गाथा १९९

अन्वयार्थः—[जिनाः जिनेन्द्राः श्रमणाः] जिन, जिनेन्द्र और श्रमण (अर्थात् सामान्यकेवली, तीर्थंकर और मुनि) [एवं] इस (पूर्वोक्त ही) प्रकारसे [मार्गं समुत्थिताः] मार्गमें आरूढ़ होते हुये [सिद्धाः जाताः] सिद्ध हुये [नमोऽस्तु] नमस्कार हो [तेभ्यः] उन्हें [च] और [तस्मै निर्वाण मार्गाय] उस निर्वाणमार्गको ।

यतः सर्व एव सामान्यचरमशरीरास्तीर्थकराः अचरमशरीरा मृमुभवध्यामुनैव यथोदितेन शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तिलक्षणेन विधिना प्रवृत्तमोक्षस्य मार्गमधिगम्य सिद्धा बभूवुः, न पुनरन्यथापि । ततोऽवधार्यते केवलमयमेक एव मोक्षस्य मार्गो न द्वितीय इति । अलं च प्रपञ्चेन । तेषां शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तानां सिद्धानां तस्य शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तिरूपस्य मोक्षमार्गस्य च प्रत्यस्तमितभाव्य-भावकविभागत्वेन नोआगमभावनमस्कारोऽस्तु । अवधारितो मोक्षमार्गः कृत्यमनुष्ठीयते ॥१९६॥

अथोपसंपद्ये साम्यमिति पूर्वप्रतिज्ञां निर्वहन् मोक्षमार्गभूतां स्वयमपि शुद्धात्मप्रवृत्तिमा-
स्रवयति—

तम्हा तद् जाणित्ता अप्पाणं जाणगं सभावेण ।

परिवज्जामि ममत्तिं उवट्ठिदो णिम्ममत्तम्मि ॥ २०० ॥

तस्मात्तथा ज्ञात्वात्मानं ज्ञायकं स्वभावेन ।

परिवर्जयामि ममतामुपस्थितो निर्ममत्वे ॥ २०० ॥

टीकाः—सभी सामान्य चरमशरीरी, तीर्थकर और अचरमशरीरी मुमुक्षु इसी यथोक्त शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तिलक्षण विधिसे प्रवर्तमान मोक्षमार्गको प्राप्त करके सिद्ध हुये; किन्तु ऐसा नहीं है कि किसी दूसरी विधिसे भी सिद्ध हुये हों । इससे निश्चित होता है कि केवल यह एक ही मोक्षका मार्ग है, दूसरा नहीं । अधिक विस्तारसे पूरा पड़े । उस शुद्धात्मतत्त्वमें प्रवर्ते हुवे सिद्धोंको तथा उस शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तिरूप मोक्षमार्गको, जिसमेंसे 'भाव्य—भावकका विभाग अस्त होगया है ऐसा नोआगमभावनमस्कार हो ! (इसप्रकार) मोक्षमार्ग निश्चित किया है, (और उसमें) प्रवृत्ति कर रहे हैं ॥ १९६ ॥

अब, 'साम्यको प्राप्त करता हूँ' ऐसी (पाँचवीं गायामें की गई) पूर्व-प्रतिज्ञाका निर्वाह करते हुये (आचार्यदेव) स्वयं भी मोक्षमार्गभूत शुद्धात्मप्रवृत्ति करते हैं:—

गाथा २००

अन्वयार्थः—[तस्मात्] ऐसा होनेसे (अर्थात् शुद्धात्मामें प्रवृत्तिके द्वारा ही मोक्ष होता होनेसे) [तथा] इसप्रकार [आत्मानं] आत्माको [स्वभावेन ज्ञायकं]

१. भाव्य = ध्येय; भावक = ध्याता; भाव्य-भावकके अर्थके लिये देखो पृ० ८ में फुटनोट ।

अहमेष मोक्षाधिकारी ज्ञायकस्वभावात्मतत्त्वपरिज्ञानपुरस्सरममत्वनिर्ममत्वहानोपादान-विधानेन कृत्यान्तरस्याभावात्सर्वारम्भेण शुद्धात्मनि प्रवर्ते । तथाहि—अहं हि तावत् ज्ञायक एव स्वभावेन, केवलज्ञायकस्य च सतो मम विश्वेनापि सहजज्ञेयज्ञायकलक्षण एव संबन्धः न पुनरन्ये स्वस्वामिलक्षणादयः संबन्धाः । ततो मम न कचनापि ममत्वं सर्वत्र निर्ममत्वमेव । अथैकस्य ज्ञायकभावस्य समस्तज्ञेयभावस्वभावत्वात् प्रोत्कीर्णलिखितनिखातकीलितमजितसमा-

स्वभावसे ज्ञायक [ज्ञात्वा] जानकर [निर्ममत्वे उपस्थितः] मैं निर्ममत्वमें स्थित रहता हुआ [ममतां परिवर्जयामि] ममताका परित्याग करता हूँ ।

टीकाः—मैं यह मोक्षाधिकारी, ज्ञायकस्वभावी आत्मतत्त्वके परिज्ञानपूर्वक ममत्वकी त्यागरूप और निर्ममत्वकी ग्रहणरूप विधिके द्वारा सर्व आरम्भ (उद्यम) से शुद्धात्मामें प्रवृत्त होता हूँ, क्योंकि अन्य कृत्यका अभाव है । (अर्थात् दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं है ।) वह इसप्रकार है (अर्थात् मैं इसप्रकार शुद्धात्मामें प्रवृत्त होता हूँ) :—प्रथम तो मैं स्वभावसे ज्ञायक ही हूँ; केवल ज्ञायक होनेसे मेरा विश्व (समस्तपदार्थों) के साथ भी सहज ज्ञेयज्ञायकलक्षण सम्बन्ध ही है, किन्तु अन्य स्वस्वामिलक्षणादि सम्बन्ध नहीं हैं; इसलिये मेरा किसीके प्रति ममत्व नहीं है, सर्वत्र निर्ममत्व ही है ।

अब, एक ज्ञायकभावका समस्त ज्ञेयोंको जाननेका स्वभाव होनेसे क्रमशः प्रवर्तमान, अनन्त, भूत-वर्तमान-भावी विचित्रपर्यायसमूहवाले, अगाधस्वभाव और गम्भीर समस्त द्रव्यमात्रको—मानों वे द्रव्य ज्ञायकमें उत्कीर्ण हो गये हों, चित्रित हो गए हों, भीतर घुस गये हों, कीलित हो गये हों, डूब गये हों, समा गये हों, प्रतिविम्बित हुये हों, इसप्रकार—एक क्षणमें ही जो (शुद्धात्मा) प्रत्यक्ष करता है, ज्ञेयज्ञायकलक्षण संबंधकी अनिवार्यताके कारण ज्ञेय-ज्ञायकको भिन्न करना अशक्य होनेसे विश्वरूपताको प्राप्त होता हुआ भी जो (शुद्धात्मा) सहज अनन्तशक्तिवाले ज्ञायकस्वभावके द्वारा एकरूपताको नहीं छोड़ता, जो अनादि संसारसे इसी स्थितिमें (ज्ञायक भावरूप

१. जिनका स्वभाव अगाध है और जो गंभीर हैं, ऐसे समस्त द्रव्योंको भूत, वर्तमान तथा भावीकालके क्रमसे होनेवाली, अनेक प्रकारकी अनन्त पर्यायोंसे युक्त एक समयमें ही प्रत्यक्ष जानना आत्माका स्वभाव है ।

२. ज्ञेयज्ञायकस्वरूप सम्बन्ध टाला नहीं जासकता, इसलिये यह अशक्य है कि ज्ञेय ज्ञायकमें ज्ञात न हों, इसलिये आत्मा मानों समस्त द्रव्यरूपताको प्राप्त होता है ।

वर्तितप्रतिबिम्बितवत्तत्र क्रमप्रवृत्तानन्तभूतभवद्भाविविचित्रपर्यायप्राग्भारमगाधस्वभावं गम्भीरं
समस्तमपि द्रव्यजातमेकक्षण एव प्रत्यक्षयन्तं ज्ञेयज्ञायकलक्षणसंबन्धस्यानिवार्यत्वेनाशक्य-
विवेचनत्वादुपात्तवैश्वरूप्यमपि सहजानन्तशक्तिज्ञायकस्वभावेनैक्यरूप्यमनुज्झन्तमासंसारमनयैव
स्थित्या स्थितं मोहेनान्यथाभ्यवस्यमानं शुद्धात्मानमेष मोहमुत्खाय यथास्थितमेवातिनिःप्रकम्पः
संप्रतिपद्ये । स्वयमेव भवतु चास्यैवं दर्शनविशुद्धिमूलया सम्यग्ज्ञानोपयुक्ततयात्यन्तमव्याबाध-
रतत्वात्साधोरपि साक्षात्सिद्धभूतस्य स्वात्मनस्तथाभूतानां परमात्मनां च नित्यमेव तदेकपरा-
यणत्वलक्षणो भावनमस्कारः ॥ २०० ॥

* शालिनी छन्द *

जैनं ज्ञानं ज्ञेयतत्त्वप्रणोत्
स्फीतं शब्दब्रह्म सम्यग्विगाह्य ॥
संशुद्धात्मद्रव्यमात्रैकवृत्त्या
नित्यं युक्तैः स्वीयतेऽस्माभिरेवम् ॥ १० ॥

ही) रहा है, और जो मोहके द्वारा दूसरे रूपमें जाना—माना जाता है उस
शुद्धात्माको यह मैं मोहको उखाड़ फेंककर, अतिनिष्कम्प रहता हुआ यथास्थित
(जैसाका तैसा) ही प्राप्त करता हूँ ।

इसप्रकार दर्शनविशुद्धि जिसका मूल है ऐसी, सम्यग्ज्ञानमें उपयुक्तताके कारण
अत्यन्त अव्याबाध (निर्विघ्न) लीनता होनेसे, साधु होने पर भी साक्षात् सिद्धभूत
ऐसा यह निज आत्माको तथा तथाभूत (—सिद्धभूत) परमात्माओंको, 'उसीमें
एकपरायणता जिसका लक्षण है ऐसा भावनमस्कार सदा ही 'स्वयमेव हो ॥ २०० ॥

[अब श्लोकद्वारा जिनेन्द्रोक्त शब्दब्रह्मके सम्यक् अभ्यासका फल कहा जाता है] —

अर्थः—इसप्रकार जेयतत्त्वको समझनेवाले जैन ज्ञानमें—विशाल शब्दब्रह्म-
में—सम्यक्तया अवगाहन करके (डुबकी लगाकर, गहराईमें उतरकर निमग्न
होकर) हम मात्र शुद्ध आत्मद्रव्यरूप एक वृत्तिसे (परिणतिसे) सदा युक्त
रहते हैं ॥ १० ॥

१. उसीमें — नमस्कार करने योग्य पदार्थमें; भाव्यमें । [मात्र भाव्यमें ही परायण, एकाम, लीन
होना भावनमस्कारका लक्षण है ।]

२. स्वयमेव — [आचार्यदेव शुद्धात्मामें लीन होते हैं इसलिये स्वयमेव भावनमस्कार हो जाता है ।]

* शालिनी छन्द *

ज्ञेयीकुर्वन्नज्ञसासीमविश्वं
ज्ञानीकुर्वन् ज्ञेयमाक्रान्तभेदम् ।
आत्मीकुर्वन् ज्ञानमात्मान्यभासि
स्फूर्जत्यात्मा ब्रह्म संपद्य सद्यः ॥ ११ ॥

* वसन्ततिलका छन्द *

द्रव्यानुसारि चरणं चरणानुसारि
द्रव्यं मिथो द्वयमिदं ननु सव्यपेक्षम् ।
तस्मान्मुमुक्षुरधिरोहतु मोक्षमार्गं
द्रव्यं प्रतीत्य यदि वा चरणं प्रतीत्य ॥ १२ ॥

इति तत्त्वदीपिकायां प्रवचनसारवृत्तौ श्रीमदमृतचन्द्रसूरिविरचितायां ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापनो
नाम द्वितीयः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥ २ ॥

[अब श्लोकके द्वारा मुक्तात्माके ज्ञानकी महिमा गाकर ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापना-
धिकारकी पूर्णाहुति की जा रही है ।]:—

अर्थ:—आत्मा ब्रह्मको (परमात्मत्वको, सिद्धत्वको) शीघ्र प्राप्त करके
असीम (अनन्त) विश्वको शीघ्रतासे (एक समयमें) ज्ञेयरूप करता हुआ, भेदोंको
प्राप्त ज्ञेयोंको ज्ञानरूप करता हुआ (अनेक प्रकारके ज्ञेयोंको ज्ञानमें जानता हुआ)
और स्वपरप्रकाशक ज्ञानको आत्मारूप करता हुआ, प्रगट—दैदीप्यमान
होता है ॥ ११ ॥

[अब श्लोक द्वारा, द्रव्य और चरणका संबंध बतलाकर, ज्ञेयतत्त्वप्रज्ञापन
नामक द्वितीयाधिकारकी और चरणानुयोगसूचक चूलिका नामक तृतीयाधिकारकी
संधि बतलाई जाती है ।]:—

अर्थ:—चरण द्रव्यानुसार होता है और द्रव्य चरणानुसार होता है ।
इसप्रकार वे दोनों परस्पर सापेक्ष हैं; इसलिये या तो द्रव्यका आश्रय लेकर अथवा
तो चरणका आश्रय लेकर मुमुक्षु (ज्ञानी, मुनि) मोक्षमार्गमें आरोहण करो ।

इसप्रकार (श्रीमद् भगवत् कुन्दकुन्दाचार्यदेव प्रणीत) श्री प्रवचनसार शास्त्रकी
श्रीमदमृतचन्द्राचार्यदेवविरचित तत्त्वदीपिकानामक टीकाका यह 'ज्ञेयतत्त्व-प्रज्ञापन'
नामक द्वितीयश्रुतस्कंध (का भाषानुवाद) समाप्त हुआ ।



चरणानुयोगसूचक चूलिका

अथ परेषां चरणानुयोगसूचिका चूलिका ।

तत्र—

* इन्द्रवज्रा छन्द *

द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धिः

द्रव्यस्य सिद्धिश्चरणस्य सिद्धौ ।

बुद्ध्वेति कर्माविरताः परेऽपि

द्रव्याविरुद्धं चरणं चरंतु ॥ १३ ॥

इति चरणाचरणे परान् प्रयोजयति—

‘एस सुरासुरमणुसिद्वंदिदं धोदघाःकम्ममलं । पणमामि बहुमाणं तित्थं धम्मस्स

चरणानुयोगसूचक चूलिका

अब दूसरोंको चरणानुयोगकी सूचक चूलिका है ।

[उसमें, प्रथम श्री अमृतचन्द्राचार्यदेव श्लोकके द्वारा अब इस-आगामी गाथाकी उत्थानिका करते हैं ।]

[अर्थः—] द्रव्यकी सिद्धिमें चरणकी सिद्धि है, और चरणकी सिद्धिमें द्रव्यकी सिद्धि है,—यह जानकर, कर्मोंसे (शुभाशुभ भावोंसे) अविरत दूसरे भी, द्रव्यसे अविरुद्ध चरण (चारित्र) का आचरण करो ।

—इसप्रकार (श्रीमद् भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेव इस आगामी गाथाके द्वारा) दूसरोंको चरण (चारित्र) के आचरण करनेमें योजित करते (जोड़ते) हैं ।

१. चूलिका = जो शास्त्रमें नहीं कहा गया है, उसका व्याख्यान करना, अथवा कथितका विशेष व्याख्यान करना या दोनोंका यथायोग्य व्याख्यान करना ।

कचारं ॥ सेसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे विसुद्धसग्भावे । समणे य णाणदंसणचरित्तववीरि-
यायारे ॥ ते ते सव्वे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं । वंदामि य वट्ठंते अरहंते माणुसे खेत्ते ॥'

एवं पणमिय सिद्धे जिणवरवसहे पुणो पुणो समणे ।

पडिवज्जदु सामणणं जदि इच्छदि दुक्खपरिमोक्खं ॥ २०१ ॥

एवं प्रणम्य सिद्धान् जिनवरवृषभान् पुनः पुनः श्रमणान् ।

प्रतिपद्यतां श्रामण्यं यदीच्छति दुःखपरिमोक्षम् ॥ २०१ ॥

यथा ममात्मना दुःखमोक्षार्थिना, 'किञ्चा अरहंताणं सिद्धानं तह णमो गणहराणं ।
अज्झावयवग्गाणं साहूणं चेदि सव्वेसिं ॥ तेसिं विसुद्धदंसणणाणपहाणासमं समासेज्ज । उवसंप-

[अब गाथाके प्रारंभ करनेसे पूर्व उसकी संधिके लिये श्री अमृतचन्द्राचार्य
देवने पंच परमेष्ठीको नमस्कार करनेके लिये निम्नप्रकारसे ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापन
अधिकारकी प्रथम तीन गाथायें लिखी हैं:—

“एस सुरासुरमणुसिंदवंदिदंघोदघाइक्म्ममलं ।

पणमामि वड्डमाणं तित्थंभम्मस्स कचारं ॥

सेसे पुण तित्थयरे ससव्वसिद्धे विसुद्धसग्भावे ।

समखे य णाणदंसणचरित्तववीरियायारे ॥

ते ते सव्वे समगं समगं पत्तेगमेव पत्तेगं ।

वंदामि य वट्ठंते अरहंते माणुसे खेत्ते ॥”

[अब, इस अधिकारकी गाथा प्रारंभ करते हैं:—]

गाथा २०१

अन्वयार्थः—[यदि दुःखपरिमोक्षम् इच्छति] यदि दुःखोंसे परिमुक्त होनेकी
(छुटकारा पानेकी) इच्छा हो तो, [एवं] पूर्वोक्त प्रकारसे (ज्ञानतत्त्व-प्रज्ञापनकी
प्रथम तीन गाथाओंके अनुसार) [पुनः पुनः] बारंबार [सिद्धान्] सिद्धोंको,
[जिनवरवृषभान्] जिनवरवृषभोंको (अरहंतोंको) तथा [श्रमणान्] श्रमणोंको
[प्रणम्य] प्रणाम करके [श्रामण्यं प्रतिपद्यताम्] (जीव) श्रामण्यको अंगीकार करो ।

टीका:—जैसे दुःखोंसे मुक्त होनेके अर्थी मेरे आत्माने—“किञ्चा अरहंताणं सिद्धानं
तह णमो गणहराणं । अज्झावयवग्गाणं साहूणं चेदि सव्वेसिं ॥ तेसिं विसुद्धदंसणणाण-

१. यह, ज्ञानतत्त्वप्रज्ञापनकी चौथी और पाँचवीं गाथायें हैं ।

यामि सम्मं जत्तो णिव्वाणसंपत्ती ॥' इति अर्हस्सिद्धाचार्योपाध्यायसाधूनां प्रणतिवन्दनात्मक-
नमस्कारपुरःसरं विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधानं साम्यनाम श्रामण्यमवान्तरग्रन्थसन्दर्भोभयसंभावितसौ-
स्थित्यं स्वयं प्रतिपन्नं परेषामात्मापि यदि दुःखमोक्षार्थी तथा तत्प्रतिपद्यतां यथानुभूतस्य
तत्प्रतिपचिवर्त्मनः प्रणेतारो वयमिमे तिष्ठाम इति ॥ २०१ ॥

अथ श्रमणो भवितुमिच्छन् पूर्वं किं किं करोतीत्युपदिशति—

आपिच्छ बंधुवर्गं विमोचिदो गुरुकलत्तपुत्तेहिं ।

आसिज्ज एणदंसणचरित्तववीरियायारं ॥२०२॥

आपृच्छथ बन्धुवर्गं विमोचितो गुरुकलत्रपुत्रैः ।

आसाद्य ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारम् ॥ २०२ ॥

पहाणासमं समासेज्ज । उवसंपयामि सम्मं जत्तो णिव्वाणसंपत्ती ॥'—

इसप्रकार अर्हन्तों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों तथा साधुओंको 'प्रणाम—वन्दनात्मक
नमस्कारपूर्वक 'विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधान साम्यनामक श्रामण्यको—जिसका इस ग्रंथमें
कहे हुये (ज्ञानतत्व—प्रज्ञापन और ज्ञेयतत्व-प्रज्ञापन नामक) दो अधिकारोंकी रचना
द्वारा सुस्थितिपन हुआ है उसे—स्वयं अंगीकार किया, उसीप्रकार दूसरोंका आत्मा
भी, यदि दुःखोंसे मुक्त होनेका अर्थी (इच्छुक) हो तो, उसे अंगीकार करे । उस
(श्रामण्य) को अंगीकार करनेका जो 'यथानुभूत मार्ग है उसके प्रणेता हम यह खड़े
हुये हैं ॥ २०१ ॥

अब, श्रमण होनेका इच्छुक पहले क्या क्या करता है उसका उपदेश
करते हैं:—

गाथा २०२

अन्वयार्थः—(श्रामण्यार्थी) [बन्धुवर्गम् आपृच्छथ] बंधुवर्गसे विदा मांगकर
[गुरुकलत्रपुत्रैः विमोचितः] बड़ोंसे तथा स्त्री और पुत्रसे मुक्त होता हुआ [ज्ञानदर्शन-
चारित्रतपोवीर्याचारम् आसाद्य] ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और
वीर्याचारको अंगीकार करके.....

१. नमस्कार प्रणाम-वन्दनमय है । (विशेषके लिये देखो पृष्ठ १ का फुटनोट)

२. विशुद्धदर्शनज्ञानप्रधान = जिसमें विशुद्ध दर्शन और ज्ञान प्रधान है ऐसा । [साम्य नामक
श्रामण्यमें विशुद्ध दर्शन और ज्ञान प्रधान है ।]

३. यथानुभूत = जैसा (हमने) अनुभव किया है, वैसा ।

यो हि नाम श्रमणो भवितुमिच्छति स पूर्वमेव बन्धुवर्गमापृच्छते, गुरुकलत्रपुत्रेभ्य आत्मानं विमोचयति, ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारमासीदति । तथाहि—एवं बन्धुवर्गमापृच्छते, अहो इदंजनशरीरबन्धुवर्गवर्तिन आत्मानः, अस्य जनस्य आत्मा न किंचनापि युष्माकं भवतीति निश्चयेन पुर्यं जानीत तत आपृष्टा पुर्यं, अयमात्मा अद्योद्भिन्नज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादिबन्धुमृषसर्पति । अहो इदंजनशरीरजनकस्यात्मन्, अहो इदंजनशरीरजनन्या आत्मन्, अस्य जनस्यात्मा न युवाभ्यां जनितो भवतीति निश्चयेन युवां जानीतं तत इममात्मानं युवां विमुञ्चतं, अयमात्मा अद्योद्भिन्नज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादिजनकमृषसर्पति । अहो इदंजनशरीर-

टीकाः—जो श्रमण होना चाहता है वह पहले ही बंधुवर्गसे (सगे-संबंधियोंसे) विदा माँगता है, गुरुजनों (बड़ों) से तथा स्त्री और पुत्रोंसे अपनेको छोड़ता है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचारको अंगीकार करता है । वह इसप्रकार हैः—

बंधुवर्गसे इसप्रकार विदा लेता हैः—अहो ! इस पुरुषके शरीरके बंधुवर्गमें प्रवर्तमान आत्माओं ! इस पुरुषका आत्मा किंचित्मात्र भी तुम्हारा नहीं है,— इसप्रकार तुम निश्चयसे जानो । इसलिये मैं तुमसे विदा लेता हूँ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्मारूपी अपने अनादिबंधुके पास जा रहा है ।

अहो ! इस पुरुषके शरीरके जनक (पिता) के आत्मा ! अहो ! इस पुरुषके शरीरकी जननी (माता) के आत्मा ! इस पुरुषका आत्मा तुम्हारे द्वारा जनित (उत्पन्न) नहीं है, ऐसा तुम निश्चयसे जानो । इसलिये तुम इस आत्माको छोड़ो । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह आत्मा आज आत्मारूपी अपने अनादिजनकके पास जा रहा है ।

अहो ! इस पुरुषके शरीरकी रमणी (स्त्री) के आत्मा ! तू इस पुरुषके आत्माको रमण नहीं कराता, ऐसा तू निश्चयसे जान । इसलिये तू इस आत्माको छोड़ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह आत्मा आज अपनी स्वानुभूतिरूपी अनादि-रमणीके पास जा रहा है ।

अहो ! इस पुरुषके शरीरके पुत्रके आत्मा ! तू इस पुरुषके आत्माका जन्य (उत्पन्न किया गया,—पुत्र) नहीं है, ऐसा तू निश्चयसे जान । इसलिये तू इस आत्माको छोड़ । जिसे ज्ञानज्योति प्रगट हुई है ऐसा यह आत्मा आज आत्मारूपी

रमण्या आत्मन्, अस्य जनस्यात्मानं न त्वं रमयसीति निश्चयेन त्वं जानीहि तत इममात्मानं विमुञ्च, अयमात्मा अद्योद्भिन्नज्ञानज्योतिः स्वानुभूतिमेवात्मनोऽनादिरमणीयुपसर्पति । अहो इदंजनशरीरपुत्रस्यात्मन्, अस्य जनस्यात्मनो न त्वं जन्यो भवसीति निश्चयेन त्वं जानीहि तत इममात्मानं विमुञ्च, अयमात्मा अद्योद्भिन्नज्ञानज्योतिः आत्मानमेवात्मनोऽनादिजन्यमुपसर्पति । एवं गुरुकलत्रपुत्रेभ्य आत्मानं विमोचयति । तथा अहोकालविनयोपधानबहुमानानिह्ववार्ध-व्यञ्जनतदुभयसंपन्नत्वलक्षणज्ञानाचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानमुपलभे । अहो निःशंकितत्वनिःकाङ्क्षितत्व-अपने अनादि जन्यके पास जा रहा है । इसप्रकार बड़ोंसे स्त्रीसे और पुत्रसे अपनेको छुड़ाता है ।

(यहाँ ऐसा समझना चाहिये कि जो जीव मुनि होना चाहता है वह कुटुम्बसे सर्वप्रकारसे विरक्त ही होता है । इसलिये कुटुम्बकी सम्मतिसे ही मुनि होनेका नियम नहीं है । इसप्रकार कुटुम्बके भरोसे रहने पर तो,—यदि कुटुम्ब किसीप्रकारसे सम्मति ही नहीं दे तो मुनि ही नहीं हुआ जासकेगा ! इसप्रकार कुटुम्बको सम्मत करके ही मुनित्वके धारण करनेका नियम न होने पर भी कुछ जीवोंके मुनि होनेसे पूर्व वैराग्यके कारण कुटुम्बको समझानेकी भावनासे पूर्वोक्त प्रकारके वचन निकलते हैं । ऐसे वैराग्यके वचन सुनकर, कुटुम्बमें यदि कोई अल्पसंसारी जीव हो तो वह भी वैराग्यको प्राप्त होता है ।)

(अब निम्नप्रकारसे पंचाचारको अंगीकार करता हैः)

(जिसप्रकार बंधुवर्गसे विदा ली, अपनेको बड़ोंसे और स्त्री पुत्रसे छुड़ाया) उसीप्रकार—अहो काल, विनय, उपधान, बहुमान, अनिह्वव, अर्थ, व्यञ्जन और तदुभयसंपन्न ज्ञानाचार ! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ कि तू शुद्धात्माका नहीं है; तथापि मैं तुझे तभी तक अंगीकार करता हूँ जबतक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध कर लूँ । अहो निःशंकितत्व, निःकाङ्क्षितत्व, निर्विचिकित्सत्व, निर्मूढदृष्टित्व, उपबृंहण, स्थितिकरण, वात्सल्य, और प्रभावनास्वरूप दर्शनाचार ! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ कि तू शुद्धात्माका नहीं है, तथापि तुझे तबतक अंगीकार करता हूँ जब तक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध कर लूँ । अहो मोक्षमार्गमें प्रवृत्तिके कारणभूत, पंचमहाव्रत-सहित काय-वचन-मनगुप्ति और ईर्या-भाषा-एषण-आदाननिक्षेपण-प्रतिष्ठापन समिति-स्वरूप चारित्राचार ! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ कि तू शुद्धात्माका नहीं है, तथापि तुझे तबतक अंगीकार करता हूँ जबतक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध कर लूँ ।

निर्विचिकित्सत्वनिर्मूढदृष्टित्वोपवृंहणस्थितिकरणवात्सन्न्यप्रभावनालक्षणदर्शनाचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत् त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानमुपलभे । अहो मोक्षमार्गप्रवृत्तिकारणपञ्चमहाव्रतोपेतकायनाडूमनोगुसीर्याभाषणादाननिक्षेपणप्रतिष्ठापनसमितिलक्षणचारित्राचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानमुपलभे । अहो अनशनावमौदर्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशप्रायश्चित्तविनयवैयावृत्यस्वाध्यायध्यानव्युत्सर्गलक्षणतपाआचार, न शुद्धस्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्त्वत्प्रसादात् शुद्धमात्मानमुपलभे । अहो समस्तेतराचारप्रवर्तकस्वशक्त्यनिगूहनलक्षणवीर्याचार, न शुद्ध-

अहो अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन, कायक्लेश, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्गस्वरूप तपाचार ! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ कि तू शुद्धात्मा नहीं है तथापि तुझे तबतक अंगीकार करता हूँ जबतक तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध कर लूँ ! अहो समस्त इतर (वीर्याचारके अतिरिक्त अन्य) आचारमें प्रवृत्ति करानेवाली स्वशक्तिके अगोपनस्वरूप वीर्याचार ! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ कि तू शुद्धात्माका नहीं है, तथापि तुझे तबतक अंगीकार करता हूँ जबतक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माको उपलब्ध कर लूँ ।—इसप्रकार ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्र्याचार, तपाचार तथा वीर्याचारको अंगीकार करता है ।

(सम्यग्दृष्टि जीव अपने स्वरूपको जानता है—अनुभव करता है, और अपनेको अन्य समस्त व्यवहारभावोंसे भिन्न जानता है । जबसे उसे स्व-परका विवेकस्वरूप भेद विज्ञान प्रगट हुआ था तभी से वह समस्त विभावभावोंका त्याग कर चुका है और तभीसे उसने टंकोत्कीर्ण निजभाव अंगीकार किया है । इसलिये उसे न तो त्याग करनेको रहा है और न कुछ ग्रहण करनेको—अंगीकार करनेको रहा है । स्वभावदृष्टिकी अपेक्षासे ऐसा होने पर भी, वह पर्यायमें पूर्वबद्धकर्माके उदयके निमित्तसे अनेक प्रकारके विभावभावरूप परिणमित होता है । इस विभावपरिणतिको पृथक् होती न देखकर वह आकुल-व्याकुल भी नहीं होता, और वह सकल विभाव परिणतिको दूर करनेका पुरुषार्थ किये बिना भी नहीं रहता । सकल विभाव परिणतिसे रहित स्वभावदृष्टिके बलस्वरूप पुरुषार्थसे गुणस्थानोंकी परिपाटीके सामान्य क्रमानुसार उसके प्रथम अशुभपरिणतिकी हानि होती है, और फिर धीरे धीरे शुभपरिणति भी छूटती जाती है । ऐसा होनेसे वह शुभरागके उदयकी भूमिकामें गृहवासका और

स्यात्मनस्त्वमसीति निश्चयेन जानामि तथापि त्वां तावदासीदामि यावत्स्वप्नसादात् शुद्धमात्मानमुपलभे । एवं ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्याचारमासीदति च ॥ २०२ ॥

अथातः कीदृशो भवतीत्युपदिशति—

समणं गणिं गुणड्यं कूलरूपवयोविशिष्टमिष्टदरं ।

समणेहि तं पि प्रणतो पडिच्छ मं चेदि अणुगहिदो ॥ २०३ ॥

श्रमणं गणिं गुणाढ्यं कूलरूपवयोविशिष्टमिष्टदरम् ।

श्रमणैस्तमपि प्रणतः प्रतीच्छ मां चेत्पनुग्रहीतः ॥ २०३ ॥

ततो हि श्रामण्यार्थी प्रणतोऽनुग्रहीतश्च भवति । तथाहि—आचरिताचारितसमस्तविरति-प्रवृत्तिसमानात्मरूपश्रामण्यत्वात् श्रमणं, एवंविधश्रामण्याचरणाचारणप्रवीणत्वात् गुणाढ्यं,

कुटुम्बका त्यागी होकर व्यवहाररत्नत्रयरूप पंचाचारको अंगीकार करता है । यद्यपि वह ज्ञानभावसे समस्त शुभाशुभ क्रियाओंका त्यागी है तथापि पर्यायमें शुभराग नहीं छूटनेसे वह पूर्वोक्तप्रकारसे पंचाचारको ग्रहण करता है ।) ॥ २०२ ॥

इसके बाद वह कैसा है इसका उपदेश करते हैं:—

गाथा २०३

अन्वयार्थः—[श्रमणं] जो श्रमण है, [गुणाढ्यं] गुणाढ्य है, [कूलरूपवयो विशिष्टं] कूल, रूप तथा वयसे विशिष्ट है, और [श्रमणैः इष्टदरं] श्रमणोंको अस्ति इष्ट है [तम् अपि गणिं] ऐसे गणीको [माम् प्रतीच्छ इति] 'मुझे स्वीकार करो' ऐसा कहकर [प्रणतः] प्रणत होता है (प्रणाम करता है) [च] और [अनुग्रहीतः] अनुग्रहीत होता है ।

टीका:—पश्चात् श्रामण्यार्थी प्रणत और अनुग्रहीत होता है । वह इसप्रकारसे है कि—आचरण करनेमें और आचरण करानेमें आनेवाली समस्त विरतिकी प्रवृत्तिके 'समान आत्मरूप-ऐसे श्रामण्यपनेके कारण जो 'श्रमण' है; ऐसे श्रामण्यका आचरण करनेमें और आचरण करानेमें प्रवीण होनेसे जो 'गुणाढ्य' है; सर्वलौकिकजनोंके द्वारा निःशंकतया सेवा करने योग्य होनेसे और कुलक्रमागत क्रूरतादि दोषोंसे रहित होनेसे जो 'कुलविशिष्ट' है; अंतरंग शुद्धरूपका अनुमान करानेवाला बहिरंग शुद्धरूप

१. समान=तुल्य, बराबर, एकसा, मिलता हुआ । [विरतिकी प्रवृत्तिके तुल्य आत्माका रूप अर्थात् विरतिकी प्रवृत्तिसे मिलती हुई—समान जो आत्मदशा है सो श्रामण्य है ।]

सकललौकिकजननिःशङ्कसेवनीयत्वात् कुलक्रमागतकौर्यादिदोषवर्जितत्वाच्च कुलविशिष्टं, अन्तरङ्ग-
शुद्धरूपानुमापकबहिरङ्गशुद्धरूपत्वात् रूपविशिष्टं, शैशववार्धक्यकृतबुद्धिविकलवताभावाद्यौवनो-
द्रेकविक्रियाविविक्तबुद्धित्वाच्च वयोविशिष्टं, निःशेषितवथोक्तश्रामण्याचरणोपलब्धिषयपौरुषेय-
दोषत्वेन मुमुक्षुभिरभ्युपगततरत्वात् श्रमणैरिष्टतरं च गणिनं शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसाधकमाचार्यं
शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसिद्ध्या मामनुगृहाणेत्युपसर्पन् प्रणतो भवति । एवमियं ते शुद्धात्मतत्त्वोप-
लम्भसिद्धिरिति तेन प्रार्थितार्थेन संयुज्यमानोऽनुगृहीतो भवति ॥ २०३ ॥

अथातोऽपि कीदृशो भवतीत्युपदिशति—

णाहं हांमि परंमिं ण मे परं णत्थि मज्झमिह किंचि ।

इदि णिच्छिदो जिदिदो जादो जधजादरूपधरो ॥ २०४ ॥

नाहं भवामि परेषां न मे परं नास्ति ममेह किंचित् ।

इमि निश्चितो जितेन्द्रियः जातो यथाजातरूपधरः ॥ २०४ ॥

होनेसे जो 'रूपविशिष्ट' है, बालकत्व और वृद्धत्वसे होनेवाली 'बुद्धिविकलवताका अभाव होनेसे तथा 'यौवनोद्रेककी विक्रियामे रहित बुद्धि होनेसे जो 'वय विशिष्ट' है; और यथोक्त श्रामण्याका आचरण करने तथा आचरण कराने सम्बन्धी 'पौरुषेय दोषोंको निःशेषतया नष्ट कर देनेसे मुमुक्षुओंके द्वारा (प्रायश्चित्तादिके लिये) जिनका बहुआश्रय लिया जाता है इसलिये जो 'श्रमणोंको अतिइष्ट' है, ऐसे गणीके निकट— शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धिके साधक आचार्यके निकट—'शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धिरूप सिद्धि-से मुझे अनुगृहीत करो' ऐसा कहकर (श्रामण्यार्थी) जाता हुआ प्रणत होता है । 'इसप्रकार यह तुझे शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धिरूप सिद्धि' ऐसा (कहकर) उस गणीके द्वारा (वह श्रामण्यार्थी) 'प्रार्थित अर्थसे संयुक्त किया जाता हुआ अनुगृहीत होता है ॥ २०३ ॥

और फिर वह कैसा होता है, सो उपदेश करते हैं:—

गाथा २०४

अन्वयार्थः—[अहं] मैं [परेषां] दूसरोंका [न भवामि] नहीं हूँ [परे मे न] पर मेरे नहीं हैं, [इह] इस लोकमें [मम] मेरा [किंचित्] कुछ भी [न अस्ति]

१. विकलवता = अस्थिरता; विकलता ।

२. यौवनोद्रेक = यौवनका जोश, यौवनकी अतिशयता ।

३. पौरुषेय = मनुष्यके लिये संभवित ।

४. प्रार्थित अर्थ = प्रार्थना करके मांगी गई वस्तु ।

ततोऽपि श्रामण्यार्थी यथाजातरूपधरो भवति । तथाहि—अहं तावन्न किञ्चिदपि परेषां भवामि परेऽपि न किञ्चिदपि मम भवन्ति, सर्वद्रव्याणां परैः सह तत्त्वतः समस्तसंबन्धशून्यत्वात् । तदिह षड्द्रव्यात्मके लोके न मम किञ्चिदप्यात्मनोऽन्यदस्तीति निश्चितमतिः परद्रव्यस्वस्वामिसंबन्धनिबंधनानामिन्द्रियनोइन्द्रियाणां जयेन जितेन्द्रियश्च सन् धृतयथानिष्पन्नात्मद्रव्यशुद्धरूपत्वेन यथाजातरूपधरो भवति ॥ २०४ ॥

अथैतस्य यथाजातरूपधरत्वस्यासंसारानभ्यस्तत्त्वेनात्यन्तमप्रसिद्धस्याभिनवाभ्यासकौशलोपलभ्यमानायाः सिद्धेर्गमकं बहिरङ्गान्तरङ्गलिङ्गद्वैतमुपदिशति—

जधजादरूवजादं उप्पाडिदकेसमंमुगं मुद्रं ।

रहिदं हिमादीदो अप्पाडिकम्मं हवदि लिंगं ॥ २०५ ॥

मुच्छारंभविजुत्तं जुत्तं उवजोगजांगमुद्वीहिं ।

लिंगं ए परावेक्खं अपुण्णम्भवकारणं जेगहं ॥२०६॥ [जुगलं]

नहीं है,—[इति निश्चितः] ऐसा निश्चयवान् और [जितेन्द्रियः] जितेन्द्रिय होता हुआ [यथाजातरूपधरः] यथाजातरूपधर (सहजरूपधारी) [जातः] होता है ।

टीकाः—और फिर तत्पश्चात् श्रामण्यार्थी 'यथाजातरूपधर होता है । वह इसप्रकार किः—'प्रथम तो मैं किञ्चित्मात्र भी परका नहीं हूँ, पर भी किञ्चित्मात्र मेरे नहीं हैं, क्योंकि समस्त द्रव्य तत्त्वतः परके साथ समस्त सम्बन्धरहित हैं; इसलिये इस षड्द्रव्यात्मकलोकमें आत्मासे अन्य कुछ भी मेरा नहीं है;—इसप्रकार निश्चित मतिवाला (वर्तता हुआ) और परद्रव्योंके साथ स्व-स्वामि संबंध जिनका आधार है ऐसी इन्द्रियों और नो-इन्द्रियोंके जयसे जितेन्द्रिय होता हुआ वह (श्रामण्यार्थी) आत्मद्रव्यका यथानिष्पन्न शुद्धरूप धारण करनेसे यथाजातरूपधर होता है ॥ २०४ ॥

अब, अनादि संसारसे अनभ्यस्त होनेसे जो अत्यन्त अप्रसिद्ध है और अभिनव अभ्यासमें कौशल्यद्वारा जिसकी सिद्धि उपलब्ध होती है ऐसे इस यथाजातरूपधरत्वके बहिरंग और अंतरंग दो लिंगोंका उपदेश करते हैंः—

१. यथाजातरूपधर = (आत्माका) जैसा, मूलभूत रूप है वैसा (सहज, स्वाभाविक) रूप धारण करनेवाला ।

२. तत्त्वतः = वास्तवमें; तत्त्वकी दृष्टिसे; परमार्थतः ।

३. यथानिष्पन्न = जैसा बना हुआ है वैसा; जैसा मूलभूत है वैसा, सहज, स्वाभाविक ।

४. अभिनव = बिलकुल नया । (अनादि संसारसे अनभ्यस्त यथाजातरूपधरपना अभिनव अभ्यासमें प्रवीणताके द्वारा सिद्ध होता है ।)

यथाजातरूपजातमुत्पाटितकेशश्मश्रुकं शुद्धम् ।
रहितं हिंसादितोऽप्रतिकर्म भवति लिङ्गम् ॥ २०५ ॥
मूर्च्छारम्भवियुक्तं युक्तमुपयोगयोगशुद्धिभ्याम् ।
लिङ्गं न परापेक्षमपुनर्भवकारणं जैनम् ॥ २०६ ॥ [युगलम्]

आत्मनो हि तावदात्मना यथोदितक्रमेण यथाजातरूपधरस्य जातस्यायथाजातरूपधरत्वप्रत्य-
यानां मोहरागद्वेषादिभावानां भवत्येवाभावः, तद्भावानु तद्भावभाविनो निवसनभूषणधारणस्य मूर्ध-
जन्यञ्जनपालनस्य सर्किचनत्वस्य सावद्ययोगयुक्तत्वस्य शरीरसंस्कारकरणत्वस्य चाभावाद्यथा-

गाथा २०५-२०६

अन्वयार्थः—[यथाजातरूपजातम्] जन्म समयके रूप जैसा रूपवाला,
[उत्पाटितकेशश्मश्रुकं] सिर और डाढ़ी-मूछके बालोंका लोंच किया हुआ, [शुद्धं]
शुद्ध (अकिंचन), [हिंसादितः रहितम्] हिंसादिसे रहित और [अप्रतिकर्म] प्रतिकर्म
(शारीरिक शृंगार) से रहित—[लिङ्गं भवति] लिङ्ग (श्रामण्यका बहिरंग
चिह्न) है ।

[मूर्च्छारम्भवियुक्तम्] मूर्च्छा (ममत्व) और आरम्भ रहित, [उपयोग-
योगशुद्धिभ्यां युक्तं] उपयोग और योगकी शुद्धिसे युक्त तथा [न परापेक्षं] परकी
अपेक्षासे रहित—ऐसा [जैनं] जिनेन्द्रदेवकथित [लिङ्गम्] (श्रामण्यका अंतरंग)
लिङ्ग है, [अपुनर्भवकारणम्] जो कि मोक्षका कारण है ।

टीकाः—प्रथम तो अपनेसे, यथोक्तक्रमसे 'यथाजातरूपधर हुवे आत्माके
'अयथाजातरूपधरत्वके कारणभूत मोहरागद्वेषादिभावोंका अभाव होता ही है; और
उनके अभावके कारण, जो कि उनके सद्भावमें होते हैं ऐसे (१) वस्त्राभूषणका
धारण, (२) सिर और डाढ़ी मूछोंके बालोंका रक्षण, (३) सर्किचनत्व, (४)
सावद्ययोगसे युक्तता तथा (५) शारीरिक संस्कारका करना, इन (पाँचों) का
अभाव होता है; जिससे (उस आत्माके) (१) जन्म समयके रूप जैसा रूप, (२)
सिर और डाढ़ी मूछके बालोंका लोंच, (३) शुद्धत्व, (४) हिंसादिरहितता, तथा

१. यथाजातरूपधर = (आत्माका) सहजरूप धारण करनेवाला ।

२. अयथाजातरूपधर = (आत्माका) असहजरूप धारण करनेवाला ।

३. सर्किचन = जिसके पास कुछ भी (परिग्रह) हो ऐसा;

जातरूपत्वमुत्पाटितकेशरमश्रुत्वंशुद्धत्वं हिंसादिरहितत्वमप्रतिकर्मत्वं च भवत्येव, तदेतद्ग्रहिरंगं लिंगम् । तथात्मनो यथाजातरूपधरत्वापसारितायथाजातरूपधरत्वप्रत्ययमोहरागद्वेषादिभावानामभावादेव तद्भावभाविनोममत्वकर्मप्रक्रमपरिणामस्य शुभाशुभोपरक्तोपयोगतत्पूर्वकतथाविधयोगाशुद्धियुक्तत्वस्य परद्रव्यसापेक्षत्वस्य चाभावान्मूर्च्छारम्भविद्युक्तत्वमुपयोगयोगशुद्धियुक्तत्वमपरापेक्षत्वं च भवत्येव, तदेतदन्तरंगं लिंगम् ॥ २०५ । २०६ ॥

अथैतदुभयलिंगमादायैतदेतत्कृत्वा च श्रमणो भवतीति भवतिक्रियायां बन्धुवर्गप्रच्छन्न-क्रियादिशेषसकलक्रियाणां चैककर्तृकत्वमुद्योतयन्नियता श्रामण्यप्रतिपत्तिर्भवतीत्युपदिशति—

आदाय तं पि लिंगं गुरुणा परमेण तं णमंसित्ता ।

सोच्चा सवदं किरियं उवड्ढिदो होदि सो समणो ॥ २०७ ॥

(५) अप्रतिकर्मत्व (शारीरिक शृंगार-संस्कारका अभाव) होता ही है । इसलिये यह वहिरंग लिंग है ।

और फिर, आत्माके यथाजातरूपधरत्वसे दूर किया गया जो अथथाजातरूपधरत्व, उसके कारणभूत मोहरागद्वेषादि भावोंका अभाव होनेसे ही जो उनके सद्भावमें होते हैं ऐसे जो (१) ममत्वके और ^१कर्मप्रक्रमके परिणाम, (२) शुभाशुभ उपरक्त उपयोग और ^२तत्पूर्वक तथाविध योगकी अशुद्धिसे युक्तता, तथा (३) परद्रव्यसे सापेक्षत्व; इस (तीनों) का अभाव होता है; इसलिये (उस आत्माके) (१) मूर्च्छा और आरम्भसे रहितता, (२) उपयोग और योगकी शुद्धिसे युक्तता, तथा (३) परकी अपेक्षासे रहितता होती ही है । इसलिये यह अंतरंग लिंग है ॥ २०५—२०६ ॥

अब (श्रामण्यार्थी) इन दोनों लिंगोंको ग्रहण करके, और इतना-इतना करके श्रमण होता है,—इसप्रकार ^३भवतिक्रियामें, बंधुवर्गसे विदा लेनेरूप क्रियासे लेकर शेष सभी क्रियाओंका एक कर्ता दिखलाते हुये, इतनेसे (अर्थात् इतना करनेसे) श्रामण्यकी प्राप्ति होती है, यह उपदेश करते हैं:—

१. कर्मप्रक्रम = कामको अपन ऊपर लेना; काममें युक्त होना, कामकी व्यवस्था ।

२. तत्पूर्वक = उपरक्त (मलिन) उपयोगपूर्वक;

३. भवतिक्रिया = होनेरूप क्रिया ।

आदाय तदपि लिंगं गुरुणा परमेण तं नमस्कृत्य ।

श्रुत्वा सव्रतां क्रियाद्युपस्थितो भवति स श्रमणः ॥ २०७ ॥

ततोऽपि श्रमणो भवितुमिच्छन् लिंगद्वैतमादत्ते गुरुं नमस्यति व्रतक्रिये श्रृणोति अथो-
पतिष्ठते उपस्थितश्च पर्याप्तश्रामण्यसामग्रीकः श्रमणो भवति । तथाहि—तत इदं यथाजातरूपधर-
त्वस्य गमकं बहिरंगमन्तरंगमपि लिंगं प्रथममेव गुरुणा परमेणार्हद्भट्टारकेण तदात्वे च दीक्षा-
चार्येण तदादानविधानप्रतिपादकत्वेन व्यवहारतो दीयमानत्वाद्दत्तमादानक्रियया संभाव्य तन्मयो
भवति । ततो भाव्यभावकभावप्रवृत्तेतरेतरसंबलनप्रत्यस्तमितस्वपरविभागत्वेन दत्तसर्वस्वमूलोत्तर

गाथा २०७

अन्वयार्थः—[परमेण गुरुणा] परम गुरुके द्वारा प्रदत्त [तदपि लिंगम्] उन
दोनों लिंगोंको [आदाय] ग्रहण करके, [तं नमस्कृत्य] उन्हें नमस्कार करके [सव्रतां
क्रियां श्रुत्वा] व्रत सहित क्रियाको सुनकर [उपस्थितः] उपस्थित (आत्माके समीप
स्थित) होता हुआ [सः] वह [श्रमणः भवति] श्रमण होता है ।

टीकाः—तत्पश्चात् श्रमण होनेका इच्छुक दोनों लिंगोंको ग्रहण करता है,
गुरुको नमस्कार करता है, व्रत तथा क्रियाको सुनता है और उपस्थित होता है; तथा
उपस्थित होता हुआ श्रामण्यकी सामग्री पर्याप्त (परिपूर्ण) होनेसे श्रमण होता है ।
वह इसप्रकारसे कि—

परमगुरु—प्रथम ही अर्हत भट्टारक और उस समय (दीक्षा कालमें)
दीक्षाचार्य—, इस यथाजातरूपधरत्वके सूचक बहिरंग तथा अंतरंग लिंगके ग्रहणकी-
विधिके प्रतिपादक होनेसे, व्यवहारसे उस लिंगके देनेवाले हैं । इसप्रकार उनके द्वारा
दिये गये उन लिंगोंको ग्रहण क्रियाके द्वारा संभावित-सम्मानित करके (श्रामण्यार्थी)
तन्मय होता है । और फिर जिन्होंने सर्वस्व दिया है ऐसे 'मूल और उत्तर परमगुरुको,
भाव्यभावकताके कारण प्रवर्तित *इतरेतरमिलनके कारण जिसमेंसे स्वपरका
विभाग अस्त होगया है ऐसी नमस्कार क्रियाके द्वारा संभावित करके—सम्मानित
करके ^३भावस्तुति वन्दनामय होता है । पश्चात् सर्व सावद्ययोगके प्रत्याख्यानस्वरूप

१. मूल परमगुरु अर्हन्तदेव तथा उत्तरपरमगुरु दीक्षाचार्यके प्रति अत्यन्त आराध्यभावके कारण आगध्य परमगुरु और आराधक निजका भेद अस्त होजाता है ।
२. भाव्य और भावकके अर्थके लिये देखो पृष्ठ ६ का पाद टिप्पण ।
- * इसका स्पष्टीकरण प्रथमकी ५ गाथाओंके टिप्पण पत्र में देखिये;
३. भावस्तुतिवन्दनामय = भावस्तुतिमय और भाववन्दनामय ।

परमगुरुनमस्क्रियया संभाव्य भावस्तववन्दनामयो भवति । ततः सर्वसावद्ययोगप्रत्याख्यानलक्षणै-
कमहाव्रतश्रवणात्मना श्रुतज्ञानेन समये भवन्तमात्मानं जानन् सामायिकमधिरोहति । ततः प्रति-
क्रमणालोचनप्रत्याख्यानलक्षणक्रियाश्रवणात्मना श्रुतज्ञानेन त्रैकालिककर्मभ्यो विविच्यमान-
मात्मानं जानन् अतीतप्रत्युपन्नानुपस्थितकायवाङ्मनःकर्मविविक्तत्वमधिरोहति । ततः समस्तावद्य-
कर्मायतनं कायमुत्सृज्य यथाजातरूपं स्वरूपमेकमेकाग्रेणालम्ब्य व्यवतिष्ठमान उपस्थितो भवति,
उपस्थितस्तु सर्वत्र समदृष्टित्वात्साक्षाच्छ्रमणो भवति ॥ २०७ ॥

अथाविच्छिन्नसामायिकाधिरूढोऽपि श्रमणः कदाचिच्छेदोपस्थापनमर्हतीत्युपदिशति—

वदसमिदिंदियरोधो लोचावस्सयमचेलमणहाणं ।

खिदिसयणमदंतवणं ठिदिभोयणमेगभत्तं च ॥ २०८ ॥

एदे खलु मूलगुणा समणाणं जिणवरेहिंपरणत्ता ।

तेसु पमत्तां ममणां वेदोवट्टावगां हांदि ॥ २०९ ॥ [जुम्मं]

एक महाव्रतको सुननेरूप श्रुतज्ञानके द्वारा समयमें परिणमित होते हुये आत्माको जानता हुआ 'सामायिकमें' आरूढ़ होता है । पश्चात् प्रतिक्रमण-आलोचना-प्रत्याख्यान-स्वरूप 'क्रियाको सुननेरूप श्रुतज्ञानके द्वारा त्रैकालिक कर्मोंसे भिन्न किये जानेवाले आत्माको जानता हुआ, अतीत-अनागत-वर्तमान, मन-वचन-काय संबंधी कर्मोंसे विविक्तता (भिन्नता) में आरूढ़ होता है । पश्चात् समस्त सावद्य कर्मोंके 'आयतनभूत कायका उत्सर्ग (उपेक्षा) करके यथाजातरूपवाले स्वरूपको, एकको एकाग्रतया अवलम्बित करके रहता हुआ उपस्थित होता है । और उपस्थित होता हुआ, सर्वत्र समदृष्टित्वके कारण साक्षात् श्रमण होता है ॥ २०७ ॥

अविच्छिन्न सामायिकमें आरूढ़ हुआ होने पर भी श्रमण कदाचित् छेदोप-स्थापनाके योग्य है, सो यह कहते हैं:—

१. समयमें (आत्मद्रव्यमें, निजद्रव्य स्वभावमें) परिणमित होना सो सामायिक है ।

२. अतीत वर्तमान अनागत काय-वचन मन संबंधी कर्मोंसे भिन्न निजशुद्धात्मपरिणति वो प्रतिक्रमण-आलोचना-प्रत्याख्यानरूप क्रिया है ।

३. आयतन = स्थान, निवास;

व्रतसमितीन्द्रियरोधो लोचावश्यकमचेलमस्नानम् ।

भित्तिशयनमदन्तधावनं स्थितिभोजनमेकभक्तं च ॥ २०८ ॥

एते खलु मूलगुणाः श्रमणानां जिनवरैः प्रज्ञप्ताः ।

तेषु प्रमत्तः श्रमणः छेदोपस्थापको भवति ॥ २०९ ॥ [युगम्]

सर्वसावद्ययोगप्रत्याख्यानलक्षणैकमहाव्रतव्यक्तिवशेन हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहविरत्यात्मकं पञ्चतयं व्रतं तत्परिकरश्च पञ्चतयी समितिः पञ्चतय इन्द्रियरोधो लोचः षट्त्तयमावश्यकमचेलक्य-
मस्नानं भित्तिशयनमदन्तधावनं स्थितिभोजनमेकभक्तश्चैवं एते निर्विकल्पसामायिकसंयमविकल्प-
त्वात् श्रमणानां मूलगुणा एव । तेषु यदा निर्विकल्पसामायिकसंयमाधिरूढत्वेनानभ्यस्तविकल्प-
त्वात्प्रमाद्यति तदा केवलकल्याणमाशार्थिनः कुण्डलबलायांगुलीयादिपरिग्रहः किल श्रेयान्, न

गाथा २०८-२०९

अन्वयार्थः—[व्रतसमितीन्द्रियरोधः] व्रत, समिति, इन्द्रियरोध, [लोचावश्यकम्]
लोच, आवश्यक, [अचेलम्] अचेलत्व, [अस्नानं] अस्नान, [भित्तिशयनम्] भूमिशयन,
[अदन्तधावनं] अदन्तधावन, [स्थितिभोजनम्] खड़े खड़े भोजन, [च] और [एकभक्तं]
एकबार आहार-[एते] यह [खलु] वास्तवमें [श्रमणानां मूलगुणाः] श्रमणोंके
मूलगुण [जिनवरैः प्रज्ञप्ताः] जिनवरोंने कहे हैं; [तेषु] उनमें [प्रमत्तः] प्रमत्त होता
हुआ [श्रमणः] श्रमण [छेदोपस्थापकः भवति] छेदोपस्थापक होता है ।

टीकाः—सर्व सावद्ययोगके प्रत्याख्यानस्वरूप एक महाव्रतकी व्यक्तिर्ण
(विशेषों, प्रगटताएँ) होनेसे हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रहकी विरति-
स्वरूप पांचप्रकारके व्रत तथा उसकी 'परिकरभूत पाँच प्रकारकी समिति, पांचप्रकारका
इन्द्रियरोध, लोच, छहप्रकारके आवश्यक, 'अचेलकत्व, अस्नान, भूमिशयन, अदन्तधावन
(दातुन न करना), खड़े खड़े भोजन, और एकबार आहार लेना; इसप्रकार यह
(अट्टाईस) निर्विकल्प सामायिकसंयमके विकल्प (भेद) होनेसे श्रमणोंके मूलगुण
ही हैं । जब (श्रमण) निर्विकल्प सामायिकसंयममें आरूढ़ताके कारण जिसमें
विकल्पोंका अभ्यास (सेवन) नहीं है ऐसी दशामेंसे च्युत होता है, तब 'केवल

१. परिकर—अनुसरण करनेवाला समुदाय; अनुचरसमूह; [समिति, इन्द्रियरोध, इत्यादि गुण
पांच व्रतोंके पीछे पीछे होते ही हैं, इसलिये समिति इत्यादि गुण पांच व्रतोंका परिकर अर्थात्
अनुचर समूह है] ।

२. अचेलकत्व = वस्त्र रहितपना, दिगम्बरपना;

पुनः सर्वथा कल्याणलाम एवेति संप्रधार्य विकल्पेनात्मानमुपस्थापयन् छेदोपस्थापको भवति
॥ २०८ । २०९ ॥

अथास्य प्रव्रज्यादायक इव छेदोपस्थापकः परोऽप्यस्तीत्याचार्यविकल्पप्रज्ञापनद्वारेणोप-
दिशति—

लिंगग्रहणे तेषां गुरु त्ति पव्वज्जदायगो हांदि ।
छेदेसूवट्टवगा सेसा णिज्जावगा ममणा ॥ २१० ॥

लिङ्गग्रहणे तेषां गुरुरिति प्रव्रज्यादायको भवति ।

छेदयोरुपस्थापकाः शेषा निर्यापकाः श्रमणाः ॥ २१० ॥

यतो लिङ्गग्रहणकाले निर्विकल्पसामायिकसंयमप्रतिपादकत्वेन यः किलाचार्यः प्रव्रज्या-
दायकः स गुरुः, यः पुनरनन्तरं सविकल्पच्छेदोपस्थापनसंयमप्रतिपादकत्वेन छेदं प्रत्युपस्थापकः

स्ववर्णमात्रके अर्थीको कुण्डल, कंकण, अंगूठी आदिको ग्रहण करना (भी) श्रेय है, किन्तु ऐसा नहीं है कि (कुण्डल इत्यादिका ग्रहण कभी न करके) सर्वथा स्वर्णकी ही प्राप्ति करना ही श्रेय है' ऐसा विचार करके वह मूलगुणोंमें विकल्परूपसे (भेदरूपसे) अपनेको स्थापित करता हुआ छेदोपस्थापक होता है ॥ २०८-२०९ ॥

अब इनके (श्रमणके) प्रव्रज्यादायककी भाँति छेदोपस्थापक पर (दूसरा) भी होता है यह, आचार्यके भेदोंके प्रज्ञापन द्वारा उपदेश करते हैं:—

गाथा २१०

अन्वयार्थः—[लिंगग्रहणे] लिंगग्रहणके समय [प्रव्रज्यादायकः भवति] जो प्रव्रज्या (दीक्षा) दायक हैं वह [तेषां गुरुः इति] उनके गुरु हैं और [छेदयोः उपस्थापकाः] जो 'छेदद्वयमें उपस्थापक हैं (अर्थात् १—जो भेदोंमें स्थापित करते हैं तथा २—जो संयममें छेद होनेपर पुनः स्थापित करते हैं) [शेषाः श्रमणाः] वे शेष श्रमण [निर्यापकाः]^१निर्यापक हैं ।

टीकाः—जो आचार्य लिंगग्रहणके समय निर्विकल्प सामायिकसंयमके प्रतिपादक होनेसे प्रव्रज्यादायक हैं वे गुरु हैं; और तत्पश्चात् तत्काल ही जो

१. छेदद्वय—दो प्रकारके छेद । [यहाँ, (१) संयममें जो २८ मूलगुणरूप भेद होते हैं उसे भी छेद कहा है और (२) खण्डन अथवा दोषको भी छेद कहा है ।]

२. नर्यापक—निर्वाह करनेवाला; सदुपदेशसे दृढ़ करनेवाला; शिक्षागुरु, श्रुतगुरु ।

स निर्यापकः, योऽपि छिन्नसंयमप्रतिसंधानविधानप्रतिपादकत्वेन छेदे सत्युपस्थापकः सोऽपि निर्यापक एव । तत्र छेदोपस्थापकः परोऽप्यस्ति ॥ २१० ॥

अथ छिन्नसंयमप्रतिसंधानविधानमूपदिशति—

पयदमिह समारद्धे छेदो समणस्स कायचेट्टमिह ।

जायदि जदि तस्स पुणो आलोयणपुव्विया किरिया ॥२११॥

छेदुवजुत्ता समणो समणं ववहारिणं जिणमदमिह ।

आसेज्जालोचित्ता उवदिट्ठं तेण कायव्वं ॥२१२॥ [जुगलं]

प्रयतायां समारब्धायां छेदः श्रमणस्य कायचेष्टायाम् ।

जायते यदि तस्य पुनरालोचनपूर्विका क्रिया ॥ २११ ॥

छेदोपयुक्तः श्रमणः श्रमणं व्यवहारिणं जिणमते ।

आसाद्यालोच्योपदिष्टं तेन कर्तव्यम् ॥ २१२ ॥ [जुगलं]

(आचार्य) सविकल्प छेदोपस्थापना संयमके प्रतिपादक होनेसे 'छेदके प्रति उपस्थापक (भेदमें स्थापित करनेवाले)' हैं वे निर्यापक हैं; उसीप्रकार जो (आचार्य) 'छिन्न संयमके 'प्रतिसंधानकी विधिके प्रतिपादक होनेसे 'छेद होनेपर उपस्थापक (संयममें छेद होनेपर उसमें पुनः स्थापित करनेवाले)' हैं, वे भी निर्यापक ही हैं । इसलिये 'छेदोपस्थापक, पर भी होते हैं ॥ २१० ॥

अब छिन्नसंयमके प्रतिसंधानकी विधिका उपदेश करते हैं:—

गाथा २११-२१२

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [श्रमणस्य] श्रमणके [प्रयतायां] प्रयत्नपूर्वक

१. छिन्न — छेदको प्राप्त; खण्डित; त्रुटित; दोष प्राप्त ।
२. प्रतिसंधान = पुनः जोड़ देना वह; दोषोंको दूर करके एकसा (दोष रहित) कर देना वह ।
३. छेदोपस्थापकके दो अर्थ हैं: (१) जो 'छेद (भेद) के प्रति उपस्थापक' है, अर्थात् जो २८ मूलगुणरूप भेदोंको समझाकर उसमें स्थापित करता है वह छेदोपस्थापक है, तथा (२) जो 'छेदके होनेपर उपस्थापक' है, अर्थात् संयमके छिन्न (खण्डित) होनेपर उसमें पुनः स्थापित करता है, वह भी छेदोपस्थापक है ।
४. मुनिके (मुनित्वोचित) शुद्धोपयोग अन्तरंग अथवा निश्चयप्रयत्न है, और उस शुद्धोपयोग-दशामें प्रवर्तमान (हठ रहित) देहचेष्टादि संबन्धी शुभोपयोग बहिरंग अथवा व्यवहारप्रयत्न है । जहाँ शुद्धोपयोगदशा नहीं होती वहाँ शुभोपयोग हठसहित होता है; वह शुभोपयोग व्यवहार-प्रयत्नको भी प्राप्त नहीं होता ।

द्विविधः किल संयमस्य छेदः, बहिरङ्गोऽन्तरङ्गश्च । तत्र कायचेष्टामाश्राधिकृतो बहिरङ्गः, उपयोगाधिकृतः पुनरन्तरङ्गः । तत्र यदि सम्यगुपयुक्तस्य श्रमणस्य प्रयत्नसमारब्धायाः कायचेष्टायाः कथंचिद्बहिरङ्गच्छेदो जायते तदा तस्य सर्वथातरङ्गच्छेदवर्जितत्वादालोचनपूर्विकया क्रिययैव प्रतीकारः । यदा तु स एवोपयोगाधिकृतच्छेदत्वेन साक्षाच्छेद एवोपयुक्तो भवति तदा जिनोदित-व्यवहारविधिविदग्धश्रमणाश्रययालोचनपूर्वकतदुपदिष्टानुष्ठानेन प्रतिसंधानम् ॥ २११ । २१२ ॥

[समारब्धायां] की जानेवाली [कायचेष्टायां] कायचेष्टामें [छेदः जायते] छेद होता है तो [तस्य पुनः] उसे तो [आलोचनापूर्विका क्रिया] 'आलोचनापूर्वक क्रिया करना चाहिये ।

[श्रमणः छेदोपयुक्तः] (किन्तु) यदि श्रमण छेदमें उपयुक्त हुआ हो तो उसे [जिनमते] जैनमतमें [व्यवहारिणं] व्यवहारकुशल [श्रमणं आसाद्य] श्रमणके पास जाकर [आलोच्य] 'आलोचना करके (अपने दोषका निवेदन करके), [तेन उपदिष्टं] वे जैसा उपदेश दें वह [कर्तव्यम्] करना चाहिये ।

टीका:—संयमका छेद दो प्रकारका है; बहिरङ्ग और अन्तरङ्ग । उसमें मात्र कायचेष्टा संबंधी बहिरङ्ग है और उपयोग संबंधी अन्तरङ्ग । उसमें, यदि भलीभाँति उपर्युक्त श्रमणके प्रयत्नकृत कायचेष्टाका कथंचित् बहिरङ्ग छेद होता है, तो वह सर्वथा अन्तरङ्ग छेदसे रहित है इसलिये आलोचनापूर्वक क्रियासे ही उसका प्रतीकार (इलाज) होता है । किन्तु यदि वही श्रमण उपयोगसंबंधी छेद होनेसे साक्षात् छेदमें ही उपयुक्त होता है तो जिनोक्त व्यवहारविधिमें कुशल श्रमणके आश्रयसे, आलोचनापूर्वक, उनसे उपदिष्ट अनुष्ठान द्वारा (संयमका) प्रतिसंधान होता है ।

भावार्थ:—यदि मुनिके स्वस्थभावलक्षण प्रयत्नसहित की जानेवाली अशन-शयन-गमनादिक शारीरिक चेष्टासंबंधी छेद होता है तो उस तपोधनके स्वस्थभावकी बहिरङ्ग सहकारीकारणभूत प्रतिक्रमणस्वरूप आलोचनापूर्वक क्रियासे ही उसका प्रतीकार-प्रायश्चित्त होजाता है, क्योंकि वह स्वस्थभावसे चलित नहीं हुआ है । किन्तु यदि उसके निर्विकार स्वसंवेदनभावनासे च्युतिस्वरूप छेद होता है, तो (उसे जिनमतमें व्यवहारज्ञ-प्रायश्चित्तकुशल-आचार्यके निकट जाकर, निष्प्रपंचभावसे दोषका निवेदन करके, वे आचार्य निर्विकार स्वसंवेदन भावनाके अनुकूल जो कुछ भी प्रायश्चित्त उपदिष्ट करें वह करना चाहिये ॥ २११-२१२ ॥

१. आलोचना=सूक्ष्मतासे देख लेना वह, सूक्ष्मतासे विचारना वह, ठीक ध्यानमें लेना वह ।

२. निवेदन; कथन ।

[२११ वीं गाथामें आलोचनाका प्रथम अर्थ घटित होता है और २१२ वीं में दूसरा]

अथ श्रामण्यस्य छेदायतनत्वाद् परद्रव्यप्रतिबन्धाः प्रतिषेध्या इत्युपदिशति—

अधिवासे व विवासे छेदविहृणो भवीय सामण्ये ।

समणो विहरतु णिच्चं परिहरमाणो णिबन्धाणि ॥ २१३ ॥

अधिवासे वा विवासे छेदविहीनो भूत्वा श्रामण्ये ।

श्रमणो विहरतु नित्यं परिहरमाणो निबन्धान् ॥ २१३ ॥

सर्व एव हि परद्रव्यप्रतिबन्धा उपयोगोपरञ्जकत्वेन निरुपरागोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य छेदायतनानि तदभावादेवाच्छिन्नश्रामण्यम् । अत आत्मन्येवात्मनो नित्याधिकृत्य वासे वा गुरुत्वेन

अब, श्रामण्यके छेदके आयतन होनेसे 'परद्रव्य-प्रतिबंध' निषेध करने योग्य हैं, ऐसा उपदेश करते हैं:—

भाषा २१३

अन्वयार्थः—[अधिवासे] अधिवासमें (आत्मवासमें अथवा गुरुओंके सहवासमें) वसते हुये [वा] या [विवासे] विवासमें (गुरुओंसे भिन्न वासमें) वसते हुये, [नित्यं] सदा [निबन्धान्] (परद्रव्यसम्बन्धी) प्रतिबंधोंको [परिहरमाणः] परिहरण करता हुआ [श्रामण्ये] श्रामण्यमें [छेद विहीनः भूत्वा] छेद विहीन होकर [श्रमणः विहरतु] श्रमण विहरो ।

टीका:—वास्तवमें सभी परद्रव्य-प्रतिबंध उपयोगके 'उपरंजक' होनेसे 'निरुपराग' उपयोगरूप श्रामण्यके छेदके आयतन हैं; उनके अभावसे ही अच्छिन्न श्रामण्य होता है । इसलिये आत्मामें ही आत्माको सदा 'अधिकृत' करके (आत्माके भीतर) वसते हुये अथवा गुरुरूपसे गुरुओंको 'अधिकृत' करके (गुरुओंके सहवासमें) निवास करते हुये या गुरुओंसे विशिष्ट—भिन्नवासमें वसते हुये, सदा ही परद्रव्य-

१. परद्रव्यप्रतिबंध = परद्रव्योंमें रागादिपूर्वक संबंध करना; परद्रव्योंमें बँधना—रुकना; लीन होना; परद्रव्योंमें रुकावट ।

२. उपरंजक = उपराग करनेवाले, मलिनता-विकार करनेवाले ।

३. निरुपराग = उपरागरहित; विकाररहित ।

४. अधिकृतकरके = स्थापित करके; रखकर ।

५. अधिकृत करके = अधिकार देकर; स्थापित करके; अंगीकृत करके ।

गुरुनधिकृत्य वासे वा गुरुभ्यो विशिष्टे वासे वा नित्यमेव प्रतिषेधयन् परद्रव्यप्रतिबन्धान् श्रामण्ये छेदविहीनो भूत्वा श्रमणो वर्तताम् ॥ २१३ ॥

अथ श्रामण्यस्य परिपूर्णतायतनत्वात् स्वद्रव्य एव प्रतिबन्धो विधेय इत्युपदिशति—

चरदि निबद्धो निच्चं समणो णाणम्मि दंसणमुहम्मि ।

पयदो मूलगुणेषु य जो सो पडिपुण्णसामण्णो ॥ २१४ ॥

चरति निबद्धो नित्यं श्रमणो ज्ञाने दर्शनमुखे ।

प्रयतो मूलगुणेषु च यः स परिपूर्णश्रामण्यः ॥ २१४ ॥

एक एव हि स्वद्रव्यप्रतिबन्ध उपयोगमार्जकत्वेन मार्जितोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य परिपूर्णतायतनं, तत्सद्भावादेव परिपूर्णं श्रामण्यम् । अतो नित्यमेव ज्ञाने दर्शनादौ च प्रतिबद्धेन मूलगुणप्रयततया चरितव्यं ज्ञानदर्शनस्वभावशुद्धात्मद्रव्यप्रतिबद्धशुद्धास्तित्वमात्रेण वर्तितव्यमिति तात्पर्यम् ॥ २१४ ॥

प्रतिबंधोको निषेधता (परिहरण करता) हुआ श्रामण्यमें छेदविहीन होकर श्रमण वर्ती ॥ ११३ ॥

अब, श्रामण्यकी परिपूर्णताका आयतन होनेसे स्वद्रव्यमें ही प्रतिबंध (सम्बन्ध लीनता) करने योग्य है, ऐसा उपदेश करते हैं:—

गाथा २१४

अन्वयार्थः—[यः श्रमणः] जो श्रमण [नित्यं] सदा [ज्ञानदर्शनमुखे] ज्ञानमें और दर्शनादिमें [निबद्धः] प्रतिबद्ध [च] तथा [मूलगुणेषु प्रयतः] मूलगुणोंमें प्रयत (प्रयत्नशील) [चरति] विचरण करता है, [सः] वह [परिपूर्णश्रामण्यः] परिपूर्ण श्रामण्यवान् है ।

टीका:—एक स्वद्रव्य-प्रतिबंध ही, उपयोगका मार्जन (शुद्धत्व) करनेकाला होनेसे, मार्जित (शुद्ध) उपयोगरूप श्रामण्यकी परिपूर्णताका आयतन है; उसके सद्भावसे ही परिपूर्ण श्रामण्य होता है । इसलिये सदा ज्ञानमें और दर्शनादिकमें प्रतिबद्ध रहकर मूलगुणोंमें प्रयत्नशीलतासे विचरना,—ज्ञानदर्शनस्वभाव शुद्धात्मद्रव्यमें प्रतिबद्ध-शुद्ध अस्तित्वमात्ररूपसे वर्तना, यह तात्पर्य है ॥ २१४ ॥

१. प्रतिबद्ध = संबद्ध; रुका हुआ; बँधा हुआ; स्थित; स्थिर; लीन ।

अथ श्रामण्यस्य छेदायतनत्वात् यतिजनासक्तः सूक्ष्मपरद्रव्यप्रतिबन्धोऽपि प्रतिषेध्य इत्युपदिशति—

भक्ते वा स्वमणे वा आवसथे वा पुणो विहारे वा ।

उपधिम्हि वा णिवद्धं ऐच्छति समणम्हि विकथम्हि ॥२१५॥

भक्ते वा क्षपणे वा आवसथे वा पुनर्विहारे वा ।

उपधौ वा निबद्धं नेच्छति श्रमणे विकथायाम् ॥ २१५ ॥

श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरवृत्तिहेतुमात्रत्वेनादीयमाने भक्ते तथाविधशरीरवृत्त्य-
विरोधेन शुद्धात्मद्रव्यनीरंगनिस्तरंगविश्रान्तिमग्नानुसारेण प्रवर्तमाने क्षपणे नीरंगतिस्तरंगान्त-

अब, मुनिजनको 'निकटका' 'सूक्ष्मपरद्रव्यप्रतिबन्ध' भी, श्रामण्यके छेदका
आयतन होनेसे निषेध्य है, ऐसा उपदेश करते हैं:—

गाथा २१५

अन्वयार्थः— [भक्ते वा] मुनि आहारमें, [क्षपणे वा] क्षपणमें (उपवासमें),
[आवसथे वा] आवासमें (निवासस्थानमें), [पुनः विहारे वा] और विहारमें,
[उपधौ] उपधिमें (परिग्रहमें), [श्रमणे] श्रमणमें (अन्य मुनिमें) [वा] अथवा
[विकथायाम्] 'विकथामें' [निबद्धं] प्रतिबन्ध [न इच्छति] नहीं चाहता ।

टीका:—(१) श्रामण्य पर्यायके सहकारी कारणभूत शरीरकी 'वृत्तिके
हेतुमात्ररूपसे ग्रहण किये जानेवाले आहारमें (२) 'तथाविध शरीरकी वृत्तिके साथ
विरोधरहित, शुद्धात्मद्रव्यमें 'नीरंग और निस्तरंग विश्रान्तिकी रचनानुसार
प्रवर्तमान क्षपणमें (अर्थात् शरीरके टिकनेके साथ विरोध न आये इसप्रकार,

१. आगम विरुद्ध आहारविहारादि तो मुनिके छूटा ही हुवा होनेसे उसमें प्रतिबन्ध होना तो मुनिके
लिये दूर है; किन्तु आगमकथित आहार विहारादिमें मुनि प्रवर्तमान है इसलिये उसमें
प्रतिबन्ध हो जाना संभवित होनेसे वह प्रतिबन्ध निकटका है ।

२. सूक्ष्मपरद्रव्यप्रतिबन्ध = परद्रव्यमें सूक्ष्म प्रतिबन्ध ।

३. छद्मस्थ मुनिके धार्मिक कथा-वार्त्ता करते हुये भी निर्मल चैतन्य विकल्पमुक्त होता है इसलिये
अंशतः मलिन होता है, अतः उस धार्मिक कथाको भी विकथा अर्थात् शुद्धात्मद्रव्यसे विरुद्ध कथा
कहा है ।

४. वृत्ति = निर्वाह; टिकना ।

५. तथाविध = वैसा (श्रामण्यपर्यायका सहकारी कारणभूत)

६. नीरंग = नीराग; निर्धिकार ।

रंगद्रव्य प्रसिद्धार्थमध्यास्यमाने गिरीन्द्रकन्दरप्रभृतावावसथे यथोक्तशरीरवृत्तिहेतुमार्गणार्थमारभ्य-
माणे विहारकर्मणि श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणत्वेनाप्रतिषिध्यमाने केवलदेहमात्रे उपधौ
अन्योन्यबोध्यबोधकभावमात्रेण कथंचित्परिचिते श्रमणे शब्दपुद्गलोल्लाससंबलनकर्मलितचिद्धि-
चिभागायां शुद्धात्मद्रव्यविरुद्धायां कथायां चैतेष्वपि तद्विकल्पाचित्रितचिषभित्तया प्रतिषेध्यः
प्रतिबन्धः ॥ २१४ ॥

अथ को नाम छेद इत्युपदिशति—

शुद्धात्मद्रव्यमें विकाररहित और तरंगरहित स्थिरताकी रचना की जाय, तदनुसार प्रवर्तमान अनशनमें), (३) नीरंग और निस्तरंग-अन्तरंग द्रव्यकी प्रसिद्धि (प्रकृष्टसिद्धि) के लिये सेव्यमान गिरीन्द्रकन्दरादिक आवसथमें (उच्च पर्वतकी गुफा इत्यादि निवासस्थानमें), (४) यथोक्त शरीरकी वृत्तिकी कारणभूत भिक्षाके लिये किये जानेवाले विहारकार्यमें, (५) श्रामण्यपर्यायका सहकारी कारण होनेसे जिसका निषेध नहीं है ऐसे केवल देहमात्र परिग्रहमें, (६) मात्र अन्योन्य 'बोध्यबोधकरूपसे जिनका कथंचित् परिचय पाया जाता है ऐसे श्रमण (अन्य मुनि) में, और (७) शब्दरूप पुद्गलोल्लास (पुद्गलपर्याय) के साथ संबंधसे जिसमें चैतन्यरूपी भित्तिका भाग मलिन होता है, ऐसी शुद्धात्मद्रव्यसे विरुद्ध कथामें भी प्रतिबंध निषेध्य-त्यागने योग्य है अर्थात् उनके विकल्पोंसे भी चित्तभूमिको चित्रित होने देना योग्य नहीं है ।

भावार्थः—आगमविरुद्ध आहारविहारादि तो मुनिने पहले ही छोड़ दिये हैं । अब संयमके निमित्तत्वकी बुद्धिसे मुनिके जो आगमोक्त आहार, अनशन, गुफादिमें निवास, विहार, देहमात्र परिग्रह, अन्य मुनियोंका परिचय और धार्मिक चर्चा वार्ता पाये जाते हैं, उनके प्रति भी रागादि करना योग्य नहीं है,—उनके विकल्पोंसे भी मनको रँगने देना योग्य नहीं है; इसप्रकार आगमोक्त आहार-विहारादिमें भी प्रतिबंध पाना योग्य नहीं है, क्योंकि उससे संयममें छेद होता है ॥ २१५ ॥

अब, छेद क्या है, उसका उपदेश करते हैं:—

१. बोध्य वह है जिसे समझाया जाता है अथवा जिसे उपदेश दिया जाता है । और बोधक वह है जो समझाता है, अर्थात् जो उपदेश देता है । मात्र अन्य श्रमणोंसे स्वयंबोध ग्रहण करनेके लिये अथवा अन्य श्रमणोंको बोध देनेके लिये मुनिका अन्य श्रमणके साथ परिचय होता है ।

अप्रयत्ता वा चरिया शयणासनस्थानचक्रमणादीमु ।

समणस्स सब्बकाले हिंसा सा संतत्तिय ति मदा ॥ २१६ ॥

अप्रयता वा चर्या शयनासनस्थानचक्रमणादिषु ।

श्रमणस्य सर्वकाले हिंसा सा संततेति मता ॥ २१६ ॥

अशुद्धोपयोगो हि छेदः शुद्धोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य छेदनात्, तस्य हिंसनात् स एव च हिंसा । अतः श्रमणस्याशुद्धोपयोगाविनाभाविनी शयनासनस्थानचक्रमणादिष्वप्रयता या चर्या सा खलु तस्य सर्वकालमेव संतानवाहिनी छेदानर्थान्तरभूता हिंसैव ॥ २१६ ॥

गाथा २१६

अन्वर्थः—[श्रमणस्य] श्रमणके [शयनासनस्थानचक्रमणादिषु] शयन, आसन (बैठना), स्थान (खड़े रहना), गमन इत्यादिमें [अप्रयता वा चर्या] जो अप्रयत चर्या है [सा] वह [सर्वकाले] सदा [संतता हिंसा इति मता] सतत हिंसा मानी गई है ।

टीकाः—अशुद्धोपयोग वास्तवमें छेद है, क्योंकि (उससे) शुद्धोपयोगरूप श्रामण्यका छेदन होता है; और वही (अशुद्धोपयोग ही) हिंसा है, क्योंकि (उससे) शुद्धोपयोगरूप श्रामण्यका हिंसन (हनन) होता है । इसलिये श्रमणके, जो अशुद्धोपयोगके बिना नहीं होती ऐसी शयन-आसन-स्थान-गमन-इत्यादिमें 'अप्रयत चर्या (आचरण) वास्तवमें उसके लिये सर्वकालमें (सदा) ही 'संतानवाहिनी हिंसा ही है,—जो कि छेदसे अनन्यभूत है (अर्थात् छेदसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है ।)

भावार्थः—अशुद्धोपयोगसे शुद्धोपयोगरूप मुनित्व (१) छिदता है, (२) हनन होता है इसलिये अशुद्धोपयोग (१) छेद ही है, (२) हिंसा ही है । और जहाँ सोने, बैठने, खड़े होने, चलने इत्यादिमें अप्रयत आचरण होता है वहाँ नियमसे अशुद्धोपयोग तो होता ही है, इसलिये अप्रयत आचरण छेद ही है, हिंसा ही है ॥ २१६ ॥

१. अप्रयत-प्रयत्न रहित, असावधान, असंयमी, निरंकुश, स्वच्छन्दी । [अप्रयतचर्या अशुद्धोपयोगके बिना कभी नहीं होती ।]

२. संतानवाहिनी = सतत, सतत, निरंतर, धारावाही, अटूट; [जबतक अप्रयत चर्या है तब तक सदा ही हिंसा सततरूपसे चालू रहती है]

महान्तरंगबहिरंगत्वेन छेदस्य द्वैविध्यमुपदिशति—

मरुद् व जियद् जीवो अयदाचारस्य णिच्छिदा हिंसा ।

पयदस्स णत्थि बन्धो हिंसामत्तेण समिदस्स ॥ २१७ ॥

म्रियतां वा जीवतु वा जीवोऽयताचारस्य निश्चिता हिंसा ।

प्रयतस्य नास्ति बन्धो हिंसामात्रेण समितस्य ॥ २१७ ॥

अशुद्धोपयोगोऽन्तरंगच्छेदः परप्राणव्यपरोपो बहिरंगः । तत्र परप्राणव्यपरोपसद्भावे तदसद्भावे वा तद्विनाभाविनाप्रयताचारेण प्रसिद्धयदशुद्धोपयोगसद्भावस्य सुनिश्चितहिंसाभाव-

अब, छेदके अन्तरंग और बहिरंग, ऐसे दो प्रकार बतलाते हैं:—

गाथा २१७

अन्वयार्थः—[जीवः] जीव [म्रियतां वा जीवतु वा] मरे या जिये, [अयता-
चारस्य] अप्रयत आचारवालेके [हिंसा] (अंतरंग) हिंसा [निश्चिता] निश्चित है;
[प्रयतस्य समितस्य] ^१प्रयतके, ^२समितिवान्के [हिंसामात्रेण] (बहिरंग) हिंसामात्रसे
[बन्धः] बंध [नास्ति] नहीं है ।

टीका:—अशुद्धोपयोग अंतरंग छेद है; परप्राणोंका व्यपरोप (विच्छेद) बहिरंगछेद है । इनमेंसे अन्तरंगछेद ही विशेष बलवान है, बहिरंगछेद नहीं; क्योंकि— परप्राणोंके व्यपरोपका सद्भाव हो या असद्भाव, जो अशुद्धोपयोगके बिना नहीं होता ऐसे ^३अप्रयत आचारसे प्रसिद्ध होनेवाला (जाननेमें आनेवाला) अशुद्धोपयोगका सद्भाव जिसके पाया जाता है उसके हिंसाके सद्भावकी प्रसिद्धि सुनिश्चित है; और इसप्रकार जो अशुद्धोपयोगके बिना होता है ऐसे ^४प्रयत आचारसे प्रसिद्ध होनेवाला

१. प्रयत = प्रयत्नशील, सावधान, संयमी [प्रयत्नके अर्थके लिये देखो गाथा २१९ का फुटनोट ।]
२. शुद्धात्मस्वरूपमें (सुनिश्चित) सम्यक् 'इति' अर्थात् परिणति निश्चय समिति है । और उस दशामें होनेवाली (हठ रहित) ईर्या-भाषादि संबन्धी शुभ परिणति व्यवहारसमिति है । [जहाँ शुद्धात्मस्वरूपमें सम्यक्परिणतिरूप दशा नहीं होती वहाँ शुभ परिणति हठ सहित होती है; वह शुभपरिणति व्यवहारसमिति भी नहीं है ।]
३. अशुद्धोपयोगके बिना अप्रयत आचार कभी नहीं होता, इसलिये जिसके अप्रयत आचार पाया जाता है उसके अशुद्धोपयोग अवश्यमेव होता है । इसप्रकार अप्रयत आचारके द्वारा अशुद्ध उपयोग प्रसिद्ध (ज्ञात) होता है ।
४. जहाँ अशुद्ध उपयोग नहीं होता वहाँ प्रयत आचार पाया जाता है, इसलिये प्रयत आचारके द्वारा अशुद्ध उपयोगका असद्भाव सिद्ध (ज्ञात) होता है ।

प्रसिद्धेस्तथा तद्धिनाभाविना प्रयताचारेण प्रसिद्धयदशुद्धोपयोगासद्भावपरस्य परप्राणव्यपरोप-
सद्भावेऽपि बन्धाप्रसिद्ध्या सुनिश्चितहिंसाऽभावप्रसिद्धेऽन्तरंग एव छेदो बलीयान् न पुनर्बहि-
रंगः । एवमप्यन्तरंगच्छेदायतनमात्रत्वाद्बहिरंगच्छेदोऽभ्युपगम्येतैव ॥ २१७ ॥

अथ सर्वथान्तरंगच्छेदः प्रतिषेध्य इत्युपदिशति—

अयताचारो समणो ह्यस्सु वि कायेसु वधकरो त्ति मदो ।

चरदि जदं जदि णिच्चं कमलं व जले णिरुवलेवो ॥ २१८ ॥

अयताचारः श्रमणः षट्सुपि कायेषु वधकर इति मतः ।

चरति यतं यदि नित्यं कमलमिव जले निरुपलेपः ॥ २१८ ॥

अशुद्धोपयोगका असद्भाव जिसके पाया जाता है, उसके, परप्राणोंके व्यपरोपके सद्भावमें भी बंधकी अप्रसिद्धि होनेसे, हिंसाके अभावकी प्रसिद्धि सुनिश्चित है । ऐसा होने पर भी (अर्थात् अंतरंग छेद ही विशेष बलवान है बहिरंगछेद नहीं, ऐसा होनेपर भी) बहिरंग छेद अंतरंगछेदका आयतनमात्र है, इसलिये उसे (बहिरंगछेदको) स्वीकार तो करना ही चाहिये अर्थात् उसे मानना ही चाहिये ।

भावार्थः—शुद्धोपयोगका हनन होना अन्तरंगहिंसा-अन्तरंग छेद है, और दूसरेके प्राणोंका विच्छेद होना बहिरंग हिंसा-बहिरंगछेद है ।

जीव मरे या न मरे, जिसके अप्रयत आचरण है उसके शुद्धोपयोगका हनन होनेसे अन्तरंग हिंसा होती ही है, और इसलिये अन्तरंग छेद होता ही है । जिसके प्रयत आचरण है उसके, परप्राणोंके व्यपरोपरूप बहिरंग हिंसाके—बहिरंग छेदके—सद्भावमें भी, शुद्धोपयोगका हनन नहीं होनेसे अन्तरंग हिंसा नहीं होती, और इसलिये अन्तरंग छेद नहीं होता ॥ २१७ ॥

अब, सर्वथा अन्तरंग छेद निषेध्य-त्याज्य है, ऐसा उपदेश करते हैंः—

भाषा २१८

अन्वयार्थः—[अयताचारः श्रमणः] अप्रयत आचारवाला श्रमण [षट्सु अपि कायेषु] छहों काय संबंधी [वधकरः] वधका करनेवाला [इति मतः] माननेमें—कहनेमें आया है; [यदि] यदि [नित्यं] सदा [यतं चरति] प्रयतरूपसे आचरण करे तो [जले कमलम् इव] जलमें कमल की भांति [निरुपलेपः] निर्लेप कहा गया है ।

यतस्तद्विनाभाविना अप्रयताचारत्वेन प्रसिद्धदशुद्धोपयोगसद्भावः षट्कायप्राणव्य-
परोपप्रत्ययबन्धप्रसिद्धिर्हिंसक एव स्यात् । यतश्च तद्विनाभाविना प्रयताचारत्वेन प्रसिद्धद-
शुद्धोपयोगसद्भावः परप्रत्ययबन्धलेशस्याप्यभावाज्जलदुर्ललितं कमलमिव निरुपलेपत्वप्रसिद्धेर-
हिंसक एव स्यात् । ततस्तैस्तैः सर्वैः प्रकारैरशुद्धोपयोगरूपोऽन्तरङ्गच्छेदः प्रतिषेध्यो यैर्यैस्तदाय-
तनमात्रभूतः परप्राणव्यपरोपरूपो बहिरङ्गच्छेदो दूरादेव प्रतिषिद्धः स्यात् ॥ २१८ ॥

अथैकान्तिकान्तरंगच्छेदत्वादुपधिस्तद्वत्प्रतिषेध्य इत्युपदिशति—

हवदि व ण हवदि बंधो मदम्हि जीवेऽथ कायचेट्टुम्हि ।

बंधो ध्रुवमुवधीदो इदि समणा अड्डिया सव्वं ॥ २१९ ॥

भवति वा न भवति बन्धो मृते जीवेऽथ कायचेष्टायाम् ।

बन्धो ध्रुवमुपधेरिति श्रमणास्त्यक्तवन्तः सर्वम् ॥ २१९ ॥

टीकाः— जो अशुद्धोपयोगके विना नहीं होता ऐसे अप्रयत आचारके द्वारा प्रसिद्ध (जात) होनेवाला अशुद्धोपयोगका सद्भाव हिंसक ही है, क्योंकि छहकायके प्राणोंके व्यपरोपके आश्रयसे होनेवाले बंधकी प्रसिद्धि है । और जो अशुद्धोपयोगके विना हांता है ऐसे प्रयत आचारसे प्रसिद्ध होनेवाला अशुद्धोपयोगका असद्भाव अहिंसक ही है, क्योंकि परके आश्रयसे होनेवाले लेशमात्र भी बंधका अभाव होनेसे जलमें भूलते हुये कमलकी भाँति निर्लेपत्वकी प्रसिद्धि है । इसलिये उन उन सर्वप्रकारसे अशुद्धोपयोग रूप अन्तरंग छेद निषेध्य है—त्यागने योग्य है, जिन-जिन प्रकारोंसे उसका आयतनमात्रभूत परप्राणव्यपरोपरूप बहिरंग छेद अत्यन्त निषिद्ध हो ।

भावार्थः—शास्त्रोंमें अप्रयत-आचारवान् अशुद्धोपयोगीको छह कायका हिंसक कहा है, और प्रयत-आचारवान् शुद्धोपयोगीको अहिंसक कहा है, इसलिये शास्त्रोंमें जिस जिसप्रकारसे छह कायकी हिंसाका निषेध किया गया हो, उस उस समस्त प्रकारसे अशुद्धोपयोगका निषेध समझना चाहिये ॥ २१८ ॥

अब, उपधि (परिग्रह) को ऐकान्तिक अन्तरंग-छेदत्व होनेसे उपधि अन्तरंग छेदकी भाँति त्याज्य है, यह उपदेश करते हैं—

गाथा २१९

अन्वयार्थः—[अथ] अब (उपधिके संबंधमें ऐसा है कि), [कायचेष्टायाम्] कायचेष्टापूर्वक [जीवे मृते] जीवके मरने पर [बन्धः] बंध [भवति] होता है, [वा]

यथा हि कायव्यापारपूर्वकस्य परप्राणव्यपरोपस्याशुद्धोपयोगसद्भावसद्भावाम्याम-
नैकान्तिकबन्धत्वेन छेदत्वमनैकान्तिकमिष्टं, न खलु तथोपधेः, तस्य सर्वथा तदविनाभावित्व-
प्रसिद्धयदैकान्तिकाशुद्धोपयोगसद्भावस्यैकान्तिकबन्धत्वेन छेदत्वमैकान्तिकमेव । अत एव भग-

अथवा [न भवति] नहीं होता; (किन्तु) [उपधेः] उपधिसे-परिग्रहसे [ध्रुवम् बंधः]
निश्चय ही बंध होता है; [इति] इसलिये [श्रमणाः] श्रमणों (अर्हन्तदेवों) ने [सर्व]
सर्वपरिग्रहको [त्यक्तवन्तः] छोड़ा है ।

टीका:—जैसे कायव्यापारपूर्वक परप्राणव्यपरोपको अशुद्धोपयोगके सद्भाव
और असद्भावके द्वारा अनैकान्तिक बंधरूप होनेसे छेदत्व 'अनैकान्तिक माना गया है,
वैसा उपधि (परिग्रह) का नहीं है । परिग्रह सर्वथा अशुद्धोपयोगके बिना नहीं होता,
ऐसा जो परिग्रहका सर्वथा अशुद्धोपयोगके साथ अविनाभावित्व है उससे प्रसिद्ध
होनेवाले 'ऐकान्तिक अशुद्धोपयोगके सद्भावके कारण परिग्रह तो ऐकान्तिक बंधरूप है,
इसलिये उसे (परिग्रह को) छेदत्व ऐकान्तिक ही है । इसीलिये भगवन्त अर्हन्तोंने-परम
श्रमणोंने स्वयं ही पहले ही सभी परिग्रहको छोड़ा है; और इसीलिये दूसरोंको भी,
अन्तरंग छेदकी भाँति प्रथम ही सभी परिग्रह छोड़ने योग्य है, क्योंकि वह (परिग्रह)
अन्तरंगछेदके बिना नहीं होता ।

भावार्थ:—अशुद्धोपयोगका अभाव हो, फिर भी कायकी हलनचलनादि क्रिया
होने पर परजीवोंके प्राणोंका घात होजाता है । इसलिये कायचेष्टापूर्वक पर-प्राणोंके
घातसे बंध होनेका नियम नहीं है;—अशुद्धोपयोगके सद्भावमें होनेवाले कायचेष्टापूर्वक
परप्राणोंके घातसे तो बंध होता है । और अशुद्धोपयोगके असद्भावमें होनेवाले
कायचेष्टापूर्वक परप्राणोंके घातसे बंध नहीं होता, इसप्रकार कायचेष्टापूर्वक होनेवाले
परप्राणोंके घातसे बंधका होना अनैकान्तिक होनेसे उसके छेदत्व अनैकान्तिक है,—
नियमरूप नहीं है ।

जैसे भावके बिना भी परप्राणोंका घात हो जाता है, उसीप्रकार भाव न हो
फिर भी परिग्रहका ग्रहण हो जाय, ऐसा कभी नहीं हो सकता । जहाँ परिग्रहका ग्रहण
होता है वहाँ अशुद्धोपयोगका सद्भाव अवश्य होता ही है । इसलिये परिग्रहसे बंधका होना
ऐकान्तिक-निश्चित नियमरूप है । इसलिये परिग्रह के छेदत्व ऐकान्तिक है । ऐसा होनेसे

१. अनैकान्तिक = अनिश्चित; नियमरूप न हो; एकांतिक न हो;

२. ऐकान्तिक = निश्चित; अवश्यभावी; नियमरूप;

वन्तोऽर्हन्तः परमाः श्रमणाः स्वयमेव प्रागेव सर्वमेवोपधिं प्रतिषिद्धवन्तः । अत एव चापरैरप्य-
न्तरङ्गच्छेदवत्तदनान्तरीयकत्वात्प्रागेव सर्व एवोपधिः प्रतिषेधः ॥ २१९ ॥

*वक्तव्यमेव किल यत्तदशेषशुक्त-
मेतावतैव यदि चेतयतेऽत्र कोऽपि ।
व्यामोहजालमतिदुस्तरमेव नूनं
निश्चेतनस्य वचसामतिविस्तरेऽपि ॥ १४ ॥

अथान्तरङ्गच्छेदप्रतिषेध एवायमुपधिप्रतिषेध इत्युपदिशति—

ए हि निरपेक्षो चागो ण ह्वदि भिक्खुस्स आसयविसुद्धी ।
अविसुद्धस्स य चित्ते कथं ए कम्मकखञ्जो विहिञ्जो ॥ २२० ॥

न हि निरपेक्षस्त्यागो न भवति भिक्षोराशयविशुद्धिः ।

अविशुद्धस्य च चित्ते कथं नु कर्मक्षयो विहितः ॥ २२० ॥

ही परमश्रमण-अर्हन्त भगवन्तोंने पहलेसे ही सर्वपरिग्रहका त्याग किया है, और अन्य श्रमणोंको भी पहलेसे ही सर्व परिग्रहका त्याग करना चाहिये ॥ २१९ ॥

[अब, 'कहने योग्य सब कहा गया है' इत्यादि कथन श्लोक द्वारा किया जाता है ।]

[अर्थः—] जो कहने योग्य ही था वह सम्पूर्णतया कह दिया गया है, इतने मात्रसे ही यदि यहाँ कोई चेतजाय—समझले तो, (अन्यथा) वाणीका अतिविस्तार किया जाय तथापि निश्चेतन (जड़वत्—नासमझ) को व्यामोहका जाल वास्तवमें अति दुस्तर है ।

अब, इस उपधि (परिग्रह) का निषेध अंतरंग छेदका ही निषेध है, यह उपदेश करते हैंः—

गाथा २२०

अन्वयार्थः—[निरपेक्षः त्यागः न हि] यदि निरपेक्ष (किसी भी वस्तुकी अपेक्षासे-रहित) त्याग न हो तो [भिक्षोः] भिक्षुके [आशयविशुद्धिः] भावकी विशुद्धि [न भवति] नहीं होती; [च] और [चित्ते अविशुद्धस्य] जो भावमें अविशुद्ध है उसके [कर्मक्षयः] कर्मक्षय [कथं नु] कैसे [विहितः] हो सकता है ?

* वसन्ततिलका छन्द ।

न खलु बहिरङ्गसंगसद्भावे तुषसद्भावे तण्डुलगताशुद्धत्वस्येवाशुद्धोपयोगरूपस्यान्तरङ्गच्छेद-
स्य प्रतिषेधस्तद्भावे च न शुद्धोपयोगमूलस्य कैवल्यस्योपलम्भः । अतोऽशुद्धोपयोगरूपस्यान्त-
रङ्गच्छेदस्य प्रतिषेधं प्रयोजनमपेक्ष्योपधेर्विधीयमानः प्रतिषेधोऽन्तरङ्गच्छेदप्रतिषेध एव स्यात् । २२० ।

अथैकान्तिकान्तरङ्गच्छेदत्वमुपधेर्विस्तरेणोपदिशति—

किथ तम्मिह णत्थि मुच्छा आरंभो वा असंजमो तस्स ।

तथ परद्रव्ये रतो कथमप्पाणं पसाधयदि ॥ २२१ ॥

कथं तम्मिन्नास्ति मूर्च्छा आरम्भो वा असंयमस्तस्य ।

तथा परद्रव्ये रतः कथमात्मानं प्रसाधयति ॥ २२१ ॥

उपधिसद्भावे हि ममत्वपरिणामलक्षणया मूर्च्छायास्तद्विषयकर्मप्रक्रमपरिणामलक्षणस्या-
रम्भस्य शुद्धात्मरूपहिंसनपरिणामलक्षणस्यासंयमस्य वावश्यंभावित्वात्तथोपधिविधीयस्य परद्रव्य-

टीकाः—जैसे छिलकेके सद्भावमें चावलोंमें पाई जानेवाली (रक्तारूप)
अशुद्धताका त्याग (नाश-अभाव) नहीं होता, उसीप्रकार बहिरंग संगके सद्भावमें
अशुद्धोपयोगरूप अंतरंगछेदका त्याग नहीं होता और उसके सद्भावमें शुद्धोपयोगमूलक
कैवल्य (मोक्ष) की उपलब्धि नहीं हांती । इससे (यह कहा गया है कि) अशुद्धोप-
योगरूप अंतरंग छेदके निषेधरूप प्रयोजनकी अपेक्षा रखकर विहित (आदेश) किया
जानेवाला उपधिका निषेध अन्तरंग छेदका ही निषेध है ॥ २२० ॥

अब, 'उपधि ऐकान्तिक अन्तरंग छेद है' यह विस्तारसे उपदेश करते हैंः—

गाथा २२१

अन्वयार्थः—[तम्मिन्] उपधिके सद्भावमें [तस्य] उस (भिक्षु) के
[मूर्च्छा] मूर्च्छा, [आरम्भः] आरंभ [वा] या [असंयमः] असंयम [नास्ति]
न हो [कथं] यह कैसे हो सकता है ? (कदापि नहीं हो सकता), [तथा] तथा
[परद्रव्ये रतः] जो परद्रव्यमें रत हो वह [आत्मानं] आत्माको [कथं] कैसे
[प्रसाधयति] साध सकता है ?

टीकाः—उपधिके सद्भावमें (१) ममत्वपरिणाम जिसका लक्षण है ऐसी
मूर्च्छा, (२) उपधि संबंधी कर्मप्रक्रमके परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा आरम्भ,
अथवा (३) शुद्धात्मस्वरूपकी हिसारूप परिणाम जिसका लक्षण है ऐसा असंयम

१. कर्मप्रक्रम = काममें युक्त होना; कामकी व्यवस्था ।

रतत्वेन शुद्धात्मद्रव्यप्रसाधकत्वाभावाच्च ऐकान्तिकान्तरंगच्छेदत्वमुपधेरवधार्यत एव । इदमत्र तात्पर्यमेवंविधत्वमुपधेरवधार्य स सर्वथा संन्यस्तव्यः ॥ २२१ ॥

अथ कस्यचित्कचित्कदाचित्कथंचित्कश्चिदुपधिरप्रतिषिद्धोऽप्यस्तीत्यपवादमुपदिशति—

छेदो जेण ण विज्जदि ग्रहणविसर्गेषु सेवमाणस्स ।

समणो तेणिह वट्टदु कालं खेतं वियाणिता ॥ २२२ ॥

छेदो येन न विद्यते ग्रहणविसर्गेषु सेवमानस्य ।

श्रमणस्तेनेह वर्ततां कालं क्षेत्रं विशाय ॥ २२२ ॥

आत्मद्रव्यस्य द्वितीयपुद्गलद्रव्याभावात्सर्वोपधिः प्रतिषिद्ध इत्युत्सर्गः । अयं तु विशिष्ट-कालक्षेत्रवशात्कश्चिदप्रतिषिद्ध इत्यपवादः । यदा हि श्रमणः सर्वोपधिप्रतिषेधमास्थाय परममुपेक्षा-

अवश्यमेव होता ही है । तथा उपधि जिसका द्वितीय हो (अर्थात् आत्मासे अन्य-परिग्रह जिसने ग्रहण किया हो) उसके परद्रव्यमें रतत्व (-लीनता) होनेके कारण शुद्धात्मद्रव्यकी साधकताका अभाव होता है; इससे उपधिके ऐकान्तिक अन्तरंगच्छेदत्व निश्चित होता ही है ।

यहाँ यह तात्पर्य है कि—‘उपधि ऐसी है (परिग्रह अन्तरंग छेद ही है), यह निश्चित करके उसे सर्वथा छोड़ना चाहिये ॥ २२१ ॥

अब, ‘किसीके कहीं कभी किसी प्रकार कोई उपधि अनिषिद्ध भी है’ ऐसा अपवाद कहते (बतलाते) हैं:—

गाथा २२२

अन्वयार्थः—[ग्रहणविसर्गेषु] जिस उपधिके (आहार-नीहारादिके) ग्रहण विसर्जनमें सेवन करनेमें [येन] जिससे [सेवमानस्य] सेवन करनेवालेके [छेदः] छेद [न विद्यते] नहीं होता [तेन] उस उपधियुक्त, [कालं क्षेत्रं विशाय] काल क्षेत्रको जानकर, [इह] इस लोकमें [श्रमणः] श्रमण [वर्तताम्] भले वर्ते ।

टीका:—आत्मद्रव्यके द्वितीय पुद्गलद्रव्यका अभाव होनेसे समस्त ही उपधि निषिद्ध है—ऐसा उत्सर्ग (सामान्य नियम है); और विशिष्ट कालक्षेत्रके वश कोई उपधि अनिषिद्ध है—ऐसा अपवाद है । जब श्रमण सर्व उपधिके निषेधका आश्रय लेकर

संयमं प्रतिपत्तुकामोऽपि विशिष्टकालक्षेत्रवशावसन्नशक्तिर्न प्रतिपत्तुं भ्रमते तदापकृष्य संयमं प्रतिपद्यमानस्तद्बहिरङ्गसाधनमात्रमुपधिमातिष्ठते । स तु तथा स्वीयमानो न खलूपधित्वाच्छेदः, प्रत्युत छेदप्रतिषेध एव । यः किलाशुद्धोपयोगाविनाभावी स छेदः । अयं तु आमण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरवृत्तिहेतुभूताहारनिर्हारादिग्रहणविसर्जनविषयच्छेदप्रतिषेधार्थमुपादीयमानः सर्वथा शुद्धोपयोगाविनाभूतत्वाच्छेदप्रतिषेध एव स्यात् ॥ २२२ ॥

अथाप्रतिषिद्धोपधिस्वरूपमुपदिशति—

अप्यडिकुट्टं उवधिं अपत्थणिज्जं अमंजदजणेहिं ।

मुच्छादिजणणरहिदं गेरहदु समणो जदि वि अप्पं ॥२२३॥

अप्रतिक्रुष्टमुपधिमप्रार्थनीयमसंयतजनैः ।

मूच्छादिजननरहितं गृह्णातु श्रमणो यद्यप्यल्पम् ॥ २२३ ॥

परमोपेक्षा 'संयमको प्राप्त करनेका इच्छुक होने पर भी विशिष्ट कालक्षेत्रके वश हीन शक्तिवाला होनेसे उसे प्राप्त करनेमें असमर्थ होता है, तब उसमें 'अपकर्षण करके (अनुत्कृष्ट) संयम प्राप्त करता हुआ उसकी बहिरंग साधनमात्र उपधिका आश्रय लेता है । इसप्रकार जिसका आश्रय लिया जाता है ऐसी वह उपधि उपधिपनके कारण वास्तवमें छेदरूप नहीं है, प्रत्युत छेदकी निषेधरूप (त्यागरूप) ही है । जो उपधि अशुद्धोपयोगके बिना नहीं होती वह छेद है । किन्तु यह (संयमकी बाह्यसाधनमात्रभूत उपधि) तो आमण्यपर्यायकी सहकारी कारणभूत शरीरकी वृत्तिके हेतुभूत आहार-नीहारादिके ग्रहण-विसर्जन (ग्रहण-त्याग) संबंधी छेदके निषेधार्थ ग्रहण की जानेसे सर्वथा शुद्धोपयोग सहित है, इसलिये छेदके निषेधरूप ही है ॥ २२२ ॥

अब, अनिषिद्ध उपधिका स्वरूप कहते हैं:—

गाथा २२३

अन्वयार्थः—[यद्यपि अल्पम्] भले ही अल्प हो तथापि [अप्रतिक्रुष्टम्] जो अनिदित हो, [असंयतजनैः अप्रार्थनीयं] असंयतजनोंसे अप्रार्थनीय हो, और [मूच्छा-

१. पर-उपेक्षा संयम -- परम-उपेक्षा संयम [उत्सर्ग, निश्चयनय, सर्वपरित्याग परमोपेक्षा संयम, वीतराग चारित्र, और शुद्धोपयोग;—यह सब एकार्थवाची हैं ।]

२. अपकर्षण = हीनता [अपवाद, व्यवहारनय, एकदेशपरित्याग, अपहृतसंयम (अल्पता-हीनता-वाला संयम) सरागचारित्र, और शुद्धोपयोग यह सब एकार्थवाची हैं ।]

यः किलोपधिः सर्वथा बन्धासाधकत्वादप्रतिक्रुष्टः संयमादन्यत्रानुचितत्वादसंयतजना-
प्रार्थनीयो रागादिपरिणाममन्तरेण धार्यमाणत्वान्मूर्च्छादिजननरहितश्च भवति स खन्वप्रतिषिद्धः ।
अतो यथोदितस्वरूप एवोपधिरुपादेयो न पुनरल्पोऽपि यथोदितविपर्यस्तस्वरूपः ॥ २२३ ॥

अथोत्सर्ग एव वस्तुधर्मो न पुनरपवाद इत्युपदिशति—

किं किञ्चन त्ति तर्कं अपुणर्भवकामिणोध देहे वि ।
संग त्ति जिणवरिंदा णिप्पडिकम्मत्तमुद्दिट्ठा ॥ २२४ ॥

किं किञ्चनमिति तर्कः अपुनर्भवकामिनोऽथ देहेऽपि ।

संग इति जिनवरेन्द्रा निःप्रतिकर्मत्वमुद्दिष्टवन्तः ॥ २२४ ॥

अत्र श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणत्वेनाप्रतिषिध्यमानेऽत्यन्तमुपात्तदेहेऽपि परद्रव्यत्वात्परि-
ग्रहोऽयं न नामानुग्रहार्हः किंतूपेक्ष्य एवेत्यप्रतिकर्मत्वमुपदिष्टवन्तो भगवन्तोऽर्हद्देवाः । अथ तत्र

दिजनन रहितं] जो मूर्च्छादिकी जननरहित हो [उपधि] ऐसी ही उपधिको [श्रमणः]
श्रमण [गृह्णातु] ग्रहण करो ।

टीकाः—जो उपधि सर्वथा बंधका असाधक होनेसे अनिदित है, संयतके
अतिरिक्त अन्यत्र अनुचित होनेसे असंयतजनोंके द्वारा अप्रार्थनीय (अनिच्छनीय) है,
और रागादिपरिणामके बिना धारण की जानेसे मूर्च्छादिके उत्पादनसे रहित है, वह
वास्तवमें अनिषिद्ध है । इससे यथोक्त स्वरूपवाली उपधि ही उपादेय है, किन्तु
किञ्चित्मात्र भी यथोक्त स्वरूपसे विपरीत स्वरूपवाली उपधि उपादेय नहीं है ॥ २२३ ॥

अब, 'उत्सर्ग ही वस्तुधर्म है, अपवाद नहीं' ऐसा उपदेश करते हैंः—

भाषा २२४

अन्वयार्थः—[अथ] जब कि [जिनवरेन्द्राः] जिनवरेन्द्रोंने [अपुनर्भवका-
मिनः] मोक्षाभिलाषीके, [संगः इति] 'देह परिग्रह है' यह कहकर [देहे अपि] देहमें भी
[निःप्रतिकर्मत्वम्] अप्रतिकर्मत्व (संस्काररहितत्व) [उद्दिष्टवन्तः] कहा (उपदेशा) है,
तब [किं किञ्चनम् इति तर्कः] उनका यह (स्पष्ट) आशय है कि उसके अन्य परिग्रह तो
कैसे हो सकता है ?

टीकाः—यहाँ, श्रामण्यपर्यायका सहकारी कारण होनेसे जिसका निषेध नहीं
किया गया है ऐसे अत्यन्त 'उपात्त शरीरमें भी, 'यह (शरीर) परद्रव्य होनेसे परिग्रह

१. उपात्त = प्राप्त, मिला हुआ ।

शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसंभावनरसिकस्य पुंसः शेषोऽन्योऽनुपात्तः परिग्रहो वराकः किं नाम स्यादिति व्यक्त एव हि तेषामाकृतः । अतोऽवधार्यते उत्सर्ग एव वस्तुधर्मो न पुनरपवादः । इदमत्र तात्पर्यं वस्तुधर्मस्वात्परमनैर्ग्रन्थयमेवावलम्ब्यम् ॥ २२४ ॥

अथ केऽपवादविशेषा इत्युपदिशति—

उवयरणं जिणमर्गो लिंगं जहजादरूपमिदि भणितं ।

गुरुवयणं पि य विणत्रो मुत्तज्जयणं च णिदिट्ठं ॥ २२५ ॥

उपकरणं जिनमार्गं लिङ्गं यथाजातरूपमिति भणितम् ।

गुरुवचनमपि च विनयः सूत्राध्ययनं च निर्दिष्टम् ॥ २२५ ॥

यो हि नामाप्रतिषिद्धोऽस्मिन्नुपधिरपवादः स खलु निखिलोऽपि श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणत्वेनोपकारकारकत्वादुपकरणभूत एव न पुनरन्यः । तस्य तु विशेषाः सर्वाहार्यवर्जित-

है. वास्तवमें यह अनुग्रहयोग्य नहीं, किन्तु उपेक्षा योग्य ही है' ऐसा कहकर, भगवन्त अर्हन्तदेवोंने अप्रतिकर्मत्व कहा (उपदेश) है, तब फिर वहाँ शुद्धात्मतत्त्वोपलब्धि की संभावनाके रसिक पुरुषोंके शेष—अन्य 'अनुपात्त परिग्रह वेचारा कैसे (अनुग्रह योग्य) हो सकता है ?—ऐसा उनका (अर्हन्त देवोंका) आशय व्यक्त ही है । इससे निश्चित होता है कि—उत्सर्ग ही वस्तुधर्म है, अपवाद नहीं । तात्पर्य यह है कि वस्तुधर्म होनेसे परम निर्ग्रन्थत्व ही अवलम्बन योग्य है ॥ २२४ ॥

अब, अपवादके कौनसे विशेष (भेद) हैं, सो कहते हैं:—

गाथा २२५

अन्वयार्थः—[यथाजातरूपं लिंगं] यथाजातरूप (जन्मजात-नग्न) लिंग [जिन-मार्गं] जिनमार्गमें [उपकरणं इति भणितम्] उपकरण कहा गया है, [गुरुवचनं] गुरु के वचन, [सूत्राध्ययनं च] सूत्रोंका अध्ययन [च] और [विनयः अपि] विनय भी [निर्दिष्टम्] उपकरण कही गई है ।

टीका:—इसमें जो अनिषिद्ध उपधि अपवाद है, वह सभी वास्तवमें ऐसा ही है कि जो श्रामण्यपर्यायके सहकारी कारणके रूपमें उपकार करनेवाला होनेसे उपकरण

सहजरूपापेक्षितयथाजातरूपत्वेन बहिरंगलिंगभूताः कायपुद्गलाः श्रूयमाणतत्कालबोधकगुरुगीर्य-
माणात्मतत्त्वद्योतकसिद्धोपदेशवचनपुद्गलास्तथाधीयमाननित्यबोधकानादिनिधनशुद्धात्मतत्त्वद्योत-
नसमर्थश्रुतज्ञानमाघनीभूतशब्दात्मकसूत्रपुद्गलाश्च शुद्धात्मतत्त्वव्यञ्जकदर्शनादिपर्यायतत्परिणत-

भूत है, दूसरा नहीं। उसके विशेष (भेद) इसप्रकार हैं:— (१) सर्व 'आहार्य' रहित सहजरूपसे अपेक्षित (सर्व 'आहार्य' रहित) यथाजातरूपत्वके कारण जो बहिरंग लिंगभूत हैं ऐसे कायपुद्गल; (२) जिनका श्रवण किया जाता है ऐसे 'तत्कालबोधक', गुरुद्वारा कहे जाने पर 'आत्मतत्त्व-द्योतक', 'सिद्ध उपदेशरूप वचनपुद्गल; तथा (३) जिनका अध्ययन किया जाता है ऐसे, नित्यबोधक, अनादिनिधन शुद्ध आत्मतत्त्वको प्रकाशित करनेमें समर्थ श्रुतज्ञानके साधनभूत शब्दात्मक सूत्रपुद्गल; और (४) शुद्ध आत्मतत्त्वको व्यक्त करनेवाली जो दर्शनादिक पर्यायें, उनरूपसे परिणमित पुरुषके प्रति 'विनीतताका अभिप्राय प्रवर्तित करनेवाले चित्र पुद्गल। (अपवाद मार्गमें जिस उपकरणभूत उपधिका निषेध नहीं है उसके उपरोक्त चार भेद हैं।)

यहाँ यह तात्पर्य है कि कायकी भाँति वचन और मन भी वस्तुधर्म नहीं है।

भावार्थः—जिस श्रमणकी श्रामण्यपर्यायिके सहकारी कारणभूत, सर्व कृत्रिमताओंसे रहित यथाजातरूपके सम्मुख वृत्ति जाये, उसे कायका परिग्रह है; जिस श्रमणकी गुरु उपदेशके श्रवणमें वृत्ति रुके, उसे वचनपुद्गलोंका परिग्रह है; जिस श्रमणकी सूत्राध्ययनमें वृत्ति रुके उसके सूत्रपुद्गलोंका परिग्रह है; और जिस श्रमणके योग्य पुरुषके प्रति विनयरूप परिणाम हों उसके मनके पुद्गलोंका परिग्रह है। यद्यपि

१. आहार्य = बाहरसे लाया जानेवाला; कृत्रिम; औपाधिक, (सर्वकृत्रिम—औपाधिक भावोंसे रहित मुनिके आत्माका सहजरूप वस्त्राभूषणादि सर्व कृत्रिमताओंसे रहित यथाजातरूपत्वकी अपेक्षा रखता है अर्थात् मुनिके आत्माका रूप-दशा-सहज होनेसे शरीर भी यथाजात ही होना चाहिये; इसलिये यथाजातरूपत्व मुनित्वका बाह्यलिंग है।]
२. तत्कालबोधक = उसी (उपदेशके) समय ही बोध देनेवाले। [शास्त्र शब्द सदा बोधके निमित्तभूत होनेसे नित्यबोधक कहे गये हैं; गुरुवचन उपदेश कालमें ही बोधके निमित्तभूत होनेसे तत्कालबोधक कहे गये हैं।]
३. आत्मतत्त्वद्योतक = आत्मतत्त्वको समझानेवाले—प्रकाशित करनेवाले।
४. सिद्ध = सफल; रामवाण; अमोघ; अचूक; [गुरुका उपदेश सिद्ध-सफलता रामवाण है।]
५. विनीतता = विनय; नम्रता; [सम्यग्दर्शनादिपर्यायमें परिणमित पुरुषके प्रति विनयभावसे प्रवृत्त होनेमें मनके पुद्गल निमित्तभूत हैं।]

पुरुषविनीतताभिप्रायप्रवर्तकचिचपुद्गलाश्च भवन्ति । इदमत्र तात्पर्यं, कायवद्वचनमनसी अपि न वस्तुधर्मः ॥ २२५ ॥

अथाप्रतिषिद्धशरीरमात्रोपधिपालनविधानमुपदिशति—

इहलोगणिरवेकस्वो अप्पडिवद्धो परम्मि लोयम्मि ।

जुत्ताहारविहारो रहिदकमात्रो हवे ममाणो ॥ २२६ ॥

इहलोकनिरपेक्षः अप्रतिबद्धः परस्मिन् लोके ।

युक्ताहारविहारो रहिदकपायो भवेत् श्रमणः ॥ २२६ ॥

अनादिनिधनैकरूपशुद्धात्मतत्त्वपरिणतत्वादखिलकर्मपुद्गलविपाकात्यन्तविविक्तस्वभावत्वेन रहितकषायत्वात्तदात्ममनुष्यत्वेऽपि समस्तमनुष्यव्यवहारबहिर्भूतत्वेनेहलोकनिरपेक्षत्वात्तथाभवि-

यह परिग्रह उपकरणभूत है, इसलिये अपवादमार्गमें उनका निषेध नहीं है, तथापि वे वस्तु धर्म नहीं हैं ॥ २२५ ॥

अब, अनिषिद्ध शरीर मात्र उपधिके पालनकी विधिका उपदेश करते हैं:—

गाथा २२६

अन्वयार्थः—[श्रमणः] श्रमण [रहितकषायः] कषाय रहित होता हुआ [इहलोक निरपेक्षः] इस लोकमें निरपेक्ष और [परस्मिन् लोके] परलोकमें [अप्रतिबद्धः] अप्रतिबद्ध होनेसे [युक्ताहारविहारः भवेत्] 'युक्ताहार-विहारी होता है ।

टीका:—अनादिनिधन एकरूप शुद्ध आत्मतत्त्वमें परिणत होनेसे श्रमण समस्त कर्मपुद्गलके विपाकसे अत्यन्त विविक्त (भिन्न) स्वभावके द्वारा कषायरहित होनेसे, उस (वर्तमान) कालमें मनुष्यत्वके होते हुये भी (स्वयं) समस्त मनुष्यव्यवहारसे बहिर्भूत होनेके कारण इस लोकके प्रति निरपेक्ष (निस्पृह) है; तथा भविष्यमें होनेवाले देवादि भावोंके अनुभवकी तृष्णासे शून्य होनेके कारण परलोकके प्रति अप्रतिबद्ध है; इसलिये, जैसे ज्ञेयपदार्थोंके ज्ञानकी सिद्धिके लिये (घटपटादि पदार्थोंको देखनेके लिये ही) दीपकमें तेल डाला जाता है और दीपकको हटाया जाता है,

१. युक्ताहार विहारी = (१) योग्य (उचित) आहार-विहारवाला; (२) युक्त अर्थात् योगीके आहार विहारवाला; योग पूर्वक (आत्मस्वभावमें युक्तता पूर्वक) आहार विहारवाला ।

२. बहिर्भूत = बाहर, रहित, उदासीन;

व्यदमर्त्यादिभावानुभूतितृष्णाशून्यत्वेन परलोकाप्रतिबद्धत्वाच्च परिच्छेद्यार्थोपलम्भप्रसिद्धयर्थप्रदीप-
 पूरणोत्सर्पणस्थानीयाभ्यां शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भप्रसिद्धयर्थतच्छरीरसंभोजनसंचलनाभ्यां युक्ताहार-
 विहारो हि स्यात् श्रमणः । इदमत्र तात्पर्यम्—यतो हि रहितकषायः ततो न तच्छरीरानुरागेण
 दिव्यशरीरानुरागेण वाहारविहारयोरयुक्त्या प्रवर्तेत । शुद्धात्मतत्त्वोपलम्भसाधकश्रामण्यपर्याय-
 पालनायैव केवलं युक्ताहारविहारः स्यात् ॥ २२६ ॥

अथ युक्ताहारविहारः साक्षादनाहारविहार एवेत्युपदिशति—

जस्स अणोसणमप्पा तं पि तवो तप्पडिच्छग्गा समणा ।

अरणं भिक्खमणोसणमथ ते समणा अणाहारा ॥ २२७ ॥

यस्यानेपण आत्मा तदपि तपः तत्प्रत्येषकाः श्रमणाः ।

अन्यद्भैक्षमनेषणमथ ते श्रमणा अनाहाराः ॥२२७॥

उसीप्रकार श्रमण शुद्ध आत्मतत्त्वकी उपलब्धिकी सिद्धिके लिये (शुद्धात्माको प्राप्त करनेके लिये ही) शरीरको खिलाता और चलाता है, इसलिये युक्ताहारविहारी होता है ।

यहाँ तात्पर्य यह किः—श्रमण कषाय रहित है इसलिये वह शरीरके (वर्तमान मनुष्य शरीरके) अनुरागसे या दिव्य शरीरके भावी देव शरीरके) अनुरागसे आहार विहारमें अयुक्तरूपसे प्रवृत्त नहीं होता; (किन्तु शुद्धात्मतत्त्वकी उपलब्धिकी साधकभूत श्रामण्यपर्यायके पालनके लिये ही केवल युक्ताहारविहारी होता है ॥ २२६ ॥

अब, युक्ताहारविहारी साक्षात् अनाहारविहारी ही है, ऐसा उपदेश करते हैंः—

गाथा २२७

अन्वयार्थः—[यस्य आत्मा अनेषणः] जिसका आत्मा एषणरहित है (अर्थात् जो अनशनस्वभावी आत्माका ज्ञाता होनेसे स्वभावसे ही आहारकी इच्छासे रहित है) [तत् अपि तपः] उसे वह भी तप है; (और) [तत्प्रत्येषकाः] उसे प्राप्त करनेके लिये (अनशनस्वभाववाले आत्माको परिपूर्णतया प्राप्त करनेके लिये) प्रयत्न करनेवाले [श्रमणाः] श्रमणोंके [अन्यद् भैक्षम्] अन्य (स्वरूपसे पृथक्) भिक्षा [अनेषणम्] एषणरहित (एषणदोषसे रहित) होती है; [अथ] इसलिये [ते श्रमणाः] वे श्रमण [अनाहाराः] अनाहारी हैं ।

स्वयमनशनस्वभावत्वाद्देषणादोषशून्यभैक्ष्यत्वाच्च युक्ताहारः साक्षादनाहार एव स्यात् ।
 तथाहि—यस्य सकलकालमेव सकलपुद्गलाहरणशून्यमात्मानमवबुद्धयमानस्य सकलाशनतृष्णा-
 शून्यत्वात्स्वयमनशन एव स्वभावः । तदेव तस्यानशनं नाम तपोऽन्तरङ्गस्य बलीयस्त्वात् इति
 कृत्वा ये तं स्वयमनशनस्वभावं भावयन्ति श्रमणाः, तत्प्रतिषिद्धये चैषणादोषशून्यमन्यद्भैक्षं
 चरन्ति, ते किलाहरन्तोऽप्यनाहरन्त इव युक्ताहारत्वेन स्वभावपरमावप्रत्ययबन्धाभावात्साक्षाद-
 नाहारा एव भवन्ति । एवं स्वयमविहारस्वभावत्वात्समितिशुद्धविहारत्वाच्च युक्तिविहारः साक्षाद-
 विहार एव स्यात् इत्यनुक्तमपि गम्येतेति ॥ २२७ ॥

अथ कुतो युक्ताहारत्वं सिद्धयतीत्युपदिशति—

केवलदेहो समणो देहे ण ममत्ति रहिदपरिकम्भो ।

आजुत्तो तं नवमा अण्णिगृहिय अण्णो सत्ति ॥ २२८ ॥

टीकाः— (१) स्वयं अनशनस्वभाववाला होनेसे (अपने आत्माको स्वयं
 अनशनस्वभाववाला जाननेसे) और (२) एषणादोषशून्यभिक्षावाला होनेसे, युक्ताहारी
 (श्रमण) साक्षात् अनाहारी ही है । यथा—सदा ही समस्त पुद्गलाहारसे शून्य आत्माको
 जानता हुआ समस्त अशनतृष्णारहित होनेसे जिसका *स्वयं अनशन ही स्वभाव है,
 वही उसके अनशन नामक तप है, क्योंकि अंतरंगकी विशेष बलवत्ता है । यह समझकर
 जो श्रमण (१) आत्माको स्वयं अनशनस्वभाव भाते हैं (समझते हैं, अनुभव करते
 हैं) और (२) उसकी सिद्धिके लिये (पूर्ण प्राप्तिके लिये) एषणादोषशून्य अन्य
 (पररूप भिक्षा आचरते हैं; वे आहार करते हैं, फिर भी मानों आहार नहीं करते
 हों—ऐसे होनेसे साक्षात् अनाहारी ही हैं, क्योंकि युक्ताहारित्वके कारण उनके स्वभाव
 तथा परभावके निमित्तसे बन्ध नहीं होता ।

इसप्रकार (जैसे युक्ताहारी साक्षात् अनाहारी ही है, यह कहा गया है
 उसीप्रकार), (१) स्वयं अविहारस्वभाववाला होनेसे और (२) समितिशुद्ध
 (ईर्यासमित्तसे शुद्ध) विहारवाला होनेसे युक्तविहारी (श्रमण) साक्षात् अविहारी ही
 है—इसप्रकार, अनुक्त होनेपर भी (गाथामें नहीं कहनेपर भी) समझना
 चाहिये ॥ २२७ ॥

अब, (श्रमणके) युक्ताहारित्व कैसे सिद्ध होता है सो उपदेश करते हैंः—

* स्वयं = अपने आप; अपनेसे; सहजतासे (अपने आत्माको स्वयं अनशन स्वभावो जानना वही
 अनशन नामक तप है)

केवलदेहः श्रमणो देहे न ममेति रहितपरिकर्मा ।

आयुक्तवांस्तं तपसा अनिगूह्यात्मनः शक्तिम् ॥ २२८ ॥

यतो हि श्रमणः श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणत्वेन केवलदेहमात्रस्योपधेः प्रसह्याप्रति-
षेधकत्वात्केवलदेहत्वे सत्यपि देहे 'किं किंचण' इत्यादिप्राक्तनसूत्रद्योतितपरमेश्वराभिप्रायपरिग्रहे-
ण न नाम ममार्यं ततो नानुग्रहार्हः किंतूपेक्ष्य एवेति परित्यक्तसमस्तसंस्कारत्वाद्द्रहितपरिकर्मा
स्यात् । ततस्तन्ममत्वपूर्वकानुचिताहारग्रहणाभावाद्युक्ताहारत्वं सिद्ध्येत् । यतश्च समस्तामप्यात्म-
शक्तिं प्रकटयन्नन्तरसूत्रोदितेनानशनस्वभावलक्षणैः तपसा तं देहं सर्वात्मनेनाभिपुक्तवान्

गाथा २२८

अन्वयार्थः—[केवलदेहः श्रमणः] केवलदेही (जिसके देहमात्रपरिग्रह
विद्यमान है, ऐसे) श्रमणने [देहे] शरीरमें भी [न मम इति] 'मेरा नहीं है' यह
समझकर [रहितपरिकर्मा] 'परिकर्म रहित होते हुये, [आत्मनः] अपने आत्माकी
[शक्तिं] शक्तिको [अनिगूह्य] छुपाये बिना [तपसा] तपके साथ [तं] उसे
(शरीरको) [आयुक्तवान्] युक्त किया (जोड़ा) है ।

टीकाः—श्रामण्यपर्यायके सहकारी कारणके रूपमें केवल देहमात्र उपधिको
श्रमण बलपूर्वक-हठसे निषेध नहीं करता इसलिये वह केवल देहवान् है; ऐसा
(देहवान्) होने पर भी, 'किं किंचण' इत्यादि पूर्वसूत्र (गाथा २२४) द्वारा प्रकाशित
किये गये परमेश्वरके अभिप्रायका ग्रहण करके 'यह (शरीर) वास्तवमें मेरा नहीं
है इसलिये यह अनुग्रह योग्य नहीं है किन्तु उपेक्षा योग्य ही है' इसप्रकार समस्त
शारीरिक संस्कारको छोड़ा हुआ होनेसे परिकर्मरहित है । इसलिये उसके देहके
ममत्वपूर्वक अनुचित आहारग्रहणका अभाव होनेसे युक्ताहारित्व सिद्ध होता है । और
प्रकारान्तरसे उसने (आत्मशक्तिको किंचित्मात्र भी छुपाये बिना) समस्त ही
आत्मशक्तिको प्रकट करके, अन्तिम (गाथा २२७) सूत्र द्वारा कथित 'अनशनस्वभाव-
लक्षण तपके साथ उस शरीरको सर्वात्मभ (उद्यम) से युक्त किया है (जोड़ा है) ; इसलिये

१ परिकर्म = शोभा; शृङ्गार; संस्कार; प्रतिकर्म ।

२ अनशनस्वभावलक्षणतप = अनशनस्वभाव जिसका लक्षण है ऐसा तप । [जो आत्माके अनशन
स्वभावको जानता है उसके अनशनस्वभावलक्षण तप पाया जाता है ।]

स्यात् । तत् आहारग्रहणपरिणामात्मकयोगध्वंसामावाद्युक्तस्यैवाहारेण च युक्ताहारत्वं सिद्धयेत् ॥ २२८ ॥

अथ युक्ताहारस्वरूपं विस्तरेणोपदिशति—

एकं खलु तं भक्तं अप्पडिपुण्णोदरं जहालद्धं ।

चरणं भिक्षवेण दिवा ण रमापेक्षं ण मधुमांसं ॥ २२९ ॥

एकः खलु स भक्तः अप्रतिपूर्णोदरो यथालब्धः ।

भैक्षाचरणेन दिवा न रमापेक्षो न मधुमांसः ॥ २२९ ॥

एककाल एवाहारो युक्ताहारः, तावतैव श्रामण्यपर्यायसहकारिकारणशरीरस्य धारणत्वात् । अनेककालस्तु शरीरानुरागसेव्यमानत्वेन प्रसह्य हिंसायतनीक्रियमाणो न युक्तः । शरीरानुराग-

आहारग्रहणके परिणामस्वरूप 'योगध्वंसका' अभाव होनेसे उसका आहार युक्त (योगी) का आहार है; इसलिये उसके युक्ताहारित्व सिद्ध होता है ।

भावार्थः—श्रमण दो प्रकारसे युक्ताहारी सिद्ध होता है; (१) शरीर पर ममत्व न होनेसे उसके उचित ही आहार होता है, इसलिये वह युक्ताहारी अर्थात् उचित आहारवाला है । और (२) 'आहारग्रहण आत्माका स्वभाव नहीं है' ऐसा परिणाम स्वरूप योग श्रमणके वर्तित होनेसे वह श्रमण युक्त अर्थात् योगी है, और इसलिये उसका आहार युक्ताहार अर्थात् योगीका आहार है ॥ २२८ ॥

अब युक्ताहारका स्वरूप विस्तारसे उपदेश करते हैं:—

गाथा २२९

अन्वयार्थः—[खलु] वास्तवमें [सः भक्तः] वह आहार (युक्त हार) [एकः] एक बार [अप्रतिपूर्णोदरः] ऊनोदर [यथालब्धः] यथालब्ध (जैसा प्राप्त हो वैसा), [भैक्षाचरणेन] भिक्षाचरणसे, [दिवा] दिनमें [न रमापेक्षः] रसकी अपेक्षासे रहित, और [न मधुमांसः] मधु मांस रहित होता है ।

टीकाः—एकबार आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि उतनेसे ही श्रामण्य पर्यायका सहकारी कारणभूत शरीर टिका रहता है । [एकसे अधिकबार आहार लेना

१ योगध्वंस—योगका नाश ['आहार ग्रहण करना आत्माका स्वभाव है' ऐसे परिणामसे परिणामित होना योगध्वंस है । श्रमणके ऐसा योगध्वंस नहीं होता, इसलिये वह युक्त अर्थात् योगी है, और इसलिये उसका आहार युक्ताहार अर्थात् योगीका आहार है ।]

सेवकत्वेन न च युक्तस्य । अप्रतिपूर्णोदर एवाहारो युक्ताहारः तस्यैवाप्रतिहतयोगत्वात् । प्रति-
पूर्णोदरस्तु प्रतिहतयोगत्वेन कथंचित् हिंसायतनीभवन् न युक्तः । प्रतिहतयोगत्वेन न च युक्तस्य ।
यथालब्ध एवाहारो युक्ताहारः तस्यैव विशेषप्रियत्वलक्षणानुरागशून्यत्वात् । अयथालब्धस्तु
विशेषप्रियत्वलक्षणानुरागसेव्यमानत्वेन प्रसह्य हिंसायतनीक्रियमाणो न युक्तः । विशेषप्रियत्व-
लक्षणानुरागसेवकत्वेन न च युक्तस्य । भिन्नाचरणेनैवाहारो युक्ताहारः तस्यैवारम्भशून्यत्वात् ।
अभैन्नाचरणेन त्वारम्भसंभवात्प्रसिद्धहिंसायतनत्वेन न युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरशुद्धि-

युक्ताहार नहीं है, यह निम्नलिखित दोप्रकारसे सिद्ध होता है:—] (१) शरीरके
अनुरागसे ही अनेकबार आहारका सेवन किया जाता है, इसलिये अत्यन्ततया
'हिंसायतन किया जाता हुआ युक्त (योग्य) नहीं है; (अर्थात् वह युक्ताहार नहीं
है); और (२) अनेकबार आहारका सेवन करनेवाला शरीरानुरागसे सेवन
करनेवाला होता है इसलिये वह 'आहारयुक्त (योगी) का नहीं है; (अर्थात् वह
युक्ताहार नहीं है ।)

^३अपूर्णोदर आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वही ^४प्रतिहत ^५योगरहित है ।
[पूर्णोदर आहार युक्ताहार नहीं है, यह निम्नलिखित दोप्रकारसे सिद्ध होता है ।]
(१) पूर्णोदर आहार प्रतिहत योगवाला होनेसे कथंचित् हिंसायतन होता हुआ युक्त
(योग्य) नहीं है; और (२) पूर्णोदर आहार करने वाला प्रतिहत योगवाला
होनेसे वह युक्त (योगी) का आहार नहीं है ।

यथालब्ध आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वही (आहार) विशेषप्रियता-
स्वरूप अनुरागसे शून्य है । (१) 'अयथालब्ध आहार विशेषप्रियतास्वरूप अनुरागसे
सेवन किया जाता है, इसलिये अत्यंतिक हिंसायतन किया जाता हुआ युक्त (योग्य)
नहीं है; और अयथालब्ध आहारका सेवन करनेवाला विशेष प्रियतास्वरूप अनुरागके

१ हिंसायतन=हिंसाका स्थान [एकसे अधिकबार आहार करनेमें शरीरका अनुराग होता है,
इसलिये वह आहार आत्यंतिक हिंसाका स्थान होता है, क्योंकि शरीरका अनुराग ही
स्व-हिंसा है ।]

२ युक्त=आत्मस्वभावमें लगा हुआ; योगी ।

३ अपूर्णोदर=पूरा पेट न भरकर; ऊनोदर करना ।

४ प्रतिहत=हनित, नष्ट, रुका हुआ, विघ्नको प्राप्त ।

५ योग=आत्मस्वभावमें जुड़ना ।

६ अयथालब्ध=जैसा मिल जाय वैसा नहीं, किन्तु अपनी परसद्गीका; स्वेच्छालब्ध ।

त्वाञ्च च युक्तस्य । दिवस एवाहारो युक्ताहारः तदेव सम्यग्बलोकनात् । अदिवसे तु सम्यग्बलोकनाभावादनिवार्यहिंसायतनत्वेन न युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरशुद्धित्वाञ्च च युक्तस्य । अरसापेक्ष एवाहारो युक्ताहारस्तस्यैवान्तःशुद्धिसुन्दरत्वात् । रसापेक्षस्तु अन्तरशुद्ध्या प्रसन्न हिंसायतनीक्रियमाणो न युक्तः । अन्तरशुद्धिसेवकत्वेन न च युक्तस्य । अमधुमांस एवाहारो युक्ताहारः तस्यैवाहिंसायतनत्वात् । समधुमांसस्तु हिंसायतनत्वाञ्च युक्तः । एवंविधाहारसेवनव्यक्तान्तरशुद्धित्वाञ्च च युक्तस्य । मधुमांसमत्र हिंसायतनोपलक्षणं तेन समस्तहिंसायतनशून्य एवाहारो युक्ताहारः ॥ २२९ ॥

द्वारा सेवन करनेवाला होनेसे, वह आहार युक्त (योगी) का नहीं है ।

भिक्षाचरणमे आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वही आरंभशून्य है । (१) अभिक्षाचरणसे (भिक्षाचरण रहित) आहारमें आरम्भका सम्भव होनेसे हिंसायतनत्व प्रसिद्ध है, अतः वह आहार युक्त (योग्य) नहीं है; और (२) ऐसे आहारके सेवनमें (सेवन करनेवालेकी) अन्तरंग अशुद्धि व्यक्त (प्रगट) होनेसे वह आहार युक्त (योगी) का नहीं है ।

दिनका आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि वही भलीभाँति देखा जा सकता है । (१) अदिवस (दिनके अतिरिक्त समयमें) आहार भलीभाँति नहीं देखा जा सकता, इसलिये उसके हिंसायतनत्व अनिवार्य होनेसे वह आहार युक्त (योग्य) नहीं है; और (२) ऐसे आहारके सेवनमें अन्तरंग अशुद्धि व्यक्त होनेसे वह आहार युक्त (योगी) का नहीं है ।

रसकी अपेक्षामें रहित आहार ही युक्ताहार है । क्योंकि वही अन्तरंग शुद्धिसे सुन्दर है । (१) रसकी अपेक्षामें युक्त आहार अन्तरंग अशुद्धिके द्वारा आत्मतिक हिंसायतन किया जाता हुआ युक्त (योग्य) नहीं है; और (२) उसका सेवन करनेवाला अन्तरंग अशुद्धि पूर्वक सेवन करता है इसलिये वह आहार युक्त (योगी) का नहीं है ।

मधु मांस रहित आहार ही युक्ताहार है, क्योंकि उसके ही हिंसायतनत्वका अभाव है । (१) मधु-मांस सहित आहार हिंसायतन होनेसे युक्त (योग्य) नहीं है; और (२) ऐसे आहारके सेवनमें अन्तरंग अशुद्धि व्यक्त होनेसे वह आहार युक्त (योगी) का नहीं है । यहाँ मधु-मांस हिंसायतनका उपलक्षण है इसलिये ('मधु-मांस रहित आहार युक्ताहार है' इस कथनसे यह समझना चाहिये कि) समस्त हिंसायतनशून्य आहार ही युक्ताहार है ॥ २२९ ॥

अथोत्सर्गापवादमैत्रीसौख्यमाचरणस्योपदिशति—

बालो वा वृद्धो वा श्रमाभिहतो वा पुणो ग्लानो वा ।
चरियं चरदु मज्जोग्गं मूलच्छेदो जथा ण हवदि ॥ २३० ॥

बालो वा वृद्धो वा श्रमाभिहतो वा पुनर्ग्लानो वा ।

चर्यां चरतु स्वयोग्यां मूलच्छेदो यथा न भवति ॥ २३० ॥

बालवृद्धश्रान्तग्लानेनापि संयमस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा संयतस्य स्वस्य योग्यमतिकर्कशमेवाचरणमाचरणीयमित्युत्सर्गः । बालवृद्धश्रान्तग्लानेन शरीरस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनभूतसंयमसाधनत्वेन । मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा बालवृद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यं मृद्वेवाचरणमाचरणीयमित्यपवादः । बालवृद्धश्रान्तग्लानेन संयमस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा संयतस्य स्वस्य योग्यमतिकर्कशमाचरणमाचरता शरीरस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनभूतसंयमसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्

अब उत्सर्ग और अपवादकी मैत्री द्वारा आचरणकी सुस्थितताका उपदेश करते हैं:—

गाथा २३०

अन्वयार्थः—[बालः वा] बाल [वृद्धः वा] वृद्ध [श्रमाभिहतः वा] श्रान्त [पुनः ग्लानः वा] या ग्लान श्रमण [मूलच्छेदः] मूलका छेद [यथा न भवति] जैसे न हो उसप्रकारसे [स्वयोग्यां] अपने योग्य [चर्यां चरतु] आचरण आचरो ।

टीकाः—बाल, वृद्ध, श्रमित या ग्लान (श्रमण)को भी संयमका जो कि शुद्धात्मतत्त्वका साधन होनेसे मूलभूत है, उसका—छेद जैसे न हो उसप्रकार संयत—अपने योग्य अति कर्कश (कठोर) आचरण ही आचरना; इसप्रकार उत्सर्ग है ।

बाल, वृद्ध, श्रमित या ग्लान (श्रमण)को शरीरका—जो कि शुद्धात्मतत्त्वके साधनभूत संयमका साधन होनेसे मूलभूत है उसका—छेद जैसे न हो उसप्रकार बाल-वृद्ध-श्रान्त-ग्लानको अपने योग्य मृदु आचरण ही आचरना; इसप्रकार अपवाद है ।

बाल-वृद्ध-श्रान्त-ग्लानके, संयमका—जो कि शुद्धात्मतत्त्वका साधन होनेसे मूलभूत है उसका—छेद जैसे न हो उसप्रकारका संयत ऐसा अपने योग्य अति कठोर

१ श्रान्त = श्रमित; परिश्रमी थका हुआ ।

२ ग्लान = व्याधिग्रस्त; रोगी; दुर्बल ।

तथा बालवृद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यं मृद्व्याचरणमाचरणीयमित्यपवादसापेक्ष उत्सर्गः । बालवृद्धश्रान्तग्लानेन शरीरस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनभूतसंयमसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा बालवृद्धश्रान्तग्लानस्य स्वस्य योग्यं मृद्व्याचरणमाचरता संयमस्य शुद्धात्मतत्त्वसाधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात्तथा संयतस्य स्वस्य योग्यमतिकर्कशमप्याचरणमाचरणीयमित्युत्सर्गसापेक्षोऽपवादः । अतः सर्वथोत्सर्गापवादमैत्र्या सौस्थित्यमाचरणस्य विधेयम् ॥२३०॥

अथोत्सर्गापवादविरोधद्वैतस्थमाचरणस्योपदिशति—

आहारं व विहारं देसं कालं समं स्वमं उवधिं ।

जाणित्ता ते समणो वट्टदि जदि अप्पलेवी सो ॥ २३१ ॥

आचरण आचरते हुये, (उसके) शरीरका—जो कि शुद्धात्मतत्त्वके साधनभूत संयमका साधन होनेसे मूलभूत है उसका (भी) छेद जैसे न हो उसप्रकार बाल-वृद्ध-श्रान्त-ग्लानके (अपने) योग्य मृदु आचरण भी आचरना । इसप्रकार अपवादसापेक्ष उत्सर्ग है ।

बाल-वृद्ध-श्रान्त-ग्लानको शरीरका—जो कि शुद्धात्मतत्त्वके साधनभूत संयमका साधन होनेसे मूलभूत है, उसका—छेद जैसे न हो उसप्रकारसे बाल-वृद्ध-श्रान्त-ग्लान ऐसे अपने योग्य मृदु आचरण आचरते हुये, (उसके) संयमका—जो कि शुद्धात्म-तत्त्वका साधन होनेसे मूलभूत है उसका (भी)—छेद जैसे न हो, उसप्रकारसे संयत ऐसा अपने योग्य अतिकर्कश आचरण भी आचरना; इसप्रकार उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद है ।

इससे (यह कहा है कि) सर्वथा उत्सर्ग और अपवादकी मैत्री द्वारा आचरणकी सुस्थितता करनी चाहिये ॥ २३० ॥

अब, उत्सर्ग और अपवादके विरोध (अमैत्री)से आचरणकी दुःस्थितता होती है, यह उपदेश करते हैं:—

१. अपवादसापेक्ष — अपवादकी अपेक्षा सहित ।

१. दुःस्थित = खराब स्थितिवाला; नष्ट ।

आहारे वा विहारे देशं कालं श्रमं क्षमा उपधिम् ।

ज्ञात्वा तान् श्रमणो वर्तते यद्यल्पलेपी सः ॥ २३१ ॥

अत्र क्षमाग्लानत्वहेतुरुपवासः । बालवृद्धत्वाधिष्ठानं शरीरमुपधिः, ततो बालवृद्धश्रान्त-
ग्लाना एव त्वाकृष्यन्ते । अथ देशकालज्ञस्यापि बालवृद्धश्रान्तग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोः
प्रवर्तमानस्य मृदाचरणप्रवृत्त्वादल्पो लेपो भवत्येव तद्वरमुत्सर्गः । देशकालज्ञस्यापि बालवृद्ध-
श्रान्तग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोः प्रवर्तमानस्य मृदाचरण प्रवृत्त्वादल्प एव लेपो भवति
तद्वरमपवादः । देशकालज्ञस्यापि बालवृद्धश्रान्तग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोरल्पलेपमयेना-
प्रवर्तमानस्यातिकर्कशाचरणीभूयाक्रमेण शरीरं पातयित्वा सुरलोकं प्राप्योद्धान्तसमस्तसंयमामृत-
भारस्य तपसोऽनवकाशतयाशक्यप्रतिकारो महान् लेपो भवति । तत्र श्रेयानपवादनिरपेक्ष

गाथा २३१

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [श्रमणः] श्रमण [आहारे वा विहारे] आहार
अथवा विहारमें [देशं] देश, [कालं] काल, [श्रमं] श्रम, [क्षमां] क्षमता तथा
[उपधिं] उपधि, [तान् ज्ञात्वा] इनको जानकर [वर्तते] प्रवर्त [सः अल्पलेपः]
तो वह अल्पलेपी होता है ।

टीकाः—क्षमता तथा ग्लानताका हेतु उपवास है और बाल तथा वृद्धत्वका
अधिष्ठान उपधिशरीर है, इसलिये यहाँ (टीकामें) बाल-वृद्ध-श्रान्त-ग्लान ही लिये
गये हैं । (अर्थात् मूल गाथामें जो क्षमा, उपधि इत्यादि शब्द हैं उनका आशय
खेंचकर टीकामें 'बाल, वृद्ध, श्रान्त, ग्लान' शब्द ही प्रयुक्त किये गये हैं ।

देशकालज्ञको भी, यदि वह बाल-वृद्ध-श्रान्त ग्लानत्वके अनुरोधसे (अर्थात्
बालत्व, वृद्धत्व, श्रान्तत्व अथवा ग्लानत्वका अनुसरण करके) आहार-विहारमें प्रवृत्ति
करे तो मृदु आचरणमें प्रवृत्त होनेसे अल्प लेप होता ही है, (लेपका सर्वथा अभाव
नहीं होता), इसलिये उत्सर्ग अच्छा है ।

देशकालज्ञको भी, यदि वह बाल-वृद्ध-श्रान्त-ग्लानत्वके अनुरोधसे आहार-
विहारमें प्रवृत्ति करे तो मृदु आचरणमें प्रवृत्त होनेसे अल्प ही लेप होता है । (विशेष
लेप नहीं होता), इसलिये अपवाद अच्छा है ।

१. क्षमता — शक्ति; सहनशक्ति; धैर्य ।

२. देशकालज्ञ — देश-कालको जाननेवाला ।

उत्सर्गः । देशकालज्ञस्यापि बालवृद्धभ्रान्तग्लानत्वानुरोधेनाहारविहारयोरल्पलेपत्वं विगणय्य यथेष्टं प्रवर्तमानस्य मृदाचरणीभूय संयमं विराध्यासंयतजनसमानीभूतस्य तदात्वे तपसोऽनवकाशतया-शक्यप्रतिकारो महान् लेपो भवति तन्न श्रेयानुत्सर्गनिरपेक्षोऽपवादः । अतः सर्वथोत्सर्गापवादवि-

देशकालज्ञको भी, यदि वह बाल-वृद्ध-भ्रान्त-ग्लानत्वके अनुरोधसे, जो आहार-विहार है, उससे होनेवाले अल्पलेपके भयसे उसमें प्रवृत्ति न करे तो (अर्थात् अपवादके आश्रयसे होनेवाले अल्पबन्धके भयसे उत्सर्गका हठ करके अपवादमें प्रवृत्त न हो तो), अति कर्कश आचरणरूप होकर अक्रमसे शरीरपात करके देवलोक प्राप्त करके जिसने समस्त संयमामृतका समूह वमन कर डाला है उसे तपका अवकाश न रहनेसे, जिसका प्रतीकार अशक्य है ऐसा महान् लेप होता है, इसलिये अपवाद निरपेक्ष उत्सर्ग श्रेयस्कर नहीं है ।

देशकालज्ञको भी, यदि वह बाल-वृद्ध-भ्रान्त-ग्लानत्वके अनुरोधसे जो आहार-विहार है, उससे होनेवाले अल्पलेपको न गिनकर उसमें यथेष्ट प्रवृत्ति करे तो (अर्थात् अपवादसे होनेवाले अल्पबन्धके प्रति असावधान होकर उत्सर्गरूप ध्येयको चूककर अपवादमें स्वच्छन्दतया प्रवृत्ति करे तो), मृदुआचरणरूप होकर संयम विरोधीको-असंयतजनके समान हुये उसको-उससमय तपका अवकाश न रहनेसे, जिसका प्रतीकार अशक्य है ऐसा महान् लेप होता है । इसलिये उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद श्रेयस्कर नहीं है ।

इसमें (यह कहा गया है कि) उत्सर्ग और अपवादके विरोधसे होनेवाले आचरणकी दुःस्थितता सर्वथा निषेध्य (व्याज्य) है, और इसीलिये परस्पर सापेक्ष उत्सर्ग और अपवादसे जिसकी वृत्ति (अस्तित्व, कार्य) प्रगट होती है ऐमा स्याद्वाद सर्वथा अनुगम्य (अनुसरण करने योग्य) है ।

भावार्थः—जबतक शुद्धोपयोगमें ही लीन न हो जाया जाय तबतक श्रमणको आचरणकी सुस्थितिके लिये उत्सर्ग और अपवादकी मैत्री साधनी चाहिये । उसे अपनी निर्बलताका लक्ष रखे विना मात्र उत्सर्गका आग्रह रखकर केवल अति कर्कश आचरणका हठ नहीं करना चाहिये; तथा उत्सर्गरूप ध्येयको चूककर मात्र अपवादके आश्रयसे केवल मृदु आचरणरूप शिथिलताका भी सेवन नहीं करना चाहिये । किन्तु इसप्रकारका वर्तन करना चाहिये जिसमें हठ भी न हो और शिथिलताका भी सेवन

रोधदौर्बित्यमाचरणस्य प्रतिषेध्यं तदर्थमेव सर्वथानुगम्यश्च परस्परसापेक्षोत्सर्गापवादविजृम्भित-
वृत्तिः स्याद्वादः ॥ २३१ ॥

*इत्येवं चरणं पुराणपुरुषैर्जुष्टं विशिष्टादरै-

रुन्मर्गादिपवादतश्च विचरद्ब्रह्मीः पृथग्भूमिकाः ।

आक्रम्य क्रमतो निवृत्तिमतुलां कृत्वा यतिः सर्वत-

श्चित्सामान्यविशेषभासिनि निजद्रव्ये करोतु स्थितिम् ॥ १५ ॥

—इत्याचरणप्रज्ञापनं समाप्तम् ।

अथ श्रामण्यापरनाम्नो मोक्षमार्गस्यैकाग्रलक्षणस्य प्रज्ञापनं तत्र तन्मूलसाधनभूते
प्रथममागम एव व्यापारयति—

एयग्गदो समणो एयग्गं णिच्चिदस्स अत्थेसु ।

णिच्चिन्ती आगमदो आगमचेट्ठा तदो जेट्ठा ॥ २३२ ॥

न हो । सर्वज्ञ भगवानका मार्ग अनेकास्त है । अपनी दशाकी जाँच करके जैसे भी
योगतः लाभ हो उसप्रकारसे वर्तन करनेका भगवानका उपदेश है ।

अपनी चाहे जो (सबल या निर्बल) स्थिति हो, तथापि एक ही प्रकारसे
वर्तना, ऐसा जिनमार्ग नहीं है ॥ २३१ ॥

अब श्लोक द्वारा आत्मद्रव्यमें स्थिर होनेकी बात कहकर 'आचरणप्रज्ञापन'
पूर्ण किया जाता है ।

अर्थः—इसप्रकार विशेष आदरपूर्वक पुराण पुरुषोंके द्वारा सेवित, उन्मर्ग
और अपवाद द्वारा अनेक पृथक् पृथक् भूमिकाओंमें व्याप्त चारित्रको यति प्राप्त
करके, क्रमशः अतुल निवृत्ति करके, चैतन्य सामान्य और चैतन्य विशेषरूप जिसका
प्रकाश है ऐसे निजद्रव्यमें सर्वतः स्थिति करे ।

इसप्रकार 'आचरण प्रज्ञापन' समाप्त हुआ ।

अब, श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है ऐसे एकाग्रतालक्षणवाले मोक्षमार्गका
प्रज्ञापन है । उसमें प्रथम उस (मोक्षमार्ग)के मूल साधनभूत आगममें व्यापार
(प्रवृत्ति) कराते हैंः—

एकाग्रयगतः श्रमणः एकाग्रयं निश्चितस्य अर्थेषु ।

निश्चितिगागमत आगमचेष्टा ततो ज्येष्ठा ॥ २३२ ॥

श्रमणो हि तावदैकाग्रयगत एव भवति । एकाग्रयं तु निश्चितार्थस्यैव भवति । अर्थ-निश्चयस्त्वागमादेव भवति । तत आगम एव व्यापारः प्रधानतरः, न चान्या गतिरस्ति । यतो न खन्वागममन्तरेणार्था निश्चेतुं शक्यन्ते तस्यैव हि त्रिसमयप्रवृत्तत्रिलक्षणसकलपदार्थसार्थयाथात्म्यावगमसुस्थिता तरङ्गगम्भीरत्वात् । न चार्थनिश्चयमन्तरेणैकाग्रयं सिद्धयेत् यतोऽनिश्चितार्थस्य कदाचिन्निश्चिकीर्षाकुलितचेतसः समन्ततो दोलायमानस्यात्यन्तरलतया कदाचिन्निश्चिकीर्षाज्वरपरवशस्य विश्वं स्वयं सिस्मृभोर्विश्वव्यापारपरिणतस्य प्रतिक्षणविजृम्भ-

गाथा २३२

अन्वयार्थः—[श्रमणः] श्रमण [एकाग्रयगतः] एकाग्रताको प्राप्त होता है; [एकाग्रयं] एकाग्रता [अर्थेषु निश्चितस्य] पदार्थोंके निश्चयवान्के होती है; [निश्चितिः] (पदार्थोंका) निश्चय [आगमतः] आगम द्वारा होता है; [ततः] इसलिये [आगमचेष्टा] आगममें व्यापार [ज्येष्ठा] मुख्य है ।

टीकाः— प्रथम तो श्रमण वास्तवमें एकाग्रताको प्राप्त ही होता है; एकाग्रता पदार्थोंके निश्चयवान्के ही होती है; और पदार्थोंका निश्चय आगम द्वारा ही होता है; इसलिये आगममें ही व्यापार प्रधानतर (विशेष प्रधान) है; दूसरी गति (अन्यमार्ग) नहीं है । इसका कारण यह है कि—

वास्तवमें आगमके विना पदार्थोंका निश्चय नहीं किया जा सकता; क्योंकि आगम ही, जिसके त्रिकाल (उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यरूप) तीन लक्षण प्रवर्तते हैं ऐसे सकलपदार्थसार्थके यथातथ्य ज्ञान द्वारा सुस्थित अंतरंगसे गम्भीर है (अर्थात् आगमका ही अंतरंग, सर्व पदार्थोंके समूहके यथार्थज्ञान द्वारा सुस्थित है इसलिये आगम ही समस्त पदार्थोंके यथार्थ ज्ञानसे गम्भीर है ।)

और, पदार्थोंके निश्चयके विना एकाग्रता सिद्ध नहीं होती; क्योंकि, जिसे पदार्थोंका निश्चय नहीं है वह (१) कदाचित् निश्चय करनेकी इच्छासे आकुलता-प्राप्त चित्तके कारण सर्वतः दोलायमान (डावाँडोल) होनेसे अत्यन्त तरलता (चंचलता) प्राप्त करता है, (२) कदाचित् करनेकी इच्छारूप ज्वरसे परवश होता हुआ विश्वको (समस्त पदार्थोंको) स्वयं सर्जन करनेकी इच्छा करता हुआ विश्व-

माणभोग्यतया कदाचिद्बुभुक्षाभावितस्य विश्वं स्वयं भोग्यतयोपादाय रागद्वेषदोषकल्माषितचित्तवृत्तेरिष्टानिष्टविभागेन प्रवर्तितद्वैतस्य प्रतिवस्तुपरिणममानस्यात्यन्तविसंस्थुलतया कृतनिश्चयनिःक्रियनिर्भोगं युगपदापीतविश्वमप्यविश्वतयैकं भगवन्तमात्मानमपश्यतः सततं वैयग्रयमेव स्यात् । न चैकाग्रयमन्तरेण श्रामण्यं सिद्ध्यते, यतो नैकाग्रयस्यानेकमेवेदमिति पश्यतस्तथाप्रत्ययाभिनिविष्टस्यानेकमेवेदमिति जानतस्तथानुभूतिभावितस्यानेकमेवेदमितिप्रत्यर्थविकल्पव्यावृत्तचेतसा संततं प्रवर्तमानस्य तथावृत्तिदुःस्थितस्य चैकात्मप्रतीत्यनुभूतिवृत्तिस्वरूपसम्यग्दर्शन-

व्यापाररूप (समस्त पदार्थोंकी प्रवृत्तिरूप) परिणमित होनेसे प्रतिक्षण क्षोभकी प्रगटताको प्राप्त होता है, और (३) कदाचित् भोगनेकी इच्छासे भावित होता हुआ विश्वको स्वयं भोग्यरूप ग्रहण करके, रागद्वेषरूप दोषसे कलुषित चित्तवृत्तिके कारण (वस्तुओंमें) इष्ट अनिष्ट विभागके द्वारा द्वैतको प्रवर्तित करता हुआ प्रत्येक वस्तुरूप परिणमित होनेसे अत्यन्त अस्थिरताको प्राप्त होता है, इसलिये (उपरोक्त तीन कारणोंसे) उस अनिश्चयी जीवके (१) कृत निश्चय, (२) निष्प्रय और (३) निर्भोग ऐसे भगवान् आत्माको—जो कि युगपत् विश्वको पी जानेवाला होने पर भी विश्वरूप न होनेसे एक है उसे—नहीं देखनेसे सतत व्यग्रता ही होती है, (एकाग्रता नहीं होती) ।

और एकाग्रताके बिना श्रामण्य सिद्ध नहीं होता; क्योंकि जिसके एकाग्रता नहीं है वह जीव (१) 'यह अनेक ही है' ऐसा देखता (श्रद्धान करता) हुआ उसप्रकारकी प्रतीतिमें 'अभिनिविष्ट होता है; (२) 'यह अनेक ही है' ऐसा जानता हुआ उसप्रकारकी अनुभूतिसे भावित होता है, और (३) 'यह अनेक ही है' इसप्रकार प्रत्येक पदार्थके विकल्पसे खण्डित (छिन्नभिन्न) चित्त सहित सतत प्रवृत्त होता हुआ उसप्रकारकी वृत्तिसे दुःस्थित होता है, इसलिये उसे एक आत्माकी प्रतीति—अनुभूति—वृत्तिस्वरूप सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य परिणतिरूप प्रवर्तमान जो दृशि (दर्शन)—ज्ञप्ति-वृत्तिरूप आत्मतत्त्वमें एकाग्रता है उसका अभाव होनेसे शुद्धात्मतत्त्व प्रवृत्तिरूप श्रामण्य ही (शुद्धात्मतत्त्वमें प्रवृत्तिरूप मुनित्व ही) नहीं होता ।

इससे (यह कहा गया है कि) मोक्षमार्ग जिसका दूसरा नाम है ऐसे श्रामण्यकी सर्वप्रकारसे सिद्धि करनेके लिये मुमुक्षुको भगवान् अर्हन्त सर्वज्ञसे उपज (स्वयं जानकर

१. अभिनिविष्ट - आसही, दृढ़, ।

२. वृत्ति = वर्तना; चारित्र्य,

ज्ञानचारित्रपरिणतिप्रवृत्तदृष्टिदृष्टिचिरूपात्मतत्त्वैकाग्र्याभावात् शुद्धात्मतत्त्वप्रवृत्तिरूपं श्रामण्य-
मेव न स्यात् । अतः सर्वथा मोक्षमार्गापरनाम्नः श्रामण्यस्य सिद्धये भगवदर्हत्सर्वज्ञोपज्ञे प्रकटा-
नेकान्तकेतने शब्दब्रह्मणि निष्णातेन मुमुक्षुणा भवितव्यम् ॥ २३२ ॥

अथागमहीनस्य मोक्षार्थं कर्मभरणं न संभवतीति प्रतिपादयति—

आगमहीणो भ्रमणो एवप्पाणं परं विजाणादि ।

अविजाणतो अट्टं स्ववेदि कर्माणि किध भिक्खू ॥ २३३ ॥

आगमहीनः भ्रमणो नैवान्मानं परं विजानाति ।

अविजानन्नर्थान् भषयति कर्माणि कथं भिक्खुः ॥ २३३ ॥

कथित) शब्दब्रह्ममें—जिसका कि अनेकान्तरूपी केतन (चिह्न-ध्वज-लक्षण) प्रगट
है उसमें—निष्णात होना चाहिये ।

भावार्थः—आगमके विना पदार्थोंका निश्चय नहीं होता, पदार्थोंके निश्चयके
विना अश्रद्धाजनित तरलता, परकर्तृत्वाभिलाषाजनित क्षोभ और परमोक्तृत्वाभि-
लाषाजनित अस्थिरताके कारण एकाग्रता नहीं होती; और एकाग्रताके विना एक
आत्मामें श्रद्धान-ज्ञान-वर्तनरूप प्रवर्तमान शुद्धात्मप्रवृत्ति न होनेसे मुनित्व नहीं होता,
इसलिये मोक्षार्थोंका प्रधान कर्तव्य 'शब्दब्रह्मरूप आगममें प्रवीणता प्राप्त करना
है ॥ २३२ ॥

अब, आगमहीनके मोक्ष नामसे कहा जानेवाला कर्मक्षय नहीं होता, यह
प्रतिपादन करते हैं:—

गाथा २३३

अन्वयार्थः—[आगमहीनः] आगमहीन [भ्रमणः] भ्रमण [आत्मानं]
आत्माको (निजको) और [परं] परको [न एव विजानाति] नहीं जानता; [अर्थात्
अविजानन्] पदार्थोंको नहीं जानता हुआ [भिक्खुः] भिक्षु [कर्माणि] कर्मोंको
[कथं] किसप्रकार [भषयति] क्षय करे ?

१. शब्दब्रह्म = परमब्रह्मरूप वाच्यका वाचक द्रव्यश्रुत । [इन गाथाओंमें सर्वज्ञोपज्ञ समस्त
द्रव्यश्रुतको सामान्यतया आगम कहा गया है । कभी द्रव्यश्रुतके 'आगम' और 'परमागम'
ऐसे दो भेद भी किये जाते हैं; वहाँ जीवभेदों और कर्मभेदोंके प्रतिपादक द्रव्यश्रुतको 'आगम'
कहा जाता है, और समस्त द्रव्यश्रुतके सारभूत चिदानन्द एक परमात्मतत्त्वके प्रकाशक
अध्यात्मद्रव्यश्रुतको 'परमागम' कहा जाता है ।

न खल्वागममन्तरेण परात्मज्ञानं परमात्मज्ञानं वा स्यात्, न च परात्मज्ञानशून्यस्य परमात्मज्ञानशून्यस्य वा मोहादिद्रव्यभावकर्मणां ज्ञप्तिपरिवर्तरूपकर्मणां वा भ्रमणं स्यात् । तथाहि—न तावन्निरागमस्य निरवधिभवापगाप्रवाहवाहिमहामोहमलमलीममस्यास्य जगतः पीतो-
न्मत्तकस्थेवावकीर्णविवेकस्याविविक्तेन ज्ञानज्योतिषा निरूपयतोऽप्यात्मात्मप्रदेशनिश्चितशरीरा-
दिद्रव्येषूपयोगमिश्रितमोहरागद्वेषादिभावेषु च स्वपरनिश्चायकागमोपदेशपूर्वकस्वानुभवाभावादयं
परोऽयमात्मेति ज्ञानं सिद्धयेत् । तथा च त्रिसप्तमपरिपाटीप्रकटितविचित्रपर्यायप्राग्भारागाध-
गम्भीरस्वभावं विश्वमेव ज्ञेयीकृत्य प्रतपतः परमात्मनिश्चायकागमोपदेशपूर्वकस्वानुभवाभावात्

टीकाः—वास्तवमें आगमके विना 'परात्मज्ञान या 'परमात्मज्ञान नहीं होता ;
और परात्मज्ञानशून्यके या परमात्मज्ञानशून्यके मोहादि द्रव्यभाव कर्मोंका या
'ज्ञप्तिपरिवर्तनरूप कर्मोंका क्षय नहीं होता । वह इसप्रकार है कि—

प्रथम तो, आगमहीन यह जगत—कि जो निरवधि (अनादि) भवसरिताके
प्रवाहको बहानेवाले महामोहमलसे मलिन है वह—धतूरा पिये हुये मनुष्यकी भाँति
विवेकके नाशको प्राप्त होनेसे 'अविविक्त ज्ञानज्योतिसे यद्यपि देखता है तथापि, उसे
स्वपर 'निश्चायक आगमोपदेश पूर्वक स्वानुभवके अभावके कारण, आत्मामें और
आत्मप्रदेशस्थित शरीरादि द्रव्योंमें तथा उपयोगमिश्रित मोहरागद्वेषादि भावोंमें
'यह पर है और यह आत्मा (स्व) है' ऐसा ज्ञान सिद्ध नहीं होता ; तथा उसे,
'परमात्मनिश्चायक आगमोपदेशपूर्वक स्वानुभवके अभावके कारण, जिसके त्रिकाल
परिपाटीमें विचित्र पर्यायोंका समूह प्रगट होता है ऐसे अगाध-गम्भीरस्वभाव विश्वको
ज्ञेयरूप करके 'प्रतपित ज्ञानस्वभावी एक परमात्माका ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता ।

१. परात्मज्ञान = परका और आत्माका ज्ञान; स्व-परका भेदज्ञान ।

२. परमात्मज्ञान = परमात्माका ज्ञान, 'मैं समस्त लोकालोकके ज्ञायक ज्ञानस्वभाववाला परम
आत्मा हूँ' ऐसा ज्ञान ।

३. ज्ञप्तिपरिवर्तन = ज्ञप्तिका बदलना, जाननेकी क्रियाका परिवर्तन (ज्ञानका एक ज्ञेयसे दूसरे
ज्ञेयमें बदलना सो ज्ञप्ति परिवर्तनरूप कर्म है)

४. अविविक्त = अविवेकवाली; विवेकशून्य, भेद हीन; अभिन्न; एकमेक ।

५. स्वपरनिश्चायक = स्वपरका निश्चय करानेवाला (आगमोपदेश स्वपरका निश्चय करानेवाला
है अर्थात् स्वपरका निश्चय करनेमें निमित्तभूत है ।)

६. परमात्म निश्चायक = परमात्माका निश्चय करानेवाला (अर्थात् ज्ञानस्वभाव परमात्माका
निश्चय करनेमें निमित्तभूत ।)

७. प्रतपित = प्रतापवान् (ज्ञानस्वभाव परमात्मा विश्वको ज्ञेयरूप करके तपता है—प्रतापवान्
वर्तता है ।)

ज्ञानस्वभावस्यैकस्य परमात्मनो ज्ञानमपि न सिद्ध्येत् । परात्मपरमात्मज्ञानशून्यस्य तु द्रव्य-
कर्मारब्धैः शरीरादिभिस्तत्प्रत्ययैर्मोहरागद्वेषादिभावैश्चसहैक्यमाकलयतो बध्यघातकविभागाभावा-
न्मोहादिद्रव्यभावकर्मणां क्षयं न सिद्ध्येत् । तथा च ज्ञेयनिष्ठतया प्रतिवस्तु पातोत्पातपरि-
णतत्वेन ज्ञप्तेरासंसारतपरिवर्तमानायाः परमात्मनिष्ठत्वमन्तरेणानिवार्यपरिवर्ततया ज्ञप्तिपरि-

और (इसप्रकार) जो (१) परात्मज्ञानसे तथा (२) परमात्मज्ञानसे शून्य है उसे, (१) द्रव्यकर्मसे होनेवाले शरीरादिके साथ तथा 'तत्प्रत्ययी मोहरागद्वेषादि भावोंके साथ एकताका अनुभव करनेसे 'बध्यघातकके विभागका अभाव होनेसे मोहादि द्रव्य-भाव कर्मोंका क्षय सिद्ध नहीं होता, तथा (२) 'ज्ञेयनिष्ठतासे प्रत्येक वस्तुके उत्पाद विनाशरूप परिणमित होनेके कारण अनादि संसारसे परिवर्तनको पानेवाली जो ज्ञप्ति, उसका परिवर्तन परमात्मनिष्ठताके अतिरिक्त अनिवार्य होनेसे, ज्ञप्ति परिवर्तनरूप कर्मोंका क्षय भी सिद्ध नहीं होता ।

इसलिये कर्मक्षयाधिक्योंको सर्वप्रकारसे आगमकी पर्युपासना करना योग्य है ।

भावार्थः—आगमकी पर्युपासनासे रहित जगतको आगमोपदेशपूर्वक स्वानुभव न होनेसे इसप्रकार स्व-परका भेदज्ञान नहीं होता कि—'यह जो अमूर्तिक आत्मा है सो मैं हूँ, और ये समान क्षेत्रावगाही शरीरादिक पर हैं' इसीप्रकार 'ये जो उपयोग हैं सो मैं हूँ और ये उपयोगमिश्रित मोहरागद्वेषादि भाव हैं सो पर हैं' तथा उसे आगमोपदेशपूर्वक स्वानुभव न होनेसे ऐसा परमात्मज्ञान भी नहीं होता कि—'मैं ज्ञानस्वभावी एक परमात्मा हूँ ।'

इसप्रकार जिसे (१) स्व-पर ज्ञान तथा (२) परमात्मज्ञान नहीं है उसे, (१) हनन होने योग्य स्व का और हननेवाले मोहादिद्रव्यभावकर्मरूप परका भेद ज्ञान न होनेसे मोहादिद्रव्यभावकर्मोंका क्षय नहीं होता, तथा (२) परमात्मनिष्ठताके अभावके कारण ज्ञप्तिका परिवर्तन नहीं टलनेसे ज्ञप्तिपरिवर्तनरूप कर्मोंका भी क्षय नहीं होता ।

१. तत्प्रत्ययी = तत्सम्बन्धी, वह जिसका निमित्त है ऐसे ।

२. बध्यघातक -- हनन योग्य और हननकर्ता [आत्मा बध्य है और मोहादिभावकर्म घातक हैं । मोहादि द्रव्यकर्म भी आत्माके घातमें निमित्तभूत होनेसे घातक कहलाते हैं ।]

३. ज्ञेयनिष्ठ -- ज्ञेयोंमें निष्ठावाला; ज्ञेयपरायण; ज्ञेय सन्मुख [अनादि संसारमें ज्ञप्ति ज्ञेयनिष्ठ होनेसे वह प्रत्येक पदार्थकी उत्पत्ति विनाशरूप परिणमित होनेसे परिवर्तनको प्राप्त होती रहती है । परमात्मनिष्ठताके बिना ज्ञप्तिका वह परिवर्तन अनिवार्य है ।]

वर्तरूपकर्मणां क्षयणमपि न सिद्धयेत् । अतः कर्मक्षयणार्थिभिः सर्वथागमः पर्युपास्यः ॥२३३॥

अथागम एवैकश्चक्षुर्मोक्षमार्गमृपसर्पतामित्यनुशास्ति—

आगमचक्षुः साहृ इन्द्रियचक्षुःणि सव्वभूदाणि ।

देवा य आह्विचक्षुः सिद्धा पुण सव्वदो चक्षु ॥ २३४ ॥

आगमचक्षुः साधुरिन्द्रियचक्षुःषि सर्वभूतानि ।

देवाश्चावधिचक्षुः सिद्धाः पुनः सर्वतश्चक्षुः ॥ २३४ ॥

इह तावद्भगवन्तः सिद्धा एव शुद्धज्ञानमयत्वात्सर्वतश्चक्षुः शेषाणि तु सर्वाण्यपि भूतानि मूर्तद्रव्यावसक्तदृष्टित्वादिन्द्रियचक्षुःषि, देवास्तु सूक्ष्मत्वविशिष्टमूर्तद्रव्यग्राहित्वादवधिचक्षुः । अथ च तेऽपि रूपिद्रव्यमात्रदृष्टत्वेनेन्द्रियचक्षुःभ्योऽविशिष्यमाणा इन्द्रियचक्षुः एव । एवममीषु समस्तेष्वपि संसारिषु मोहोपहततया ज्ञेयनिष्ठेषु सन्तु ज्ञाननिष्ठत्वमूलशुद्धात्मतत्त्व-

इसलिये मोक्षार्थी सर्वप्रकारसे सर्वज्ञकथित आगमका सेवन करें ॥ २३३ ॥

इसलिये मोक्षार्थियोंको सर्वप्रकारसे सर्वज्ञकथित आगमका सेवन करना चाहिये ॥ २३३ ॥

अब, मोक्षमार्गपर चलनेवालोंको आगम ही एक चक्षु है, ऐसा उपदेश करते हैं—

गाथा २३४

अन्वयार्थः—[साधुः] साधु [आगमचक्षुः] आगमचक्षु (आगमरूप चक्षुवाले) हैं, [सर्वभूतानि] सर्वप्राणी [इन्द्रिय चक्षुःषि] इन्द्रिय चक्षुवाले हैं, [देवाः च] देव [अवधिचक्षुः] अवधिचक्षुवाले हैं [पुनः] और [सिद्धाः] सिद्ध [सर्वतः चक्षुः] सर्वतःचक्षु (सर्व ओरसे चक्षुवाले अर्थात् सर्वात्मप्रदेशोंसे चक्षुवान्) हैं ।

टीका—प्रथम तो, इस लोकमें भगवन्त सिद्ध ही शुद्धज्ञानमय होनेसे सर्वतः चक्षु हैं, और शेष 'सभी जीव इन्द्रिय चक्षु हैं; क्योंकि उनकी दृष्टि मूर्त द्रव्योंमें ही लगी होती है । देव सूक्ष्मत्वविशिष्ट मूर्त द्रव्योंको ग्रहण करते हैं इसलिये वे अवधिचक्षु हैं; अथवा वे भी, मात्र रूपीद्रव्योंको देखते हैं इसलिये उन्हें इन्द्रियचक्षुवालोंसे अलग न किया जाय तो, इन्द्रियचक्षु ही हैं । इसप्रकार इन सभी संसारी जीवोंके मोहसे 'उपहत होनेसे कारण ज्ञेयनिष्ठ होनेसे, ज्ञाननिष्ठताका मूल जो शुद्धात्मतत्त्वका संवेदन उससे साध्य ऐसा सर्वतःचक्षुत्व सिद्ध नहीं होता ।

संवेदनसाध्यं सर्वतश्चक्षुस्त्वं न सिद्ध्यते । अथ तत्सिद्धये भगवन्तः श्रमणा आगमचक्षुषो भवन्ति । तेन ज्ञेयज्ञानयोरन्योन्यसंबलनेनाशकपविवेचनत्वे सत्यपि स्वपरविभागमारचय्य निर्भिन्नमहामोहाः सन्तः परमात्मानमवाप्य सततं ज्ञाननिष्ठा एवावतिष्ठन्ते । अतः सर्वमप्यागम-चक्षुषैव मुमुक्षुणां द्रष्टव्यम् ॥ २३४ ॥

अथागमचक्षुषा सर्वमेव दृश्यत एवेति समर्थयति—

सर्वे आगमसिद्धा अथा गुणपञ्जएहिं चित्तेहिं ।

जाणानि आगमंण हि पेच्छिता ते वि ते श्रमणा ॥ २३५ ॥

सर्वे आगमसिद्धा अर्था गुणपर्यायैश्चित्रैः ।

ज्ञानन्यागमेन हि दृष्टा तानपि ते श्रमणाः ॥ २३५ ॥

आगमेन तावत्सर्वाण्यपि द्रव्याणि प्रमीयन्ते, विस्पष्टतर्कणस्य सर्वद्रव्याणामविरुद्धत्वात् । विचित्रगुणपर्यायविशिष्टानि च प्रतीयन्ते, सहकमप्रवृत्तानेकधर्मव्यापकानेकान्तमयत्वेनैवागमस्य

अब, उस (सर्वतःचक्षुत्व)की सिद्धिके लिये भगवंत श्रमण आगमचक्षु होते हैं । यद्यपि ज्ञेय और ज्ञानका पारस्परिक मिलन हो जानेसे उन्हें भिन्न करना अशक्य है (अर्थात् ज्ञेयोज्ञानमें ज्ञात न हों ऐसा करना अशक्य है) तथापि वे उस आगम-चक्षुसे स्वपरका विभाग करके, जिनने महामोहको भेद डाला है ऐसे वर्तते हुये, परमात्माको पाकर, सतत ज्ञाननिष्ठ ही रहते हैं ।

इससे (यह कहा है कि) मुमुक्षुओंको सब कुछ आगमरूप चक्षु द्वारा ही देखना चाहिये ॥ २३४ ॥

अब, यह समर्थन करते हैं कि आगमरूपचक्षुसे सब कुछ दिखाई देता ही है—

गाथा २३५

अन्वयार्थः—[सर्वे अर्थाः] समस्त पदार्थ [चित्रैः गुणपर्यायैः] विचित्र (अनेक प्रकारकी) गुणपर्यायों सहित [आगमसिद्धाः] आगमसिद्ध है । [तान् अपि] उन्हें भी [ते श्रमणाः] वे श्रमण [आगमेन हि दृष्टा] आगम द्वारा वास्तवमें देखकर [जानन्ति] जानते हैं ।

टीकाः— प्रथम तो, आगम द्वारा सभी द्रव्य प्रमेय (ज्ञेय) होते हैं, क्योंकि सर्वद्रव्य विस्पष्ट तर्कणासे अविरुद्ध हैं, (—सर्व द्रव्य आगमानुसार जो विशेष स्पष्ट तर्क

प्रमाणत्वोपपत्तेः । अतः सर्वेऽर्था आगमसिद्धा एव भवन्ति । अथ ते श्रमणानां ज्ञेयत्वमापद्यन्ते स्वयमेव, विचित्रगुणपर्यायविशिष्टसर्वद्रव्यप्यापकानेकान्तात्मकश्रुतज्ञानोपयोगीभूय विपरिणमनात् । अतो न किञ्चिदप्यागमचक्षुषामदृश्यं स्यात् ॥ २३५ ॥

अथागमज्ञानतत्पूर्वतत्त्वार्थश्रद्धानतदुभयपूर्वसंयतत्वानां यौगपद्यस्य मोक्षमार्गत्वं नियमयति—

आगमपुष्वा दिट्टी ण भवदि जस्सेह मंजमो तस्स ।

एत्थीदि भणदि सुत्तं असंजदो होदि किध समणो ॥२३६॥

आगमपूर्वा दृष्टिर्न भवति यस्येह संयमस्तस्य ।

नास्तीति भणति सूत्रमसंयतो भवति कथं श्रमणः ॥ २३६ ॥

उसके साथ मेलवाले हैं, अर्थात् वे आगमानुसार विस्पष्ट विचारमे जात हों ऐसे हैं) । और फिर, आगमसे वे द्रव्य विचित्र गुणपर्यायवाले प्रतीत होते हैं, क्योंकि आगमको सहप्रवृत्त और क्रमप्रवृत्त अनेक धर्मोंमें व्यापक (अनेक धर्मोंको कहनेवाला) 'अनेकान्तमय होनेसे प्रमाणताकी उपपत्ति है (अर्थात् आगम प्रमाणभूत सिद्ध होता है) । इससे सभी पदार्थ आगम सिद्ध ही हैं । और वे श्रमणोंको स्वयमेव ज्ञेयभूत होते हैं, क्योंकि श्रमण विचित्रगुणपर्यायवाले सर्वद्रव्योंमें व्यापक (सर्वद्रव्योंको जाननेवाले) अनेकान्तात्मक श्रुतज्ञानोपयोगरूप होकर परिणमित होते हैं ।

इससे (यह कहा है कि) आगमचक्षुओंको (आगमरूपचक्षुवालोंको) कुछ भी अदृश्य नहीं है ॥ २३५ ॥

अब, आगमज्ञान, तत्पूर्वक तत्त्वार्थश्रद्धान और तदुभयपूर्वक संयतत्वकी युगपतताको मोक्षमार्गत्व होनेका नियम करते हैं । [अर्थात् ऐसा नियम सिद्ध करते हैं कि—१-आगमज्ञान, २-तत्पूर्वकतत्त्वार्थश्रद्धान और ३-उन दोनों पूर्वक संयतत्व— इन तीनोंका एक साथ होना ही मोक्षमार्ग है ।]:—

गाथा २३६

अन्वयार्थः—[इह] इस लोकमें [यस्य] जिसकी [आगमपूर्वा दृष्टिः] आगम पूर्वक दृष्टि (दर्शन) [न भवति] नहीं है [तस्य] उसके [संयमः] संयम

१. अनेकान्त = अनेक अन्त—अनेक धर्म । [द्रव्यश्रुत अनेकान्तमय है; सर्वद्रव्योंके एक ही साथ और क्रमशः प्रवर्तमान अनेक धर्मोंमें व्याप (उन्हें कहनेवाले) अनेक धर्म द्रव्यश्रुतमें हैं ।]
२. श्रुतज्ञानोपयोग अनेकान्तात्मक है । सर्व द्रव्योंके अनेक धर्मोंमें व्याप (उन्हें जाननेवालों) अनेक धर्म भावश्रुतज्ञानमें हैं ।

इह हि सर्वस्यापि स्यात्कारकेतनागमपूर्विकया तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणया दृष्ट्या शून्यस्य स्वपरविभागाभावात् कायकषायैः सहैक्यमध्यवसतोऽनिरुद्धविषयाभिलाषतया षड्जीवनिकाय-घातिनो भूत्वा सर्वतोऽपि कृतप्रवृत्तेः सर्वतो निवृत्त्यभावात्तथा परमात्मज्ञानाभावाद् ज्ञेयचक्रक्र-माक्रमणनिरर्गलज्ञप्तिरूपतया ज्ञानरूपात्मतत्त्वैकाग्र्यप्रवृत्त्यभावाच्च संयम एव न तावत् सिद्ध्येत् । असिद्धसंयमस्य तु सुनिश्चितैकाग्र्यगतत्वरूपं मोक्षमार्गापरनाम श्रामण्यमेव न सिद्ध्येत् । अत आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्यस्यैव मोक्षमार्गत्वं नियम्येत ॥ २३६ ॥

[नास्ति] नहीं है, [इति] इसप्रकार [सूत्रं मणति] सूत्र कहता है; और [असंयतः] असंयत वह [श्रमणः] श्रमण [कथं भवति] कैसे हो सकता है ?

टीका:—इस लोकमें वास्तवमें, स्यात्कार चिह्नवाले आगमपूर्वक 'तत्त्वार्थ-श्रद्धानलक्षणवाली दृष्टिसे जो शून्य हैं उन सभीको प्रथम तो संयम ही सिद्ध नहीं होता, क्योंकि (१) स्वपरके विभागके अभावके कारण काया और कषायोंके साथ एकताका अध्यवसाय करनेवाले वे जीव, 'विषयोंकी अभिलाषाका निरोध नहीं होनेसे छह जीवनिकायके घाती होकर सर्वतः प्रवृत्ति करते हैं, इसलिये उनके सर्वतः निवृत्तिका अभाव है । (अर्थात् किसी भी ओरसे किञ्चित्मात्र भी निवृत्ति नहीं है), तथापि (२) उनके परमात्मज्ञानके अभावके कारण ज्ञेयसमूहको क्रमशः जाननेवाली 'निरर्गल ज्ञप्ति होनेसे ज्ञानरूप आत्मतत्त्वमें एकाग्रताकी प्रवृत्तिका अभाव है । (इसप्रकार उनके संयम सिद्ध नहीं होता) और (इसप्रकार) जिनके संयम सिद्ध नहीं होता उन्हें 'सुनिश्चित ऐकाग्र्यपरिणततारूप श्रामण्य ही—जिसका कि दूसरा नाम मोक्षमार्ग है वही—सिद्ध नहीं होता ।

इससे आगमज्ञान—तत्त्वार्थश्रद्धान और संयतत्वकी युगपतताको ही मोक्षमार्गत्व होनेका नियम (सिद्ध) होता है ॥ २३६ ॥

१. तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणवाली—तत्त्वार्थका श्रद्धान जिसका लक्षण है ऐसी । [सम्यग्दर्शनका लक्षण तत्त्वार्थश्रद्धान है । वह आगमपूर्वक होता है । आगमका चिह्न 'स्यात्' कार है ।]

२. जिन जीवोंको स्वपरका भेदज्ञान नहीं है उनके भले ही कदाचित् पंचेन्द्रियोंके विषयोंका संयोग दिखाई न देता हो, छह जीवनिकायकी द्रव्यहिंसा न दिखाई देती हो, और इसप्रकार संयोगसे निवृत्ति दिखाई देती हो, तथापि काया और कषायके साथ एकत्व माननेवाले उन जीवोंके वास्तवमें पंचेन्द्रियके विषयोंकी अभिलाषाका निरोध नहीं है, हिंसाका किञ्चित्मात्र अभाव नहीं है, और इसप्रकार परभावसे किञ्चित्मात्र निवृत्ति नहीं है ।

३. निरर्गल = निरंकुश; संयमरहित; स्वच्छन्दी ।

४. सुनिश्चित = दृढ़ (दृढ़तापूर्वक एकाग्रतामें परिणमित होना सो श्रामण्य है ।)

अथागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानामयोगपद्यस्य मोक्षमार्गत्वं विषट्यति—

ए हि आगमेण मिज्झति मद्दहणं जदि वि एत्थि अत्थेसु ।
सद्दहमाणो अत्थे असंजदो वा ण णिव्वादि ॥ २३७ ॥

न ह्यागमेन मिद्धयति श्रद्धानं यद्यपि नास्त्यर्थेषु ।

श्रद्धान् अर्थानसंयतो वा न निर्वाति ॥ २३७ ॥

श्रद्धानशून्येनागमजनितेन ज्ञानेन तद्विनाभाविना श्रद्धानेन च संयमशून्येन न तावत्सिद्धयति । तथाहि—आगमबलेन सकलपदार्थान् विस्पष्टं तर्कयन्नपि यदि सकलपदार्थज्ञेयाकारकरम्बितविशदैकज्ञानाकारमात्मानं न तथा प्रत्येति तदा यथोदितात्मनः श्रद्धानशून्यतया यथोदितमात्मानमननुभवन् कथं नाम ज्ञेयनिमग््नो ज्ञानविमूढो ज्ञानी स्यात् । अज्ञानिनश्च ज्ञेयधोतको

अब, यह सिद्ध करते हैं कि—आगमज्ञान—तत्त्वार्थश्रद्धान और संयतत्वके अयुगपत्पनेको मोक्षमार्गत्व घटित नहीं होता:—

गाथा २३७

अन्वयार्थः—[आगमेन] आगमसे [यदि अपि] यदि [अर्थेषु श्रद्धानं नास्ति] पदार्थोंका श्रद्धान न हो तो, [न हि सिद्धयति] सिद्धि (मुक्ति) नहीं होती, [अर्थान् श्रद्धानः] पदार्थोंका श्रद्धान करनेवाला भी [असंयतः वा] यदि असंयत हो तो [न निर्वाति] निर्वाणको प्राप्त नहीं होता ।

टीका:—आगमजनित ज्ञानसे, यदि वह श्रद्धानशून्य हो तो सिद्धि नहीं होती; और जो उस (आगमज्ञान) के विना नहीं होता ऐसे श्रद्धानसे भी यदि वह (श्रद्धान) संयमशून्य हो तो सिद्धि नहीं होती । यथा:—

आगमबलसे सकल पदार्थोंकी विस्पष्ट तर्कणा करता हुआ भी यदि जीव सकल पदार्थोंके ज्ञेयाकारोंके साथ मिलित होनेवाला विशद एक ज्ञान जिसका आकार है ऐसे आत्माको उसप्रकारसे प्रतीत नहीं करता तो यथोक्त आत्माके श्रद्धानसे शून्य होनेके कारण जो यथोक्त आत्माका अनुभव नहीं करता ऐसा वह ज्ञेयनिमग््न

१. तर्कणा = विचारणा; युक्ति इत्यादिके आश्रयवाला ज्ञान ।

२. मिलित होनेवाला = मिश्रित होनेवाला संबंधको प्राप्त; अर्थान् उन्हें जाननेवाला । [समस्त पदार्थोंके ज्ञेयाकार जिसमें प्रतिबिम्बित होते हैं अर्थान् जो उन्हें जानता है ऐसा स्पष्ट एक ज्ञान ही आत्माका रूप है ।]

भवन्प्यागमः किं कुर्यात् । ततः श्रद्धानशून्यादागमात्नास्ति सिद्धिः । किंच—सकलपदार्थज्ञेयाकारकरम्बितविशदैकज्ञानाकारमात्मानं श्रद्धानोऽप्यनुभवन्नपि यदि स्वस्मिन्नेव संयम्य न वर्तयति तदानादिमोहरागद्वेषवासनोपजनितपरद्रव्यचङ्क्रमणस्वैरिण्याश्चिद्वृत्तेः स्वस्मिन्नेव स्थानाभिर्वासननिःकम्पैकतस्वमूर्च्छितचिद्वृत्त्यभावात्कथं नाम संयतः स्यात् । असंयतस्य च यथोदितात्मतस्वप्रतीतिरूपं श्रद्धानं यथोदितात्मतस्वानुभूतिरूपं ज्ञानं वा किं कुर्यात् । ततः संयमशून्यात् श्रद्धानात् ज्ञानाद्वा नास्ति सिद्धिः । अत आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानामयौगपद्यस्य मोक्षमार्गत्वं विघटेतैव ॥ २३७ ॥

अथागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्येऽप्यात्मज्ञानस्य मोक्षमार्गसाधकतमत्वं द्योतयति—

ज्ञान विमूढ जीव कैसे जानी होगा ? (नहीं होगा, वह अजानी ही होगा ।) और अजानीको, जेयद्योतक होनेपर भी, आगम क्या करेगा ? (आगम जेयोका प्रकाशक होनेपर भी वह अजानीके लिये क्या कर सकता है ?) इसलिये श्रद्धानशून्य आगमसे सिद्धि नहीं होती ।

और, सकल पदार्थोंके जेयाकारोंके साथ मिलित होता हुआ विशद एक ज्ञान जिसका आकार है ऐसे आत्माका श्रद्धान करता हुआ भी, अनुभव करता हुआ भी यदि जीव अपनेमें ही संयमित होकर नहीं रहता, तो अनादि मोह राग द्वेषकी वासनासे जनित जो परद्रव्यमें भ्रमण उसके कारण जो स्वैरिणी (स्वेच्छाचारिणी-व्यभिचारिणी) है ऐसी चिद्वृत्ति (चैतन्यकी परिणति) अपनेमें ही रहनेसे, वासनारहित निष्कंप एक तत्त्वमें लीन चिद्वृत्तिका अभाव होनेसे, वह कैसे संयत होगा ? (नहीं होगा, असंयत ही होगा) और असंयतको, यथोक्त आत्मतत्त्वकी प्रतीतिरूप श्रद्धान या यथोक्त आत्मतत्त्वकी अनुभूतिरूप ज्ञान क्या करेगा ? इसलिये संयमशून्य श्रद्धानसे या ज्ञानसे सिद्धि नहीं होती ।

इससे आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वके अयुगपत्पनाके मोक्षमार्गत्व घटित नहीं होता ॥ २३७ ॥

अब, आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वका युगपत्पना होनेपर भी, आत्मज्ञान मोक्षमार्गका साधकतम (उत्कृष्ट साधक) है यह बतलाते हैं:—

जं अणणी कम्मं खवेदि भवमयमहस्सकोडीहिं ।
तं णणी तिहिं गुत्तो खवेदि उम्माममेत्तेण ॥ २३८ ॥

यदज्ञानी कर्म क्षपयति भवशतसहस्रकोटिभिः ।

तज्ज्ञानी त्रिभिर्गुप्तः क्षपयत्युच्छ्वासमात्रेण ॥ २३८ ॥

यदज्ञानी कर्म क्रमपरिपाटया बालतपोवैचित्र्योपक्रमेण च पच्यमानमुपात्तरागद्वेषतया सुखदुःखादिविकारभावपरिणतः पुनरारोपितसंतानं भवशतसहस्रकोटिभिः कथंचन निस्तरति, तदेव ज्ञानी स्यात्कारकेतनागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यातिशयप्रसादासादितशुद्धज्ञान-

गाथा २३८

अन्वयार्थः— [यत् कर्म] जो कर्म [अज्ञानी] अज्ञानी [भवशतसहस्रकोटिभिः] लक्षकोटिभवोंमें [क्षपयति] खपाता है, [तत्] वह [ज्ञानी] जानी [त्रिभिः गुप्तः] तीन प्रकार (मन वचन काय) से गुप्त होनेसे [उच्छ्वासमात्रेण] उच्छ्वासमात्रमें [क्षपयति] खपा देता है ।

टीकाः—जो कर्म (अज्ञानीको) क्रमपरिपाटीसे तथा अनेक प्रकारके बालतपादिरूप उद्यमसे पकते हुये, रागद्वेषको ग्रहण किया होनेसे सुखदुःखादिविकार भावरूप परिणमित होनेसे पुनः संतानको आरोपित करता जाय इसप्रकार, लक्षकोटि-भवोंमें, ज्यों ज्यों करके (महा कष्टसे) अज्ञानी पार कर जाता है, वही कर्म, (ज्ञानीको स्यात्कारकेतन आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान और संयतत्वके युगपत्पनाके अतिशयप्रसादसे प्राप्त शुद्ध आत्मतत्त्वकी अनुभूति जिसका लक्षण है ऐसे जानीपनके सद्भावके कारण काय-वचन-मनके कर्मोंके 'उपरमसे त्रिगुप्तिता प्रवर्तमान होनेसे प्रचण्ड उद्यमसे पकता हुआ, रागद्वेषके छोड़नेसे समस्त सुखदुःखादिविकार अत्यन्त निरस्त हुआ होनेसे पुनः संतानको आरोपित न करता जाय इसप्रकार उच्छ्वासमात्रमें ही, लीलामात्रसे ही जानी नष्ट कर देता है ।

इससे, आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान और संयतत्वका युगपत्पना होनेपर भी आत्मज्ञानको ही मोक्षमार्गका साधकतम संमत करना ।

१. उपरम = विराम, अटकजाना वह, रुक जाना वह; [ज्ञानीके ज्ञानीपनके कारण काय-वचन-मन संबन्धी कार्य रुक जानेसे त्रिगुप्तिता प्रवर्तती है ।]

मयात्मतत्त्वानुभूतिलक्षणज्ञानित्वसद्भावात्कायबाहुमनःकर्मोपरमप्रवृत्तत्रिगुप्तत्वात् प्रचण्डोपक्रम-
पच्यमानमपहस्तितरागद्वेषतया दूरनिरस्तसमस्तसुखदुःखादिविकारः पुनरनारोपितसंतानमुच्छ्वास-
मात्रेणैव लीलयैव पातयति । अत आगमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्येऽप्यात्मज्ञानमेव
मोक्षमार्गसाधकतममनुमन्तव्यम् ॥ २३८ ॥

अथात्मज्ञानशून्यस्थ सर्वागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां यौगपद्यमप्यप्यकिञ्चित्कर-
मित्यनुशास्ति—

परमाणुप्रमाणं वा मूर्च्छा देहादिषु जस्म पुनो ।

विञ्जति यदि स सिद्धि ए लहति मव्वागमधरो वि ॥२३९॥

परमाणुप्रमाणं वा मूर्च्छा देहादिकेषु यस्य पुनः ।

विद्यते यदि स सिद्धि न कर्ते सर्वागमधरोऽपि ॥ २३९ ॥

भावार्थः—अज्ञानीके क्रमशः तथा बालतपादिरूप उद्यमसे कर्म पकते हैं, और
ज्ञानीके ज्ञानीपनके कारण होनेवाले त्रिगुप्ततारूप प्रचण्ड उद्यमसे कर्म पकते हैं;
इसलिये अज्ञानी जिसकर्मको अनेक शतसहस्र-^३कोटि भवोंमें महाकष्टसे उल्लंघन
(पार) कर पाता है वही कर्म ज्ञानी उच्छ्वासमात्रमें ही, कौतुकमात्रमें ही नष्ट कर
डालता है । और अज्ञानीके वह कर्म, सुखदुःखादिविकाररूप परिणमनके कारण, पुनः
नूतनकर्मरूप संततिको छोड़ता जाता है, तथा ज्ञानीके सुखदुःखादिविकाररूप परिणमन
न होनेसे वह कर्म पुनः नूतनकर्मरूप संततिको नहीं छोड़ता जाता ।

इसलिये आत्मज्ञान ही मोक्षमार्गका साधकतम है ॥ २३९ ॥

अब, यह उपदेश करते हैं कि—आत्मज्ञानशून्यके सर्व आगमज्ञान, तत्त्वार्थ-
श्रद्धान तथा संयतत्वका युगपतता भी अकिञ्चित्कर है, अर्थात् कुछ भी नहीं
कर सकतीः—

गाथा २३९

अन्वयार्थः—[पुनः] और [यदि] यदि [यस्य] जिसके [देहादिकेषु]
शरीरादिके प्रति [परमाणुप्रमाणं वा] परमाणुमात्र भी [मूर्च्छा] मूर्च्छा [विद्यते]

१. ज्ञानीपन = आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वकी युगपत्ताके अतिशय प्रसादसे प्राप्त शुद्धज्ञानमय
आत्मतत्त्वकी अनुभूति ज्ञानीपनका लक्षण है ।

२ शत-सहस्र-कोटि = १०० × १००० × १००००००

यदि करतलामलकीकृतसकलागमसारतया भूतभवद्भावि च स्वोचितपर्यायविशिष्टमशेष-
द्रव्यजातं जानन्तमात्मानं जानन् श्रद्धानः संयमर्यश्चागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वानां
यौगपद्येऽपि मनाद्मोहमलोपलिप्तत्वात् यदा शरीरादिमूर्च्छोपरक्ततया निरुपरागोपयोग-
परिणतं कृत्वा ज्ञानात्मानमात्मानं नानुभवति तदा तावन्मात्रमोहमलकलङ्ककीलिकाकीलितैः
कर्मभिरविमुच्यमानो न सिद्ध्यति । अत आत्मज्ञानशून्यमागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौग-
पद्यमप्यकिञ्चित्करमेव ॥ २३९ ॥

अथागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यं साधयति—

पाई जाय तो [सः] वह [सर्वागमधरः अपि] भले ही सर्वागमका धारी हो तो भी
[सिद्धि न लभते] सिद्धि को प्राप्त नहीं होता ।

टीका:—सकल आगमके सारको हस्तामलकवत् करनेसे (हथेलीमें रक्खे हुये
आंवलेके समान स्पष्ट ज्ञान होनेसे) जो पुरुष भूत-वर्तमान-भावी 'स्वोचित पर्यायोंके
साथ अशेष द्रव्यसमूहको जाननेवाले आत्माको जानता है, श्रद्धान करता है और
संयमित रखता है, उस पुरुषके आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वकी युगपत्ता होनेपर
भी, यदि वह किञ्चित्मात्र भी मोहमलसे लिप्त होनेसे शरीरादिके प्रति (तत्संबंधी)
मूर्च्छसे ^२उपरक्त रहनेसे, ^३निरुपराग उपयोगमें परिणत करके ज्ञानात्मक आत्माका
अनुभव नहीं करता, तो वह पुरुष मात्र उतने (कुछ) मोहमलकलंकक रूप कीलेके
साथ बँधे हुये कर्मोंसे न छूटता हुआ सिद्ध नहीं होता ।

इसलिये आत्मज्ञानशून्य आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वका युगपत्पना भी
अकिञ्चित्कर ही है ॥ २३९ ॥

अब आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वके युगपत्पनाके साथ आत्मज्ञानके
युगपत्पनाको साधित करते हैं; (अर्थात् आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान, और संयतत्व
इस त्रिक (तीनों) के साथ आत्मज्ञानके युगपत्पनाको सिद्ध करते हैं) :—

१. स्वोचित - अपनेको उचित, अपने योग्य । [आत्माका स्वभाव त्रिकालकी स्वोचितपर्यायों
महित समस्त द्रव्योंको जानना है ।]

२. उपरक्त - मलिन, विकारी ।

३. निरुपराग - उपराग रहित, निर्मल, निर्विकार, शुद्ध ।

पंचममिदो तिगुत्तो पंचेन्द्रियसंवुडो जिदकमात्रो ।
दंसणणाणसमग्गो समणो सो संजदो भणितो ॥ २४० ॥

पञ्चममितस्त्रिगुप्तः पंचेन्द्रियसंवृतो जितकषायः ।

दर्शनज्ञानसमग्रः श्रमणः स संयतो भणितः ॥ २४० ॥

यः खन्वनेकान्तकेतनागमज्ञानबलेन सकलपदार्थज्ञेयाकारकरम्बितविशदैकज्ञानाकारमात्मानं श्रद्धानोऽनुभवंश्चात्मन्येव नित्यनिश्चलां वृत्तिमिच्छन् समितिपञ्चकाङ्कुशितप्रवृत्तिप्रवर्तितसंयमसाधनीकृतशरीरपात्रः क्रमेण निश्चलनिरुद्धपंचेन्द्रियद्वारतया समुपरतकायवाङ्मनोव्यापारो भूत्वा चिद्वृत्तेः परद्रव्यचङ्क्रमणनिमित्तमत्यन्तमात्मना समन्योन्यसंवलनादेकीभूतमपि स्वभावभेदात्परत्वेन निश्चित्यात्मनैव कुशलो मल्ल इव सुनिर्भरं निष्पीडय निष्पीडय कषायचक्रमक्रमेण जीवं त्याजयति, स खलु सकलपरद्रव्यशून्योऽपि विशुद्धदृशिज्ञप्तिमात्रस्वभावभूतावस्था-

गाथा २४०

अन्वयार्थः—[पंचममितः] पांचममितियुक्त, [पंचेन्द्रियसंवृतः] पांच इन्द्रियोंका संवरवाला [त्रिगुप्तः] तीन गुप्ति सहित, [जितकषायः] कषायोंको जीतनेवाला, [दर्शनज्ञानसमग्रः] दर्शनज्ञानसेपरिपूर्ण [श्रमणः] जो श्रमण [सः] वह [संयतः] संयत [भणितः] कहा गया है ।

टीकाः—जो पुरुष अनेकान्तकेतन आगमज्ञानके बलसे, सकल पदार्थोंके ज्ञेयाकारोंके साथ मिलित होता हुआ, विशद एक ज्ञान जिसका आकार है ऐसे आत्माका श्रद्धान और अनुभव करता हुआ आत्मामें ही नित्यनिश्चल वृत्तिको इच्छता हुआ, संयमके साधनरूप बनाये हुये शरीरपात्रको पांचसमितियोंसे अंकुशित प्रवृत्ति द्वारा प्रवर्तित करता हुआ, क्रमशः पंचेन्द्रियोंके निश्चल निरोध द्वारा जिसके कायवचन-मनका व्यापार विरामको प्राप्त हुआ है, ऐसा होकर, चिद्वृत्तिके लिये परद्रव्यमें भ्रमणका निमित्त जो कषायसमूह वह आत्माके साथ अन्योन्य मिलनके कारण अत्यन्त एकरूप होजाने पर भी स्वभावभेदके कारण उसे पररूपसे निश्चित करके आत्मासे ही कुशल मल्लकी भाँति अत्यन्त मर्दन कर करके अक्रमसे उसे मार डालता है, वह पुरुष वास्तवमें, सकल परद्रव्यसे शून्य होने पर भी विशुद्ध दर्शन ज्ञानमात्र स्वभाव-

१. मर्दन कर करके = दबा दबाके, कघर कचरके, दमनकरके,

२. आत्मतत्त्वका स्वभाव विशुद्ध दर्शन-ज्ञान मात्र है ।

पितात्मतत्त्वोपजातनित्यनिश्चलवृत्तितया साक्षात्संयत एव स्यात् । तस्यैव चागमज्ञानतत्त्वार्थ-
श्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यं सिद्ध्यति ॥ २४० ॥

अथास्य सिद्धाममज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यसंयतस्य कीदृग्लक्षण-
मित्स्नुशास्ति—

समसत्तुबंधुवर्गो समसुखदुःखो पसंमणिंदममो ।

समलोष्टुकाञ्चनो पुन जीवितमरणे समो ममणो ॥ २४१ ॥

समशत्रुबन्धुवर्गः समसुखदुःखः प्रशंसानिन्दाममः ।

समलोष्टकाञ्चनः पुनर्जीवितमरणे समः श्रमणः ॥ २४१ ॥

संयमः सम्यग्दर्शनज्ञानपुरःसरं चारित्रं, चारित्रं धर्मः, धर्मः साम्यं, साम्यं मोहभोभविहीनः
आत्मपरिणामः । ततः संयतस्य साम्यं लक्षणम् । तत्र शत्रुबन्धुवर्गयोः सुखदुःखयोः प्रशंसा-
निन्दयोः । लोष्टकाञ्चनयोर्जीवितमरणयोश्च समम् अयं मम परोऽयं स्वः, अयमाह्लादोऽयं परि-

रूपसे रहनेवाले आत्मतत्त्व (स्वद्रव्य)में नित्यनिश्चल परिणति उत्पन्न होनेसे,
साक्षात् संयत ही है । और उसे ही आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वके युगपत्पना-
के साथ आत्मज्ञानकी युगपत्ता सिद्ध होती है ॥ २४० ॥

अब, आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वके युगपत्पनाके साथ आत्मज्ञानका
युगपत्पना जिसे सिद्ध हुआ है ऐसे इस संयतका क्या लक्षण है सो कहते हैं—

गाथा २४१

अन्वयार्थः—[समशत्रुबन्धुवर्गः] जिसे शत्रु और बन्धु वर्ग समान है,
[समसुखदुःखः] सुख दुख समान है, [प्रशंसानिन्दाममः] प्रशंसा और निन्दाके प्रति
जिसको समता है, [समलोष्टकाञ्चनः] जिसे लोष्ठ (मिट्टीका ढेला) और सुवर्ण
समान है, [पुनः] तथा [जीवितमरणेसमः] जीवन-मरणके प्रति जिसको समता है,
वह [श्रमणः] श्रमण है ।

टीकाः—संयम, सम्यग्दर्शनज्ञानपूर्वक चारित्र है; चारित्रधर्म है; धर्म साम्य
है; साम्य मोहक्षोभ रहित आत्मपरिणाम है । इसलिये संयतका, साम्यलक्षण है ।

वहाँ, (१) शत्रु-बंधुवर्गमें, (२) सुख-दुःखमें (३) प्रशंसा-निन्दामें, (४)
मिट्टीके ढेले और सोनेमें, (५) जीवित-मरणमें एक ही साथ (१) 'यह मेरा पर
(शत्रु) है, यह स्व (स्वजन) है;' (२) 'यह आह्लाद है, यह परिताप है,' (३)

तापः, इदं ममोत्कर्षणमिदमपकर्षणमयं ममाकिञ्चित्कर इदमुपकारकमिदं ममात्मधारणमय-
मत्यन्तविनाश इति मोहाभावात् सर्वत्राप्यनुदितरागद्वेषद्वैतस्य सततमपि विशुद्धदृष्टिस्वभाव-
मात्मानमनुभवतः शत्रुबन्धुसुखदुःखप्रशंसानिन्दालोष्टकाञ्चनजीवितमरणानि निर्विशेषमेव ज्ञेय-
त्वेनाक्रम्य ज्ञानात्मन्यात्मन्यचलितवृत्तेर्यत्किल सर्वतः साम्यं तत्सिद्धागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंय-
तत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यस्य संयतस्य लक्षणमालक्षणीयम् ॥ २४१ ॥

अथेदमेव सिद्धागमज्ञानतत्त्वार्थश्रद्धानसंयतत्वयौगपद्यात्मज्ञानयौगपद्यसंयतत्वमैकाग्र्य-
लक्षणश्रामण्यापरनाम मोक्षमार्गत्वेन समर्थयति—

दंमणणाणचरित्तसु तीमु जुगवं ममुट्ठिदो जो दु ।

एयग्गगदो त्ति मदो मामणां तम्म पडिपुणां ॥ २४२ ॥

दर्शनज्ञानचरित्रेषु त्रिषु युगपत्समुत्थितो यस्तु ।

एकाग्रगत इति मतः श्रामण्यं तस्य परिपूर्णम् ॥ २४२ ॥

‘यह मेरा उत्कर्षण (कीर्ति) है, यह अपकर्षण (अकीर्ति) है,’ (४) ‘यह मुझे
अकिञ्चित्कर है, यह उपकारक (उपयोगी) है,’ (५) ‘यह मेरा स्थायित्व है, यह
अत्यन्त विनाश है’ इसप्रकार मोहके अभावके कारण सर्वत्र जिससे रागद्वेषका द्वैत
प्रगट नहीं होता, जो सतत विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव आत्माका अनुभव करता है,
और (इसप्रकार) शत्रु-बन्धु, सुख-दुःख, प्रशंसा-निन्दा, लोष्टकाञ्चन और जीवित-
मरणको निर्विशेषतया ही (अन्तरके विना ही) ज्ञेयरूप जानकर ज्ञानात्मक आत्मामें
जिसकी परिणति अचलित हुई है; उस पुरुषको वास्तवमें जो सर्वतः साम्य है सो
(साम्य) संयतका लक्षण समझना चाहिये—कि जिस संयतके आगमज्ञान-तत्त्वार्थ-
श्रद्धान-संयतत्वकी युगपत्ताके साथ आत्मज्ञानकी युगपत्ता सिद्ध हुई है ॥ २४१ ॥

अब, यह समर्थन करते हैं कि आगमज्ञान-तत्त्वार्थश्रद्धान-संयतत्वके युगपत्-
पनाके साथ आत्मज्ञानके युगपत्ताकी सिद्धिरूप जो यह संयतता है वही मोक्षमार्ग
है, जिसका अपर नाम एकाग्रतालक्षणवाला श्रामण्य है:—

गाथा २४२

अन्वयार्थः—[यः तु] जो [दर्शनज्ञानचरित्रेषु] दर्शन, ज्ञान और चारित्र-
[त्रिषु] इन तीनोंमें [युगपत्] एक ही साथ [समुत्थितः] आरूढ़ है, वह [एकाग्रगतः]

ज्ञेयज्ञातृत्वतथाप्रतीतिलक्षणेन सम्यग्दर्शनपर्यायेण ज्ञेयज्ञातृत्वतथानुभूतिलक्षणेन ज्ञानपर्यायेण ज्ञेयज्ञातृक्रियान्तरनिवृत्तिस्त्रयमाणद्रष्टृज्ञातृत्ववृत्तिलक्षणेन चारित्रपर्यायेण च त्रिभिरपि यौगपद्येन भाव्यभावकभावविजृम्भितातिनिर्भरेतरसंवलनबलादङ्गाङ्गिभावेन परिणतस्यात्मनो यदात्मनिष्ठत्वे सति संयतत्वं तत्पानकवदनेकात्मकस्यैकस्यानुभूयमानतायामपि समस्तपरद्रव्यपरावर्तत्वादभिव्यक्तैकाग्रचलक्षणश्रामण्यापरनामा मोक्षमार्ग एवावगन्तव्यः । तस्य तु सम्यग्दर्शनज्ञान-

एकाग्रताको प्राप्त है [इति] इसप्रकार [मतः] (शास्त्रमें) कहा है । [तस्य] उसके [श्रामण्यं] श्रामण्य [परिपूर्णम्] परिपूर्ण है ।

टीका:—ज्ञेयतत्त्व और ज्ञातृत्वकी तथाप्रकार (जैसी है वैसी ही, यथार्थ) प्रतीति जिसका लक्षण है वह सम्यग्दर्शन पर्याय है; ज्ञेयतत्त्व और ज्ञातृत्वकी तथाप्रकार अनुभूति जिसका लक्षण है वह ज्ञानपर्याय है; ज्ञेय और ज्ञाताकी क्रियांतरसे निवृत्तिके द्वारा रचित दृष्टि ज्ञातृत्वमें परिणति जिसका लक्षण है वह चारित्र पर्याय है । इन पर्यायोंके और आत्माके भाव्यभावकताके द्वारा उत्पन्न अति गाढ़ इतरेतर मिलनके बलके कारण इन तीनों पर्यायरूप युगपत् अंग-अंगी भावसे परिणत आत्माके, आत्मनिष्ठता होने पर जो संयतत्व होता है वह संयतता, एकाग्रतानक्षणवाला श्रामण्य जिसका दूसरा नाम है ऐसा मोक्षमार्ग ही है—ऐसा समझना चाहिये, क्योंकि वहाँ (संयतत्वमें) पेयकी भाँति अनेकात्मक एकका अनुभव होने पर भी, समस्त परद्रव्यसे निवृत्ति होनेसे एकाग्रता अभिव्यक्त (प्रगट) है ।

वह (संयतत्वरूप अथवा श्रामण्यरूप मोक्षमार्ग) भेदात्मक है, इसलिये 'सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र मोक्षमार्ग है' इसप्रकार पर्यायप्रधान व्यवहारनयसे उसका

१. क्रियांतर = अन्य क्रिया; [ज्ञेय और ज्ञाता अन्य क्रियासे विभावक्रियासे निवृत्त होवे उसके कारण रचित होती हुई जो दृष्टा-ज्ञाता भात्मतत्वमें परिणति वह चारित्रपर्यायका लक्षण है ।]
२. भावक अर्थान् होनेवाला, और भावक जिसरूप हो सो भाव्य है । आत्मा भावक है और सम्यग्दर्शनादि पर्याय भाव्य हैं । भावक और भाव्यका परस्पर अति गाढ़ मिलन (एकमेकता) होता है । भावक आत्मा अंगी है और भाव्यरूप सम्यग्दर्शनादि पर्याय उसका अंग है ।
३. पेय = पीनेकी वस्तु, जैसे ठंडाई । [ठंडाईका स्वाद अनेकात्मक एक होता है; क्योंकि अभेदसे उसमें ठंडाईका ही स्वाद आता है, और भेदसे उसमें दूध, शकर, सोंफ, कालीमिर्च तथा बादाम आदि अनेक वस्तुओंका स्वाद आता है ।]
४. यहाँ अनेकात्मक एकके अनुभवमें जो अनेकात्मकता है वह परद्रव्यमय नहीं है । वहाँ परद्रव्योंसे तो निवृत्ति ही है; मात्र सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप स्व-अंशोंके कारण ही अनेकात्मकता है । इसलिये वहाँ, अनेकात्मकता होनेपर भी एकाग्रता (एक-अग्रता) है,

चारित्राणि मोक्षमार्गं इति भेदात्मकत्वात्पर्यायप्रधानेन व्यवहारनयेनैकाग्र्यं मोक्षमार्गं इत्यभेदात्मकत्वाद्द्रव्यप्रधानेन निश्चयनयेन विश्वस्यापि भेदाभेदात्मकत्वात्तदुभयमिति प्रमाणेन प्रकृतिः ॥ २४२ ॥

*इत्येवं प्रतिपत्तुराशयवशादेकोऽप्यनेकीमबं-
स्त्रैलक्षण्यमथैकतामुपगतो मार्गोऽपवर्गस्य यः ।

द्रष्टृज्ञातुनिबद्धवृत्तिमचलं लोकस्तमास्कन्दता-
मास्कन्दत्यचिराद्विकाशमतुलं येनोल्लसन्त्याश्रितेः ॥ १६ ॥

अथानैकाग्र्यस्य मोक्षमार्गत्वं विघटयति—

प्रज्ञापन है; वह (मोक्षमार्ग) अभेदात्मक है इसलिये 'एकाग्रता मोक्षमार्ग है' इसप्रकार द्रव्यप्रधान निश्चयनयसे उसका प्रज्ञापन है; समस्त ही पदार्थ भेदाभेदात्मक है, इसलिये 'वे दोनों (सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र तथा एकाग्रता) मोक्षमार्ग है' इसप्रकार प्रमाणसे उसका प्रज्ञापन है ॥ २४२ ॥

[अब श्लोक द्वारा मोक्षप्राप्तिके लिये दृष्टा-ज्ञातामें लीनता करनेको कहा जाता है ।]

अर्थः— इसप्रकार, प्रतिपादकके आशयके वश, एक होनेपर भी अनेक होता हुआ (अभेदप्रधान निश्चयनयसे एक-एकाग्रतारूप-होता हुआ भी वक्ताके अभिप्रायानुसार भेदप्रधान व्यवहारनयसे अनेक भी—दर्शनज्ञानचारित्ररूप भी—होता होनेसे) 'एकता (एकलक्षणता)को तथा 'त्रिलक्षणताको प्राप्त जो अपवर्ग (मोक्ष) का मार्ग उसे लोक दृष्टा-ज्ञातामें परिणति बांधकर (लीन करके) अचलरूपसे अवलम्बन करे, जिससे वह (लोक) उल्लसित चेतनाके अतुल विकासको अल्पकालमें प्राप्त हो ।

अब यह दिखाते हैं कि—अनेकाग्रताके मोक्षमार्गत्वं घटित नहीं होता (अर्थात् अनेकाग्रता मोक्षमार्ग नहीं है) :—

*शार्दूल विकीर्णित छन्द ।

१. द्रव्यप्रधाननिश्चयनयसे मात्र एकाग्रता ही एक मोक्षमार्गका लक्षण है ।

२. पर्यायप्रधान व्यवहारनयसे दर्शनज्ञानचारित्ररूप त्रिक मोक्षमार्गका लक्षण है ।

मुञ्जदि वा रज्जदि वा दुस्सदि वा द्रव्यमरणमासेज्ज ।
जदि समणो अण्णाणी वज्जदि कम्महिं विविहेहिं ॥ २४३ ॥

मुह्यति वा रज्यति वा द्वेषि वा द्रव्यमन्यदासाद्य ।

यदि श्रमणोऽज्ञानी बध्यते कर्मभिविधैः ॥ २४३ ॥

यो हि न खलु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावयति सोऽवर्यं ज्ञेयभूतद्रव्यमन्यदासीदति । तदासाद्य च ज्ञानात्मात्मज्ञानाद्भ्रष्टः स्वयमज्ञानीभूतो मुह्यति वा रज्यति वा द्वेषि वा तथाभूतश्च बध्यत एव न तु विमुच्यते । अत अनैकाग्र्यस्य न मोक्षमार्गत्वं सिद्धयेत् ॥ २४३ ॥

अथैकाग्र्यस्य मोक्षमार्गत्वमवधारयन्नुपसंहरति—

अट्टेसु जो ण मुञ्जदि ण हि रज्जदि एव दोममुपयादि ।
समणो जदि सो णियदं खवेदि कम्माणि विविहाणि ॥२४४॥

अर्थेषु यो न मुह्यति न हि रज्यति नैव द्वेषमुपयाति ।

श्रमणो यदि स नियतं धरति कर्मणि विविधानि ॥ २४४ ॥

गाथा २४३

अन्वयार्थः—[यदि] यदि [श्रमणः] श्रमण, [अन्यत् द्रव्यम् आसाद्य] अन्यद्रव्यका आश्रय करके [अज्ञानी] अज्ञानी होता हुआ, [मुह्यति वा] मोह करता है, [रज्यति वा] राग करता है, [द्वेषि वा] अथवा द्वेष करता है, तो वह [विविधैः कर्मभिः] विविध कर्मोंसे [बध्यते] बंधता है ।

टीकाः—जो वास्तवमें ज्ञानात्मक आत्मरूप एक अग्र (विषय) को नहीं भाता, वह अवश्य ज्ञेयभूत अन्य द्रव्यका आश्रय करता है, और उसका आश्रय करके, ज्ञानात्मक आत्मज्ञानसे भ्रष्ट वह स्वयं अज्ञानी होता हुआ मोह करता है, राग करता है, अथवा द्वेष करता है; और ऐसा (मोही रागी अथवा द्वेषी) होता हुआ बंधको ही प्राप्त होता है, परन्तु मुक्त नहीं होता ।

इससे अनेकाग्रताको मोक्षमार्गत्व सिद्ध नहीं होता ॥ २४३ ॥

अब, एकाग्रता मोक्षमार्ग है यह (आचार्य महाराज) निश्चित करते द्रुये (मोक्षमार्ग-प्रज्ञापनका) उपसंहार करते हैंः—

गाथा २४४

अन्वयार्थः—[यदि यः श्रमणः] यदि श्रमण [अर्थेषु] पदार्थोंमें [न मुह्यति]

यस्तु ज्ञानात्मानमात्मानमेकमग्रं भावयति स न ज्ञेयभूतं द्रव्यमन्यदासीदति । तदनासाद्य च ज्ञानात्मात्मज्ञानादभ्रष्टः स्वयमेव ज्ञानीभूतस्तिष्ठन्न भ्रष्टाति न रज्यति न द्वेषि तथाभूतः सन् मुच्यत एव न तु बध्यते । अत एकाग्रचस्यैव मोक्षमार्गत्वं सिद्ध्यते ॥ २४४ ॥ इति मोक्षमार्ग-
प्रज्ञापनम् ॥

अथ शुभोपयोगप्रज्ञापनम् । तत्र शुभोपयोगिनः भ्रमणत्वेनान्वाचिनोति—

ममणा सुद्धुवजुत्ता सुहोवजुत्ता य ह्येति समयमिह ।

तेषु वि सुद्धुवजुत्ता अणामवा सामवा सेसा ॥ २४५ ॥

श्रमणाः शुद्धोपयुक्ताः शुभोपयुक्ताश्च भवन्ति समये ।

तेष्वपि शुद्धोपयुक्ता अनास्रवाः सास्रवाः शेषाः ॥ २४५ ॥

मोह नहीं करता, [न हि रज्यति] राग नहीं करता, [न एव द्वेषम् उपयाति] और न द्वेषको प्राप्त होता है [सः] तो वह [नियतं] नियमसे [विविधानि कर्माणि] विविध कर्मोंको [क्षपयति] खपाता है ।

टीका:—जो ज्ञानात्मक आत्मारूप एक अग्र (विषय) को भाता है वह ज्ञेयभूत अन्य द्रव्यका आश्रय नहीं करता; और उसका आश्रय नहीं करके ज्ञानात्मक आत्मज्ञानसे अभ्रष्ट वह स्वयमेव ज्ञानीभूत रहता हुआ मोह नहीं करता, राग नहीं करता; द्वेष नहीं करता, और ऐसा वर्तता हुआ (वह) मुक्त ही होता है, परन्तु बंधता नहीं है ।

इससे एकाग्रताको ही मोक्षमार्गत्व सिद्ध होता है ॥ २४४ ॥

इसप्रकार मोक्षमार्गप्रज्ञापन समाप्त हुआ !

अब, शुभोपयोगका प्रज्ञापन करते हैं । उसमें (प्रथम), शुभोपयोगियोंको भ्रमणरूपमें गौणतया बतलाते हैं:—

गाथा २४५

अन्वयार्थः—[समये] शास्त्रमें (ऐसा कहा है कि), [शुद्धोपयुक्ताः श्रमणाः] शुद्धोपयोगी श्रमण हैं, [शुभोपयुक्ताः च भवन्ति] शुभोपयोगी भी श्रमण होते हैं [तेषु अपि] उनमें भी [शुद्धोपयुक्ताः अनास्रवाः] शुद्धोपयोगी निरास्रव हैं, [शेषाः सास्रवाः] शेष सास्रव हैं, (अर्थात्—शुभोपयोगी आस्रव सहित हैं ।)

ये खलु श्रामण्यपरिणतिं प्रतिज्ञायामि जीवितकषायकणतया समस्तपरद्रव्यनिवृत्तिप्रवृत्त-
सुविशुद्धदृशिज्ञप्तिस्वभावात्मतत्त्ववृत्तिरूपां शुद्धोपयोगभूमिकामधिरोढुं न क्षमन्ते । ते तदुप-
कण्ठनिविष्टाः कषायकुण्ठीकृतशक्तयो नितान्तमुत्कण्ठुलमनसः श्रमणाः किं भयेयुर्न वेत्यत्रामि-
धीयते । 'धम्ममेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदो । पावदि णिव्वाणसुहं सुहोवजुत्तो व
सग्गसुहं' इति स्वयमेव निरूपितत्वादस्ति तावच्छुभोपयोगस्य धर्मेण सहैकार्थसमवायः । ततः
शुभोपयोगिनोऽपि धर्मसद्भावाद्भवेयुः श्रमणाः किंतु तेषां शुद्धोपयोगिभिः समं समकाष्टत्वं न

टीकाः—जो वास्तवमें श्रामण्यपरिणतिकी प्रतिज्ञा करके भी, कषाय-कणके
जीवित होनेसे, समस्त परद्रव्यसे निवृत्तिरूपसे प्रवर्तमान जो 'सुविशुद्ध दर्शन-ज्ञान
स्वभाव आत्मतत्त्वमें परिणतिरूप शुद्धोपयोगभूमिका उसमें आरोहण करनेको असमर्थ
हैं; वे (शुभोपयोगी) जीव—जो कि शुद्धोपयोगभूमिकाके 'उपकंठ निवास कर
रहे हैं, और कषायने जिनकी शक्ति कुण्ठित की है, तथा जो अत्यन्त उत्कण्ठित
(आतुर) मनवाले हैं, वे-श्रमण हैं या नहीं, यह यहाँ कहा जा रहा है:—

³धम्ममेण परिणदप्पा अप्पा जदि सुद्धसंपयोगजुदो । पावदि णिव्वाणसुहं
सुहोवजुत्तो व सग्गसुहं ॥ इसप्रकार (भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यने ११ वीं गाथामें) स्वयं
ही निरूपण किया है, इसलिये शुभोपयोगका धर्मके साथ 'एकार्थसमवाय है । इसलिये
शुभोपयोगी भी, उनके धर्मका सद्भाव होनेसे, श्रमण हैं । किन्तु वे शुद्धोपयोगियोंके
साथ समान कोटिके नहीं हैं, क्योंकि शुद्धोपयोगी समस्त कषायोंको निरस्त किया
होनेसे निरास्रव ही हैं और ये शुभोपयोगी तो कषायकणके विनष्ट न होनेसे मास्रव
ही हैं । और ऐसा होनेसे ही शुद्धोपयोगियोंके साथ इन्हें (शुभोपयोगियोंको) एकत्रित
नहीं लिया (वर्णन किया) जाता, मात्र पीछेसे (गौणरूपमें ही) लिया जाता है ।

भावार्थः—परमागममें ऐसा कहा है कि शुद्धोपयोगी श्रमण हैं और
शुभोपयोगी भी गौणतया श्रमण हैं । जैसे निश्चयसे शुद्ध बुद्ध-एक-स्वभाववाले सिद्ध
जीव ही जीव कहलाते हैं और व्यवहारमें चतुर्गति परिणत अशुद्ध जीव भी जीव कहे

१. आत्मतत्त्वका स्वभाव सुविशुद्ध दर्शन और ज्ञान है ।

२. उपकंठ = तलहटी; पड़ोस; नजदीकका भाग; निकटता

३. अर्थ—धर्मपरिणत स्वरूपवाला आत्मा यदि शुद्धोपयोगमें युक्त हो तो मोक्षमुखको पाता है,
और यदि शुभोपयोगमें युक्त हो तो स्वर्गमुखको (बंधको) पाता है ।)

४. एकार्थसमवाय = एक पदार्थमें साथ रहसकरूप संबंध (आत्मपदार्थमें धर्म और
शुभोपयोग एकसाथ हो सकता है इसलिये शुभोपयोगका धर्मके साथ एकार्थसमवाय है ।)

भवेत्, यतः शुद्धोपयोगिनो निरस्तसमस्तकषायत्वाद्नास्रवा एव । इमे पुनरनवकीर्णकषायकणत्वात्सास्रवा एव । अत एव च शुद्धोपयोगिभिः समममी न समुच्चीयन्ते केवलमन्वाचीयन्त एव ॥ २४५ ॥

अथ शुभोपयोगिश्रमणलक्षणमाद्यत्रयति—

अरहन्तादिषु भक्ती वृद्धलदा पवयणाभिजुत्तेषु ।

विज्जदि जदि मामण्ये मा सुहजुत्ता भवं चरिया ॥२४६॥

अर्हदादिषु भक्तिर्वत्सलता प्रवचनाभियुक्तेषु ।

विद्यते यदि श्रामण्ये मा शुभयुक्ता भवेच्चर्या ॥ २४६ ॥

सकलसंगसन्यासात्मनि श्रामण्ये सत्यपि कषायलवावेशवशात् स्वयं शुद्धात्मवृत्तिमात्रेणावस्थातुमशक्तस्य परेषु शुद्धात्मवृत्तिमात्रेणावस्थितेष्वर्हदादिषु शुद्धात्मवृत्तिमात्रावस्थितिप्रति-

जाते हैं, उमीप्रकार श्रमणपने शुद्धोपयोगी जीवोंकी मुख्यता है और शुभोपयोगी जीवोंकी गौणता है; क्योंकि शुद्धोपयोगी निज शुद्धात्मभावनाके बलसे समस्त शुभाशुभ संकल्प-विकल्पोंसे रहित होनेसे निरास्रव ही हैं, और शुभोपयोगियोंके मिथ्यात्वविषय-कषायरूप अशुभास्रवका निरोध होने पर भी वे पुण्यास्रवयुक्त हैं ॥ २४५ ॥

अब, शुभोपयोगी श्रमणका लक्षण सूत्रद्वारा कहते हैं:—

गाथा २४६

अन्वयार्थः—[श्रामण्ये] श्रामण्यमें [यदि] यदि [अर्हदादिषु भक्तिः] अर्हन्तादिके प्रति भक्ति तथा [प्रवचनाभियुक्तेषु वत्सलता] प्रवचनरत जीवोंके प्रति वात्सल्य [विद्यते] पाया जाता है तो [मा] वह [शुभयुक्ता चर्या] शुभयुक्त चर्या (शुभोपयोगी चारित्र) [भवेत्] है ।

टीका:—सकल संगके सन्यासस्वरूप श्रामण्यके होने पर भी जो कषायांश (अल्पकषाय) के आवेशके वश केवल शुद्धात्मपरिणतिरूपसे रहनेमें स्वयं अशक्त है, ऐसा श्रमण, पररूप (१) केवल शुद्धात्मपरिणतरूपसे रहनेवाले अर्हन्तादिक तथा (२) केवल शुद्धात्मपरिणतरूपसे रहनेका प्रतिपादन करनेवाले प्रवचनरत जीवोंके प्रति (१) भक्ति तथा (२) वात्सल्यसे चंचल है उस (श्रमण) के, मात्र उतने

पादकेषु प्रवचनामियुक्तेषु च मत्तया वत्सलतया च प्रचलितस्य तावन्मात्ररागप्रवर्तितपरद्रव्यप्रवृत्तिसंबलितशुद्धात्मवृत्तेः शुभोपयोगि चारित्रं स्यात् । अतः शुभोपयोगिश्रमणानां शुद्धात्मानुरागयोगि चारित्रत्वलक्षणम् ॥ २४६ ॥

अथ शुभोपयोगिश्रमणानां प्रवृत्तिमुपदर्शयति—

वंदणमंसणोहिं अब्भुट्टाणाणुगमणपडिवत्ती ।

समणेषु समावणञ्चो ण णिदिदा रायचरियमिहि ॥ २४७ ॥

वन्दननमस्करणाभ्यामभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिः ।

श्रमणेषु श्रमापनयो न निन्दिता रागचर्यायाम् ॥ २४७ ॥

रागसे प्रवर्तमान परद्रव्यप्रवृत्तिके साथ शुद्धात्मपरिणतिमिलित होनेसे, शुभोपयोगी चारित्र है ।

इससे (यह कहा गया है कि) शुद्धात्माका अनुरागयुक्त चारित्र शुभोपयोगी श्रमणोंका लक्षण है ।

भावार्थः—मात्र शुद्धात्मपरिणतिरूप रहनेमें असमर्थ होनेके कारण जो श्रमण, पर जो अर्हन्तादि, उनके प्रति भक्तिसे तथा पर जो आगमपरायण जीव, उनके प्रति वात्सल्यसे चंचल (अस्थिर) हैं उनके शुभोपयोगी चारित्र है, क्योंकि शुद्धात्मपरिणति परद्रव्य प्रवृत्ति (परद्रव्यमें प्रवृत्ति)के साथ मिली हुई है, अर्थात् वह शुभभावके साथ मिश्रित है ॥ २४६ ॥

अब, शुभोपयोगी श्रमणोंकी प्रवृत्ति बतलाते हैं:—

गाथा २४७

अन्वयार्थः—[श्रमणेषु] श्रमणोंके प्रति [वन्दननमस्करणाभ्यां] वन्दन—नमस्कार सहित [अभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिः] 'अभ्युत्थान और 'अनुगमनरूप 'विनीत प्रवृत्ति करना तथा [श्रमापनयः] उनका श्रम दूर करना [रागचर्यायाम्] रागचर्यामें [न निन्दिता] निन्दित नहीं है ।

१. अभ्युत्थान = मानार्थ खड़ा होजाना वह ।

२. अनुगमन = पीछे चलना वह ।

३. विनीत = विनययुक्त, सन्मानयुक्त, विवेकी, सभ्य ।

शुभोपयोगिनां हि शुद्धात्मानुरागयोगिचारित्रतया समधिगतशुद्धात्मवृत्तिषु श्रमणेषु
बन्दननमस्करणाभ्युत्थानानुगमनप्रतिपत्तिप्रवृत्तिः शुद्धात्मवृत्तिप्राणनिमित्ता श्रमापनयनप्रवृत्तिश्च
न दुष्येत् ॥ २४७ ॥

अथ शुभोपयोगिनामेवैवंविद्याः प्रवृत्तयो भवन्तीति प्रतिपादयति—
दर्शनाणां पुर्वदमा मिस्मग्गहणं च पोषणं तसि

चरिया हि सरागाणं जिणिंदपूजोवदेसो य ॥ २४८ ॥

दर्शनज्ञानोपदेशः शिष्यग्रहणं च पोषणं तेषाम् ।

चर्या हि सरागाणां जिनेन्द्रपूजोपदेशश्च ॥ २४८ ॥

अनुजिघृक्षापूर्वकदर्शनज्ञानोपदेशप्रवृत्तिः शिष्यसंग्रहणप्रवृत्तिस्तपोषणप्रवृत्तिर्जिनेन्द्रपूजो-
पदेशप्रवृत्तिश्च शुभोपयोगिनामेव भवन्ति न शुद्धोपयोगिनाम् ॥ २४८ ॥

अथ सर्वा एव प्रवृत्तयः शुभोपयोगिनामेव भवन्तीत्यवधारयति—

टीकाः—शुभोपयोगियोंके शुद्धात्माके अनुरागयुक्त चारित्र्य होता है, इसलिये
जिनने शुद्धात्मपरिणति प्राप्त की है ऐसे श्रमणोंके प्रति जो बन्दन-नमस्कार-अभ्युत्थान-
अनुगमनरूप विनीत वर्तनकी प्रवृत्ति तथा शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षाकी निमित्तभूत जो
श्रम दूर करनेकी (वैयावृत्त्यरूप) प्रवृत्ति है, वह शुभोपयोगियोंके लिये दूषित
(दोषरूप, निन्दित) नहीं है । (अर्थात् शुभोपयोगी मुनियोंके ऐसी प्रवृत्तिका निषेध
नहीं है) ॥ २४७ ॥

अब यह प्रतिपादन करते हैं कि शुभोपयोगियोंके ही ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैंः—
गाथा २४८

अन्वयार्थः—[दर्शनज्ञानोपदेशः] दर्शनज्ञानका (सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानका)
उपदेश, [शिष्यग्रहणं] शिष्योंका ग्रहण, [च] तथा [तेषाम् पोषणं] उनका पोषण,
[च] और [जिनेन्द्रपूजोपदेशः] जिनेन्द्रकी पूजाका उपदेश [हि] वास्तवमें
[सरागाणांचर्या] सरागियोंकी चर्या है ।

टीकाः—अनुग्रह करनेकी इच्छापूर्वक दर्शनज्ञानके उपदेशकी प्रवृत्ति, शिष्य-
ग्रहणकी प्रवृत्ति, उनके पोषणकी प्रवृत्ति और जिनेन्द्रपूजनके उपदेशकी प्रवृत्ति
शुभोपयोगियोंके ही होती है, शुद्धोपयोगियोंके नहीं ॥ २४८ ॥

अब, यह निश्चित करते हैं कि सभी प्रवृत्तियाँ शुभोपयोगियोंके ही होती हैंः—

उवकुणदि जो वि णिच्चं चादुव्वरणस्स समणसंघस्स ।

कायविराधणरहितं मो वि सरागण्णधानो से ॥ २४६ ॥

उपकरोति योऽपि नित्यं चातुर्वर्णस्य श्रमणसंघस्य ।

कायविराधनरहितं सोऽपि मरागप्रधानः स्यात् ॥ २४६ ॥

प्रतिज्ञातसंयमत्वात् षट्कायविराधनरहिता या काचनापि शुद्धात्मवृत्तिप्राणनिमित्ता चातुर्वर्णस्य श्रमणसंघस्योपकारकरणप्रवृत्तिः सा सर्वापि रागप्रधानत्वात् शुभोपयोगिनामेव भवति न कदाचिदपि शुद्धोपयोगिनाम् ॥ २४९ ॥

अथ प्रवृत्तेः संयमविरोधित्वं प्रतिषेधयति—

गाथा २४९

अन्वयार्थः—[यः अपि] जो कोई (श्रमण) [नित्यं] सदा [कायविराधनरहितं] (छह) कायकी विराधनासे रहित [चातुर्वर्णस्य] चारप्रकारके [श्रमणसंघस्य] श्रमण संघका [उपकरोति] उपकार करता है, [सः अपि] वह भी [मरागप्रधानः स्यात्] रागकी प्रधानतावाला है ।

टीकाः—संयमकी प्रतिज्ञा की होनेसे 'षट्कायके विराधनसे रहित जो कोई भी, शुद्धात्मपरिणतिके रक्षणमें निमित्तभूत, 'चारप्रकारके श्रमणसंघका उपकार करनेकी प्रवृत्ति है वह सभी रागप्रधानताके कारण शुभोपयोगियोंके ही होती है, शुद्धोपयोगियोंके कदापि नहीं ॥ २४६ ॥

अब प्रवृत्तिके संयमके विरोधी होनेका निषेध करते हैं (अर्थात् शुभोपयोगी श्रमणके संयमके साथ विरोधवाली प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिये,—यह कहते हैं) :—

१. श्रमणसंघको शुद्धात्मपरिणतिके रक्षणमें निमित्तभूत जो उपकार प्रवृत्ति शुभोपयोगी श्रमण करते हैं वह छह कायकी विराधनासे रहित होती है, क्योंकि उन (शुभोपयोगी श्रमणों) ने संयमकी प्रतिज्ञा ली है ।
२. श्रमणके ४ प्रकार यह हैं—(१) ऋषि, (२) मुनि, (३) यति और (४) अनगार । ऋद्धिप्राप्त श्रमण ऋषि हैं, अवधि, मनःपर्यय अथवा केवलज्ञानवाले श्रमण मुनि हैं, उपशमक या क्षपकश्रेणीमें आरूढ़ श्रमण यति हैं और सामान्य साधु अनगार हैं । इसप्रकार चतुर्विध श्रमण संघ है ।

जदि कुणदि कायखेदं वैज्जावच्चत्थमुज्जदो ममणो ।

एण हवदि हवदि अगारी धम्मो मो सावयाणं से ॥ २५० ॥

यदि करोति कायखेदं वैयावृत्त्यर्थमुद्यतः श्रमणः ।

न भवति भवत्यगारी धर्मः स भावकाणां स्यात् ॥ २५० ॥

यो हि परेषां शुद्धात्मवृत्तिप्राणाभिप्रायेण वैयावृत्त्यप्रवृत्त्या स्वस्य संयमं विराधयति स गृहस्थधर्मानुप्रवेशात् श्रामण्यात् प्रच्यवते । अतो या काचन प्रवृत्तिः सा सर्वथा संयमाविरोधेनैव विधातव्या । प्रवृत्तावपि संयमस्यैव साध्यत्वात् ॥ २५० ॥

गाथा २५०

अन्वयार्थः—[यदि] यदि (श्रमण) [वैयावृत्त्यर्थम् उद्यतः] वैयावृत्तिके लिये उद्यमी वर्तता हुआ [कायखेदं] छह कायको पीड़ित [करोति] करता है तो वह [श्रमणः न भवति] श्रमण नहीं है, [अगारी भवति] गृहस्थ है; (क्योंकि) [सः] वह (छहकायकी विराधना सहित वैयावृत्ति) [भावकाणां धर्मः स्यात्] भावकोंका धर्म है ।

टीकाः—जो (श्रमण) दूसरेके शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षा हो,—इस अभिप्रायसे वैयावृत्त्यकी प्रवृत्ति करता हुआ अपने संयमकी विराधना करता है, वह गृहस्थधर्ममें प्रवेश कर रहा होनेसे श्रामण्यसे च्युत होता है । इससे (यह कहा है कि) जो भी प्रवृत्ति हो वह सर्वथा संयमके साथ विरोध न आये इसप्रकार ही करनी चाहिये, क्योंकि प्रवृत्तिमें भी संयम ही साध्य है ।

भावार्थः—जो श्रमण छह कायकी विराधना सहित वैयावृत्त्यादि प्रवृत्ति करता है वह गृहस्थधर्ममें प्रवेश करता है; इसलिये श्रमणको वैयावृत्त्यादिकी प्रवृत्ति इसप्रकार करनी चाहिये कि जिसमें संयमकी विराधना न हो ।

यहाँ इतना विशेष समझना चाहिये कि—जो स्व शरीर पोषणके लिये या शिष्यादिके मोहसे सावद्यको नहीं चाहता उसे तो वैयावृत्त्यादिमें भी सावद्यकी इच्छा नहीं करनी चाहिये,—यही शोभास्पद है । किन्तु जो अन्यत्र तो सावद्यकी इच्छा करे किन्तु अपनी अवस्थाके योग्य वैयावृत्त्यादि धर्मकार्यमें सावद्यको न चाहे उसके तो सम्यक्त्व ही नहीं है ॥ २५० ॥

अथ प्रवृत्तेर्विषयविभागे दर्शयति—

जोराहाणं णिरवेक्खं मागारणगारचरियजुत्ताणं ।

अणुकम्पयोवयारं कुव्वदु लेवो जदि वि अण्पो ॥ २५१ ॥

जैनानां निरपेक्षं साकारानाकारचर्यायुक्तानाम् ।

अनुकम्पयोपकारं करोतु लेपो यद्यप्यल्पः ॥ २५१ ॥

या क्लिानुकम्पापूर्विका परोपकारलक्षणा प्रवृत्तिः सा खल्वनेकान्तमैत्रीपवित्रितचित्तेषु शुद्धेषु जैनेषु शुद्धान्मज्ञानदर्शनप्रवृत्तावृत्तितया साकारानाकारचर्यायुक्तेषु शुद्धान्मोपलम्भेतरसकल-

अब प्रवृत्तिके विषयके दो विभाग बतलाते हैं (अर्थात् अब यह बतलाते हैं कि शुभोपयोगियोंको किसके प्रति उपकारकी प्रवृत्ति करना योग्य है और किसके प्रति नहीं) :—

शाखा २५१

अन्वयार्थः—[यद्यपि अल्पः लेपः] यद्यपि अल्प लेप होता है तथापि [साकारानाकारचर्यायुक्तानाम्] साकार-अनाकार चर्यायुक्त [जैनानां] जैनोंका [अनुकम्पया] अनुकम्पासे [निरपेक्षं] निरपेक्षतया [उपकारं करोतु] (शुभोपयोगसे) उपकार करो ।

टीका :—जो अनुकम्पापूर्वक परोपकारस्वरूप प्रवृत्ति उसके करनेसे यद्यपि अल्प लेप तो होता है, तो भी अनेकान्तके साथ मैत्रीसे जिनका चित्त पवित्र हुआ है ऐसे शुद्ध जैनोंके प्रति—जां कि शुद्धान्माके ज्ञान-दर्शनमें प्रवर्तमान 'वृत्तिके कारण साकार-अनाकार चर्यावाले हैं उनके प्रति,—शुद्धात्माकी उपलब्धिके अतिरिक्त अन्य सबकी अपेक्षा किये बिना ही, उस प्रवृत्तिके करनेका निषेध नहीं है; किन्तु अल्पलेप-वाली होनेसे सबके प्रति सभी प्रकारसे वह प्रवृत्ति अनिषिद्ध हो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ (अर्थात् यदि सबके प्रति सभी प्रकारसे की जाय तो) उस प्रकारकी प्रवृत्तिसे परके और निजके शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षा नहीं हो सकती ।

भावार्थ :—यद्यपि अनुकम्पापूर्वक परोपकारस्वरूप प्रवृत्तिसे अल्पलेप तो होता है, तथापि यदि (१) शुद्धात्माकी ज्ञानदर्शनरूप चर्यावाले शुद्ध जैनोंके प्रति, तथा

१ वृत्ति—परिणति; वर्तन; वर्तना वह ।

२. ज्ञान साकार है और दर्शन अनाकार है ।

निरपेक्षतयैवान्पलेपाप्यप्रतिषिद्धा न पुनरन्पलेपेति सर्वत्र सर्वथैवाप्रतिषिद्धा, तत्र तथा-
प्रवृत्त्याशुद्धात्मवृत्तिप्राणस्य परात्मनोरनुपपत्तेरिति ॥ २५१ ॥

अथ प्रवृत्तेः कालविभागं दर्शयति—

रोगेण वा क्षुधाया तृष्णया वा श्रमेण वा रूढं ।

दिष्ट्वा श्रमणं साधु पडिवज्जदु आदमत्तीण ॥ २५२ ॥

रोगेण वा क्षुधया तृष्णया वा श्रमेण वा रूढम् ।

दृष्ट्वा श्रमणं साधुः प्रतिपद्यतामात्मशक्त्या ॥ २५२ ॥

यदा हि समधिगतशुद्धात्मवृत्तेः श्रमणस्य तत्प्रव्याकमहेतोः कस्याप्युपसर्गस्योपनिपातः

(२) शुद्धात्माकी उपलब्धिकी अपेक्षासे ही, वह प्रवृत्ति की जाती हो तो शुभोपयोगीके उसका निषेध नहीं है । परन्तु, यद्यपि अब्जकम्पापूर्वक परोपकारस्वरूप प्रवृत्तिसे अल्प ही लेप होता है तथापि (१) शुद्धात्माकी ज्ञानदर्शनरूपचर्यावाले शुद्ध जैनोंके अतिरिक्त दूसरोंके प्रति, तथा (२) शुद्धात्माकी उपलब्धिके अतिरिक्त अन्य किसी भी अपेक्षासे, वह प्रवृत्ति करनेका शुभोपयोगीके निषेध है, क्योंकि इसप्रकारसे परको या निजको शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षा नहीं होती ॥ २५१ ॥

अब, प्रवृत्तिके कालका विभाग बतलाते हैं (अर्थात् यह बतलाते हैं कि— शुभोपयोगी श्रमणको किस समय प्रवृत्ति करना योग्य है और किस समय नहीं) :—

गाथा २५२

अन्वयार्थः—[रोगेण वा] रोगसे, [क्षुधया] क्षुधासे, [तृष्णया वा] तृषासे [श्रमेण वा] अथवा श्रमसे [रूढम्] आक्रांत [श्रमणं] श्रमणको [दृष्ट्वा] देखकर [साधुः] साधु [आत्मशक्त्या] अपनी शक्तिके अनुसार [प्रतिपद्यताम्] वैयावृत्यादि करो ।

टीकाः—जब शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त श्रमणको, उससे च्युत करे ऐसा कारण—कोई भी उपसर्ग—आजाय, तब वह काल, शुभोपयोगीको अपनी शक्तिके अनुसार 'प्रतिकार करनेकी इच्छारूप प्रवृत्तिकाल है; और उसके अतिरिक्तका काल अपनी शुद्धात्मपरिणतिकी प्राप्तिके लिये केवल निवृत्तिका काल है ।

स्यात् स शुभोपयोगिनः स्वशक्त्या प्रतिचिकीर्षा प्रवृत्तिकालः । इतरस्तु स्वयं शुद्धात्मवृत्तेः सम-
धिगमनाय केवलं निवृत्तिकाल एव ॥ २५२ ॥

अथ लोकसंभाषणप्रवृत्तिं सनिमित्तविभागं दर्शयति—

वैज्जावच्चणित्तं गिलाणगुरुवाल्लवृद्धममणाणं ।

लोगिगजणमंभासा ण णिदिदा वा सुहोवजुदा ॥ २५३ ॥

वैयावृत्त्यनिमित्तं ग्लानगुरुबालवृद्धश्रमणानाम् ।

लौकिकजनसंभाषा न निन्दिता वा शुभोपयुता ॥ २५३ ॥

समधिगतशुद्धात्मवृत्तीनां ग्लानगुरुबालवृद्धश्रमणानां वैयावृत्त्यनिमित्तमेव शुद्धात्मवृत्ति-
शून्यजनसंभाषणं प्रसिद्धं न पुनरन्यनिमित्तमपि ॥ २५३ ॥

भावार्थः—जब शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त श्रमणके स्वस्थ भावका नाश करनेवाला रोगादिक आजाय तब उस समय शुभोपयोगी माधुको उनकी सेवाकी इच्छारूप प्रवृत्ति होती है, और शेष कालमें शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त करनेके लिये निज अनुष्ठान होता है ॥ २५२ ॥

अब लोगोंके साथ बातचीत करनेकी प्रवृत्ति उसके निमित्तके विभाग सहित बतलाते हैं (अर्थात् शुभोपयोगी श्रमणको लोगोंके साथ बातचीतकी प्रवृत्ति किस निमित्तसे करना योग्य है और किस निमित्तसे नहीं, सो कहते हैं) :—

माथा २५३

अन्वयार्थः—[वा] और [ग्लानगुरुबालवृद्धश्रमणानाम्] रोगी, गुरु (पूज्य, बड़े), बाल तथा वृद्ध श्रमणोंकी [वैयावृत्त्यनिमित्तं] सेवाके निमित्तसे, [शुभोपयुता] शुभोपयोगयुक्त [लौकिकजनसंभाषा] लौकिक जनोंके साथकी बातचीत [न निन्दिता] निन्दित नहीं है ।

टीकाः—शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त रोगी, गुरु, बाल और वृद्ध श्रमणोंकी सेवाके निमित्तसे ही (शुभोपयोगी श्रमणको) शुद्धात्मपरिणतिशून्य लोगोंके साथ बातचीत प्रसिद्ध है (-शास्त्रोंमें निषिद्ध नहीं है), किन्तु अन्य निमित्तसे भी प्रसिद्ध हो ऐसा नहीं है ॥ २५३ ॥

अथैवमुक्तस्य शुभोपयोगस्य गौणमुख्यविभागं दर्शयति—

एसा पमत्थभूदा समणाणं वा पुणो घरस्थाणं ।
चरिया परेत्ति भणिदा ताण्व परं लहदि मौक्खं ॥ २५४ ॥

एसा प्रशस्तभूता श्रमणानां वा पुनर्गृहस्थानाम् ।

चर्या परेति भणिता तथैव परं लभते मौख्यम् ॥ २५४ ॥

एवमेष शुद्धात्मानुरागयोगिप्रशस्तचर्यारूप उपवर्णितः शुभोपयोगः तदर्थं शुद्धात्मप्रकाशिकां समस्तविरतिमुपेयुषां कषायकणसद्भावात्प्रवर्तमानः शुद्धात्मवृत्तिविरुद्धरागसंगतत्वाद्गौणः श्रमणा-
नां, गृहिणां तु समस्तविरतेरभावेन शुद्धात्मप्रकाशनस्याभावात्कषायसद्भावात्प्रवर्तमानोऽपि स्फ-

अब इसप्रकारसे कहें गये शुभोपयोगका गौण-मुख्य विभाग बतलाते हैं; (अर्थात् यह बतलाते हैं कि किसके शुभोपयोग गौण होता है और किसके मुख्य होता है ।) :—

माथा २५४

अन्वयार्थः—[एसा] यह [प्रशस्तभूता] प्रशस्तभूत [चर्या] चर्या [श्रमणानां] श्रमणोंके (गौण) होती है [वा गृहस्थानां पुनः] और गृहस्थोंके तो [परा] मुख्य होती है, [इति भणिता] ऐसा (शास्त्रोंमें) कहा है; [तथा एव] उसीसे [परं मौक्खं लभते] (परम्परासे) गृहस्थ परम सौख्यको प्राप्त होता है ।

टीकाः—इसप्रकार शुद्धात्मानुरागयुक्त प्रशस्त चर्यारूप जो यह शुभोपयोग वर्णित किया गया है वह यह शुभोपयोग, शुद्धात्माकी प्रकाशक सर्वविरतिको प्राप्त श्रमणोंके कषायकणके सद्भावके कारण प्रवर्तित होता हुआ, गौण होता है; क्योंकि वह शुभोपयोग शुद्धात्मपरिणतिसे विरुद्धरागके साथ संबन्धवान है; और वह शुभोपयोग गृहस्थोंके तो, सर्वविरतिके अभावसे शुद्धात्मप्रकाशनका अभाव होनेसे कषायके सद्भावके कारण प्रवर्तमान होता हुआ भी, मुख्य है, क्योंकि—जैसे ईंधनको स्फटिकके संपर्कसे सूर्यके तेजका अनुभव होता है (और इसलिये वह क्रमशः जल उठता है) उसीप्रकार-गृहस्थको रागके संयोगसे शुद्धात्माका अनुभव होता है, और (इसलिये वह शुभोपयोग) क्रमशः परम निर्वाणसौख्यका कारण होता है ।

१. चारित्रदशामें प्रवर्तमान उग्र शुद्धात्मप्रकाशनको ही यहां शुद्धात्मप्रकाशन गिना है; सम्यग्दृष्टिगृहस्थके उसका अभाव है । शेष, दर्शनापेक्षासे तो सम्यग्दृष्टिगृहस्थके भी शुद्धात्माका प्रकाशन है ही ।

टिकसंपर्केणाकतेजस इवैधसां रागसंयोगेन शुद्धात्मनोऽनुभवात्क्रमतः परमनिर्वाणसौख्यकारण-
त्वाच्च मुख्यः ॥ २५४ ॥

अथ शुभोपयोगस्य कारणवैपरीत्यात् फलवैपरीत्यं साधयति—

रागो पमत्यभूदो वत्थुविमेमेण फलदि विवरीदं ।

णाणाभूमिगदाणिह बीजाणिव मस्यकाले ॥ २५५ ॥

रागः प्रशस्तभूतो वस्तुविशेषेण फलति विपरीतम् ।

नानाभूमिगतानीह बीजानीव मस्यकाले ॥ २५५ ॥

यथैकेषामपि बीजानां भूमिवैपरीत्यान्निष्पत्तिवैपरीत्यं तथैकस्यापि प्रशस्तरागलक्षणस्य

भावार्थः—दर्शनापेक्षासे तो श्रमणको तथा सम्यग्दृष्टिगृहस्थको शुद्धात्माका ही आश्रय है, परन्तु चारित्र्यापेक्षासे श्रमणके मुनियोग्य शुद्धात्मपरिणति मुख्य होनेसे शुभोपयोग गौण है और सम्यग्दृष्टि गृहस्थके मुनियोग्य शुद्धात्मपरिणतिको प्राप्त न हो सकनेसे अशुभ वंचनार्थ शुभोपयोग मुख्य है । सम्यग्दृष्टि गृहस्थके अशुभसे (-विशेष अशुद्ध परिणतिसे) छूटनेके लिये प्रवर्तमान जो यह शुभोपयोगका पुरुषार्थ वह भी शुद्धिका ही मन्दपुरुषार्थ है, क्योंकि शुद्धात्मद्रव्यके मंद आलम्बनसे अशुभ परिणति बदल कर शुभ परिणति होती है और शुद्धात्मद्रव्यके उग्र आलम्बनसे शुभपरिणति भी बदल कर शुद्धपरिणति होजाती है ॥ २५४ ॥

अब, यह सिद्ध करते हैं कि शुभोपयोगको कारणकी विपरीततासे फलकी विपरीतता होती है:—

वाचा २५५

अन्वयार्थः—[इह नानाभूमिगतानि बीजानि इव] जैसे इस जगतमें अनेक प्रकारकी भूमियोंमें पड़े हुये बीज [मस्यकाले] धान्यकालमें विपरीततया फलित होते हैं, उसीप्रकार [प्रशस्तभूतः रागः] प्रशस्तभूत राग [वस्तु विशेषेण] वस्तु-भेदसे (-पात्र भेदसे) [विपरीतं फलति] विपरीततया फलता है ।

टीकाः—जैसे वो के वो ही बीज होने पर भी भूमिकी विपरीततासे निष्पत्तिकी विपरीतता होती है, (अर्थात् अच्छी भूमिमें उसी बीजका अच्छा अन्न उत्पन्न होता है और खराब भूमिमें वही खराब होजाता है या उत्पन्न ही नहीं होता),

शुभोपयोगस्य पात्रवैपरीत्यात्फलवैपरीत्यं कारणविशेषात्कार्यविशेषस्यावश्यंभावित्वात् ॥ २५५ ॥

अथ कारणवैपरीत्यफलवैपरीत्ये दर्शयति—

ऋदुमत्थविहितवस्तुषु वदणियमज्जभयणभाणदाणरतो ।

ए लहदि अपुण्णभावं भावं मादप्पगं लहदि ॥ २५६ ॥

छद्मस्थविहितवस्तुषु व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः ।

न लभते अपुनभावं भावं सातात्मकं लभते ॥ २५६ ॥

शुभोपयोगस्य सर्वज्ञव्यवस्थापितवस्तुषु प्रणिहितस्य पुण्योपचयपूर्वकोऽपुनर्भावोपलम्भः किल फलं, तच्च कारणवैपरीत्याद्विपर्यय एव । तत्र छद्मस्थव्यवस्थापितवस्तूनि कारणवैपरीत्यं तेषु व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतत्वप्रणिहितस्य शुभोपयोगस्यापुनर्भावशून्यकेवलपुण्यापसदप्राप्तिः फलवैपरीत्यं तत्सुदेवमनुजत्वम् ॥ २५६ ॥

उसीप्रकार प्रशस्तरागस्वरूप शुभोपयोग वहका वही होता है, फिर भी पात्रकी विपरीततासे फलकी विपरीतता होती है, क्योंकि कारणके भेदसे कार्यका भेद अवश्यम्भावी (अनिवार्य) है ॥ २५५ ॥

अथ कारणकी विपरीतता और फलकी विपरीतता बतलाते हैं:—

गणना २५६

अन्वयार्थः—[छद्मस्थविहितवस्तुषु] जो जीव छद्मस्थविहित वस्तुओंमें (छद्मस्थ—अज्ञानीके द्वारा कथित देव-गुरु-धर्मादिमें) [व्रतनियमाध्ययनध्यानदानरतः] व्रत-नियम-अध्ययन-ध्यान-दानमें रत होता है वह [अपुनभावं] मोक्षको [न लभते] प्राप्त नहीं होता, (किन्तु) [सातात्मकं भावं] सातात्मक भावको [लभते] प्राप्त होता है ।

टीका:— 'सर्वज्ञस्थापित वस्तुओंमें युक्त शुभोपयोगका फल पुण्यसंचयपूर्वक मोक्षकी प्राप्ति है । वह फल, कारणकी विपरीतता होनेसे विपरीत ही होता है । वहाँ, छद्मस्थस्थापित वस्तुयें वे कारणविपरीतता है; उनमें व्रत-नियम-अध्ययन-ध्यान-दानरतरूपसे युक्त शुभोपयोगका फल जो मोक्षशून्य केवल 'पुण्यापसदकी प्राप्ति है वह फलकी विपरीतता है; वह फल सुदेव-मनुष्यत्व है ॥ २५६ ॥

१. सर्वज्ञस्थापित = सर्वज्ञ कथित;

२. पुण्यापसद = पुण्य-अपसद; अधमपुण्य; हतपुण्य ।

अथ कारणवैपरीत्यफलवैपरीत्ये एव व्याख्याति—

अविदिदपरमार्थेषु य विषयकषायाधिगेषु पुरिसेषु ।
जुष्टं कर्तं वा दत्तं फलदि कुदेवेषु मणुष्येषु ॥ २५७ ॥

अविदितपरमार्थेषु च विषयकषायाधिकेषु पुरुषेषु ।

जुष्टं कृतं वा दत्तं फलति कुदेवेषु मनुजेषु ॥ २५७ ॥

यानि हि छद्मस्थव्यवस्थापितवस्तूनि कारणवैपरीत्यं ते खलु शुद्धात्मपरिज्ञानशून्यत-
यानवाप्तशुद्धात्मवृत्तितया चाविदितपरमार्था विषयकषायाधिकाः पुरुषाः तेषु शुभोपयोगात्मकानां
जुष्टोपकृतदत्तानां या केवलपुण्यापसदप्राप्तिः फलवैपरीत्यं तत्कुदेवमनुजत्वम् ॥ २५७ ॥

अथ कारणवैपरीत्यात् फलमविपरीतं न सिध्यतीति श्रद्धापयति—

अब (इस गाथामें भी) कारणविपरीतता और फलविपरीतता ही
बतलाते हैं—

गाथा २५७

अन्वयार्थः—[अविदितपरमार्थेषु] जिन्होंने परमार्थको नहीं जाना है, [च]
और [विषयकषायाधिकेषु] जो विषय-कषायमें अधिक है, [पुरुषेषु] ऐसे पुरुषोंके
प्रति [जुष्टं कृतं वा दत्तं] सेवा, उपकार या दान [कुदेवेषु मनुजेषु] कुदेवरूपमें और
कुमनुष्यरूपमें [फलति] फलता है ।

टीकाः—जो छद्मस्थस्थापित वस्तुये है वे कारणविपरीतता है; वे (विपरीत
कारण) वास्तवमें (१) शद्धात्मज्ञानसे शून्यताके कारण, 'परमार्थके अज्ञान' और
(२) शद्धात्मपरिणतिको प्राप्त न करनेसे 'विषयकषायमें अधिक' ऐसे पुरुष हैं ।
उनके प्रति शुभोपयोगात्मक जीवोंको—मेवा, उपकार या दान करनेवाले जीवोंको—
जो केवल पुण्यापसदकी प्राप्ति है सो वह फलविपरीतता है; वह (फल) कुदेव-
मनुष्यत्व है ॥ २५७ ॥

अब यह श्रद्धा करवाते हैं कि कारणकी विपरीततासे अविपरीत फल
सिद्ध नहीं होताः—

जदि ते विसयकषाया पाव त्ति परूविदा व सत्थेसु ।
किह ते तत्प्रतिबद्धा पुरिसा णित्थारमा होंति ॥ २५८ ॥

यदि ते विषयकषायाः पापमिति प्ररूपिता वा शास्त्रेषु ।

कथं ते तत्प्रतिबद्धाः पुरुषा निस्तारका भवन्ति ॥ २५८ ॥

विषयकषायास्तावत्पापमेव तद्वन्तः पुरुषा अपि पापमेव तदनुरक्ता अपि पापानुरक्त-
त्वात् पापमेव भवन्ति । ततो विषयकषायवन्तः स्वानुरक्तानां पुण्यायापि न कन्त्यन्ते कथं पुनः
संसारनिस्तारणाय । ततो न तेभ्यः फलमविपरीतं सिध्येत् ॥ २५८ ॥

अथाविपरीतफलकारणं कारणमविपरीतं दर्शयति—

उवरदपावां पुरिसो समभावो धम्मिगेसु सव्वेसु ।
गुणममिदिदोवसेवी हवदि न भागी सुमग्गस्स ॥ २५९ ॥

भाष्या २५८

अन्वयार्थः— [यदि वा] जबकि '[ते विषयकषायाः] वे विषयकषाय [पापम्]
पाप हैं' [इति] इसप्रकार [शास्त्रेषु] शास्त्रोंमें [प्ररूपिताः] प्ररूपित किया गया है,
तो [तत्प्रतिबद्धाः] उनमें प्रतिबद्ध (विषय-कषायोंमें लीन) [ते पुरुषाः] वे पुरुष
[निस्तारकाः] निस्तारक (पार लगाने वाले) [कथं भवन्ति] कैसे हो सकते हैं ?

टीकाः—प्रथम तो विषयकषाय पाप ही हैं; विषयकषायवान् पुरुष भी पाप
ही हैं; विषयकषायवान् पुरुषोंके प्रति अनुरक्त जीव भी पापमें अनुरक्त होनेसे पाप
ही हैं । इसलिये विषयकषायवान् पुरुष स्वानुरक्त (विषयकषायवान्के प्रति अनुरक्त)
पुरुषोंको पुण्याका कारण भी नहीं होते, तब फिर वे संसार से निस्तारके कारण तो
कैसे हो सकते हैं ? (नहीं हो सकते); इसलिये उनसे अविपरीत फल सिद्ध नहीं
होता (अर्थात् विषयकषायवान् पुरुषरूप विपरीत कारणका फल अविपरीत
नहीं होता ।) ॥ २५८ ॥

अब अविपरीत फलका कारण ऐसा जो 'अविपरीत कारण' उसको
बतलाते हैंः—

उपरतपापः पुरुषः समभावो धार्मिकेषु सर्वेषु ।

गुणसमितितोपसेवी भवति स भागी सुमार्गस्य ॥ २५९ ॥

उपरतपापत्वेन सर्वधर्मिमध्यस्थत्वेन गुणग्रामोपसेवित्वेन च सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्यौग-
पद्यपरिणतिनिवृत्तैकाग्र्यात्मकसुमार्गभागी स श्रमणः स्वयं मोक्षपुण्यायतनत्वादविपरीतफलका-
रणं कारणमविपरीतं प्रत्येयम् ॥ २५९ ॥

अथाविपरीतफलकारणं कारणमविपरीतं व्याख्याति—

अशुभोपयोगरहिता सुदधुवजुत्ता सुहोवजुत्ता वा ।

णित्थारयन्ति लोगं तेषु पमत्थं लहदि भत्तो ॥ २६० ॥

अशुभोपयोगरहिताः शुद्धोपयुक्ताः शुभोपयुक्ता वा ।

निस्तारयन्ति लोकं तेषु प्रथमं लभते भक्तः ॥ २६० ॥

गाथा २५९

अन्वयार्थः—[उपरतपापः] जिसके पाप रुक गया है, [सर्वेषु धार्मिकेषु समभावः] जो सभी धार्मिकोंके प्रति समभाववान् है, और [गुणसमितितोपसेवी] जो गुण-समुदायका सेवन करनेवाला है, [मः पुरुषः] वह पुरुष [सुमार्गस्य] सुमार्गका [भागी भवति] भागी होता है । (अर्थात् सुमार्गवान् है)

टीकाः—पापके रुक जानेसे, सर्वधर्मियोंके प्रति स्वयं मध्यस्थ होनेसे और गुणसमूहका सेवन करनेसे जो सम्यग्दर्शन ज्ञानचारित्र्यकी सुगुणत्त्वरूप परिणतिसे रचित एकाग्रतास्वरूप सुमार्गका भागी (सुमार्गशाली-सुमार्गका भाजन) है वह श्रमण निजको और परको मोक्षका और पुण्यका आयतन (स्थान) है इसलिये वह (श्रमण) अविपरीत फलका कारण ऐसा 'अविपरीत कारण' है, ऐसी प्रतीति करनी चाहिये ॥ २५९ ॥

अब, अविपरीत फलका कारण, ऐसा जो 'अविपरीत कारण' है उसे विशेष समझाते :—

गाथा २६०

अन्वयार्थः—[अशुभोपयोगरहिताः] जो अशुभोपयोगरहित वर्तते हुये [शुद्धोपयुक्ताः] शुद्धोपयुक्त [वा] अथवा [शुभोपयुक्ताः] शुभोपयुक्त होते हैं, वे

यथोक्तलक्षणा एव श्रमणा मोहद्वेषप्रशस्तरागोच्छेदादशुभोपयोगवियुक्ताः सन्तः सकल-
कषायोदयविच्छेदात् कदाचित् शुद्धोपयुक्ताः प्रशस्तरागविपाकात्कदाचिच्छुभोपयुक्ताः स्वयं मोक्षा-
यतनत्वेन लोकं निस्तारयन्ति तद्भक्तिभावप्रवृत्तप्रशस्तभावा भवन्ति परे च पुण्यभाजः ॥ २६० ॥

अथाविपरीतफलकारणाविपरीतकारणसमुपासनप्रवृत्तिं सामान्यविशेषतो विधेयतया
सूत्रद्वैतेनोपदर्शयति—

दिद्रा पगदं वस्तुं अम्बुद्वाणप्पधाणकिरियाहिं ।

वड्ढु तदो गुणादो विसेसिदव्वो ति उवदेसो ॥ २६१ ॥

दृष्ट्वा प्रकृतं वस्तुव्युत्थानप्रधानक्रियाभिः ।

वर्ततां ततो गुणाद्विशेषितव्य इति उपदेशः ॥ २६१ ॥

(श्रमण) [लोकं निस्तारयन्ति] लोगोंको तार देते हैं; (और) [तेषु भक्तः]
उनके प्रति भक्तिवान जीव [प्रशस्तं] प्रशस्त (पुण्य) को [लभते] प्राप्त करता है ।

टीका:—यथोक्त लक्षणवाले श्रमण ही—जो कि मोह, द्वेष और अप्रशस्त
रागके उच्छेदसे अशुभोपयोगरहित वर्तते हुये, समस्त कषायोदयके विच्छेदसे कदाचित्
शुद्धोपयुक्त (शुद्धोपयोगमें युक्त) और प्रशस्त रागके विपाकसे कदाचित् शुभोपयुक्त
होते हैं वे—स्वयं मोक्षायतन (मोक्षके स्थान) होनेसे लोकको तार देते हैं, और
उनके प्रति भक्तिभावसे जिनके प्रशस्त भाव प्रवर्तता है ऐसे पर जीव पुण्यके भागी
(पुण्यशाली) होते हैं ॥ २६० ॥

अब अविपरीत फलका कारण जो 'अविपरीत कारण' उसकी उपासनारूप
प्रवृत्ति सामान्यतया और विशेषतया करने योग्य है,—यह दो सूत्रों द्वारा बतलाते हैं:—

गाथा २६१

अन्वयार्थः—[प्रकृतं वस्तु] 'प्रकृत वस्तुको [दृष्ट्वा] देखकर (प्रथम तो)
[अभ्युत्थानप्रधानक्रियाभिः] 'अभ्युत्थान आदि क्रियाओंसे [वर्तताम्] (श्रमण) वर्तते;

१. प्रकृतवस्तु = अविकृत वस्तु; अविपरीत पात्र (अभ्यंतर-निरुपराग-शुद्ध आत्माकी भावनाको
बतानेवाला जो बहिरंग-निर्ग्रन्थ-निर्विकाररूप है उस रूपवाले श्रमणको यहां 'प्रकृत वस्तु' कहा है ।)

२. अभ्युत्थान = सम्मानार्थ खड़े होजाना और सम्मुख जाना ।

श्रमणानामात्मविशुद्धिहेतौ प्रकृते वस्तुनि तदनुकूलक्रियाप्रवृत्त्या गुणातिशयाधानमप्र-
तिषिद्धम् ॥ २६१ ॥

अभ्युत्थाणं ग्रहणं उपासनं पोषणं च सत्कारं ।

अञ्जलिकरणं प्रणामं भणितं इह गुणाधिगाणं हि ॥ २६२ ॥

अभ्युत्थानं ग्रहणमुपासनं पोषणं च सत्कारः ।

अञ्जलिकरणं प्रणामो भणितमिह गुणाधिकानां हि ॥ २६२ ॥

श्रमणानां स्वतोऽधिकगुणानामभ्युत्थानग्रहणोपासनपोषणसत्काराञ्जलिकरणप्रणामप्रवृ-
त्तयो न प्रतिषिद्धाः ॥ २६२ ॥

[ततः] फिर [गुणात्] गुणानुसार [विशेषितव्यः] भेद करना,—[इति उपदेशः]
ऐसा उपदेश है ।

टीकाः—श्रमणोंके आत्मविशुद्धिकी हेतुभूत प्रकृतवस्तु (श्रमण) के प्रति
उनके योग्य क्रियारूप प्रवृत्तिसे गुणातिशयताके आरोपण करनेका निषेध नहीं है ।

मात्रार्थः—यदि कोई श्रमण अन्य श्रमणको देखे तो प्रथम ही, मानो वह
अन्य श्रमण गुणातिशयवान् हो इसप्रकार उनके प्रति (अभ्युत्थानादि) व्यवहार
करना चाहिये । फिर उनका परिचय होनेके बाद उनके गुणानुसार वर्ताव करना
चाहिये ॥ २६१ ॥

(इसप्रकार पहला सूत्र कहकर अब इसी विषयका दूसरा सूत्र कहते हैंः—)

गाथा २६२

अन्वयार्थः—[गुणाधिकानां हि] गुणमें अधिक (श्रमणों) के प्रति [अभ्यु-
त्थानं] अभ्युत्थान, [ग्रहणं] ग्रहण (आदरसे स्वीकार), [उपासनं] उपासन (सेवा),
[पोषणं] पोषण (उनके अशन, शयनादिकी चिन्ता), [सत्कारः] सत्कार (गुणोंकी
प्रशंसा), [अञ्जलिकरणं] अञ्जलि करना (विनयपूर्वक हाथ जोड़ना) [च] और
[प्रणामः] प्रणाम करना [इह] यहाँ [भणितम्] कहा है ।

टीकाः—श्रमणोंको अपनेसे अधिक गुणी (श्रमणोंके) प्रति अभ्युत्थान, ग्रहण,
उपासन, पोषण, सत्कार, अञ्जलिकरण और प्रणामरूप प्रवृत्तियाँ निषिद्ध नहीं
हैं ॥ २६२ ॥

अथ श्रमणाभासेषु सर्वाः प्रवृत्तीः प्रतिषेधयति—

अभ्युत्थेया समणा सुत्तत्यविशारदा उपासेया ।

संजमतवणाण्ड्हा पणिवदणीया हि समणेहिं ॥ २६३ ॥

अभ्युत्थेयाः श्रमणाः सूत्रार्थविशारदा उपासेयाः ।

संयमतपोज्ञानाढ्याः प्रणिपतनीया हि श्रमणैः ॥ २६३ ॥

सूत्रार्थविशारदप्रवर्तितसंयमतपःस्वतस्त्वज्ञानानामेव श्रमणानामभ्युत्थानादिकाः प्रवृत्तयोऽप्रतिषिद्धा इतरेषां तु श्रमणाभासानां ताः प्रतिषिद्धा एव ॥ २६३ ॥

अथ कीदृशः श्रमणाभासो भवतीत्याख्याति—

ण हवदि समणो त्ति मदो संजमतवसुत्तसंपजुत्तो वि ।

जदि मद्दहदि ण अत्थे आदपधाणे जिणस्खादे ॥ २६४ ॥

न भवति श्रमण इति मतः संयमतपःसूत्रसंप्रयुक्तोऽपि ।

यदि श्रद्धा नार्थानात्मप्रधानान् जिनाख्यातान् ॥ २६४ ॥

अब श्रमणाभासोंके प्रति समस्तप्रवृत्तियोंका निषेध करते हैं—

गाथा २६३

अन्वयार्थः—[श्रमणैः हि] श्रमणोंके द्वारा [सूत्रार्थविशारदाः] सूत्रार्थविशारद (सूत्रोंके और सूत्रकथित पदार्थोंके ज्ञानमें निपुण) तथा [संयमतपोज्ञानाढ्याः] संयम, तप और (आत्म) ज्ञानमें समृद्ध [श्रमणः] श्रमण [अभ्युत्थेयाः उपासेयाः प्रणिपतनीयाः] अभ्युत्थान, उपासना और प्रणाम करने योग्य हैं ।

टीकाः—जिनके सूत्रोंमें और पदार्थोंमें विशारदत्वके द्वारा संयम, तप और स्वतस्त्वका ज्ञान प्रवर्तता है उन श्रमणोंके प्रति ही अभ्युत्थानादिक प्रवृत्तियाँ अनिषिद्ध हैं, परन्तु उनके अतिरिक्त अन्य श्रमणाभासोंके प्रति वे प्रवृत्तियाँ निषिद्ध ही हैं ॥ २६३ ॥

अब, श्रमणाभास कैसा (जीव) होता है सो कहते हैं—

गाथा २६४

अन्वयार्थः—[संयमतपःसूत्रसंप्रयुक्तः अपि] सूत्र, संयम और तपसे संयुक्त होने पर भी [यदि] यदि (वह जीव) [जिनाख्यातान्] जिनोक्त [आत्मप्रधानान्]

आगमज्ञोऽपि संयतोऽपि तपःस्थोऽपि जिनोदितमनन्तार्थनिर्भरं विश्वं स्वैनात्मना ज्ञेयत्वेन निष्पीतत्वादात्मप्रधानमश्रद्धानः श्रमणाभासो भवति ॥ २६४ ॥

अथ श्रामण्येन सममननुमन्यमानस्य विनाशं दर्शयति—

अपवदति सामणत्थं समणं दिट्ठा पदोसदो जो हि ।

किरियासु णाणुमरणदि हवदि हि सो णट्ठचारित्तो ॥ २६५ ॥

अपवदति श्रामनस्थं श्रमणं दृष्ट्वा प्रद्वेषतो यो हि ।

क्रियासु नानुमन्यते भवति हि स नष्टचारित्रः ॥ २६५ ॥

श्रमणं शासनस्थमपि प्रद्वेषादपवदतः क्रियास्वननुमन्यमानस्य च प्रद्वेषकषायितत्वाच्चारित्रं नश्यति ॥ २६५ ॥

आत्मप्रधान [अर्थान्] पदार्थोका [न श्रद्धते] श्रद्धान नहीं करता तो वह [श्रमणः न भवति] श्रमण नहीं है,—[इति मतः] ऐसा (आगममें) कहा है ।

टीकाः—आगमका ज्ञाता होनेपर भी, संयत होनेपर भी, तपमें स्थित होनेपर भी, जिनोक्त अनन्त पदार्थोंसे भरे हुये विश्वको—जो कि (विश्व) अपने आत्मासे ज्ञेयरूपसे पिया जाता होनेके कारण 'आत्मप्रधान है उसका—जो जीव श्रद्धान नहीं करता वह श्रमणाभास है ॥ २६४ ॥

अब, जो श्रामण्यसे समान है उनका अनुमोदन (आदर) न करनेवालेका विनाश बतलाते हैंः—

गाथा २६५

अन्वयार्थः—[यः हि] जो [श्रामनस्थं श्रमणं] श्रामनस्थ (जिनदेवके शासनमें स्थित) श्रमणको [दृष्ट्वा] देखकर [प्रद्वेषतः] द्वेषसे [अपवदति] उसका अपवाद करता है, और [क्रियासु न अनुमन्यते] (मत्कारादि) क्रियाओंके करनेमें अनुमत (प्रसन्न) नहीं है [सः नष्टचारित्रः हि भवति] उसका चारित्र नष्ट होजाता है ।

टीकाः—जो श्रमण द्वेषके कारण शासनस्थ श्रमणका भी अपवाद करता है और (उसके प्रति मत्कारादि) क्रियायें करनेमें अनुमत नहीं है, वह श्रमण द्वेषसे 'कषायित होनेसे उसका चारित्र नष्ट हो जाता है ॥ २६५ ॥

१. आत्मप्रधान = जिसमें आत्मा प्रधान है ऐसा; [आत्मा समस्त विश्वको जानता है इसलिये वह विश्वमें-विश्वके समस्त पदार्थोंमें-प्रधान है ।]

२. कषायित = क्रोधमानादिक कषायवाले; रंगित; विकारी ।

अथ श्रामण्येनाधिकं हीनमिवाचरतो विनाशं दर्शयति—

गुणदोधिगस्स विणयं पडिच्छगो जो वि होमि समणो त्ति ।
होज्जं गुणाधरो जदि सो होदि अणंतसंसारी ॥ २६६ ॥

गुणतोऽधिकस्य विनयं प्रत्येषको योऽपि भवामि श्रमण इति ।

भवन् गुणाधरो यदि म भवत्यनन्तसंसारी ॥ २६६ ॥

स्वयं जघन्यगुणः सन् श्रमणोऽहमपीत्यवलेपात्परेषां गुणाधिकानां विनयं प्रतीच्छन् श्रामण्यावलेपवशात् कदाचिदनन्तसंसार्यपि भवति ॥ २६६ ॥

अथ श्रामण्येनाधिकस्य हीनं सममिवाचरतो विनाशं दर्शयति—

अधिगगुणा सामणणे वट्टंति गुणाधरोहिं किरियासु ।
जदि ते मिच्छुवजुत्ता हवंति पब्भट्टचारित्ता ॥ २६७ ॥

अब, जो श्रामण्यमें अधिक हो उसके प्रति जैसे कि वह श्रामण्यमें हीन (अपनेसे मुनिपनेमें नीचा) हो ऐसा आचरण-करनेवालेका विनाश बतलाते हैं:—

गाथा २६६

अन्वयार्थः—[यः] जो श्रमण [यदि गुणाधरः भवन्] गुणोंमें हीन होनेपर भी [अपि श्रमणः भवामि] 'मैं भी श्रमण हूँ' [इति] ऐसा मानकर अर्थात् गर्व करके [गुणतः अधिकस्य] गुणोंमें अधिक (ऐसे श्रमण) के पाससे [विनयं प्रत्येषकः] विनय (करवाना) चाहता है [सः] वह [अनन्तसंसारी भवति] अनन्तसंसारी होता है ।

टीका:—जो श्रमण स्वयं जघन्यगुणोंवाला होनेपर भी 'मैं भी श्रमण हूँ' ऐसे गर्वके कारण दूसरे अधिक गुणवालों (श्रमणों) से विनयकी इच्छा करता है, वह श्रामण्यके गर्वके वशसे कदाचित् अनन्त संसारी भी होता है ॥ २६६ ॥

अब, जो श्रमण श्रामण्यसे अधिक हो वह जो अपनेसे हीन श्रमणके प्रति समान जैसा (अपने बराबरी वाले जैसा) आचरण करे तो उसका विनाश बतलाते हैं:—

अधिकगुणाः श्रामण्ये वर्तन्ते गुणाधरैः क्रियासु ।

यदि ते मिथ्योपयुक्ता भवन्ति प्रभ्रष्टचारित्राः ॥ २६७ ॥

स्वयमधिकगुणा गुणाधरैः परैः सह क्रियासु वर्तमाना मोहादसम्यगुपयुक्तत्वाचारित्राद्-
भ्रश्यन्ति ॥ २६७ ॥

अथासत्संगं प्रतिषेध्यत्वेन दर्शयति—

णिच्छिदसुत्तत्थपदो समिदकमात्रो तत्रोधिगो चावि ।

लोगिगजणसंसर्गं ए चयदि जदि संजदो ण हवदि ॥ २६८ ॥

निश्चितसूत्रार्थपदः समितकषायस्तपोऽधिकश्चापि ।

लौकिकजनसंसर्गं न त्यजति यदि संयतो न भवति ॥ २६८ ॥

गाथा २६७

अन्वयार्थः—[यदि श्रामण्ये अधिकगुणाः] जो श्रामण्यमें अधिक गुणवाले हैं, तथापि [गुणाधरैः] हीनगुणवालोंके प्रति [क्रियासु] (वंदनादि) क्रियाओंमें [वर्तन्ते] वर्तते हैं, [ते] वे [मिथ्योपयुक्ताः] मिथ्या उपयुक्त होते हुये [प्रभ्रष्टचारित्राः भवन्ति] चारित्रसे भ्रष्ट होते हैं ।

टीकाः—जो स्वयं अधिक गुणवाले होनेपर भी अन्य हीनगुणवालों (श्रमणों) के प्रति (वंदनादि) क्रियाओंमें वर्तते हैं वे मोहके कारण असम्यक् उपयुक्त होते हुये (मिथ्याभावोंमें युक्त होते हुये) चारित्रसे भ्रष्ट होते हैं ॥ २६७ ॥

अब यह बतलाते हैं कि असत्संग निषेध्य हैः—

गाथा २६८

अन्वयार्थः—[निश्चितसूत्रार्थपदः] जिसने सूत्रों और अर्थोंके पदको—
अधिष्ठानको (अर्थात् जातृत्वको) निश्चित किया है, [समितकषायः] जिसने
कषायोंका शमन किया है, [च] और [तपोऽधिकः अपि] जो अधिक तपवान् है
ऐसा जीव भी [यदि] यदि [लौकिकजनसंसर्गं] लौकिकजनोंके संसर्गको [न त्यजति]
नहीं छोड़ता, [संयतः न भवति] तो वह संयत नहीं है ।

यतः सकलस्यापि विश्ववाचकस्य सल्लक्ष्मणः शब्दब्रह्मणस्तद्वाच्यस्य सकलस्यापि सल्लक्ष्मणोविश्वस्य च युगपदनुस्यूततदुभयज्ञेयाकारतयाधिष्ठानभूतस्य सल्लक्ष्मणो ज्ञातृत्वस्य निश्चयनाभिश्चितस्यार्थपदत्वेन निरूपरागोपयोगत्वात् समितकषायत्वेन बहुशोऽभ्यस्तनिष्कम्पोपयोगत्वात्तपोऽधिकत्वेन च सुष्ठु संयतोऽपि सप्तार्चिःसंगतं तोयमिवावश्यमाविविकारत्वात् लौकिकसंगादसंयत एव स्यात्तत्संगः सर्वथा प्रतिषेध्य एव ॥ २६८ ॥

अथ लौकिकलक्षणमुपलक्षयति—

टीकाः—(१) विश्वके वाचक, 'सत्' लक्षणवान् सम्पूर्ण ही शब्दब्रह्म और उस शब्दब्रह्मके वाच्य 'सत्' लक्षणवाले सम्पूर्ण ही विश्व उन दोनोंके ज्ञेयाकार अपनेमें युगपत् गुथित हो जानेसे (-ज्ञातृत्वमें एक ही साथ ज्ञात होनेसे) उन दोनोंका 'अधिष्ठानभूत 'सत्' लक्षणवाले ज्ञातृत्वका निश्चय किया होनेसे जिसने सूत्रों और अर्थोंके पदको (-अधिष्ठानको) निश्चित किया है ऐसा' हो (२) निरूपराग उपयोगके कारण (ज्ञातृत्व) 'जिसने कषायोंको शमित किया है ऐसा' हो, और (३) निष्कम्प उपयोगका 'बहुशः अभ्यास करनेसे (ज्ञातृत्व) 'अधिक तपवाला' हो,— इसप्रकार (इन तीन कारणोंसे) जो जीव भलीभाँति संयत हो, वह भी लौकिक (जनोके) संगसे असंयत ही होता है, क्योंकि अग्निकी संगतिमें रहे हुवे पानीकी भाँति उसे विकार अवश्यभावी है । इसलिये लौकिक संग सर्वथा निषेध्य ही है ।

भावार्थः—जो जीव संयत हो, अर्थात् (१) जिसने शब्दब्रह्मको और उसके वाच्यरूप समस्त पदार्थोंको जाननेवाले ज्ञातृत्वका निर्णय किया हो, (२) जिसने कषायोंको शमित किया हो (३) और जो अधिक तपवान् हो, वह जीव भी लौकिकजनके संगसे असंयत ही हो जाता है; क्योंकि जैसे अग्निके संगसे पानीमें उष्णतारूप विकार अवश्य ही जाता है, उसीप्रकार लौकिकजनके संसर्गको न छोड़नेवाले संयतके असंयतरूप विकार अवश्य ही जाता है । इसलिये लौकिकजनोंका संग सर्वप्रकारसे त्याज्य ही है ॥ २६८ ॥

अथ, 'लौकिक' (जन) का लक्षण कहते हैंः—

१. ज्ञातृत्वका स्वभाव शब्दब्रह्मको और उसके वाच्यरूप विश्वको युगपद् जाननेका है इसलिये उस अपेक्षा ज्ञातृत्वको शब्दब्रह्मका तथा विश्वका अधिष्ठान-आधार कहा गया है । संबत जीवको ऐसे ज्ञातृत्वका निश्चय होता है ।

२. बहुशः = (१) बहुत; खूब (२) बारंबार,

णिग्गंथं पव्वइदो वट्टदि जदि एहिगेहि कम्मोहिं ।

सो लोगिगो त्ति भणिदो संजमतवसंपजुत्तोवि ॥ २६६ ॥

नैर्ग्रन्थ्यं प्रव्रजितो वर्तते ऐहिकैः कर्मभिः ।

म लौकिक इति भणितः संयमतपःसंप्रयुक्तोपि ॥ २६९ ॥

प्रतिज्ञातपरमनैर्ग्रन्थ्यप्रव्रज्यत्वादुद्धसंयमतपोभारोऽपि मोहबहुलतया श्लथीकृतशुद्धचेतन-
व्यवहारो गृहूर्मनुष्यव्यवहारेण व्याधूर्णमानत्वादैहिककर्मानिष्ठौ लौकिक इत्युच्यते ॥ २६६ ॥

अब सत्संगं विधेयत्वेन दर्शयति—

तम्हा समं गुणादो समणो समणं गुणेहिं वा अहियं ।

अधिवसतु तस्मि णिच्चं इच्छदि जदि दुक्खपरिमोक्षम् ॥ २७० ॥

तस्मात्समं गुणान् श्रमणः श्रमणं गुणवाधिरुम् ॥

अधिवसतु तत्र निन्यं इच्छति यदि दुःखपरिमोक्षम् ॥ २७० ॥

गाथा - ६९.

अन्वयार्थः—[नैर्ग्रन्थ्यं प्रव्रजितः] जो (जीव) निर्ग्रन्थरूपसे दीक्षित होनेके कारण [संयमतपःसंप्रयुक्तः अपि] संयमतपसंयुक्त हो उसे भी, [यदि सः] यदि वह [ऐहिकैः कर्मभिः वर्तते] ऐहिक कार्यों सहित वर्तता हो तो, [लौकिकः इति भणितः] 'लौकिक' कहा गया है ।

टीकाः—परमनिर्ग्रन्थतारूप प्रवृज्याकी प्रतिज्ञा ली होनेसे जो जीव संयमतपके भारको वहन करता हो उसे भी, यदि उस मोहकी बहुलताके कारण शुद्धचेतन व्यवहारको छोड़कर निरंतर मनुष्यव्यवहारके द्वारा चक्कर खानेसे 'ऐहिक कर्मोंसे अनिवृत्त हो तो, 'लौकिक' कहा जाता है ॥ २६६ ॥

अब, सत्संग विधेय (—करने योग्य) है, यह बतलाते हैंः—

गाथा २७०

अन्वयार्थः—[तस्मात्] (लौकिकजनके संगसे संयत भी असंयत होता है) इसलिये [यदि] यदि [श्रमणः] श्रमण [दुःखपरिमोक्षम् इच्छति] दुःखसे परिमुक्त

१. ऐहिक = लौकिक (ख्यातिपूजालाभके निमित्तभूत ज्योतिष, मंत्र, वाद, वैद्यक इत्यादि कार्य ऐहिक कार्य हैं ।)

यतः परिणामस्वभावत्वेनात्मनः सप्तार्चिःसंगतं तोयमिवावश्यंभाविबिकारत्वान्नालौकि-
कसंगात्संयतोऽप्यसंयत एव स्यात् । ततो दुःखमोभार्थिना गुणैः समोऽधिको वा श्रमणः श्रमणेन
नित्यमेवाधिवसनीयः तथास्य शीतापवरककोणनिहितशीततोयवत्समगुणसंगाद्गुणरक्षा शीततर-
तुहिनशर्करासंपृक्तशीततोयवत् गुणाधिकसंगात् गुणवृद्धिः ॥ २७० ॥

इत्यध्यास्य शुभोपयोगजनितां कांचित्प्रवृत्तिं यतिः

सम्यक् संयमसौष्ठवेन परमां क्रामन्निवृत्तिं क्रमात् ।

हेलाक्रान्तसमस्तवस्तुविसरप्रस्ताररम्योदयां

ज्ञानानन्दमयीं दशमनुभवत्वेकान्ततः शाश्वतीम् ॥ १७ ॥ ॥

—इति शुभोपयोगप्रज्ञापनम् ।

होना चाहता हो तो वह [गुणात्समं] समान गुणोंवाले श्रमणके [वा] अथवा
[गुणैः अधिकं श्रमणं तत्र] अधिक गुणोंवाले श्रमणके संगमें [नित्यम्] सदा
[अधिवसतु] निवास करो ।

टीका:—क्योंकि आत्मा परिणामस्वभाववाला है इसलिये अग्निके संगमें रहे
हुवे पानीकी भाँति (संयतके भी) लौकिक संगसे विकार अवश्यभावी होनेसे संयत
भी असंयत ही हो जाता है । इसलिये दुःखोंसे मुक्ति चाहनेवाले श्रमणको (१)
समान गुणवाले श्रमणके साथ अथवा (२) अधिक गुणवाले श्रमणके साथ सदा ही
निवास करना चाहिये । इसप्रकार उस श्रमणके (१) शीतल घरके कोनेमें रखे
हुये शीतल पानीकी भाँति समान गुणवालेकी संगतिसे गुणरक्षा होती है, और (२)
अधिक शीतल हिम (बरफ)के संपर्कमें रहनेवाले शीतल पानीकी भाँति अधिक
गुणवालेके संगसे गुणवृद्धि होती है ॥ २७० ॥

[अब श्लोक द्वारा यह कहते हैं कि श्रमण क्रमशः परम निवृत्तिको प्राप्त
करके शाश्वत ज्ञानानन्दमयदशाका अनुभव करो:—]

[अर्थ:—] इसप्रकार शुभोपयोगजनित किंचित् प्रवृत्तिका सेवन करके
यति सम्यक् प्रकारसे संयमके सौष्ठव (श्रेष्ठता, सुन्दरता)से क्रमशः परम निवृत्तिको
प्राप्त होता हुआ; जिसका रम्य उदय समस्त वस्तुसमूहके विस्तारको लीलामात्रसे
प्राप्त हो जाता है (जान लेता है) ऐसी शाश्वती ज्ञानानन्दमयी दशाका एकान्ततः
(केवल-सर्वथा-अत्यन्त) अनुभव करो ।

* इसप्रकार शुभोपयोगप्रज्ञापन पूर्ण हुआ । *

अब पञ्चरत्नम् ।

शार्दूलविक्रीडित छन्द ।

तन्त्रस्यास्य सिखण्डमण्डनमिव प्रद्योतयत्सर्वतो-
द्वैतीयीकमथार्हतो भगवतः संक्षेपतः शासनम् ।
व्याकुर्वञ्जगतो विलक्षणपथां संसारमोक्षस्थितिं
जीयात्संप्रति पञ्चरत्नमनघं सूत्रैरिमैः पञ्चभिः ॥ १८ ॥

अब संसारतत्त्वमुद्घाटयति—

जे अजधागहिदत्था एदे तच्च त्ति णिच्छदा समये ।
अच्चंतफलसमिद्धं भ्रमन्ति ते तो परं कालं ॥ २७१ ॥
ये अयथागृहीतार्था एते तत्त्वमिति निश्चिताः समये ।
अत्यन्तफलसमृद्धं भ्रमन्ति ते अतः परं कालम् ॥ २७१ ॥

अब पंचरत्न हैं (पाँच रत्नों जैसी पाँच गाथायें कहते हैं)

[वहाँ पहले, उन पाँच गाथाओंकी महिमा श्लोक द्वारा कहते हैं:—]

अर्थ:—अब इस शास्त्रके कलंगीके अलङ्कार जैसे (—चूड़ामणि समान) यह पाँचसूत्ररूप निर्मल पंचरत्न—जो कि संक्षेपसे अर्हन्तभगवानके समग्र अद्वितीय शासनको सर्वतः प्रकाशित करते हैं वे—'विलक्षण पंथवाली संसार-मोक्षकी स्थितिको जगतके समक्ष प्रगट करते हुये जयवन्त वरतों ।

अब संसारतत्त्वको प्रगट करते हैं:—

माथा २७१

अन्वयार्थ:—[ये] जो [समये] भले ही समयमें हों (भले ही वे द्रव्यलिङ्गी-
के रूपमें जिनमतमें हों) तथापि वे [ऐते तत्त्वम्] 'यह तत्त्व है (वस्तुस्वरूप ऐसा ही है)' [इति निश्चिताः] इसप्रकार निश्चयवान् वर्तते हुये [अयथागृहीतार्थाः]
पदार्थोंको अयथार्थतया ग्रहण करते हैं (जैसे नहीं हैं वैसा समझते हैं) [ते] वे
[अत्यन्तफलसमृद्धम्] अत्यन्तफलसमृद्ध (अनन्त कर्मफलोंसे भरे हुये) ऐसे [अतः परं
कालं] अबसे आगामी कालमें [भ्रमन्ति] परिभ्रमण करेंगे ।

१. विलक्षण = भिन्न-भिन्न [संसार और मोक्षकी स्थिति भिन्न भिन्न पंथवाली है, अर्थात् संसार और मोक्षका मार्ग अलग-अलग है ।]

ये स्वयमविवेकतोऽन्यथैव प्रतिपद्यार्थानित्यमेव तत्त्वमिति निश्चयमारचयन्तः सततं समुप-
चीयमानमहामोहमलमलीमसमानसतया नित्यमज्ञानिनो भवन्ति ते खलु समये स्थिता अप्य-
नासादितपरमार्थश्रामण्यतया श्रमणाभासाः सन्तोऽनन्तकर्मफलोपभोगप्राग्भारभयंकरमनन्तकाल-
मनन्तभावान्तरपरावर्तैरनवस्थितवृत्तयः संसारतत्त्वमेवावबुध्यताम् ॥ २७१ ॥

अथ मोक्षतत्त्वमुद्घाटयति—

अजधाचारविपुक्तो जयत्थपदणिच्छिदो पसंतप्पा ।

अफले चिरं ए जीवदि इह सो संपुरणसामरणो ॥ २७२ ॥

अयथाचारविपुक्तो यथार्थपदनिश्चितः प्रशान्तात्मा ।

अफले चिरं न जीवति इह स संपूर्णश्रामण्यः ॥ २७२ ॥

टीकाः—जो स्वयं अविवेकसे पदार्थोंको अन्यथा ही अंगीकृत करके (अन्य प्रकारसे ही समझकर) 'ऐसा ही तत्व (वस्तु स्वरूप) है' ऐसा निश्चय करते हुये, सतत एकत्रित किये जानेवाले महा मोहमलसे मलिन मनवाले होनेसे नित्य अज्ञानी हैं, वे भले ही समयमें (द्रव्यलिंगी होते हुये जिनमार्गमें) स्थित हों तथापि परमार्थ श्रामण्यको प्राप्त न होनेसे वास्तवमें श्रमणाभास वर्तते हुये, अनन्त कर्मफलकी उपभोगराशिसे भयंकर ऐसे अनन्तकाल तक अनन्त भावान्तररूप परावर्तनोंसे अनवस्थित वृत्तिवाले रहनेसे, उनको संसारतत्व ही जानना ॥ २७१ ॥

अब मोक्ष तत्वको प्रगट करते हैंः—

गाथा २७२

अन्वयार्थः—[यथार्थपदनिश्चितः] जो यथार्थतया पदोंका तथा अर्थों (पदार्थों) का निश्चयवाला होनेसे [प्रशान्तात्मा] प्रशान्तात्मा है और [अयथाचार विपुक्तः] अयथाचार (-अन्यथाआचरण, अयथार्थआचरण) रहित है [सः संपूर्णश्रामण्यः] वह संपूर्ण श्रामण्यवाला जीव [अफले] अफल (—कर्मफल रहित हुए) [इह] इस

१. अनवस्थित = अस्थिर [मिथ्यादृष्टियोंने भले ही द्रव्यलिंग धारण किया हो, तथापि उनके अनन्तकाल तक अनन्त भिन्न भिन्न भावरूपसे भावान्तररूपसे परावर्तन होते रहनेसे वे अस्थिर परिणतिवाले रहेंगे, और इसलिये वे संसारतत्व ही हैं ।

२. प्रशांतात्मा = प्रशांतस्वरूप; प्रशांतमूर्ति; उपशांत; स्थिर हुआ ।

यत्रिलोकचूलिकायमाननिर्मलविवेकदीपिकालोकशालितया यथावस्थितपदार्थनिश्चय-
निवर्तितौत्सुक्यस्वरूपमन्थरसततोपशान्तात्मा सन् स्वरूपमेकमेवाभिमुख्येन चरन्प्रयथाचारवि-
युक्तो नित्यं ज्ञानी स्यात् स खलु संपूर्णश्रामण्यः साक्षात् भ्रमणो हेलावकीर्णसकलप्राक्तनकर्म-
फलत्वादिनिष्पादितनूतनकर्मफलत्वाच्च पुनः प्राणधारणरूपन्यमनास्कन्दन् द्वितीयभावपरावर्तनाभावात्
शुद्धस्वभाववस्थितवृत्तिर्मोक्षतत्त्वमवबुध्यताम् ॥ २७२ ॥

अथ मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वमुद्घाटयति—

सम्भं विदिदपदत्था चत्ता उवहिं वहित्थमज्भत्थं ।
विमयेसु णावसत्ता जे ते सुद्धा त्ति णिदिट्ठा ॥ २७३ ॥

संसारमें [चिरं न जीवति] चिरकाल तक नहीं रहता (-अल्पकालमें ही मुक्त
होता है ।)

टीका:—जो (भ्रमण) त्रिलोककी चूलिकाके समान निर्मल विवेकरूपी
दीपिकाके प्रकाशवाला होनेसे यथास्थित पदार्थनिश्चयसे उत्सुकताको दूर करके
'स्वरूपमन्थर रहनेसे सतत 'उपशांतात्मा' वर्तता हुआ, स्वरूपमें एकमें ही अभिमुखतया
विचरित (क्रीड़ा करता) होनेसे 'अप्रयथाचार रहित' वर्तता हुआ नित्यज्ञानी हो,
वास्तवमें उस सम्पूर्ण श्रामण्यवाले साक्षात् भ्रमणको मोक्षतत्त्व जानना, क्योंकि पहलेके
सकल कर्मोंके फल उसने लीलामात्रसे नष्ट कर दिये हैं इसलिये और वह नूतन
कर्मफलोंको उत्पन्न नहीं करता इसलिये पुनः प्राण धारणरूप दीनताको प्राप्त न होता
हुआ द्वितीय भावरूप परावर्तनके अभावके कारण शुद्धस्वभावमें अवस्थित वृत्तिवाला
रहता है ॥ २७२ ॥

अब मोक्षतत्त्वका साधनतत्त्व प्रगट करते हैं:—

१. स्वरूपमन्थर = स्वरूपमें जमा हुआ [मन्थरका अर्थ है सुस्त आलसी । यह भ्रमण स्वरूपमें लृप्त २
होनेसे मानो स्वरूपसे बाहर निकलनेको सुस्त या आलसी हो, इस प्रकार स्वरूप प्रशांतिमें
मग्न होकर रहा है ।
२. अवस्थित = स्थिर, [इस संपूर्ण श्रामण्यवाले जीवको अन्यभावरूप परावर्तन (पलटन) नहीं
होता, वह सदा एक ही भावरूप रहता है—शुद्धस्वभावमें स्थिर परिणतिरूपसे (इत) है;
इसलिये वह जीव मोक्षतत्त्व ही है ।]

सम्यग्विदितपदार्थाभ्यन्वोपधिं बहिस्थमध्यस्थम् ।

विषयेषु नावमक्ता ये ते शुद्धा इति निर्दिष्टाः ॥ २७३ ॥

अनेकान्तकलितसकलज्ञातृ ज्ञेयतत्त्वयथावस्थितस्वरूपपाण्डित्यशौण्डाः सन्तः समस्तबहिरङ्गान्तरङ्गसङ्गतिपरित्यागविविक्तान्तश्चकचकायमानानन्तशक्तिचैतन्यभास्वरात्मतत्त्वस्वरूपाः स्वरूपगुप्तसुषुप्तकल्पान्तस्तत्त्ववृत्तितया विषयेषु मनागप्यासक्तिमनासादयन्तः समस्तानुभावन्तो भगवन्तः शुद्धा एवासंसारघटितविकटकर्मकवाटविघटनपटीयसाध्यवसायेन प्रकटीक्रियमाणावदाना मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वमवबुध्यताम् ॥ २७३ ॥

अथ मोक्षतत्त्वसाधनतत्त्वं सर्वमनोरथस्थानत्वेनाभिनन्दयति—

शुद्धस्म य मामगणं भणियं शुद्धस्म दंमणं णाणं ।

शुद्धस्म य णिव्वाणं सो त्विय मिद्धो णमां तस्स ॥ २७४ ॥

गाथा २७३

अन्वयार्थः—[सम्यग्विदित पदार्थाः] सम्यक् (यथार्थतया) पदार्थोको जानते हुये [ये] जो [बहिस्थमध्यस्थम्] बहिरंग तथा अंतरंग [उपधिं] परिग्रहको [त्यक्त्वा] छोड़कर [विषयेषु न अवसक्ताः] विषयोंमें आसक्त नहीं हैं, [ते] वे [शुद्धाः इति निर्दिष्टाः] 'शुद्ध' कहे गये हैं ।

टीकाः—अनेकान्तके द्वारा ज्ञात सकल ज्ञातृतत्त्व और ज्ञेयतत्त्वके यथास्थित स्वरूपमें जो प्रवीण हैं, अन्तरंगमें चकचकित होते हुये अनन्तशक्तिवाले चैतन्यसे भास्वर (तेजस्वी) आत्मतत्त्वके स्वरूपको जिनने समस्त बहिरंग तथा अन्तरंग संगतिके परित्यागसे विविक्त (भिन्न) किया है, और (इसलिये) अन्तःतत्त्वकी वृत्ति (आत्माकी परिणति) स्वरूपगुप्त तथा सुषुप्त (जैसे कि सो गया हो) समान (प्रशांत) रहनेसे जो विषयोंमें किंचित् भी आसक्तिको प्राप्त नहीं होते,—ऐसे जो सकल-महिमावान् भगवन्त 'शुद्ध' (शुद्धोपयोगी) हैं उन्हें ही मोक्षतत्त्वका साधन तत्त्व जानना । (अर्थात् वे शुद्धोपयोगी ही मोक्षमार्गरूप हैं), क्योंकि वे अनादि संसारसे रचित—बद्ध विकट कर्मकपाटको तोड़ने-खोलनेके अति उग्र प्रयत्नसे पराक्रम प्रगट कर रहे हैं ॥२७३॥

अब मोक्षतत्त्वके साधनतत्त्वको (अर्थात् शुद्धोपयोगीको) सर्व मनोरथोंके स्थानके रूपमें अभिनन्दन (प्रशंसा) करते हैंः—

शुद्धस्य च श्रामण्यं भणितं शुद्धस्य दर्शनं ज्ञानम् ।

शुद्धस्य च निर्वाणं स एव सिद्धो नमस्तस्मै ॥ २७४ ॥

यथावत्सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्ययौगपद्यप्रवृत्तैकाग्र्यलक्षणं साक्षान्मोक्षमार्गभूतं श्रामण्यं तच्च शुद्धस्यैव । यच्च समस्तभूतभवद्भाविव्यतिरेककरम्बितानन्तवस्वन्वयात्मकविश्वसामान्यविशेष-प्रत्यक्षप्रतिभासात्मकं दर्शनं ज्ञानं च तत् शुद्धस्यैव । यच्च निःप्रतिघविजृम्भितसहजज्ञानानन्दमुद्रित-दिव्यस्वभावं निर्वाणं तत् शुद्धस्यैव । यच्च टङ्कोत्कीर्णपरमानन्दावस्थासुस्थितात्मस्वभावोपलम्भ-गम्भीरो भगवान् सिद्धः स शुद्ध एव । अलं वाग्विस्तरेण, सर्वमनोरथस्थानस्य मोक्षतत्त्वसाधन-तत्त्वस्य शुद्धस्य परस्परमङ्गाङ्गिभावपरिणतभाव्यभावकभावत्वात्प्रत्यस्तमितस्वपरविभागो भाव-नमस्कारोऽस्तु ॥ २७४ ॥

गाथा २७४

अन्वयार्थः—[शुद्धस्य च] शुद्ध (शुद्धोपयोगी)को [श्रामण्यं भणितं] श्रामण्य कहा है, [शुद्धस्य च] और शुद्धको [दर्शनं ज्ञानं] दर्शन तथा ज्ञान कहा है, [शुद्धस्य च] शुद्धके [निर्वाणं] [निर्वाण होता है, [सः एव] वही (शुद्ध ही) [सिद्धः] सिद्ध होता है; [तस्मै नमः] उन्हें नमस्कार हो ।

टीकाः—प्रथम तो, सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यकी युगपदत्वरूपसे प्रवर्तमान एकाग्रता जिसका लक्षण है ऐसा साक्षात् मोक्षमार्गभूत श्रामण्य 'शुद्ध'के ही होता है; समस्त भूत-वर्तमान-भावी व्यतिरेकोंके साथ मिलित (मिश्रित), अनन्तवस्तुओंका अन्वयात्मक जो विश्व उसके (१) सामान्य और (२) विशेषके प्रत्यक्ष प्रतिभास-स्वरूप (१) दर्शन और (२) ज्ञान 'शुद्ध'के ही होते हैं,—निर्विघ्न खिले हुये सहज ज्ञानानन्दकी मुद्रावाला (स्वाभाविक ज्ञान और आनन्दकी छापवाला) दिव्य जिसका स्वभाव है ऐसा निर्वाण, 'शुद्ध'के ही होता है; और टङ्कोत्कीर्ण परमानन्द-अवस्थारूपसे सुस्थित आत्मस्वभावकी उपलब्धिसे गंभीर भगवान् सिद्ध, 'शुद्ध' ही होते हैं (अर्थात् शुद्धोपयोगी ही सिद्ध होते हैं), वचन विस्तारसे बस हो ? सर्व मनोरथोंके स्थानभूत, मोक्षतत्त्वके साधनतत्वरूप, 'शुद्ध'को, जिसमेंसे परस्पर अंग-अंगीरूपसे परिणमित भावक-भाव्यताके कारण स्व-परका विभाग अस्त हुआ है ऐसा भाव-नमस्कार हो ॥ २७४ ॥

१. भावक (भावनमस्कार करनेवाला) अग (अश) है और भाव्य (भावनमस्कार करने योग्य पदार्थ) अंगी (अंशी) है, इसलिये इस भावनमस्कारमें भावक तथा भाव्य स्वयं ही है । ऐसा नहीं है कि भावक स्वयं हो और भाव्य पर हो ।)

अथ शिष्यजनं शास्त्रफलेन याजयन् शास्त्रं समापयति—

बुद्धिर्भादि सासणमेयं सागारणगारचरियया जुत्तो ।
जो सो पवयणसारं लघुणा कालेण पप्पोदि ॥ २७५ ॥

बुध्यते शासनमेतत् साकारानाकारचर्यया युक्तः ।

यः स प्रवचनसारं लघुना कालेन प्राप्नोति ॥ २७५ ॥

यो हि नाम सुविशुद्धज्ञानदर्शनमात्रस्वरूपव्यवस्थितवृत्तिसमाहितत्वात् साकारानाकार-
चर्यया युक्तः सन् शिष्यवर्गः स्वयं समस्तशास्त्रार्थविस्तरसंक्षेपात्मकश्रुतज्ञानोपयोगपूर्वकानुभावेन
केवलमात्मानमनुभवन् शासनमेतद्बुध्यते स खलु निरवधित्रिसमयप्रवाहावस्थायित्वेन सकलाथ-

अब (भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यदेव) शिष्यजनको शास्त्रके फलके साथ जोड़ते
हृये शास्त्र समाप्त करते हैं:—

गाथा २७५

अन्वयार्थः—[यः] जो [साकारानाकारचर्यया युक्तः] साकार-अनाकार
चर्ययि युक्त वर्तता हुआ [एतत् शासनं] इस उपदेशको [बुध्यते] जानता है, [सः]
वह [लघुना कालेन] अल्पकालमें ही [प्रवचनसारं] प्रवचनके सारको (भगवान्
आत्माको) [प्राप्नोति] पाता है ।

टीका:—^१सुविशुद्धज्ञानदर्शन मात्र स्वरूपमें अवस्थित परिणतिमें लगा होनेसे
साकार-अनाकार चर्ययि युक्त वर्तता हुआ जो शिष्यवर्ग स्वयं समस्त शास्त्रोंके
अर्थोंके ^२विस्तारसंक्षेपात्मक श्रुतज्ञानोपयोगपूर्वक प्रभाव द्वारा केवल आत्माको
अनुभवता हुआ, इस उपदेशको जानता है वह वास्तवमें, ^३भूतार्थस्वसंवेद्य-दिव्य
ज्ञानानन्द जिसका स्वभाव है ऐसे, पहले कभी अनुभव नहीं किये गये, भगवान्

१. आत्माका स्वरूप मात्र सुविशुद्ध ज्ञान और दर्शन है । [इसमें ज्ञान साकार है और दर्शन
अनाकार है ।]

२. विस्तारसंक्षेपात्मक = विस्तारात्मक या संक्षेपात्मक ।

३. भूतार्थ पारमार्थिक- (सत्यार्थ), स्वसंवेद्य और दिव्य जो ज्ञान और आनन्द वह भगवान्
आत्माका स्वभाव है ।

सार्थात्मिकस्य प्रवचनस्य सारभूतं भूतार्थस्वसंबेद्यदिव्यज्ञानानन्दस्वभावमननुभूतपूर्वं भगवन्त-
मात्मानमवाप्नोति ॥ २७५ ॥

इति तत्त्वदीपिकायां श्रीमद्भृतचन्द्रहरिविरचितायां प्रवचनसारवृत्तौ चरणानुयोग सूचिका
चूलिका नाम तृतीयः श्रुतस्कन्धः समाप्तः ॥

*

*

*

ननु कोऽयमात्मा कथं चावाप्यतइति चेत्, अभिहितमेतत् पुनरप्यभिधीयते । आत्मा हि
तावच्चैतन्न्यसामान्यव्याप्तानन्तधर्माधिष्ठात्रेकं द्रव्यमनन्तधर्मव्यापकानन्तनयव्याप्येकभ्रुतज्ञानलक्ष-
णप्रमाणपूर्वकस्वानुभवप्रमीयमाणत्वात् । तच्च द्रव्यनयेन पटमात्रचिन्मात्रम् ? । पर्यायनयेन
तन्तुमात्रवद्दर्शनज्ञानादिमात्रम् २ । अस्तित्वनयेनायोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसंहितावस्थ-

आत्माको पाता है—जो कि (जो आत्मा) तीनों कालके निरवधि प्रवाहमें स्थायी
होनेसे 'सकल पदार्थोंके समूहात्मकप्रवचनका सारभूत है ॥ २७५ ॥

इसप्रकार (श्रीमद् भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत) श्री प्रवचनसारशास्त्रकी
श्रीमद्भ्रमृतचन्द्राचार्यदेव विरचित तत्त्वदीपिका नामक टीकामें चरणानुयोगसूचक
चूलिका नामका तृतीय श्रुतस्कन्ध समाप्त हुआ ।

×

×

×

[अब टीकाकार श्री भ्रमृतचन्द्राचार्यदेव परिशिष्टरूपसे कुछ कहते हैं:—]

'यह आत्मा कौन है (कंसा है) और कैसे प्राप्त किया जाता है' ऐसा
प्रश्न किया जाय तो इसका उत्तर (पहले ही) कहा जा चुका है, और (यहाँ) फिर
भी कहते हैं:—

पहले तो आत्मा वास्तवमें चैतन्यसामान्यसे व्याप्त अनन्त धर्मोंका अधिष्ठाता
(स्वामी) एक द्रव्य है, क्योंकि अनन्त धर्मोंमें व्याप्त होनेवाले जो अनन्त नय हैं
उनमें व्याप्त होनेवाला जो एक श्रुतज्ञानस्वरूप प्रमाण है, उस प्रमाणपूर्वक स्वानुभवसे
(वह आत्मद्रव्य) प्रमेय होता है (जात होता है) ।

वह आत्मद्रव्य द्रव्यनयसे, पटमात्रकी भाँति, चिन्मात्र है, (अर्थात् आत्मा
द्रव्यनयसे चैतन्यमात्र है, जैसे वस्त्र वस्त्रमात्र है ।) ?

१. प्रवचन सकल पदार्थोंके समूहका प्रतिपादन करता है, इसलिये उसे सकल पदार्थोंका समूहात्मक
कहा है । [निज शुद्धात्मा प्रवचनका सारभूत है, क्योंकि प्रवचन जो सर्वपदार्थसमूहका प्रतिपादन
करता है उसमें एक निजात्मपदार्थ ही स्वयंको ध्रुव है, दूसरा कोई पदार्थ स्वयंको ध्रुव नहीं,]

लक्ष्योन्मुखविशिखवत् स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैरस्तित्ववत् ३ । नास्तित्वनयेनानयोमयागुणकार्मु-
कान्तरालवर्त्यसंहितावस्थालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत् परद्रव्यक्षेत्रकालभावैर्नास्तित्ववत् ४ ।
अस्तित्वनास्तित्वनयेनायोमयानयोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्त्यगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसंहितावस्था-
संहितावस्थालक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत् क्रमतः स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावैरस्तित्वनास्ति-
त्ववत् ५ । अवक्तव्यनयेनायोमयानयोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्त्यगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसंहिताव-

आत्मद्रव्य पर्यायिनयसे, तंतुमात्रकी भाँति, दर्शनज्ञानादिमात्र है, (अर्थात्
आत्मा पर्यायिनयसे दर्शनज्ञानचारित्रादिमात्र है, जैसे वस्त्र तंतुमात्र है ।) २.

आत्मद्रव्य अस्तित्वनयसे स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे अस्तित्ववाला है;—
लोहमय, प्रत्यंचा (डोरी) और धनुषके मध्य में निहित, संधानदशामें रहे हुवे और
लक्ष्योन्मुख बाणकी भाँति । (जैसे कोई बाण स्वद्रव्यसे लोहमय है, स्वक्षेत्रसे प्रत्यन्चा
और धनुषके मध्यमें निहित है, स्वकालसे संधान-दशामें है, अर्थात् धनुष पर चढ़ाकर
खेंची हुई दशामें है, और स्वभावसे लक्ष्योन्मुख है अर्थात् निशान की ओर है,
उसीप्रकार आत्मा अस्तित्वनयसे स्वचतुष्टयसे अस्तित्ववाला है ।) ३.

आत्मद्रव्य नास्तित्वनयसे परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे नास्तित्ववाला है;—
अलोहमय, प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमें अनिहित, संधानदशामें न रहे हुवे और
अलक्ष्योन्मुख पहलेके बाणकी भाँति । (जैसे पहलेका बाण अन्य बाणके द्रव्यकी
अपेक्षासे अलोहमय है, अन्य बाणके क्षेत्रकी अपेक्षासे प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमें
निहित नहीं है, अन्य बाणके कालकी अपेक्षासे संधानदशामें नहीं रहा हुआ और
अन्य बाणके भावकी अपेक्षासे अलक्ष्योन्मुख है उसीप्रकार आत्मा नास्तित्वनयसे
परचतुष्टयसे नास्तित्ववाला है ।) ४.

आत्मद्रव्य अस्तित्वनास्तित्वनयसे क्रमशः स्वपरद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे अस्तित्व-
नास्तित्ववाला है;—लोहमय तथा अलोहमय, प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमें निहित
तथा प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमें अनिहित, संधान अवस्थामें रहे हुवे तथा संधान
अवस्थामें न रहे हुवे और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख ऐसे पहलेके बाणकी भाँति ।
(जैसे पहलेका बाण क्रमशः स्वचतुष्टयकी तथा परचतुष्टयकी अपेक्षासे लोहमयादि
और अलोहमयादि है, उसीप्रकार आत्मा अस्तित्व-नास्तित्वनयसे क्रमशः स्वचतुष्टय
की और परचतुष्टयकी अपेक्षासे अस्तित्ववाला और नास्तित्ववाला है ।) ५.

स्थासंहितावस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत् युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावैरवक्तव्यम् ६ । अस्तित्वावक्तव्यनयेनायोमयगुणकार्मुकांतरालवर्तिसंहितावस्थलक्ष्योन्मुखायोमयानयोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्त्यगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसंहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत् स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैर्युगपत् स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावैश्चास्तित्ववदवक्तव्यम् ७ । नास्तित्वावक्तव्यनयेनानयोमयागुणकार्मुकान्तरालवर्त्यसंहितावस्थालक्ष्योन्मुखायोमयानयोमयगुणका-

आत्मद्रव्य अवक्तव्यनयसे युगपत् स्वपर द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे अवक्तव्य है;—लोहमय तथा अलोहमय, प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमें निहित तथा प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमें अनिहित, संधान अवस्थामें रहे हुए तथा संधान अवस्थामें न रहे हुवे और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख ऐसे पहलेके बाणकी भाँति । (जैसे पहलेका बाण युगपत् स्वचतुष्टयकी और परचतुष्टयकी अपेक्षासे युगपत् लोहमयादि तथा अलोहमयादि होनेसे अवक्तव्य है, उसीप्रकार आत्मा अवक्तव्यनयसे युगपत् स्वचतुष्टय और परचतुष्टयकी अपेक्षासे अवक्तव्य है ।) ६.

आत्मद्रव्य अस्तित्व-अवक्तव्य नयसे स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल भावसे तथा युगपत् स्वपर द्रव्य-क्षेत्र-काल भावसे अस्तित्ववाला-अवक्तव्य है;—(स्वचतुष्टयसे) लोहमय, प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमें निहित, संधान अवस्थामें रहे हुवे और लक्ष्योन्मुख-ऐसे तथा (युगपत् स्व-पर चतुष्टयसे) लोहमय तथा अलोहमय, प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमें निहित तथा प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमें अनिहित, संधान अवस्थामें रहे हुवे तथा संधान अवस्थामें न रहे हुवे और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख-ऐसे पहलेके बाणकी भाँति । [जैसे पहलेका बाण (१) स्वचतुष्टयसे तथा (२) एक ही साथ स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षासे (१) लोहमयादि तथा (२) अवक्तव्य है, उसीप्रकार आत्मा अस्तित्व-अवक्तव्यनयसे (१) स्वचतुष्टयकी तथा (२) (युगपत् स्वपर-चतुष्टयकी अपेक्षासे (१) अस्तित्ववाला तथा (२) अवक्तव्य है ।] ७.

आत्मद्रव्य नास्तित्व-अवक्तव्यनयसे पर द्रव्य-क्षेत्र-काल भावसे तथा युगपत् स्वपर द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे नास्तित्ववाला-अवक्तव्य है;—(परचतुष्टयसे) अलोहमय, प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमें अनिहित, संधान अवस्थामें न रहे हुवे और अलक्ष्योन्मुख-ऐसे-तथा (युगपत् स्वपरचतुष्टयसे) लोहमय तथा अलोहमय, प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमें निहित तथा प्रत्यन्चा और धनुषके मध्यमें अनिहित, संधान अवस्थामें रहे हुवे

सुंकांतरालवर्त्यगुणकार्मुकांतरालवर्तिसंहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनवि-
शिखवत् परद्रव्यक्षेत्रकालभावैर्युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावैश्च नास्तित्ववदवक्तव्यम् ८ । अस्तित्व-
नास्तित्वावक्तव्यनयेनायोमयगुणकार्मुकांतरालवर्तिसंहितावस्थलक्ष्योन्मुखानयोमयागुणकार्मुका-
न्तरालवर्त्यसंहितावस्थालक्ष्योन्मुखायोमयानयोमयगुणकार्मुकांतरालवर्त्यगुणकार्मुकांतरालवर्ति-
संहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्योन्मुखप्राक्तनविशिखवत् स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावैः
परद्रव्यक्षेत्रकालभावैर्युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावैश्चास्तित्वनास्तित्ववदवक्तव्यम् ९ । विरूप-

तथा संधान अवस्थामें न रहे हुवे और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख-ऐसे-पहलेके
बाणकी भाँति । [जैसे पहलेका बाण (१) परचतुष्टयकी तथा (२) एक ही साथ
स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षासे (१) अलोहमयादि तथा (२) अवक्तव्य है, उसीप्रकार
आत्मा नास्तित्व-अवक्तव्यनयसे (१) परचतुष्टयकी तथा (२) युगपत् स्वपरचतुष्टय-
की अपेक्षासे (१) नास्तित्ववाला तथा (२) अवक्तव्य है ।] ८.

आत्मद्रव्य अस्तित्व—नास्तित्व-अवक्तव्यनयसे स्वद्रव्यक्षेत्रकाल भावसे,
परद्रव्यक्षेत्रकालभावसे तथा युगपत् स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावसे अस्तित्ववाला—नास्तित्व-
वाला-अवक्तव्य है; — (स्वचतुष्टयसे) लोहमय, प्रत्यन्वा और धनुषके मध्यमें निहित,
संधान अवस्थामें रहे हुवे और लक्ष्योन्मुख-ऐसे,— (परचतुष्टयसे) अलोहमय-प्रत्यन्वा
और धनुषके मध्यमें अनिहित, संधान अवस्थामें न रहे हुवे और अलक्ष्योन्मुख-ऐसे-तथा
(युगपत् स्वपरचतुष्टयसे) लोहमय तथा अलोहमय, प्रत्यन्वा और धनुषके मध्यमें
निहित तथा प्रत्यन्वा और धनुषके मध्यमें अनिहित, संधान अवस्थामें रहे हुवे तथा
संधान अवस्थामें न रहे हुवे और लक्ष्योन्मुख और अलक्ष्योन्मुख-ऐसे-पहलेके बाणकी
भाँति । [जैसे पहलेका बाण (१) स्वचतुष्टयकी, (२) परचतुष्टयकी तथा (३)
युगपत् स्वपरचतुष्टयकी अपेक्षासे (१) लोहमय, (२) अलोहमय तथा (३)
अवक्तव्य है, उसीप्रकार आत्मा अस्तित्व-नास्तित्व-अवक्तव्यनयसे (१) स्वचतुष्टयकी,
(२) परचतुष्टयकी तथा (३) युगपत् स्व-परचतुष्टयकी अपेक्षासे (१) अस्तित्व-
वाला, (२) नास्तित्ववाला तथा (३) अवक्तव्य है ।] ९.

आत्मद्रव्य विकल्पनयसे, बालक, कुमार और वृद्ध ऐसे एक पुरुषकी भाँति,
सविकल्प है (अर्थात् आत्मा भेदनयसे, भेदसहित है, जैसे कि एक पुरुष बालक,
कुमार और वृद्धके भेदसे युक्त है) १० ।

नयेन शिशुकुमारस्यविरैकपुरुषवत्सविकल्पम् १० । अविकल्पनयेनैकपुरुषमात्रवदविकल्पम् ११ । नामनयेन तदात्मवत् शब्दब्रह्मात्मि १२ । स्थापनानयेन मूर्तित्ववत्सकलपुद्गलालम्बि १३ । द्रव्यनयेन माणवकश्रेष्ठिश्रमणपार्थिववदनागतातीतपर्यायोद्भासि १४ । भावनयेन पुरुषायितप्रवृत्तयोपिद्वचदात्वपर्यायोद्भासि १५ । सामान्यनयेन हारस्रग्दामस्रत्रवदद्यापि १६ । विशेषनयेन तदे-

आत्मद्रव्य अविकल्पनयसे, एक पुरुषमात्रकी भाँति, अविकल्प है (अर्थात् अभेदनयसे आत्मा अभेद है, जैसे कि एक पुरुष बालक, कुमार और वृद्धके भेदसे रहित एक पुरुषमात्र है ।) ११.

आत्मद्रव्य नाममयसे, नामवालेकी भाँति, शब्दब्रह्मको स्पर्श करनेवाला है (अर्थात् आत्मा नामनयसे शब्दब्रह्मसे कहा जाता है, जैसे कि नामवाला पदार्थ उसके नामरूप शब्दसे कहा जाता है ।) १२.

आत्मद्रव्य स्थापनानयसे, मूर्तित्वकी भाँति, सर्व पुद्गलोंका अवलम्बन करनेवाला है (अर्थात् स्थापनानयसे आत्मद्रव्यकी पौद्गलिक स्थापना की जासकती है, मूर्तिकी भाँति) १३.

आत्मद्रव्य द्रव्यनयसे बालक सेठकी भाँति और श्रमण राजाकी भाँति, अनागत और अतीत पर्यायसे प्रतिभासित होता है (अर्थात् आत्मा द्रव्यनयसेभावी और भूत पर्यायरूपसे ख्यालमें आता है, जैसे कि बालक सेठत्व स्वरूपभावी पर्यायरूपसे ख्यालमें आता है और मुनि राजास्वरूप भूतपर्यायरूपसे ख्यालमें आता है ।) १४.

आत्मद्रव्य भावनयसे, पुरुषके समान प्रवर्तमान स्त्रीकी भाँति, तत्काल (वर्तमान)की पर्यायरूपसे उल्लसित-प्रकाशित-प्रतिभासित होता है (अर्थात् आत्मा भावनयसे वर्तमान पर्यायरूपसे प्रकाशित होता है, जैसे कि पुरुषके समान प्रवर्तमान स्त्री पुरुषत्वरूपपर्यायरूपसे प्रतिभासित होती है ।) १५.

आत्मद्रव्य सामान्यनयसे, हार-माला-कंठीके डोरेकी भाँति, व्यापक है, (अर्थात् आत्मा सामान्यनयसे सर्व पर्यायोंमें व्याप्त रहता है, जैसे मोतीकी मालाका डोरा सारे मोतियोंमें व्याप्त होता है ।) १६.

आत्मद्रव्य विशेषनयसे, उसके एक मोतीकी भाँति, अव्यापक है, (अर्थात्

कमुक्ताफलवदव्यापि १७ । नित्यनयेन नटवदवस्थायि १८ । अनित्यनयेन रामरावणवदनव-
स्थायि १९ । सर्वगतनयेनविस्फारिताभचक्षुर्वत्सर्ववर्ति २० । असर्वगतनयेन मीलिताभचक्षुर्व-
दात्मवर्ति २१ । शून्यनयेन शून्यागारवत्केवलोद्भासि २२ । अशून्यनयेन लोकाक्रान्तनीवन्मि-
लितोद्भासि २३ । ज्ञानज्ञेयाद्वैतनयेन महदिन्धनभारपरिणतधूमकेतुवदेकम् २४ । ज्ञानज्ञेयद्वैतनयेन
परप्रतिविम्बसंपृक्तदर्पणवदनेकम् २५ । नियतिनयेन नियमितौष्ण्यवह्निवभियतस्वभावभासि

आत्मा विशेषनयसे अव्यापक है, जैसे पूर्वोक्त मालाका एक मोती सारी मालामें
अव्यापक है ।) १७.

आत्मद्रव्य नित्यनयसे, नटकी भाँति, अवस्थायी है, (अर्थात् आत्मा
नित्यनयसे नित्य—स्थायी है, जैसे राम—रावणरूप अनेक अनित्य स्वांग धारण करता
हुआ भी नट तो वहका वही नित्य है ।) १८.

आत्मद्रव्य अनित्यनयसे, राम-रावणकी भाँति, अनवस्थायी है (अर्थात् आत्मा
अनित्यनयसे अनित्य है, जैसे नटके द्वारा धारण किये गये राम—रावणरूप स्वांग
अनित्य हैं ।) १९.

आत्मद्रव्य सर्वगतनयसे, खुली हुई आँखकी भाँति, सर्ववर्ती (सबमें व्याप्त
होनेवाला) है । २०.

आत्मद्रव्य असर्वगतनयसे, मीची हुई (बन्द) आँखकी भाँति, आत्मवर्ती
(अपनेमें रहनेवाला) है । २१.

आत्मद्रव्य शून्यनयसे, शून्य (खाली) घरकी भाँति, एकाकी (अमिलित)
भासित होता है । २२.

आत्मद्रव्य अशून्यनयसे, लोगोंसे भरे हुये जहाजकी भाँति, मिलित भासित
होता है । २३.

आत्मद्रव्य ज्ञानज्ञेय-अद्वैतनयसे (ज्ञान और ज्ञेयके अद्वैतरूप नयसे), महान
ईधनसमूहरूप परिणत अग्निकी भाँति, एक है । २४.

आत्मद्रव्य ज्ञानज्ञेयद्वैतनयसे, परके प्रतिविम्बोंसे संपृक्त दर्पणकी भाँति, अनेक है
(अर्थात् आत्मा ज्ञान और ज्ञेयके द्वैतरूपनयसे अनेक है, जैसे पर प्रतिविम्बोंके संगवाला
दर्पण अनेकरूप है ।) २५.

आत्मद्रव्य नियतिनयसे नियतस्वभावरूप भासित होता है, जिसकी उष्णता
नियमित (नियत) होती है ऐसी अग्निकी भाँति । [आत्मा नियतिनयसे
नियतस्वभाववाला भासित होता है, जैसे अग्निके उष्णताका नियम होनेसे अग्नि
नियतस्वभाववाली भासित होती है ।] २६.

२६ । अनियतनयेन नियत्पनियमितौष्ण्यपानीयवदनियतस्वभावभासि २७ । स्वभावनयेनानिशिततीक्ष्णकण्टकवत्संस्कारानर्थक्यकारि २८ । अस्वभावनयेनायस्कारनिशिततीक्ष्णविशिखवत्संस्कारसार्थक्यकारि २९ । कालनयेन निदाघदिवसानुसारिपच्यमानसहकारफलवत्समयायत्सिद्धिः ३० । अकालनयेन कृत्रिमोष्मपाच्यमानसहकारफलवत्समयानायत्सिद्धिः ३१ । पुरुषकारनयेन पुरुषकारोपलब्धमधुकुकुटीकपुरुषकारवादीवद्यत्नसाध्यसिद्धिः ३२ ।

आत्मद्रव्य अनियतनयसे अनियतस्वभावरूप भासित होता है, जिसके उष्णता नियति (नियम) से नियमित नहीं है ऐसे पानीकी भाँति । [आत्मा अनियतनयसे अनियतस्वभाववाला भासित होता है, जैसे पानीके (अग्नि निमित्तक) उष्णता अनियत (वैभाविक-अस्थायी) होनेसे पानी अनियत स्वभाववाला भासित होता है] २७.

आत्मद्रव्य स्वभावनयसे संस्कारको निरर्थक करनेवाला है (अर्थात् आत्माको स्वभावनयसे संस्कार निरुपयोगी है), जिसकी किसीसे नोक नहीं निकाली जाती (-किन्तु जो स्वभावसे ही नुकीला है) ऐसे पँने काँटेकी भाँति । २८.

आत्मद्रव्य अस्वभावनयसे संस्कारको सार्थक करनेवाला है (अर्थात् आत्माको अस्वभावनयसे संस्कार उपयोगी है), जिसकी (स्वभावसे नोक नहीं होती, किन्तु संस्कार करके) लुहारके द्वारा नोक निकाली गई हो ऐसे पँने वाणकी भाँति । २९.

आत्मद्रव्य कालनयसे जिसकी सिद्धि समयपर आधार रखती है ऐसा है, गर्मीके दिनोंके अनुसार पकनेवाले आम्रफलकी भाँति । [कालनयसे आत्मद्रव्यकी सिद्धि समयपर आधार रखती है, गर्मीके दिनोंके अनुसार पकनेवाले आमकी भाँति ।] ३०.

आत्मद्रव्य अकालनयसे जिसकी सिद्धि समयपर आधार नहीं रखती ऐसा है, कृत्रिम गर्मीसे पकाये गये आम्रफलकी भाँति । ३१.

आत्मद्रव्य पुरुषकारनयसे जिसकी सिद्धि यत्नसाध्य है ऐसा है, जिसे पुरुषकारसे 'नीबूकावृक्ष प्राप्त होता है (-उगता है) ऐसे पुरुषकारवादीकी भाँति । [पुरुषार्थनयसे आत्माकी सिद्धि प्रयत्नसे होती है, जैसे किसी पुरुषार्थवादी मनुष्यको पुरुषार्थसे नीबूका वृक्ष प्राप्त होता है ।] ३२.

१. संस्कृत टीकामें 'मधुकुकुटी' शब्द है, जिसका अर्थ यहाँ 'नीबूका वृक्ष' किया है; किन्तु हिन्दी टीकामें श्री पांडे हेमराजजीने 'मधुवृक्षा' अर्थ किया है ।

दैवतनयेन पुरुषकारवादिदक्षमधुकुककुटीगर्भलब्धमाणिक्यदैववादिवदयत्नसाध्यसिद्धिः ३३ । ईश्वर-
नयेन घात्रीहटाबलेक्षमानपान्थबालकवत्पारतन्त्र्यभोक्तृ ३४ । अनीश्वरनयेन स्वच्छन्ददारितकुरङ्ग-
कण्ठीरववत्स्वातन्त्र्यभोक्तृ ३५ । गुणिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकवद्गुणग्राहि ३६ । अगु-
णिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकाध्यक्षवत् केवलमेव साक्षि ३७ । कर्तृनयेन रञ्जकवद्रागा-
दिपरिणामकर्तृ ३८ । अकर्तृनयेन स्वकर्मप्रवृत्तरञ्जकाध्यक्षवत्केवलमेव साक्षि ३९ । भोक्तृन-

आत्मद्रव्य दैवतनयसे जिसकी सिद्धि अयत्नसाध्य है (-यत्न बिना होता है)
ऐसा है; पुरुषकारवादी द्वारा प्रदत्त नोबूके वृक्षके भीतरसे जिसे (बिना यत्नके, दैवसे)
माणिक प्राप्त हो जाता है ऐसे दैववादीकी भाँति । ३३.

आत्मद्रव्य ईश्वरनयसे परतंत्रता भोगनेवाला है, धायकी दुकानपर दूध पिलाये
जानेवाले राहगीरके बालककी भाँति । ३४.

आत्मद्रव्य अनीश्वर नयसे स्वतंत्रता भोगनेवाला है, हिरनको स्वच्छन्दता
(स्वतन्त्रता, स्वेच्छा) पूर्वक फाड़कर खाजानेवाले सिंहकी भाँति । ३५.

आत्मद्रव्य गुणिनयसे गुणग्राही है, शिक्षकके द्वारा जिसे शिक्षा दी जाती है
ऐसे कुमारकी भाँति । ३६.

आत्मद्रव्य अगुणीनयसे केवल साक्षी ही है (-गुणग्राही नहीं है), जिसे
शिक्षकके द्वारा शिक्षा दी जा रही है ऐसे कुमारको देखनेवाले पुरुष (-प्रेक्षक) की
भाँति । ३७.

आत्मद्रव्य कर्तृनयसे, रंगरेजकी भाँति, रागादि परिणामका कर्ता है (अर्थात् आत्मा
कर्तानयसे रागादिपरिणामोंका कर्ता है, जैसे रंगरेज रंगनेके कार्यका कर्ता है ।) ३८.

आत्मद्रव्य अकर्तृनयसे केवल साक्षी ही है (-कर्ता नहीं), अपने कार्यमें
प्रवृत्त रंगरेजको देखनेवाले पुरुष (प्रेक्षक) की भाँति । ३९.

आत्मद्रव्य भोक्तृनयसे सुखदुःखादिका भोक्ता है, हितकारी—अहितकारी
अन्नको खानेवाले रोगीकी भाँति । [आत्मा भोक्तानयसे सुख दुःखादिको भोगता है,
जैसे हितकारक या अहितकारक अन्नको खानेवाला रोगी सुख या दुःखको भोगता
है ।] ४०.

येन हिताहिताभभोक्तृव्याधितवत्सुखदुःखादिभोक्तृ ४० । अभोक्तृनयेन हिताहिताभभोक्तृव्याधिताध्यक्षधन्वन्तरिचरवत् केवलमेव साक्षि ४१ । क्रियानयेन स्थाणुभिन्नमूर्धजातदृष्टिलब्धनिधानान्धवदनुष्ठानप्राधान्यसाध्यसिद्धिः ४२ । ज्ञाननयेन चणकमुष्टिक्रीतचिन्तामणिगृहकोणवाणिजवद्विवेकप्राधान्यसाध्यसिद्धिः ४३ । व्यवहारनयेन बन्धकमोचकपरमाण्वन्तरसंयुज्यमानवियुज्यमानपरमाणुवद्बन्धमोक्षयोर्द्वैतानुवर्ति ४४ । निश्चयनयेन केवलबध्यमानसूच्यमानबन्धमोक्षोचित-

आत्मद्रव्य अभोक्तृनयसे केवल साक्षी ही है, हितकारी अहितकारी अन्नकी खानेवाले रोगीको देखनेवाले वैद्यकी भाँति । [आत्मा अभोक्तृनयसे केवल साक्षी ही है—भोक्ता नहीं; जैसे सुख-दुखको भोगनेवाले रोगीको देखनेवाला वैद्य तो केवल साक्षी ही है ।] ४१.

आत्मद्रव्य क्रियानयसे अनुष्ठानकी प्रधानतासे सिद्धि साधित हो ऐसा है, खम्भेसे सिर फूट जाने पर दृष्टि उत्पन्न होकर जिसे निधान प्राप्त होजाय ऐसे अंधकी भाँति । [क्रियानयसे आत्मा अनुष्ठानकी प्रधानतासे सिद्धि हो ऐसा है; जैसे किसी अंधपुरुषको पत्थरके खम्भेके साथ सिर फोड़नेसे सिरके रक्तका विकार दूर होनेमें आँखें खुल जायें और निधान प्राप्त हो, उसी प्रकार ।] ४२.

आत्मद्रव्य ज्ञाननयसे विवेककी प्रधानतासे सिद्धि साधित हो ऐसा है; मुट्टी भर चने देकर चितमणि-रत्न खरीदनेवाले घरके कौनेमें बैठे हुये व्यापारीकी भाँति । [ज्ञाननयसे आत्माको विवेककी प्रधानतासे सिद्धि होती है, जैसे घरके कौनेमें बैठा हुआ व्यापारी मुट्टीभर चना देकर चितामणि रत्न खरीद लेता है, उसी प्रकार ।] ४३.

आत्मद्रव्य व्यवहारनयसे बंध और मोक्षमें द्वैतका अनुसरण करनेवाला है, बंधक (बंध करनेवाले) और मोचक (मुक्त करनेवाले) अन्य परमाणुके साथ संयुक्त होनेवाले और उससे वियुक्त होनेवाले परमाणुकी भाँति । [व्यवहार नयसे आत्म बंध और मोक्षमें पुद्गलके साथ) द्वैतको प्राप्त होता है, जैसे परमाणुके बंधमें वह परमाणु अन्य परमाणुके साथ संयोगको पानेरूप द्वैतको प्राप्त होता है और परमाणुके मोक्षमें वह परमाणु अन्य परमाणुसे पृथक् होनेरूप द्वैतको पाता है, उसीप्रकार ।] ४४.

१. द्वैत — द्वित्व, द्वैतपन, [व्यवहारनयसे आत्माके बन्धमें कर्मके साथके संयोगकी अपेक्षा आती है इसलिये द्वैत है, और आत्माकी मुक्तिमें कर्मके वियोगकी अपेक्षा आती है इसलिये वहाँ भी द्वैत है ।]

स्निग्धरूक्षत्वगुणपरिणतपरमाणुवद्वन्धमोक्षयोरद्वैतानुवर्ति ४५ । अशुद्धनयेन घटशरावविशिष्ट-
मृण्मात्रवत्सोपाधिस्वभावम् ४६ । शुद्धनयेन केवलमृण्मात्रवन्निरुपाधिस्वभावम् ४७ । तदुक्तम्
—“जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होंति णयवादा । जावदिया णयवादा तावदिया चेव
होंति परसमया ॥” “परसमयाणं वयणं मिच्छं खलु होदि सव्वहा वयणा । जइणाणं पुण व-
यणं सम्मं खु कहंचि वयणादो ॥” एवमनया दिशा प्रत्येकमनन्तधर्मव्यापकानन्तनयैर्निरूप्यमाण-
मुदन्वदन्तरालमिलद्वलनीलगाङ्गयामुनोदकभारवदनन्तधर्माणां परस्परमतद्भावमात्रेणाशक्य-

आत्मद्रव्य निश्चयनयसे बंध और मोक्षमें अद्वैतका अनुसरण करनेवाला है, अकेले बध्यमान और मुच्यमान ऐसे बंधमोक्षोचित स्निग्धत्व रूक्षत्वगुणरूप परिणत परमाणुकी भाँति । [निश्चय नयसे आत्मा अकेला ही बद्ध और मुक्त होता है, जैसे बंध और मोक्षके योग्य स्निग्धत्व या रूक्षत्व गुणरूप परिणमित होता हुआ परमाणु अकेला ही बद्ध और मुक्त होता है, उसीप्रकार ।] ४५.

आत्मद्रव्य अशुद्धनयसे, घट और रामपात्रसे विशिष्ट मिट्टी मात्रकी भाँति, सोपाधिस्वभाववाला है । ४६.

आत्मद्रव्य शुद्धनयसे, केवल मिट्टी मात्रकी भाँति, निरुपाधिस्वभाववाला है । ४७.

इसलिये कहा है :—

जावदिया वयणवहा तावदिया चेव होंति णयवादा ।
जावदिया णयवादा तावदिया चेव होंति परसमया ॥
परसमयाणं वयणं मिच्छं खलु होदि सव्वहा वयणा ।
जइणाणं पुण वयणं सम्मं खु कहंचि वयणादो ॥

[अर्थः—जितने वचनपंथ हैं उतने वास्तवमें नयवाद हैं; और जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय (परमत) हैं ।

परसमयों (मिथ्यामतियों) का वचन सर्वथा (अर्थात् अपेक्षा रहित) कहा जानेसे वास्तवमें मिथ्या है; और जैनोंका वचन कथंचित् (अर्थात् अपेक्षा सहित) कहा जानेसे वास्तवमें सम्यक् है ।]

१. वचनपंथ = वचनके प्रकार [जितने वचनके प्रकार हैं उतने नय हैं । अपेक्षा सहित नय सम्यक् नय है और अपेक्षा रहित मिथ्यानय है; इसलिये जितने सम्यक्नय हैं उतने ही मिथ्यानय हैं ।]

विवेचनत्वाद्मेचकस्वभावैकधर्मव्यापकैकधर्मित्वाद्यथोदितैकान्तात्मात्मद्रव्यम् । युगपदनन्तधर्म-
व्यापकानन्तनयव्याप्यैकश्रुतज्ञानलक्षणप्रमाणेन निरूप्यमाणं तु समस्तरङ्गिणीपयःपूरसमवाया-
त्मकैकमकराकरवदनन्तधर्माणां वस्तुत्वेनाशक्यविवेचनत्वान्मेचकस्वभावानन्तधर्मव्याप्यैकधर्मि-
त्वात् यथोदितानैकान्तात्मात्मद्रव्यं ।

इसप्रकार इस (उपरोक्त) सूचनानुसार (अर्थात् ८७ नयोंमें समभाया है उस विधिसे) एक २ धर्ममें एक २ नय (व्यापे), इसप्रकार अनन्तधर्मोंमें व्यापक अनन्त नयोंसे निरूपण किया जाय तो, समुद्रके भीतर 'मिलनेवाले श्वेत-नील गंगा-यमुनाके जलसमूहकी भाँति, अनन्तधर्मोंको परस्पर अतद्भावमात्रसे पृथक् करनेमें अशक्य होनेसे, आत्मद्रव्य ^१अमेचक स्वभाववाला, एक धर्ममें व्याप्त होनेवाला, एक धर्मी होनेसे यथोक्त एकान्तात्मक (एकधर्मस्वरूप) है । परन्तु युगपत् अनन्तधर्मोंमें व्यापक ऐसे अनन्त नयोंमें व्याप्त होनेवाला एक श्रुतज्ञानस्वरूपप्रमाणसे निरूपण किया जाय तो, समस्त नदियोंके जलसमूहके समवायात्मक (समुदायस्वरूप) एक समुद्रकी भाँति, अनन्तधर्मोंको वस्तुरूपसे पृथक् करना अशक्य होनेसे आत्मद्रव्य ^२मेचक स्वभाववाला, अनन्तधर्मोंमें व्याप्त होनेवाला, एक धर्मी होनेसे यथोक्त अनेकान्तात्मक (अनेकधर्मस्वरूप) है । [जैसे-एक समय एक नदीके जलको जाननेवाले जानांशसे देखा जाय तो समुद्र एक नदीके जलस्वरूप ज्ञात होता है, उसीप्रकार एक समय एक धर्मको जाननेवाले एक नयसे देखा जाय तो आत्मा एकधर्म स्वरूप ज्ञात होता है; परन्तु जैसे एक ही साथ सर्व नदियोंके जलको जाननेवाले ज्ञानसे देखा जाय तो समुद्र सर्व नदियोंके जलस्वरूप ज्ञात होता है, उसीप्रकार एक ही साथ सर्वधर्मोंको जाननेवाले प्रमाणसे देखा जाय तो आत्मा अनेक धर्मस्वरूप ज्ञात होता है । इसप्रकार एक नयसे देखने पर आत्मा एकान्तात्मक है और प्रमाणसे देखने पर अनेकान्तात्मक है ।]

[अब उस ही आशयको काव्य द्वारा कहकर, यह कथन समाप्त किया जाता है कि 'आत्मा कैसा है ?']

१. गंगाका पानी श्वेत होता है और यमुनाका पानी नील होता है ।

२. अमेचक = अभेद; विविधता रहित; एक ।

३. मेचक = प्रथक् प्रथक्; विविध; अनेक ।

* शालिनी छन्द *

स्यात्कारश्रीवासवस्यैर्नयौघैः

पश्यन्तीत्यं चेत् प्रमाणेन चापि ।

पश्यन्त्येव प्रस्फुटानन्तधर्म-

स्वात्मद्रव्यं शुद्धचिन्मात्रमन्तः ॥ १९ ॥

इत्यभिहितमात्मद्रव्यमिदानीमेतदवाप्तिप्रकारोऽभिधीयते—अस्य तावदात्मनो नित्यमे-
वानादिपौद्गलिककर्मनिमित्तमोहभावनानुभावधूर्णितान्मवृत्तितया तोयाकरस्येवात्मन्येव जुभ्यतः
क्रमप्रवृत्ताभिरनन्ताभिर्ज्ञप्तिव्यक्तियुक्तैः परिवर्तमानस्य ज्ञप्तिव्यक्तिनिमित्ततया ज्ञेयभूतासु बहिरर्थ-
व्यक्तिषु प्रवृत्तमैत्रीकस्य शिथिलितात्मविवेकतयात्यन्तबहिर्मुखस्य पुनः पौद्गलिककर्मनिर्मापक-

[अर्थः—] इसप्रकार स्यात्कारश्री (स्यात्काररूपीलक्ष्मी) के निवासके
वशीभूत वर्तते नय समूहोंसे (जीव) देखें तो भी और प्रमाणसे देखें तो भी स्पष्ट
अनन्तधर्मोंवाले निज आत्मद्रव्यको भीतर में शुद्ध चैतन्यमात्र देखते ही हैं ।

इस प्रकार आत्मद्रव्य कहा गया । अब उसकी प्राप्ति का प्रकार कहा जाता हैः—

प्रथम तो, अनादि पौद्गलिक कर्म जिसका निमित्त है ऐसी मोहभावनाके
(मोहके अनुभवके) प्रभावसे आत्मपरिणति सदा चक्कर खाती है, इसलिये यह
आत्मा समुद्रकी भाँति अपनेमें ही धुब्ध होता हुआ क्रमशः प्रवर्तमान अनन्त
ज्ञप्ति—व्यक्तियोंसे परिवर्तनको प्राप्त होता है, इसलिये ज्ञप्ति—व्यक्तियोंके
निमित्तरूप होनेसे जो ज्ञेयभूत हैं ऐसी बाह्यपदार्थव्यक्तियोंके प्रति उसकी मैत्री
प्रवर्तती है, इसलिये आत्मविवेक शिथिल हुआ होनेसे अत्यन्त बहिर्मुख ऐसा वह पुनः
पौद्गलिक कर्मके रचयिता—रागद्वेषद्वैतरूप परिणमित होता है और इसलिये उसके
आत्मप्राप्ति दूर ही है । परन्तु अब जब यही आत्मा प्रचण्ड कर्मकाण्ड द्वारा अखण्ड
ज्ञानकाण्डको प्रचंड करनेसे अनादि-पौद्गलिक-कर्मरचित मोहको 'वध्य-घातकके
विभागज्ञानपूर्वक विभक्त करनेसे (स्वयं) केवल आत्म भावनाके (आत्मानुभवके)

१—व्यक्तियों = प्रगटताओं; पर्यायों; विशेषों । [बाह्य पदार्थ विशेष ज्ञप्ति विशेषोंके निमित्त होनेसे
ज्ञेयभूत हैं ।]

२—आत्मा वध्य (हनन योग्य) है और मोह घातक (हननेवाला) है ।

रागद्वेषद्वैतमनुवर्तमानस्य दूरत एवात्मावाप्तिः । अथ यदा त्वयमेव प्रचण्डकर्मकाण्डोषण्डीकृ-
ताखण्डज्ञानकाण्डत्वेनानादिपौद्गलिककर्मनिर्मितस्य मोहस्य बध्यघातकविभागज्ञानपूर्वकविभाग-
करणत् केवलात्मभावानुभावनिश्चलीकृतवृत्तितया तोयाकर इवात्मन्येवातिनिःप्रकम्पस्तिष्ठन् पु-
गपदेव व्याप्यानन्ता झम्बिव्यक्तीरवकाशभावात् जातु विवर्तते, तदास्य झम्बिव्यक्तिनिमित्ततया
ज्ञेयभूतासु बहिरर्थव्यक्तिषु न नाम मैत्री प्रवर्तते । ततः सुप्रतिष्ठितात्मविवेकतयात्यन्तमन्तर्मुखी-
भूतः पौद्गलिककर्मनिर्मापकरागद्वेषद्वैतानुवृत्तिदूरीभूतो दूरत एवाननुभूतपूर्वमपूर्वज्ञानानन्दस्वभावं
प्रभावसे परिणति निश्चल की होनेसे समुद्रकी भाँति अपनेमें ही अति निष्कम्प रहता
हुआ एक साथ ही अनन्त जप्ति व्यक्तियोंमें व्याप्त होकर अवकाशके अभावसे कारण
सर्वथा विवर्तन (परिवर्तन)को प्राप्त नहीं होता, तब जप्ति व्यक्तियोंके निमित्तरूप होनेसे
जो ज्ञेयभूत हैं ऐसी बाह्य पदार्थ व्यक्तियोंके प्रति उसे वास्तवमें मैत्री प्रवर्तित नहीं
होती और इसलिये आत्मविवेक सुप्रतिष्ठित (सुस्थित) हुवा होनेसे अत्यन्त अन्तर्मुख
हुआ ऐसा यह आत्मा पौद्गलिक कर्मोंके रचयिता-रागद्वेषद्वैतरूप परिणतिसे दूर हुआ
पूर्वमें अनुभव नहीं किये गये अपूर्व ज्ञानानन्दस्वभावी भगवान् आत्माको आत्यंतिक
रूपसे ही प्राप्त करता है । जगत भी ज्ञानानन्दात्मक परमात्माको अवश्य प्राप्त करो ।

यहाँ श्लोक भी है:—

(शार्दूल विक्रीडित)

आनन्दामृतपूरनिर्भरवहत्कैवल्यकल्लोलिनी-

निर्मग्नं जगदीक्षणक्षममहासंवेदनश्रीमुखम् ।

स्यात्काराङ्गजिनेशशासनवशादासादयन्तूल्लसत्

स्वं तत्त्वं वृत्तजात्यरत्नकिरणप्रस्पष्टमिष्टं जनाः ॥

[अर्थ:—] आनन्दामृतके पूरसे भरपूर बहती हुई कैवल्यसरितामें (मुक्तिरूपी-
नदीमें) जो डूबा हुआ है, जगतको देखनेमें समर्थ महासंवेदनरूपी श्री (महाज्ञानरूपी
लक्ष्मी) जिसमें मुख्य है, जो उत्तम रत्न-किरणकी भाँति स्पष्ट है और जो इष्ट है
ऐसे उल्लसित (प्रकाशमान, आनन्दमय) स्वतत्त्वको जन स्यात्कारलक्षण जिनेश
शासनके वशसे प्राप्त हों । (-'स्यात्कार' जिसका चिह्न है ऐसे जिनेन्द्र भगवानके
शासनका आश्रय लेकरके प्राप्त करो ।)

[अब, 'अमृतचन्द्रसूरि इस टीकाके रचयिता हैं' यह मानना योग्य नहीं
है ऐसे अर्थवाले काव्य द्वारा यथार्थ वस्तुस्वरूपको प्रगट करके स्वतत्त्वप्राप्तिकी प्रेरणा
की जाती है:—]

भगवन्तमात्मानमवाप्नोति । अवाप्नोत्वैव ज्ञानानन्दात्मानं जगदपि परमात्मानमिति ॥ भवति चात्र श्लोकः—“आनन्दामृतपूरनिर्भरवहत्कैवल्यकल्लोलिनीनिर्मग्नं जगदीक्षणभममहासंवेदनश्री-
मुखम् । स्यात्काराङ्गजिनेशशासनवशादासादयन्तूलसत्त्वं तत्त्वं वृतजात्यरत्नकिरणप्रस्पष्टमिष्टं-
जनाः” ॥

• शार्दूल विक्रीडित छन्द •

व्याख्येयं किल विश्वमात्मसहितं व्याख्या तु गुम्फे गिरां
व्याख्यातामृतचन्द्रसूरिरिति मा मोहाजनो वल्गतु ।
वल्गत्वद्य विशुद्धबोधकलया स्याद्वादविद्याबलात्
लब्ध्वैकं सकलात्मशाश्वतमिदं स्वं तत्त्वमव्याकुलः ॥ २० ॥

• मालिनी छन्द •

इति गदितमनीचैस्तत्त्वमुच्चावचं यत् चिति तदपि किलाभूत्कल्पमग्नौ हुतस्य ।
अनुभवतु तदुच्चैश्चिदिदेनाद्य यस्माद् अपरमिह न किञ्चित्त्वमेकं परं चित् ॥२१॥

[अर्थः—](वास्तवमें पुद्गल ही स्वयं शब्दरूप परिणमित होते हैं, आत्मा उन्हें परिणमित नहीं कर सकता, तथा वास्तवमें सर्व पदार्थ ही स्वयं ज्ञेयरूप—प्रमेयरूप परिणमित होते हैं, शब्द उन्हें ज्ञेय बना-समझा नहीं सकते इसलिये) ‘आत्मा सहित विश्व व्याख्येय (समझाने योग्य) है, वाणीका गुंथन व्याख्या है और अमृतचन्द्रसूरि व्याख्याता हैं, इसप्रकार लोगो ! मोहसे मत नाचो (मत फूलो), (किन्तु) स्याद्वाद विद्या बलसे विशुद्ध ज्ञानकी कला द्वारा इस एक समस्त शाश्वत स्वतत्त्वको प्राप्त करके आज (लोगो) अव्याकुलरूपसे नाचो (-परमानन्द परिणामरूप परिणत होओ ।)

[अब काव्य द्वारा चैतन्यकी महिमा गाकर, वही एक अनुभव करने योग्य है ऐसी प्रेरणा करके इस परम पवित्र परमागमकी पूर्णाहुति की जाती हैः—]

[अर्थः—] इसप्रकार (इस परमागममें) अमन्दतया (बलपूर्वक, जोरशोरसे) जो थोड़ा बहुत तत्व कहा गया है, वह सब चैतन्यके मध्य वास्तवमें अग्निमें होमी गई वस्तुके समान (स्वाहा) हो गया है । (अग्निमें होमे गये घीको अग्नि खा जाती है, मानो कुछ होमा ही न गया हो ! इसीप्रकार अनन्त माहात्म्यवन्त चैतन्यका चाहे जितना वर्णन किया जाय तो भी मानो उस समस्त वर्णनको अनन्त महिमावान

समाप्तयेयं तत्त्वदीपिका टीका ।

चैतन्य खा जाता है; चैतन्यकी अनन्त महिमाके निकट सारा वर्णन मानो वर्णन ही न हुआ हो इसप्रकार तुच्छताको प्राप्त होता है ।) उस चैतन्यको ही चैतन्य आज प्रबलता-उग्रतासे अनुभव करो (अर्थात् उस चित्स्वरूप आत्माको ही आत्मा आज आत्यन्तिकरूपसे अनुभव करो) क्योंकि इस लोकमें दूसरा कुछ भी (उत्तम) नहीं है, चैतन्य ही परम (उत्तम) तत्त्व है ।

इसप्रकार (श्रीमद्भगवत् कुन्दकुन्दाचार्य देव प्रणीत श्री प्रवचनसार शास्त्रकी श्रीमद् अमृतचन्द्राचार्य देव विरचित) तत्त्वदीपिका नामक संस्कृत टीकाके श्री हिमतलाल जेठालाल शाह कृत गुजराती अनुवादका पंडित परमेष्ठीदास जैन न्यायतीर्थ कृत हिन्दी भाषानुवाद समाप्त हुआ ।

वीर जयन्ती

वीर नि० सं० २४७५

दूसरी आवृत्ति वीर सं० २४६१

अनुवादकः—

परमेष्ठीदास जैन

जैनन्द्र प्रेस ललितपुर

११-४-१९४६



卐 नमः प्रवचनसाराय 卐

श्री प्रवचनसारका गुजराती पद्यानुवाद

ज्ञानतत्त्व प्रज्ञापन

* हरिगीत *

सुर-असुर-नरपतिबंधने^१, प्रविनष्ट घातीकर्मने, प्रणमन करूं^२ धर्मकर्ता तीर्थ श्रीमहावीरने ॥१॥
बली शेष तीर्थकर अने सौ सिद्ध शुद्धास्तित्वने, गुणि ज्ञान दृग-चारित्र-तप-वीर्याचरण संयुक्तने ॥२॥
ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने प्रत्येकने, बंधुं बली हुं मनुष्य क्षेत्रे वर्तता अर्हंतने ॥३॥
अर्हंतने श्री सिद्धने^४ य नमस्करण करी^५ ए रीते, गणधर अने^६ अध्यापकोने सर्व साधु समूहने ॥४॥
तसु शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम^७ पामीने, प्राप्ति करूं हुं साम्यनी,^८ जेनाथी शिवप्राप्ति^९ बने ॥५॥
सुर असुर-मनुजेन्द्रो तणा विभवो सहित निर्वाणनी, प्राप्ति करे चारित्र्यी जीव ज्ञानदर्शन मुख्य थी ॥६॥
चारित्र^{१०} छे^{११} ते धर्म छे,^{१२} जे धर्म छे ते साम्य छे,^{१३} ने साम्य जीवो मोह क्षोभ विहीन निज परिणाम छे ॥७॥
^{१४} जे भावमां^{१५} प्रणमे दरब, ते काल तन्मय ते कष्टुं, जीवद्रव्य^{१६} तेथी धर्ममां प्रणमेल धर्म^{१७} ज जाणवुं ॥८॥
शुभ^{१८} के अशुभमां प्रणमतां शुभ के अशुभ आत्मा बने, शुद्धे प्रणमतां शुद्ध परिणाम स्वभावी^{१९} होइने ॥९॥
परिणाम^{२०} विण न पदार्थ, ने न पदार्थ विण परिणाम छे, गुण-द्रव्य-पर्यय स्थित ने अस्तित्व सिद्ध पदार्थ छे ॥१०॥
^{२१} जो धर्म परिणत स्वरूप जिव शुद्धोपयोगी होय तो, ते^{२२} पामतो निर्वाण सुख, ने स्वर्ग सुख शुभ युक्त जो ॥११॥
अशुभोदये आत्मा कुनर तिर्यंच ने^{२३} नारकरणे, नित्ये सहस्र दुःखे पीडित संसारमां अति अति^{२४} भ्रमे ॥१२॥
अत्यंत, आत्मोत्पन्न, विषयातीत, अनुप अनंत ने,^{२५} विच्छेद हीन छे सुख अहो !^{२६} शुद्धोपयोग प्रसिद्ध ने ॥१३॥
मुविदित सूत्र पदार्थ, संयम तप सहित वीतराग ने, सुख दुःखमां सम भ्रमणने शुद्धोपयोग जिनो कहे ॥१४॥
जे उपयोग विशुद्ध ते मोहादि घाती रज थकी, स्वयमेव रहित^{२७} थयो थको ज्ञेयान्त ने पामे सही ॥१५॥
सर्वज्ञ, लब्ध स्वभावने त्रिजगेन्द्र पूजित ए रीते, स्वयमेव जीव थयो थको तेने स्वयंभू जिन कहे ॥१६॥
व्ययहीन छे उत्पाद ने उत्पाद हीन विनाश छे,^{२८} तेने ज बली उत्पाद ध्रौव्य विनाशनो^{२९} समवाय छे ॥१७॥
उत्पाद^{३०} तेम विनाश छे^{३१} सौ कोई वस्तु मात्र ने,^{३२} बली कोई पर्यय थी^{३३} दरेक पदार्थ छे सद्भूत^{३४} खरे ॥१८॥

१ को । २ में । ३ अनन्तर । ४ सब । ५ दर्शन । ६ भी । ७ इस । ८ उपाध्यायोको । ९ प्राप्तकरके । १० जिससे ।
११ हो । १२ है । १३ वह । १४ जो । १५ और । १६ जिस । १७ परिणमित हो । १८ अवयव । १९ ही । २० अववा ।
२१ होकर । २२ बिना । २३ यदि । २४ प्राप्त करता है । २५ नारकरूप । २६ भ्रमे (भ्रमण करे) । २७ छेद रहित ।
२८ शुद्धोपयोगी को । २९ होता हुआ । ३० उसको ही । ३१ इकट्ठापन । ३२ उसीप्रकार । ३३ सब । ३४ और ।
३५ प्रत्येक । ३६ अवयव ।

प्रक्षीण घाति कर्म, अनहृद् वीर्य, अधिक प्रकाशने, इन्द्रिय-अतीत ^१थयेल आत्मा ज्ञानसौख्ये परिणमे ॥१६॥
^२कँइ देहगत ^३नथी सुख के नथी दुःख केवलज्ञानीने, जेथी अतीन्द्रियता ^४थई ते कारणे ए जाणजे ॥२०॥
 प्रत्यक्ष छे सौ द्रव्यपर्यय ज्ञान ^५परिणमनारने, जाणे नही ते तेमने अवग्रह-ईहादिक्रिया ^६वडे ॥२१॥
 न परोक्ष कँइ ^७पण सर्वतः सर्वाक्षगुण समृद्धने, इन्द्रिय-अतीत सदैव ने स्वयमेव ज्ञान थयेलने ॥२२॥
 जीव द्रव्य ज्ञान प्रमाण 'भाख्युं ज्ञान ज्ञेय प्रमाण छे, ने ज्ञेय लोकालोक ^८तेथी सर्वगत ^९ए ज्ञान छे ॥२३॥
 जीव द्रव्य ज्ञान प्रमाण नहि-ए मान्यता छे ^{१०}जेहने, तेना मते जीव ज्ञानथी हीन के अधिक अवश्य छे ॥२४॥
 जो हीन आत्मा होय, नव जाणे अचेतन ज्ञान ए, ने अधिक ज्ञानथी होय तो ^{११}वण ज्ञान क्यम जाणे अरे ॥२५॥
 छे सर्वगत जिनवर ^{१२}अनेसौ अर्थ जिनवर प्राप्त छे, जिन ज्ञान-मयने सर्व अर्थो विषय ^{१३}जिनना ^{१४}होई ने ॥२६॥
 छे ज्ञान आत्मा जिनमते आत्मा बिना नहि ज्ञान छे, ते कारणे छे ज्ञान जीव, जीव ज्ञान छे वा अन्य छे ॥२७॥
 छे 'ज्ञानी' ज्ञानस्वभाव अर्थो ज्ञेयरूप छे 'ज्ञानी' ना, ^{१५}ज्यम रूप छे नेत्रो ^{१६}तणां, नहि वर्तता अन्योन्यमां ॥२८॥
 ज्ञेये प्रविष्ट न, अणप्रविष्ट न, जाणतो जग सर्व ने, नित्ये अतीन्द्रिय आतमा, ज्यम नेत्र जाणे रूपने ॥२९॥
 ज्यम दूधमां स्थित इन्द्रनीलमणि स्वकीय प्रभा वडे ^{१७}, दूधने विषे व्यापी रहे ^{१८}ज्यम ज्ञान पण अर्थो विषे ॥३०॥
^{१९}नव होय अर्थो ज्ञानमां, तो ज्ञानसौ-^{२०}गत पण नहि, ने सर्वगत छे ज्ञान तो ^{२१}क्यम ज्ञानस्थित अर्थो नहि ? ॥३१॥
 प्रभुकेवली न ग्रहे, न छोडे, पर रूपे नव परिणमे, देखे अने जाणे निःशेषे सर्वतः ^{२२}ते सर्व ने ॥३२॥
 श्रुतज्ञानथी जाणे खरे ज्ञायकस्वभावी आत्मने, ऋषिओ प्रकाशक लोकना श्रुतकेवली तेने कहे ॥३३॥
 पुद्गलस्वरूप वचनोथी जिन-उपदिष्ट ^{२३}जे ^{२४}ते सूत्र छे, छे ज्ञानि तेनी ज्ञान, ^{२५}तेने ^{२६}सूत्रनी ज्ञानि कहे ॥३४॥
 जे जाणतो ते ज्ञान, नहि जीव ज्ञानथी ज्ञायक बने, ^{२७}पोते ^{२८}प्रणमतो ज्ञानरूप, ने ज्ञान स्थित ^{२९}सौ अर्थ छे ॥३५॥
 छे ज्ञान तेथी जीव ज्ञेय त्रिधा ^{३०}कहेलू द्रव्य छे, ए द्रव्य पर ने आतमा, परिणाम संयुत ^{३१}जेह छे ॥३६॥
 ते द्रव्यना ^{३२}सद्भूत-असद्भूत पर्ययो ^{३३}सौ वर्तना, तत्कालना पर्याय ^{३४}जेम, विशेष पूर्वक ज्ञानमां ॥३७॥
 जे पर्ययो ^{३५}अणजात छे, ^{३६}बली जन्मीने प्रविनष्ट जे, ते सौ असद्भूत ^{३७}पर्ययो ^{३८}पण ज्ञानमां प्रत्यक्ष छे ॥३८॥
 ज्ञाने अजात-विनष्ट पर्यायो ^{३९}तणी प्रत्यक्षता, ^{४०}नव होय ^{४१}जो तो ज्ञानने ए दिव्य कोण कहे भला ॥३९॥
 ईहादि पूर्वक जाणता जे ^{४२}अक्षपतित पदार्थ ने, तेने परोक्ष पदार्थ जाणवुं ^{४३}शक्यना-जिनजी कहे ॥४०॥
 जे जाणतुं अप्रदेशने सप्रदेश, मूर्त अमूर्तने, पर्याय नष्ट-^{४४}अजातने, भाख्युं अतीन्द्रिय ज्ञान ते ॥४१॥
 जो ज्ञेय अर्थ परिणमे ज्ञाता, न ज्ञायिक ज्ञान छे, ते कर्म ने ^{४५}ज अनुभवे छे ^{४६}एम जिनदेवो कहे ॥४२॥
 भाख्यां जिने कर्मो उद्यगत नियमथी संमारीने, ते कर्म ^{४७}होतां मोही-गगी द्वेषी बंध अनुभवे ॥४३॥

१ हुये । २ कुछ । ३ नहीं । ४ हुई । ५ परिणमित होनेवाले को । ६ द्वारा । ७ भी । ८ कहा । ९ इसलिये ।
 १० यह । ११ जिसकी । १२ बिना । १३ और । १४ जिनेन्द्र देव के । १५ होनेसे । १६ जैते । १७ का । १८ द्वारा ।
 १९ बैसे । २० नहीं । २१ सर्वगतत्व । २२ क्यों । २३ वे । २४ जो । २५ वह । २६ उसको । २७ श्रुतज्ञान । २८ स्वयं ।
 २९ परिणमता है । ३० सब । ३१ कहागया । ३२ जो । ३३ विद्यमान-अविद्यमान । ३४ समस्त । ३५ सहस्र । ३६ अनुत्पन्न ।
 ३७ घषवा । ३८ पर्याय । ३९ भी । ४० की । ४१ न । ४२ यदि । ४३ इन्द्रियगोचर । ४४ अज्ञान । ४५ अनुत्पन्न को ।
 ४६ ही । ४७ ऐसा । ४८ होनेसे ।

धर्मोपदेश, विहार, आसन, स्थान श्री अर्हते, वर्ते सहज ते कालमां मायाचरण २ज्यम नारी ने ॥४४॥
 छे पुण्यफल अर्हते, ने अर्हतिकिरिया ३उदयिकी, मोहादिथी विरहित तेथी ते क्रिया चायिक गणी ॥४५॥
 आत्मां स्वयं निजभावथी जो शुभ अशुभ बने नहि, तो सर्व ४जीवनिकायने संसार पण वर्ते नहि ? ॥४६॥
 ५सौ वर्तमान अवर्तमान, विचित्र विषम पदार्थ ने, युगपत् ६सरवतः जाणतुं ते ज्ञान चायिक जिनकहे ॥४७॥
 जाणै नहि युगपद् त्रिकालिक त्रिभुवनस्थ पदार्थ ने, तेने ७सपर्यय एक पण नहि द्रव्य जाणतु शक्य छे ॥४८॥
 जो एक द्रव्य ८अनन्त पर्यय तेम द्रव्य अनन्त ने, युगपद न जाणै जीव, तो ते केम जाणै सर्वने ? ॥४९॥
 जो ज्ञान 'ज्ञानी' ९नु ऊपजे क्रमशः १०अरथ ११अवलंबीने, तो मित्व नहि, चायिक नहि ने सर्वगत नहि ज्ञान ऐ। ॥५०॥
 नित्ये १२विषम, १३विधविध, सकलपदार्थगण सर्वत्रनो, जिनज्ञान जाणै युगपदे, महिमा अहो ए ज्ञाननो ॥५१॥
 ते अर्थरूप न परिणामे जीव नव ग्रहे नव ऊपजे, सौ अर्थने जाणै १४छतां तेथी अबंधक जिन कहे ॥५२॥
 अर्थोनु ज्ञान अमूर्त, मूर्त, अतीन्द्रि ने १५ऐन्द्रिय छे, छे सुख पण १६एवूंज त्यां १७परधान जे ते ग्राह्य छे ॥५३॥
 देखे अमूर्तिक, १८मूर्तमांय अतीन्द्रि ने प्रच्छन्न ने, ते सर्वने पर के स्वकीय ने, ज्ञान ते प्रत्यक्ष छे ॥५४॥
 १९पोते अमूर्तिक जीव मूर्त शरीरगत ए मूर्त थी, २०कदी योग्य मूर्त अवग्रही जाणै २१कदीक जाणै नहीं ॥५५॥
 रम गध, पर्श २२बली बरण ने शब्द जे पौद्रलिक ते, छे इन्द्रिय विषयो, तेमने २३य न इन्द्रियो युगपद ग्रहे ॥५६॥
 ते इन्द्रियो परद्रव्य, जीवस्वभाव भागी न तेमने, तेनाथी जे उपलब्ध ते प्रत्यक्ष २४कई रीत जीवने ॥५७॥
 अर्थो २५तगुं जे ज्ञान परतः २६थाय तेह परोक्ष छे, जीवमात्रथी ज जणाय जो, तो ज्ञान ते प्रत्यक्ष छे ॥५८॥
 स्वयमेव जात, २७समत अर्थ अनन्तमां विस्तृत ने, अवग्रह-ईहादि रहित, निर्मल ज्ञान सुख एकान्त छे ॥५९॥
 जे ज्ञान २८केवल तेज सुख, परिणाम पण वली तेज छे, भाख्यो न तेमां २९खेद जेथी घातिकर्म विनिष्ट छे ॥६०॥
 अर्थान्तगत छे ज्ञान, लोकालोक विस्तृत दृष्टि छे, छे नष्ट सर्व अनिष्ट ने जे इष्ट ३०ते सौ प्राप्त छे ॥६१॥
 मूणी 'घातिकर्मविहीननुं सुख सौ सुखे उत्कृष्ट छे', अद्वे न तेह अभव्य ३१छे, ने भव्य ते समत करे ॥६२॥
 सुर-असुर-नरपति पीडित वर्ते ३२सहज इन्द्रियो ३३बड़े, ३४नव सही सके ते दुःख तेथी रम्य विषयोमां रमे ॥६३॥
 विषयो विषे रति ३५जेमने दुःख छे स्वाभाविक ३६तेम ने, जो ते न होय स्वभाव तो व्यापार नहि विषयो विषे ॥६४॥
 इन्द्रिय समाश्रित इष्ट विषयो ३७पामीने, निज भावथी, जीव ३८प्रणामतो स्वयमेव सुखरूप थाय, देह ३९थतो नथी ॥६५॥
 एकान्तथी स्वर्गेय देह करे नहि सुख ४०देहीने, पण विषयबश स्वयमेव आत्मा मुख वा दुःख थाय छे ॥६६॥
 जो दृष्टि प्राणीनी तिमिरहर (तो) कार्य छे नहि दीपथी, ४१ज्यां जीव स्वयं सुख परिणामे, विषयो करे छे ४२शू ४३तही ॥६७॥
 ४४ज्यम आभमां स्वयमेव भास्कर उष्ण, देव, प्रकाश छे, स्वयमेव लोके सिद्ध पण ४५त्यम ज्ञान, सुखनेदेवछे ॥६८॥

१ ठहरना । २ जैसे । ३ श्रौतिक । ४ जीव समूह को । ५ संपूर्ण । ६ सर्वतः । ७ पर्यायसहित । ८ अनन्त पर्यायवाला । ९ के । १० अर्थ । ११ सहायता । १२ असमानजातीय । १३ अनेक प्रकारके । १४ तो भी । १५ ऐन्द्रियक । १६ ऐसा ही । १७ प्रधान (उत्तम) । १८ मूर्तिकों को भी (मूर्तपदार्थों को भी) । १९ स्वयं । २० कभी । २१ कदापि । २२ तथा । २३ भी । २४ किसप्रकार । २५ से । २६ होवे । २७ समस्त, अखंड । २८ मात्र अथवा केवलज्ञानात्मक । २९ आकुलता । ३० वे । ३१ स्वीकार करते हैं । ३२ स्वाभाविक । ३३ द्वारा । ३४ नहीं । ३५ जिसको । ३६ उसको । ३७ प्राप्त करके । ३८ परिणामता है । ३९ होता । ४० आत्माको । ४१ जहां । ४२ क्या । ४३ वहां । ४४ जैसे । ४५ जैसे ।

गुरु-देव यतिपूजा विषे बली दान ने सुशीलो विषे, जीव १रक्त उपवासादिके, शुभ-उपयोग स्वरूप छे ॥६६॥
 शुभयुक्त आत्मा देव २वा तिर्यच वा मानव बने, ते पर्यये तावत्समय इन्द्रिय सुख ३विषविध लहे ॥७०॥
 सुरनेय सौख्य ४स्वभावसिद्ध न-सिद्ध छे आगमविषे, ते देहत्रेदनथी पीडित रमणीय विषयोमां रमे ॥७१॥
 तिर्यच नारक-सुर-नरो जो देहगत दुख अनुभवे, तो जीवनो उपयोग ए शुभ ने अशुभ ५कई रीति छे ॥७२॥
 चक्री अने देवेन्द्र शुभ-उपयोग मूलक भोगथी, पुष्टि करे देहादिनी, सुखी सम ६दीसे अभिरत रही ॥७३॥
 परिणामजन्य अनेक विध जो पुण्यनु अस्तित्व छे, तो पुण्य ७ए देवान्त जीवने विषयतृष्णाद्वय करे ॥७४॥
 ते उदित तृष्ण जीवो, दुःखित तृष्णाथी ८विषयिक सुखने, इच्छे अं ९आमरण दुःखसंतप तने भोगवे ॥७५॥
 परयुक्त, बाधासहित, खंडित, बंधकारण, विषम छे, जे इन्द्रियोथी लब्ध ते सुख ए रीते दुःखज खरे ॥७६॥
 नहि मानतो-ए रीत पुण्ये पापमां न विशेष छे, ते मोहथी आच्छन्न घोर अपार संसारे १०भमे ॥७७॥
 ११विदितार्थ ए रीत, रागद्वेष १२लहे न जे द्रव्यो विषे। शुद्धोपयोगी जीव ते क्षय देहगत दुःखनो करे ॥७८॥
 जीव छोड़ी पापारंभने शुभचरितमां उगत भले, जो १३नव तजे मोहादिने तो नव लहे शुद्धात्मने ॥७९॥
 जे जाणतो अहंतने गुण, द्रव्य ने पर्ययपणे, ते जीव जाणे आत्मने १४तसु मोह पामे लय १५खरे ॥८०॥
 जीव मोहने करी दूर, आत्मस्वरूप सम्यक् १६पामीने, जो रागद्वेष परिहरे तो १७पामतो शुद्धात्मने ॥८१॥
 अहंत सौ कर्मो तणो करी नाश ए ज विधिवडे, उपदेश पण १८एमज करी, निवृत्त थया; नमुं तेमने ॥८२॥
 १९द्रव्यादिके मूढ भाव वतें जीवने, ते मोह छे, ते मोहथी आच्छन्न रागी-द्वेषी थई क्षोभित बने ॥८३॥
 रे। मोहरूप वा रागरूप वा द्वेष परिणत जीवने, २०विषविध थाये बंध, तेथी सर्व ते क्षययोग्य छे ॥८४॥
 अर्थोतणुं २१अथयाग्रहण, करुणा मनुज तिर्यचमां, विषयो तणो बली २२संग, -लिंगो जाणवां आ मोहना ॥८५॥
 शास्त्रो वडे प्रत्यक्षआदिथी जाणतो जे अर्थ ने, तसु मोह पामे नाश निश्चय; शास्त्र २३समध्ययनीय छे ॥८६॥
 द्रव्यो, गुणो ने पर्ययो सौ 'अर्थ' संज्ञा थी कक्षां, गुण-पर्ययोनो २४आतमा छे द्रव्य जिन उपदेशमां ॥८७॥
 जे पामी जिन-उपदेश २५हणतो रागद्वेष विमोहने, ते जीव पामे अल्पकाले सर्व दुःख विमोक्षने ॥८८॥
 जे ज्ञानरूप निज आत्मने, परने बली निश्चय वडे, २६द्रव्यत्वथी संबद्ध जाणे मोहनो क्षय ते करे ॥८९॥
 तेथी यदि जीव इच्छतो निर्मोहता निज आत्मने, जिनमार्गथी द्रव्यो २७मही जाणो स्व परने गुण २८वडे ॥९०॥
 श्रामण्यमां भक्तामयी सविशेष आ द्रव्यां तणी, श्रद्धा नहि, ते श्रमण ना; तेमांथी धर्मोद्भव नहि ॥९१॥
 आगम विषे २९कोशल्य छे, ने मोहद्रष्टि त्रिनष्ट छे, वीतराग-चरितारूढ छे, ते मुनि-महात्मा 'धर्म' छे ॥९२॥

१ आसक्त, लवलोन, घास्ट । २ प्रववा । ३ विविध । ४ स्वभाविक, आत्मीक । ५ किस ; ६ मालूम पड़े ।
 ७ यह । ८ विषयजन्य । ९ मरणतक । १० भ्रमण करता है । ११ स्वरूप जानकर । १२ करे । १३ नहीं । १४ उसका ।
 १५ प्रवश्य । १६ प्राप्त करके । १७ प्राप्त करता है । १८ ऐसा ही । १९ परद्रव्यादिकोंमें । २० विविध, अनेकप्रकारका ।
 २१ अन्यथा ग्रहण, (विपरीत श्रद्धा) । २२ प्रीत्याप्रीतपरिणाम । २३ अध्ययन करने योग्य, मननीय । २४ स्वरूप, सत्व,
 सगुह । २५ नष्ट करता, क्षय करता । २६ स्वयोग्य द्रव्यत्व से । २७ में । २८ द्वारा । २९ प्रवीणता ।

* ज्ञेयतत्त्व प्रज्ञापन *

छे अर्थ द्रव्यस्वरूप, गुण-आत्मक कक्षां छे द्रव्य ने, वली द्रव्य-गुणधी पर्ययो; पर्यायमूढ़ 'परसमय छे ॥६३॥
 पर्यायमां रत जीव जे ते 'पर समय' निर्दिष्ट छे, आत्मस्वभावे स्थित जे ते 'स्वक समय' ज्ञातव्य छे ॥६४॥
 छोटया बिना ज स्वभावने उत्पाद-व्यय ध्रुव युक्त छे, वली गुण ने पर्यय सहित जे 'द्रव्य' भाख्युं तेहने ॥६५॥
 उत्पाद-ध्रौव्य-विनाशधी, गुणने विविध पर्यायधी, अस्तित्व द्रव्यनुं सर्वदा जे, तेह 'द्रव्यस्वभाव छे ॥६६॥
 विधविध लक्षणानुं 'सरव-गत 'सत्त्व' लक्षण एक छे, ए धर्म ने 'उपदेशता जिनवरवृषभ निर्दिष्ट छे ॥६७॥
 द्रव्यो स्वभावे सिद्ध ने 'सत्'—तत्त्वतः श्री जिनों कहे, ए सिद्ध छे आगम 'थकी, माने न ते परसमय छे ॥६८॥
 द्रव्यो स्वभाव विषे अवस्थित, तेथी 'सत्' सौद्रव्य छे, उत्पाद-ध्रौव्य-विनाशयुक्त परिणाम द्रव्यस्वभाव छे ॥६९॥
 उत्पाद 'भंग विना नहि, संहार 'सर्ग विना नहि, उत्पाद तेमज, भंग, ध्रौव्य-पदार्थ विण वर्तै नहि ॥७०॥
 उत्पाद तेमज ध्रौव्य 'ने संहार वर्तै 'पर्यये, ने पर्ययो द्रव्ये नियमथो, सर्व तेथी द्रव्य छे ॥७१॥
 उत्पाद-ध्रौव्य-विनाशसंज्ञित अर्थ सह समवेतछे, एक ज समयमां द्रव्य निश्चय, तेथी ए 'त्रिक द्रव्य छे ॥७२॥
 चपजे दरबनो अन्य पर्यय अन्य 'को विणसे 'बली, पण द्रव्य तो नथी नष्ट के उत्पन्न द्रव्य नथी तही ॥७३॥
 'अविशिष्टसत्त्व स्वयं दरव गुणधी गुणांतर परिणामे, तेथी वली द्रव्य ज कहा छे सर्वगुणपर्यायने ॥७४॥
 जो द्रव्य होय न सत्, 'ठरे ज असत् बने क्यम द्रव्य ए ? वा भिन्न ठरतुं सत्वथी ! तेथी स्वयं ते सत्त्व छे ॥७५॥
 जिन वीरनो उपदेश 'एम-प्रथक्त्व भिन्नप्रदेशता, अन्यत्व जाण अतत्परणुं; नहि ते-पणे ते एक क्यां ? ॥७६॥
 'सत् द्रव्य' 'सत् पर्याय', 'सत् गुण'—सत्त्वनो विस्तार छे, नथी ते-पणे अन्योन्य तेह अतत्परणुं ज्ञातव्य छे ॥७७॥
 स्वरूपे नथी जे द्रव्य ते गुण, गुण ते नहि द्रव्य छे, आने 'अतत्परणुं जाणवुं; न अभावने; भाख्युं जिने ॥७८॥
 परिणाम द्रव्यस्वभाव जे, ते गुण 'सत्' अविशिष्ट छे, 'द्रव्यो स्वभावेस्थित सत् छे'—ए ज आ उपदेश छे ॥७९॥
 पर्याय 'के गुण एवुं कोई न द्रव्य विण विश्वे दीसे, द्रव्यत्व छे वली भाव; तेथी द्रव्य 'पोते सत्त्व छे ॥८०॥
 'आयुं दरव द्रव्यार्थ-पर्यायार्थधी निजभावमां, सद्भाव-असद्भावयुत उत्पादने पामे सदा ॥८१॥
 जीव परिणामे तेथी नरादिक ए थरो; पण ते-रूपे, शुं छोटतो द्रव्यत्वने ? नहि छोटतो क्यम^{२२} अन्य ए ॥८२॥
 मानव नथी सुर, सुर पण नहि मनुज के नहि सिद्ध छे, ए रीत नहि होतो 'थको 'क्यम ते अनन्यपरणुं धरे ? ॥८३॥
 द्रव्यार्थिके बधुं द्रव्य छे; ने ते ज पर्यायार्थिके, छे अन्य, 'जेथी ते समय तद्रूप होई अनन्य छे ॥८४॥
 अस्ति, तथा छे नास्ति, तेम ज द्रव्य 'अणवक्तव्य छे, वली उभय 'को पर्यायधी, वा अन्यरूप 'कथाय छे ॥८५॥
 नथी 'आ 'ज' 'एवो कोई ज्यां किरिया स्वभाव-^३ निपन्न छे, किरिया नथी फलहीन, जो निष्फल धरम उत्कृष्ट छे ॥८६॥

१ निध्याहृष्टि । २ स्वसमय । ३ द्रव्यत्व । ४ सर्वगत । ५ उपदेश । ६ द्वारा, से । ७ व्यय । ८ उत्पाद ।

९ शीर । १० पर्याय । ११ प्रवात्मक । १२ कोई । १३ तथा । १४ सत्सामान्य । १५ निश्चित होवे । १६ ऐसा । १७ सहस्र ।

१८ एकपनेका प्रभाव । १९ प्रथवा । २० स्वतः, स्वयं । २१ ऐसा । २२ कैसे । २३ हुआ । २४ कैसे, क्यों । २५ जितसे ।

२६ अवक्तव्य । २७ किसी । २८ कहा जाता । २९ यही । ३० ऐसी । ३१ निष्पन्न ।

नामाख्य कर्म स्वभावथी निज जीवद्रव्य-स्वभावने, ^१अभिभूत करी तिर्यच, देव, मनुष्य वा नारक करे ॥११७॥
 तिर्यच-सुर-नर-नारकी जीव नामकर्म-निपन्न छे, निज कर्मरूप परिणामन थी ज ^२स्वभावलब्धि न तेमने ॥११८॥
 नहि कोई ऊपजे विणसे क्षणभंगसंभवमय ^३जगे, कारण जनम ते नाश छे; वली जन्मनाश विभिन्न छे ॥११९॥
 तेथी स्वभावे स्थिर एवुं न कोई छे संसारमां, संसार तो संसरण करता द्रव्य केरी छे क्रिया ॥१२०॥
 कर्म मलिन जीव कर्म संयुत पामतो परिणामने, तेथी करम बंधाय छे; परिणाम तेथी कर्म छे ॥१२१॥
 परिणाम पोते जीव छे ने छे क्रिया ए जीव मयी, किरिया ^४गणी छे कर्म; तेथी कर्मनो कर्ता नथी ॥१२२॥
 जीव चेतनारूप परिणामे; वली चेतना त्रिविधागणी, ते ज्ञानविषयक, कर्मविषयक, कर्म फलविषयक कही ॥१२३॥
 छे 'ज्ञान' अर्थविकल्प, ने जीवथी 'करानुं 'कर्म' छे, -ते छे अनेक प्रकारनुं; 'फल' सौख्य अथवा दुःख छे ॥१२४॥
 परिणाम-आत्मक जीव छे, परिणाम ज्ञानादिक बने, तेथी करमफल, कर्म तेमज ज्ञान आत्मा जाएजे ॥१२५॥
 'कर्ता, करम, फल, करण जीव छे' ^५एम जो निश्चय करी, मुनि अन्य रूप नव परिणामे, प्राप्ति करे शुद्धात्मनी ॥१२६॥
 छे द्रव्य जीव, अजीव; ^६चित्त-उपयोगमयते जीव छे, पुद्गल प्रमुख जे छे अचेतन द्रव्य, तेह अजीव छे ॥१२७॥
 आकाशमां ^७जे भाग धर्म-अधर्म-काल सहित छे, जीव-पुद्गलोथी युक्त छे, ते सर्वकाले लोक छे ॥१२८॥
 उत्पाद, व्यय, ने ध्रुवता जीवपुद्गलात्मक लोकने, ^८परिणाम द्वारा, भेद वा संघात द्वारा थाय छे ॥१२९॥
 जे लिंगथी द्रव्यो ^९'महीं 'जीव' 'अजीव' एम जगाय छे, ते जाए मूर्त-अमूर्त गुण, अतत्पणाथी विशिष्ट जे ॥१३०॥
 गुण मूर्त इन्द्रियप्राह्य ते पुद्गलमयी बहुविध छे, द्रव्यो अमूर्तिक जेह तेना गुण अमूर्तिक जाणजे ॥१३१॥
 छे वर्ण तेम ज गंध वली रस-स्पर्श पुद्गलद्रव्यने, -अतिसूक्ष्मथी पृथ्वी सुधी; वली शब्द पुद्गल विविध जे ॥१३२॥
 अवगाह गुण आकाशनो, गतिहेतुता छे धर्म नो, वली स्थानकारणतारूपी गुण जाए द्रव्य अधर्म नो ॥१३३॥
 छे काल नो गुण वर्तना उपयोग भाग्यो जीवमां, ए रीत मूर्ति विहीनता गुण जाएवा संक्षेपमां ॥१३४॥
 जीवद्रव्य, पुद्गलकाय, धर्म अधर्म वली आकाशने, छे स्वप्रदेश अनेक, नहि वर्ते प्रदेशो कालने ॥१३५॥
 लोके अलोके ^{१०}आभ, लोक अधर्म-धर्म थी व्याप्त छे, छे शेष-आश्रित काल, ने जीव-पुद्गलो ते शेष छे ॥१३६॥
 जे रीत आभ प्रदेश, ते रीत शेष द्रव्य प्रदेश छे, अप्रदेश परमाणुवडे उद्भव प्रदेश ^{११}तणो बने ॥१३७॥
 छे काल तो अप्रदेश, एक प्रदेश परमाणु ^{१२}यदा, आकाशद्रव्य तणो प्रदेश अतिक्रमे वर्ते ^{१३}तदा ॥१३८॥
 ते देशना अतिक्रमण सम छे 'समय', तद्पूर्वापरे, जे अर्थ छे ते काल छे, उत्पन्नध्वंसी 'समय' छे ॥१३९॥
 आकाश जे अणुव्याप्य, ^{१४}आभप्रदेश संज्ञा तेह ने, ते एक ^{१५}सौ परमाणु ने अवकाशदानसमर्थ छे ॥१४०॥
 वर्ते प्रदेशो द्रव्यने, जे, एक अथवा बे अने, बहु वा असंख्य, अनंत छे; वली होय समयो कालने ॥१४१॥
 एक ज समयमां ध्वंस ने उत्पाद नो सद्भाव छे, जो कालने, तो काल तेह ^{१६}स्वभाव-समवस्थित छे ॥१४२॥
 प्रत्येक समये जन्म-ध्रौव्य-विनाश अर्थो कालने, वर्ते सरवदा, आ ज ^{१७}बस कालाणु नो सद्भाव छे ॥१४३॥

१ पराजित । २ स्वरूप प्राप्ति । ३ लोकमें । ४ मानी गई । ५ किया जाता । ६ ऐहा । ७ चैतन्यउपयोगा-
 त्मक । ८ जो । ९ परिणामन । १० मध्य, में । ११ आकाश । १२ का । १३ जब । १४ तब । १५ आकाश प्रदेश ।
 १६ सब । १७ ध्रुव ; १८ मात्र ।

जे अर्थने न बहु प्रदेश, न एक वा 'परमार्थधी, ते अर्थ जाणो शून्य केवल-अन्य जे अस्तित्वधी ॥१४४॥
 सप्रदेश अर्थधी समाप्त समस्त लोक सुनित्य छे, तसु जाणनारो जीव, प्राण चतुष्कधी संयुक्त जे ॥१४५॥
 इन्द्रियप्राण, तथा बली बलप्राण, आयुप्राणने, बली प्राण श्वासोच्छ्वास-ए सौ जीव 'केरा प्राण छे ॥१४६॥
 जे चार प्राणे जीवतो पूर्वे, जीवेछे, 'जीवशे, ते जीव छे; पण प्राण तो पुद्गल दरव निष्पन्न छे ॥१४७॥
 मोहादिकर्म 'निबंधधी संबन्धपामी प्राणनो, जीव कर्मफल-उपभोग करतां बंध पामे कर्मनो ॥१४८॥
 जीव मोहद्वेष बडे करे बाधा, जीवोना प्राण ने, तो बन्ध ज्ञानावरण-आदिक कर्मनो ते थाय छे ॥१४९॥
 कर्मे मलिन जीव त्यां लगी प्राणो धरे छे 'फरी फरी, ममता शरीरप्रधान विषये ज्यां लगी छोडे नहीं ॥१५०॥
 फरी इन्द्रियादिक-विजय ध्यावे आत्मने उपयोगने, ते कर्मधी रंजित नहि; क्यूं प्राण तेने अनुसरे ? ॥१५१॥
 अस्तित्व निश्चित अर्थनो को अन्यर्थे उपजतो, जे अर्थ ते पर्याय छे, ज्यां भेद संस्थानादिनो ॥१५२॥
 तिर्यच, नारक, देव, नर ए नामकर्मोदय बडे, छे जीवना पर्याय, जेह विशिष्ट 'संस्थानादिके ॥१५३॥
 अस्तित्वधी निष्पन्न द्रव्यस्वभावने त्रिविकल्पने, जे जाणतो, ते आत्मा नहि मोह परद्रव्ये लहे ॥१५४॥
 छे आत्मा उपयोगरूप, उपयोग दर्शन-ज्ञान छे, उपयोग ए आत्मा तणो शुभ वा अशुभरूप होय छे ॥१५५॥
 उपयोग जो शुभ होय, संचय थाय पुण्य तणो तहीं, ने पापसंचय अशुभधी; ज्यां उभय नहि संचय नहि ॥१५६॥
 जाणे जिनोने जेह, अद्वे सिद्धने, 'अणगारने, जे सानुकम्प जीवो प्रति, उपयोग छे शुभ तेहने ॥१५७॥
 कुञ्चिचार-संगति-श्रवणयुत, विषये कषाये मग्न जे, जे उमने उन्मार्गपर, उपयोग तेह अशुभ छे ॥१५८॥
 मध्यस्थ परद्रव्ये थतो अशुभोपयोग रहितने, शुभमां अयुक्त, हूं ध्यावँ छुं निज आत्मने ज्ञानात्मने ॥१५९॥
 हूं देह नहि, बाणी न, मन नहि, 'तेमनु कारण नहि, कर्ता न, कारयिता न अनुमंता हूं कर्ता नो नहि ॥१६०॥
 मन, बाणी तेम ज देह पुद्गलद्रव्यरूप निर्दिष्ट छे, ने तेह पुद्गलद्रव्य बहु परमाणुओ नो पिंड छे ॥१६१॥
 हूं पौद्गलिक नधी, पुद्गलो में पिंडरूप कर्तो 'नधी, तेथी नधी हूं देह वा ते देहनो कर्ता नधी ॥१६२॥
 परमाणु जे अप्रदेश, तेम प्रदेशमात्र, अशब्द छे, ते स्निग्ध रूक्ष बनी प्रदेशद्वयादिवच्च अनुभवे ॥१६३॥
 एकांशधी आरंभी ज्यां अविभाग अंश अनंत छे, स्निग्धत्व वा रूक्षत्व ए परिणामधी परमाणुने ॥१६४॥
 हो स्निग्ध अथवा रूक्ष अणु-परिणाम सम वा विषम हो, बंधाय जो गुणद्वय अधिक; नहि बंध होय जघन्यनो ॥१६५॥
 चतुरंश को स्निग्धाणुं सह द्वय-अंशमय स्निग्धाणुनो, पंचांशी अणु सह बंध थाय त्रयांशमय रूक्षाणु नो ॥१६६॥
 स्कन्धो प्रदेशद्वयादियुत, स्थूल सूक्ष्म ने साकार जे, ते पृथ्वी-वायु-तेज-जल परिणामधी निज थाय छे ॥१६७॥
 अक्वाद् गाढ भरेल छे सर्वत्र पुद्गलकायधी, आलोक बादर-सूक्ष्मधी, कर्मत्वयोग्य-अयोग्यधी ॥१६८॥
 स्कन्धो करमने योग्य पामी जीवना परिणामने, कर्मत्वने पामे; नहि जीव परिणामावे तेमने ॥१६९॥
 कर्मत्व परिणत पुद्गलोना स्कन्ध ते ते फरीफरी, शरीरो बने छे जीवने, 'संक्रान्ति पामी देहनी ॥१७०॥
 जे देह औदारिक, ने बैक्रिय-तेजस देह छे, कार्माण-अहारक देह जे, ते सर्व पुद्गलरूप छे ॥१७१॥

१ निश्चय छे । २ के । ३ जीवित रहेगा । ४ संबन्ध । ५ पुनः पुनः, बारंबार । ६ प्राकृति, साकार ।

७ निश्चय । ८ उनका । ९ नहीं । १० परिवर्तन ।

छे चेतनागुण, गंध-रूप रस-शब्द 'व्यक्ति न जीवने । बली लिंगग्रहण नथी अने संस्थान भाख्युं न तेहने ॥१७२॥
 अन्योन्य स्पर्शी बंध थाय रूपादि गुणयुत मूर्तने । पण जीव मूर्तिरहित बांधे 'केम पुद्गल कर्म ने ? ॥१७३॥
 जे रीत दर्शन-ज्ञान थाय रूपादिनुं-गुणद्रव्यनुं । ते रीत बंधन जाए मूर्ति रहितने पण मूर्तनुं ॥१७४॥
 ३विधविध विषयो पामीने उपयोग आत्मक जीव जे । प्रद्वेष-राग-विमोह भावे परिणामे ते बन्ध छे ॥१७५॥
 जे भावथी देखे अने जाणे विषयगत अर्थ ने । तेमाथी छे उपरक्तता बली कर्म बंधन ते वडे ॥१७६॥
 रागादि सह आत्मा तणो, नै स्पर्श सह पुद्गलतणो । अन्योन्य जे अवगाह, तेने बंध उभयात्मक कछो ॥१७७॥
 सप्रदेश छे ते 'जीव, जीवप्रदेशमां आवे अने । पुद्गलसमूह रहे 'यथोचित, जाय छे, बंधाय छे ॥१७८॥
 जीव रक्त बांधे कर्म, रागरहित जीव 'मुकाय छे । आ जीव केरा बंधनो संक्षेप निश्चय जाएजे ॥१७९॥
 परिणामथी छे बंध, राग-विमोह-द्वेषथी युक्त जे । छे मोह-द्वेष अशुभ, राग अशुभ वा शुभ होय छे ॥१८०॥
 पर मांही शुभपरिणाम पुण्य, अशुभ परमां पाप छे । निजद्रव्यगत परिणाम समये दुःख क्षय नो हेतु छे ॥१८१॥
 स्थावर अने त्रस पृथ्वीआदिक जीवकाय 'कहेल जे । ते जीवथी छे अन्य तेम ज जीव तेथी अन्य छे ॥१८२॥
 परने स्वने नहि जाएतो ए रीत पामी स्वभावने । ते 'आ हुं', आ 'मुज' एम 'अध्यवसान मोह 'थकी करे ॥१८३॥
 निज भाव करतो जीव छे कर्ता 'खरे निज भावनो । पण ते नथी कर्ता सकल पुद्गल दरवमय भावनो ॥१८४॥
 जीव सर्वकाले पुद्गलो नी मध्यमां वर्ते भले । पण नव ग्रहे न तजे, करे नहि जीव पुद्गलकर्मने ॥१८५॥
 ते 'हाल द्रव्य जनित निजपरिणाम नो कर्ता बने । तेथी ग्रहाय अने कदापि मुकाय छे कर्मो वडे ॥१८६॥
 जीव रागद्वेषथी युक्त ज्यारे परिणामे शुभ-अशुभमां । ज्ञानावरण इत्यादि भावे कर्म धूलि प्रवेश त्यां ॥१८७॥
 सप्रदेश जीव समये कषायित मोहरागादि वडे । सम्बन्ध पामी कर्मरजनो बंधरूप कथाय छे ॥१८८॥
 आ जीव केरा बंधनो संक्षेप निश्चय 'भास्त्रियो । अहंतंवे योगीने, व्यवहार अन्य रीते कछो ॥१८९॥
 'हुं आ अने आ मारुं, एममता न देह-धनं तजे । ते छोड़ी जीव 'श्रामण्यने उन्मार्गो आश्रय करे ॥१९०॥
 हुं पर तणो नहि, पर न मारां, ज्ञानकेवल एकहुं । जे एम ध्यावे, ध्यानकाले जीव ते ध्याता बने ॥१९१॥
 ए रीत दर्शन-ज्ञान छे, इन्द्रिय-अतीत महार्थ छे । मानुं हुं—आलंवन रहित, जीव शुद्ध निश्चल ध्रुव छे ॥१९२॥
 लक्ष्मी, शरीर, सुख दुःख अथवा शत्रु मित्र जनो अरे ! जीवने नथी कई ध्रुव, ध्रुव उपयोग-आत्मक जीवछे ॥१९३॥
 -आ जाणी शुद्धात्मा 'वनी ध्यावे परम निज आत्मने । साकार अण-आकार हो ते 'मोहप्रथि क्षयकरे ॥१९४॥
 'हणी मोहप्रन्थि, क्षय करी रागादि समसुख दुःख जे । जीव परिणामे श्रामण्यमां, ते सौख्य अक्षयने लहे ॥१९५॥
 जे मोहमल करी नष्ट, विषय विरक्त 'थई, मन रोकीने । आत्मस्वभावे स्थित छे, ते आत्मने 'ध्यानार छे ॥१९६॥
 'शा अर्थने ध्यावे श्रमण, जे नष्टघातिकर्म छे । प्रत्यक्ष सर्वपदार्थ ने ज्ञेयान्तप्राप्त निःशंक छे ? ॥१९७॥
 बाधा रहित सकलात्ममां सम्पूर्णां सुखज्ञानाक्षय जे । इन्द्रिय-अतीत 'अनिन्द्र ते ध्यावे परम आनंदने ॥१९८॥

१ अभिव्यक्ति, प्रकटना । २ कैसे, किसप्रकार । ३ विविध, अनेकप्रकार । ४ आत्मा । ५ योग्य । ६ छोड़ता ।
 ७ कहे गये । ८ यह मैं हूं । ९ यह मेरा है । १० मिथ्या अभिप्राय । ११ से, द्वारा । १२ वास्तव में । १३ अभी ।
 १४ कहा गया है, निर्दिष्ट किया है । १५ मुनि मार्ग को, श्रमणताको । १६ होकर । १७ मोहरूपी गांठ । १८ नष्टकर ।
 १९ होकर । २० ध्यान करने वाला, ध्याता । २१ किस । २२ अभिन्द्रिय ।

श्रमणो, जिने, तीर्थकरो आ रीत सेवी मार्गने, सिद्धि १वर्षा; नमुं तेमने, निर्वाणना ते मार्ग ने ॥१६६॥
ए रीत तेबी आत्मने ज्ञायकस्वभावी जाणीने, २निर्ममपणो रही स्थित आ परिवर्तुं छुं हुं ममत्त्वेने ॥२००॥

३-चरणानुयोग सूचक चूलिका

ए रीत प्रणामी सिद्ध, जिनवरवृषभ, मुनिने फरी फरी, श्रामण्य अंगीकृत करो, अभिलाष जो दुःखमुक्तिनी ॥२०१॥
बंधु जनेनी विदाय लइ, स्त्री-पुत्र ३बडीलोधी छूटी, दृग-ज्ञान-तप-चारित्र-वीर्याचार अंगीकृत करी ॥२०२॥
'मुज ने प्रहो' कही, ४प्रणतथई, अनुगृहीत धाय ५गणी बडे, -वयरूप कुल विशिष्ट, योगी, ६गुणाढ्य ने मुनि-इष्ट जे ॥२०३॥
परनो न हुं, पर छे न मुज, मारुं नधी ७कई पण जगे, -ए रीत निश्चित ने जितेंद्रिय ८साहजिकरूपधरबने ॥२०४॥
जन्म्या ९प्रमाणे रूप, लुंचन केशनुं, शुद्धत्वने, हिंसादिधी शून्यत्व, १०देह-असस्करण-ए लिंग छे ॥२०५॥
आरंभ मूर्छाशून्यता, उपयोग योग विशुद्धता, निरपेक्षता परधी-११जिनोदित मोक्षकारण १२लिंग आ ॥२०६॥
१३ग्रही परमगुरु-१४दीर्घेल लिंग नमस्करण करी तेमने, व्रत ने क्रिया सुन, थई उपस्थित, धाय छे मुनिराज ए ॥२०७॥
व्रत, समिति, लुंचन, आवश्यक, १५अण्चेल इंद्रियरोधन, नहि स्नान १६दातण, एक भोजन, भूशयनस्थिति भोजन ॥२०८॥
-आ मूलगुण श्रमणो तणा जिनदेबधी प्रज्ञम छे, तेमां प्रमत्त यतां श्रमण छेदोपस्थापक धाय छे ॥२०९॥
जे लिंगग्रहणो साधुपद देनार ते गुरु जाणवा, छेदद्वये स्थापन करे ते शेष मुनि १७निर्यापका ॥२१०॥
जो छेद धाय प्रयत्न सह कृत कायनी चेष्टाविषे, आलोचना पूर्वक क्रिया कर्तव्य छे, ते साधुने ॥२११॥
छेदोपयुक्त मुनि, श्रमण व्यवहार विज्ञ १८कने जई, निज दोष आलोचन करी, श्रमणोपदिष्ट करे विधि ॥२१२॥
प्रतिबंध परित्यागी सदा अविवास अगर १९विवास मां, मुनिराज विहरो सर्वदा थईछेदहीन श्रामण्यमां ॥२१३॥
जे श्रमण ज्ञान-दृगादिके २०प्रतिबद्ध विचरे-सर्वदा, ने प्रयत्न मूलगुणो विषे, श्रामण्य छे परिपूर्ण त्यां ॥२१४॥
मुनि २१छपण माही, निवासस्थान, विहार वा भोजनमही, उपधि-श्रमण-विकथा नहीं २२प्रतिबधने इच्छे नहीं ॥२१५॥
आसन-शयन-गमनादिके चर्या प्रयत्न विहीन जे, ते जाणवी-हिंसा सदा २३संतानवाहिनी श्रमण ने ॥२१६॥
जीवो-मरो जीव, यत्नहीन आचार त्यां हिंसां २४नकी, समिति-प्रयत्नसहितने नहि बंध हिंसा मात्रधी ॥२१७॥
मुनि यत्न हीन आचारवंत छकायनो हिसक कह्यो, जल कमलवत् निलेंप भाख्यो, नित्य यत्न सहित जो ॥२१८॥
दैनिक क्रिया २५थकी जीव मरता बंध थाय-न थाय छे, परिग्रह थकी ध्रुव बंध, तेधी समस्त छोड्यो योगी ए ॥२१९॥
२६निरपेक्षत्याग न होय तो नहि भाषशुद्धि भित्तु ने, ने भावमां अविशुद्ध ने ज्ञय कर्म नो कई रीत बने ? ॥२२०॥
आरंभ, अणसंयम अने मूर्छा न त्यां-ए २७क्यम बने ? पर द्रव्य रत जे होय ते कई रीत साधे आत्मने ? ॥२२१॥

१ प्राप्ति की । २ निर्ममत्व । ३ गुरुजनों, पूज्यजनों । ४ विनययुक्त प्रणाम करके । ५ प्राचार्य । ६ गुणसमृद्ध ।
७ कुक्ष । ८ यथाशक्तिरूप धारी, जन्मसमयके सरीसा रूपधारी धर्मात् निर्ग्रन्थ । ९ निर्ग्रन्थ, दिगम्बर । १० शृंगार नहीं
करना, वेशभूषा युक्त न करना । ११ जिनेन्द्र निरूपित । १२ चिह्न, कारण । १३ ग्रहण कर । १४ दिये गये । १५
दिगम्बरत्व । १६ दतीन । १७ निवासक, उपवेश आदिसे मार्गमें हड़ करनेवाले । १८ निकट । १९ एकलविहारी, गुच्छे
प्रज्ञा रहकर । २० युक्त । २१ उपवास । २२ मन लगानेकी । २३ संबंधा, सतत । २४ निश्चित । २५ से, द्वारा । २६
प्रयोजन रहित । २७ किस प्रकार ।

ग्रहणे विसर्गे सेवतां नहि छेद जे भी थाब छे, ते उपधि सह बर्तो भले मुनि काल क्षेत्र 'विजाणीने ॥२२२॥
 उपधि अनिदितने, असंयत जन थकी 'अणप्रार्थने, मूच्छादिजननरहितने ज ग्रहो भ्रमण, थोडो भले ॥२२३॥
 क्यम अन्य परिग्रह होय ज्यां कही देहने परिग्रह अहो ! मोक्षेच्छु ने देहेय 'निष्प्रतिकर्म उपदेशे जिनो ? ॥२२४॥
 जन्म्या प्रमाणे रूप भाख्युं उपकरण जिन मार्गमां; गुरुवचन ने सूत्राध्ययन, बली विनय पण उपकरणमां ॥२२५॥
 आलोकमां निरपेक्ष ने परलोक-अणप्रतिबद्ध छे, साधु कषाय रहित, तेथी युक्त आ' 'र विहारी छे ॥२२६॥
 आत्मा 'अनेषक ते य तप, तत्सिद्धिमां उद्यत रही, 'वण-एषणा भिक्षा बली तेथी अनाहारी मुनि ॥२२७॥
 केवलशरीर मुनि त्यांय 'माह' न' जाणी वण-प्रतिकर्म छे, निज शक्तिना गोपन विना तप साध तन बोजेन छे ॥२२८॥
 आहार ते एक ज, ऊणोदर ने यथा-उपलब्ध छे, भिक्षा बडे, दिवसे, रसेच्छाहीन 'वण-मधुमांस छे ॥२२९॥
 वृद्धत्व, बालपणा विषे, 'भ्लानत्व, भ्रांतदशा विषे, चर्या चरो निजयोग्य, जे रीत मूलछेद न घाय छे ॥२३०॥
 जो देश-काल तथा 'क्षमा-भ्रम-उपधि ने मुनि जाणीने, बर्ते अहारविहारमां, तो अल्प लेपी भ्रमण ते ॥२३१॥
 भ्रमण्य ज्यां ऐकाग्र्य ने ऐकाग्र्य वस्तुनिश्चये, निश्चय बने आगम बडे, आगम 'प्रवर्तन मुख्य छे ॥२३२॥
 आगमरहित जे भ्रमण ते जाणे न परने आत्मने, भिक्षु पदार्थ-अजाण ते क्षय कर्मनो कई रीति करे ? ॥२३३॥
 मुनिराज आगमचक्षु ने सौ 'भूत इन्द्रिय चक्षु छे, छे देव अवधिचक्षुने सर्वत्र चक्षु सिद्ध छे ॥२३४॥
 सौ 'चित्र गुणपर्याययुक्त पदार्थ आगमसिद्ध छे, ते सर्वने जाणे भ्रमण ए देखीने आगम बडे ॥२३५॥
 दृष्टि न आगमपूर्विका ते जीवने संयम नहीं, -ए सूत्र 'केरु' छे वचन; मुनि केम होय असंयमी ? ॥२३६॥
 सिद्धि नहीं आगमथकी, श्रद्धा न जो अर्थो तणी, निर्वाण नहीं अर्थोतणी श्रद्धाथी, जो संयम नहीं ॥२३७॥
 अज्ञानी जे कर्मो खपावे लक्ष कोटि भवो बडे, ते कर्म ज्ञानी त्रिगुण बस उच्छ्वासमात्रथी क्षय करे ॥२३८॥
 अणुमात्र पण मूर्खा तणो सदभाव जो देहादिके, तो सर्व 'आगमधर भले पण नब लहे सिद्धत्वने ॥२३९॥
 जे पंचसमित, त्रिगुण, इन्द्रनिरोधी विजयी कषायनो, परिपूर्ण दर्शन ज्ञानथी, ते भ्रमणने संयत कस्यो ॥२४०॥
 निदा प्रशंसा दुःख सुख, अरि-बंधुमां ज्यां साम्य छे, बली लोष्ट-कनके, जीवित-मरणे साम्यछे ते भ्रमण छे ॥२४१॥
 दृग, ज्ञानने चारित्र, त्रयमां युगपदे आरूढ जे, तेने कस्यो एकाग्रगत; भ्रमण्य त्यां परिपूर्ण छे ॥२४२॥
 परद्रव्यने आश्रय भ्रमण अज्ञानी 'पामे मोहने, वा रागने वा द्वेषने, तो विविध बांधे कर्म ने ॥२४३॥
 नहि मोह, ने नहि राग, द्वेष करे नहि अर्थो विषे, तो नियमथी मुनिराज ए विधविध कर्मो क्षय करे ॥२४४॥
 शुद्धोपयोगी भ्रमण छे, शुभयुक्त पण शास्त्रे कस्यो, शुद्धोपयोगी छे निराश्रय शेष साश्रय जाणवा ॥२४५॥
 वात्सल्य प्रवचनरत विषे ने भक्ति अहंतादिके, - ए होय जो भ्रमण्यमां तो चरण ते शुभयुक्त छे ॥२४६॥
 भ्रमणो प्रति वंदन, नमन, अनुगमन अभ्युत्थान ने, बली भ्रम निवारण छे न निर्दित रागयुत चर्या विषे ॥२४७॥
 उपदेश दर्शन ज्ञाननो, पोषण-ग्रहण शिष्यो 'तरु'; उपदेश जिनपूजा तणो-वर्तन तुं जाण सरागनुं ॥२४८॥

१ जानकर । २ अप्रार्थनीय । ३ निषेक्षता, निर्मोहभाव । ४ आहार । ५ आहारच्छेदसे रहित । ६ विना, रहित ।
 ७ रहित । ८ रोगोपना, व्याधियुक्तता । ९ सहनशक्ति । १० विचार, मनन । ११ प्राणी । १२ अनेक प्रकारके । १३ का,
 उक्त, कहा गया । १४ समस्त शास्त्रोंका ज्ञान । १५ प्राप्त होता है । १६ का ।

१ ब्रह्म जीवकायविराधना उपकार जे नित्ये करे, चञ्चलविध साधुसंघने, ते भ्रमण रागप्रधान छे ॥२४६॥
 २ वैयावृते उद्यत भ्रमण घट्काय ने पीडा करे, तो भ्रमण नहि पण छे गुही; ते श्रावकोनो धर्म छे ॥२५०॥
 छे अल्प लेप ३ छतां य दर्शनज्ञानपरिणत जैनने, निरपेक्षता पूर्वक करो उपकार अनुकंपा ४ वडे ॥२५१॥
 आक्रान्त देखी भ्रमण ने भ्रम, रोग वा भूख, प्यासथी, साधु करो सेवा स्वशक्ति प्रमाण ए मुनिराजनी ॥२५२॥
 सेवानिमित्ते रोगी-बालक-बुद्ध-गुरु भ्रमणो तणो, लौकिकजनो सह बात शुभ-उपयोगयुत निदित नथी ॥२५३॥
 आ शुभ चर्या भ्रमणने, बली मुख्य होय गृहस्थ ने, ५ तेना वडे ६ ज गृहस्थ पामे मोक्षसुख उत्कृष्टने ॥२५४॥
 फल होय छे विपरीत वस्तुविशेषथी शुभ रागरे, ७ निष्पत्ति विपरीत होय भूमि विशेषथी ज्यम बं ज ने ॥२५५॥
 छद्मस्थ-अभिहित ध्यान दाने व्रत नियम पठनादि के, रत जीव मोक्ष लहे नहि, बस भूभ्व शातात्मक लहे ॥२५६॥
 परमार्थ थी अनभिज्ञ, विषयकषायअधिक जनो परे, उपकार संवादान सर्व कुदेवमनुजपणे फले ॥२५७॥
 'विषयो कषायो पाप छे' जो एम निरुपण शास्त्रमां, तो केम तत्प्रतिबद्ध पुरुषो होय रे ८ निस्तारका ? ॥२५८॥
 ते पुरुष जाए सुमार्गशाली, पाप-उपरम जेहो, समभाव ज्यां सौ धार्मिके, गुणसमूहसेवन जेह ने ॥२५९॥
 अशुभोपयोग रहित भ्रमणो-शुद्ध वा शुभयुक्त जे, ते लोकने तारे; अने तद्भक्त पामे पुण्यने ॥२६०॥
 प्रकृत वस्तु देखी अभ्युत्थान आदि क्रिया धकी, वर्तो भ्रमण पञ्जी वर्तनीय गुणानुसार विशेष थी ॥२६१॥
 गुणथी अधिक भ्रमणो प्रति सत्कार अभ्युत्थान ने, अजलिकरण, पोषण, ग्रहण सेवन अही उपदिष्ट छे ॥२६२॥
 मुनि सूत्र-अर्थ प्रवीण संयमज्ञानतपस वृद्धने, ९ प्रणिपात अभ्युत्थान, सेवा साधुए कर्तव्य छे ॥२६३॥
 शास्त्रे कर्म तपसूत्रसंयमयुक्त पण साधु नहीं, जिन-उक्त आत्मप्रधान सर्व पदार्थ जो श्रद्धे नहि ॥२६४॥
 मुनि शास्त्रो स्थित देखीने जे द्वेषथी निरा करे, अनुमत नहि किरिया बिो, ते नारा चरण तणो करे ॥२६५॥
 जे हीन गुण होवा छतां 'हुं पण भ्रमण' मद करे, इच्छे विनय गुण-अधिक पास, अनंत संसारो बने ॥२६६॥
 मुनि अधिकगुण हीनगुण प्रति वर्ते यदि विनयादि मां, तो ऋष्ट थाय चरित्रथी उपयुक्त मिथ्याभावमां ॥२६७॥
 सूत्रार्थनिश्चयवत, शमितकषाय, अधिक तपी भले, पण ते नथी संयत, यदि छोडे न लौकिक-संगने ॥२६८॥
 निर्मयरूप दीक्षा वडे संयमतपे संयुक्त जे, लौकिक कष्टो ते ने य, जो छोडे न १० ऐहिक कर्मने ॥२६९॥
 तेथी भ्रमणने होय जो दुःख मुक्ति केरी भावना, तो नित्य वसतु समान अगर विशेष गुणीना संगमां ॥२७०॥
 समयस्थ हो पण सेवी भ्रम अयथाहे जे अर्थने, अत्यन्तफलसवृद्ध भावी कालमां जीव ते भमे ॥२७१॥
 अयथाचरणहीन, सूत्र-अर्थसुनिश्चयी उपशांत जे, ते पूर्ण साधु ११ अफल आ संसारमां चिर नहि रहे ॥२७२॥
 जाणी यथार्थ पदां, तञ्जी संग अंतर्वाहने, आसक्त नहि विषयो विर जे, 'शुद्ध' भाख्या तैमने ॥२७३॥
 रे! शुद्धने आमण्य भाख्युं, ज्ञानदर्शनशुद्धने, छे शुद्धने निर्वाण, शुद्ध ज सिद्ध, प्रणमं तेहने ॥२७४॥
 साकार अण-आकार चर्यायुक्त आ उपदेशने, जे जाणतो ते अल्प काले सार प्रवचननो लहे ॥२७५॥

* समाप्त *

१ विना, रहित । २ सेवा; सुभूषा । ३ तो भी । ४ द्वारा । ५ उसके । ६ ही । ७ कष्ट । ८ बार करने । ९ प्रणाम ।

१० सांसारिक । ११ निस्तार, फलरहित ।

साधक जीवकी दृष्टि



अध्यात्ममें सदा निश्चयनय ही प्रधान है, उसीके आश्रयसे धर्म होता है। शास्त्रोंमें जहाँ विकारी पर्यायोंका व्यवहारनयसे कथन किया जावे वहाँ भी निश्चयनय को ही मुख्य और व्यवहारनयको गौण करनेका आशय है ऐसा समझना चाहिये। क्योंकि पुरुषार्थ के द्वारा अपने में शुद्ध पर्यायको प्रगट करने अर्थात् विकारी पर्यायको टालने के लिये सदा निश्चयनय ही आदरणीय है। उस समय दोनों नयोंका ज्ञान होता है, किन्तु धर्मको प्रगट करनेके लिये दृष्टिमें दोनों नय कदापि आदरणीय नहीं हैं। व्यवहारनयके आश्रयसे कभी आंशिक धर्म भी नहीं होता, प्रत्युत उसके आश्रयसे रागद्वेषके विकल्प ही उठा करते हैं।

छहों द्रव्य, उनके गुण और उनकी पर्यायोंके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिये कभी निश्चय नयकी मुख्यता और व्यवहार नयकी गौणता रखकर कथन किया जाता है, और कभी व्यवहार नयको मुख्य करके और निश्चयनयको गौण रखकर कथन किया जाता है। स्वयं विचार करे उसमें भी कभी निश्चय नयकी और कभी व्यवहार नयकी मुख्यता की जाती है। अध्यात्म शास्त्रमें भी जीवकी विकारी पर्याय जीव स्वयं करता है तो होती है, और वह जीवका अनन्य परिणाम है—इसप्रकार व्यवहार नयसे कहा या समझाया जाय, किन्तु उस प्रत्येक समयमें दृष्टिमें तो निश्चयनय एक ही मुख्य और आदरणीय है—ऐसा ज्ञानियोंका कथन है। शुद्धता प्रगट करनेके लिये कभी निश्चयनय आदरणीय होता है और कभी व्यवहारनय;—ऐसा मानना भूल है। तीनों कालमें एकमात्र निश्चयनयके आश्रयसे ही धर्म प्रगट होता है,—ऐसा समझना चाहिये।

साधक जीव प्रारंभसे अंत तक निश्चय की ही मुख्यता रखकर व्यवहारको गौण ही करता जाता है, जिससे साधक दशामें निश्चयकी मुख्यताके बलसे साधकके शुद्धताकी वृद्धि ही होती जाती है और अशुद्धता टलती ही जाती है। इसप्रकार निश्चयकी मुख्यताके बलसे पूर्ण केवलज्ञान होने पर वहाँ मुख्यत्व गौणत्व नहीं होता, और नग्न भी नहीं होते।

श्री प्रवचनसारकी वर्णानुक्रम गाथासूची

अ	गाथा	पृष्ठ		गाथा	पृष्ठ
अइसयमादसमुत्थं	१३	१६	असुहोदयेण आदा	१२	१५
अजधाचारविजुत्तो	२७२	३६७	असुहोवओगरहिदो	१५६	२५४
अट्टे अजधागहणं	८५	११८		आ	
अट्टे सु जो ण मुउभदि	२४४	३७०	आगमचक्खू साहू	२३४	३५६
अत्थ अकवणिवदिदं	४०	५६	आगमपुब्बा दिट्ठी	२३६	३५८
अत्थि अमुत्तं मुत्तं	५३	७५	आगमहीणो समणो	२३३	३५३
अत्थित्तिणिच्छिदस्स	१५२	२४६	आगासमणुण्णिबिद्धं	१४०	२२६
अत्थि त्ति य णत्थि त्ति	११५	१८७	आगासस्सवगाहो	१३३	२१८
अत्थो खलु दव्वमओ	६३	१३२	आदा कम्ममलिसो	१२१	१६७
अधिगगुणा सामण्ये	२६७	३६१	आदा कम्ममलिसो धरेदि	१५०	२४४
अधिवासे व विवासे	२१३	३२३	आदा णाणपमाणं	२३	३१
अपदेसं सपदेसं	४१	५७	आदाय तंपिलिंगं	२०७	३१६
अपदेसो परमाणू	१६३	२५८	आपिच्छं अंधुवगं	२०२	३०८
अपयत्ता वा चरिया	२१६	३२७	आहारे व विहारे	२३१	३४०
अपरिक्खत्तसहावेणुण्णपाद	६५	१३६		इ	
अप्पडिक्कुट्टं उवधिं	२२३	३३५	इदियपाणो य तथा	१४६	२४०
अप्पा उवओगप्पा	१५५	२५०	इहलोगणिरवेक्खो	२२६	३३६
अप्पा परिणामप्पा	१२५	२०३	इह विविहलक्खण्णणं	६७	१४७
अवभुट्ठाणं गहणं	२६२	३८८		उ	
अवभुट्ठे या समणा	२६३	३८६	उदयगदा कम्मसा	४३	५६
अयदाचारो समणो	२१८	३२६	उप्पज्जदि जदि णाणं	५०	७१
अरसंमरूवमगंधं	१७२	२६८	उप्पादट्ठिदिभंगा विज्जंते	१०१	१५६
अरहंतादिसु भत्ती	२४६	३७३	उप्पादट्ठिदिभंगा	१२६	२११
अव्वददि सासणत्थं	२६५	३६०	उप्पादो पदंसो	१४२	२३३
अविदिदपरमत्थेसु	२५७	३८४	उप्पादो य विणासो	१८	२५
असुधोवओगरहिदा	२६०		उवओगमओ जीवो	१७५	२७५


गाथा	पृष्ठ	गाथा	पृष्ठ		
उवभोगविसुद्धो जो	१५	१८	किध तम्हि एत्थि	२२१	३३३
उवभोगो जदि हि	१५६	२५१	किं किंचण त्ति तक्कं	२२४	३३६
उवकुण्णदि जो वि	२४६	३७६	कुलिसाउहचक्रधरा	७३	१०२
उवयरणं जिणमग्गे	२२५	३३७	कुळवं सभावमादा	१८४	२८३
उवरदपावो पुरिसो	२५६	३८५	केवलदेहो समणो	२२८	३४१
ए		ग			
एकं खलु तं भत्तं	२२६	३४३	गुणदोधिगस्स विण्णं	२६६	३६१
एको व दुग्गे बहुग्गा	१४१	२३१	गेण्हदि गोव ए	१८५	२८४
एगंतेण हि देहो	६६	६५	गेण्हदि गोव ए मुंचदि	३२	४३
एगम्हि संति समये	१४३	२३५	घ		
एगुत्तरमेगादी	१६४	२५६	चत्ता पावारंभं	७६	१०६
एदे खलु मूलगुणा	२०६	३१८	चरदि णिबद्धो णिण्णं	२१४	३२४
एयग्गगदो समणो	२३२	३५०	चारित्तं खलु धम्मो	७	८
एवं जिणा जिणिदा	१६६	३०१	ङ		
एवं गणणप्पाणं	१६२	२६२	ङ्गदुमत्थविहिद	२५६	३८३
एवं पणमिय सिद्धे	२०१	३०७	ङ्गेदुवजुत्ता समणो	२१२	३२१
एवं विदिदत्थो	७८	१०८	ङ्गेदो जेण ए विज्जदि	२२२	३३४
एवंविहं सहावे	१११	१७६	च		
एस सुरासुरमणुसिद	१	३	जदि कुण्णदि कायस्सेदं	२५०	३७७
एसा पसत्थभूदा	२५४	३८१	जदि ते ए संति	३१	४१
एसो त्ति एत्थि	११६	१८६	जदि ते विसयकसाया	२५८	३८५
एसो बंधसमासो	१८६	२८८	जदि पञ्चलमजायं	३६	५५
यो		ज			
ओगाढगाढणिच्चिदो	१६८	२६४	जदि संति हि पुण्णणि	७४	१०३
ओरालिओ य देहो	१७१	२६७	जदि सो सुहो	४६	६३
क		झ			
कप्पा करणं कम्मं	१२६	२०४	जघजादरूवजादं	२०५	३१४
कम्मत्तणपाओग्गा	१६६	२६५	जघ ते णमप्पदेसा	१३७	२२४
कम्मं णामसमक्खं	११७	१६१	जस्स अणेसणमप्पा	२२७	३४०
कालस्स वट्टणा से	१३४	२१८	जस्स ए संति	१४४	२३६
किष्सा अरहंताणं	४	४	जं अण्णायी कम्मं	२३८	३६२
			जं केवलं त्ति णायं	६०	८६
			जं तत्कालियमिदरं	४७	६५

गाथा	पृष्ठ	गाथा	पृष्ठ
जं दन्वं तएण गुणो	१०८	जो हि सुदेण	३३
जं परदो विण्णणं	५८	ठ	४५
जं पेच्छदो अमुत्तं	५४	ण	६०
जादं सयं समत्तं	५६		
जयदि खेव एणस्सदि	११६	ए चयदि जो दु	१६०
जिणसत्थादो अट्टे	८६	एत्थि गुणो त्ति व	११०
जीवा पोमलकाया	१३५	एत्थि परोक्खं	२२
जीवो परिणमदि	६	एत्थि विण्ण परिणामं	१०
जीवो पाण्णिवद्धो	१४८	ए पविट्ठो णाविट्ठो	२६
जीवो भवं भविस्सदि	११२	ए भवोभंगविहीणो	१००
जीवो ववगदमोहो	८१	एरणारयतिरिय	११८
जीवो मयं अमुत्तो	५५	एरणारयतिरियसुरा	१५३
जुत्तो सुहेण आदा	७०	एरणारयतिरिय	७२
जे अजघागहिदत्था	२७१	ए वि परिणमदि ए	५२
जे एव हि संजाया	३८	ए हवदि जदि सहव्वं	१०५
जे पज्जयेमु गिरदा	६४	ए हवदि समणो त्ति	२६४
जेसि विमयेसु रदी	६४	ए हि आगमेण	२३७
जो इंदियादिविजई	१५१	ए हि गिरवेक्खो	२२०
जो एवं जाणित्ता	१६५	ए हि मएणदि जो	७७
जो खलु दन्वसहावो	१०६	एरणप्पगमप्पाणं	८६
जो खविदमोहकलुसो	१६६	एरणप्पमाणमादा	२४
जो जाणदि अरहंतं	८०	एणं अट्टवियप्पो	१२४
जो जाणदि जिण्णिदे	१५७	एणं अत्थंतगयं	६१
जो जाणदि सो एणं	३५	एणं अप्प त्ति मदं	२७
जो एवि जाणदि एव	१८३	एणो एणसहावो	२८
जो ए विजाणदि	४८	एणं देहो ए मणो	१६०
जो एणहदमोहगंठी	१६५	एणं पोमलमइओ	१६२
जो एणहदमोहदिट्ठी	६२	एणं होमि परेसिं...संति	१६१
जोएण्णं गिरवेक्खं	२५१	एणं होमि परेसिं	२०४
जो मोहरागदोसे	८८	एण्णं पन्वइदो	२६६
		एण्णिच्छदमुत्तत्थपदो	२६८
		एण्णत्तणोण दुगुणो	१६६
		एण्ण वा लुक्खा वा	१६५
		एण्ण घण्णदिकम्मो	१६७
		एणो सहइति सोक्खं	६२

	गाथा	पृष्ठ		गाथा	पृष्ठ
त			प		
तत्रालिगेव सव्वे	३७	५२	पक्खीणघादिकम्मो	१६	२६
तम्हा जिणमग्गादो	६०	१२४	पयदम्हि समारद्धे	२११	३२१
तम्हा णाणं जीवो	३६	४६	पप्पा इट्ठे विसये	६५	६४
तम्हा तह जाणिन्ता	२००	३०२	परदब्बं ते अक्खा	५७	८२
तम्हा दु णत्थि कोइ	१२०	१६६	परमाणुपमाणं वा	२३६	३६३
तम्हा समं गुणादो	२७०	३६५	परिणमदि चेदण्णए	१२३	२००
तह सो लद्धसहावो	१६	२०	परिणमदि जदा	१८७	२८६
तं सम्भावरिणबद्धं	१५४	२४८	परिणमदि जेण	८	६
तिक्कालिणच्चविसमं	५१	७२	परिणमदि गेयमट्ठं	४२	५८
तिमिरहरा जइ दिट्ठी	६७	६६	परिणमदि सयं	१०४	१६६
ते ते कम्मत्तगदा	१७०	२६६	परिणमदो खलु	२१	२६
ते ते सव्वे समगं	३	४	परिणामादो बंधो	१८०	२७६
ते पुण षडिण्णतण्हा	७५	१०४	परिणामो सयमादा	१२२	१६८
तेसि विसुद्धदंसरा	५	४	पविभत्तपदेसत्तं	१०६	१६६
द			पंचसमिदो तिगुत्तो	२४०	३६५
दब्बट्टिण्ण सव्वं	११४	१८५	पाडुब्भवदि य	१०३	१६५
दब्बं अणंतपज्जय	४६	६६	पाणाबाधं जीवो	१४६	२४३
दब्बं जीवमजीवं	१२७	२०६	पाणेहिं चट्ठिं	१४७	२४१
दब्बं सहावसिद्धं	६८	१५०	पुरणफला अरहंता	४५	६२
दब्बाणि गुणं तेसि	८७	१२०	पोमालजीवणिबद्धो	१२८	२१०
दब्बादिण्णसु मूढो	८३	११५	फासो रसो य गंधो	५६	८०
दंसरण्णण्णचरित्तसु	२४२	३६७	क्खसेहिं पुमालाणं	१७७	२७७
दंसरण्णण्णवदेसो	२४८	३७५	ब		
दिट्ठा पगदं वत्थुं	२६१	३८७	बालो वा वुड्ढो	२३०	३४६
दुपदेसादी खंदा	१६७	२६३	बुग्गदि सासणमेयं	२७५	४०१
देवदजदिगुरुपूजासु	६६	६८	म		
देहा वा दविणा	१६३	२६४	भणिदा पुढवि—	१८२	२८१
देहो य मणो	१६१	२५६	भत्ते वा खमणो	२१५	३१५
घ			भंगविहीणो य	१७	२६
घम्मेण परिणदप्पा	११	१४			

	गाथा	पृष्ठ		गाथा	पृष्ठ
भावेण जेण जीवो	१७६	२७६	सदवट्टिदं सहावे	६६	१५३
म			सद्व्वं सच्च गुणो	१०७	१७२
मणुआसुरामरिंदा	६३	६१	सपदेसेहिं समगो	१४५	२३६
मणुबो ण होदि	११३	१८४	सपदेसो सो अप्पा	१८८	२८७
मरदु व जियदु	२१७	३२८	सपदेसो सो अप्पा	१७८	२७७
मुच्छारंभविजुत्तं	२०६	३१४	सपरं बाधासहियं	७६	१०६
मुज्झदि वा रज्जदि	२४३	३७०	सञ्भावो हि सहावो	६६	१४२
मुत्ता इदियोज्झा	१३१	२१४	समओ दु अप्पदेसो	१३८	२२५
मुत्तो रूवादिगुणो	१७३	२७२	समणां गणिं गुणहठं	२०३	३१२
मोहेण व रागेण		११६	समणा सुद्धुवजुत्ता	२४५	३७१
र			समवेदं खलु दव्वं	१०२	१६२
रत्तो बंधदि कम्मं	१७६	२७८	समसत्तुबंधुवग्गो	२४१	३६६
रयणमिह इंदणीलं	३०	४०	सम्मं विदिदपदत्था	२७३	३६८
रागो पसत्थभूदो	२५	३८२	सयमेव जहादिच्चो	६८	६७
रूवादिण्हिं र्हिदो	१७४	२७२	सव्वगदो जिणवसहो	२६	३४
रोगेण वा छुधाए	२५२	३७६	सव्वाबाधविजुत्तो	१६८	३००
ल			सव्वे आगमसिद्धा	२३५	३५७
लिंगगहणे तेसिं	२१०	३२०	सव्वे वि य अरहंता	८२	११४
लिंगेहिं जेहिं दव्वं	१३०	२१३	संपज्जदि णिव्वाणं	६	७
लोगालोगेसु णभो	१३६	२२२	सुत्तं जिणोवदिट्ठं	३४	४६
व			सुद्धस्स य सामणं	२७४	३६६
वणणरसगंधफासा	१३२	२१५	सुविदिदपदत्थसुत्तो	१४	१७
वदसमिदिदियरोषो	२०८	३१८	सुहपरिणामो पुणं	१८१	२८०
वदिबददो तं देसं	१३६	२२७	सेसे पुण तित्थयरे	२	३
वंदणणमंसणेहिं	२४७	३७४	सोक्खं वा पुण दुक्खं	२०	२८
विसयकसाओगाढो	१५८	२५३	सोक्खं सहावसिद्धं	७१	१००
वेज्जावच्चणमित्तं	२५३	३८०			
स			ह		
स इदाणि कप्ता	१८६	२८५	हवदि व ण हवदि	२१६	३३०
सत्तासंबद्धेदे	६१	१२७	हीणो जदि सो आदा	२५	३२

* कलशकाव्योंकी वर्णानुक्रम सूची *



			श्लोक	पृष्ठ
आत्मा धर्मः स्वयमिति	५	१३०
इति गदितमनीचैः	२१	४१५
इत्यध्यास्य शुभोपयोग	१७	३६५
इत्युच्छेदात्परपरिणतैः	८	२०८
इत्येवं चरणं पुराणपुरुषैः	१५	३५०
इत्येवं प्रतिपत्तुराशय	१६	३६६
जानन्नप्येष विश्वं	४	७५
जैनं ज्ञानं ज्ञेयतत्त्व	१०	३०४
ज्ञेयीकुर्वन्नञ्जसा	११	३०५
तन्त्रस्यास्य शिखण्डि	१८	३६६
द्रव्यसामान्यविज्ञान	६	२०८
द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य	१३	३०६
द्रव्यानुसारि चरणं	१२	३०५
द्रव्यान्तरव्यतिकरा	७	२०७
निश्चित्वात्मन्यधिकृत	६	१३१
परमानन्दसुधारस	३	२
वक्तव्यमेव किल	१४	३३२
व्याख्येयं किल	२०	४१५
सर्वव्याप्येकचिद्रूप	१	१
स्यात्कारश्रीवासवश्यै	१६	४१३
हेलोल्लुप्तमहामोह	२	२



शुद्धि पत्र

पृ०	लाइन
४	२३
१६	१३
३१	२
३५	६
४६	५
५०	२१
५६	२
६३	३
६१	१०
६४	१२
६५	११
६६	६
१२०	२५
१३४	१
१३६	६
१०४	६
२०५	१८
"	अंतिम
३१४	६
३२५	८
३४१	६
३५६	२४
३५८	२
३६२	१०
३८४	१८-१६
३८०	१६
३६३	२
"	१०
"	१०
३६६	६
"	८
३६८	८
४०१	१
"	५
"	८
४०२	अंतिम
४०६	८
४१०	१६

अशुद्धि
वर्गका
विशुद्ध
समस्त
से अभिन्न
कथञ्चि
सकता
मृत
चेतर्हि
मसहमानानां
[सुख]
इन्द्रि सुख
शक्तित्वात्
द्रव्य और पर्यायों
प्रतिपत्तिनिब
जो
जे
उपरक्त
फुटनोट,
हिसादि
तिस्तरंग
युक्ति
होनेसे
व्यापका
(ज्ञानीको
शुद्धात्म
प्रवृत्ति
निश्चय
ज्ञातृत्व
होनेसे जिसने
सूत्रैरिमैः
शिच्छदा
सुद्ध
थाजयन्
सार
लाथे
भव
नाममय
चित्तमणि

शुद्धि
वर्गको
विशुद्धि
समस्त
से अभिन्न
कथञ्चि
सकती
मृत
चेतर्हि
मसहमानानां
[सुख]
इन्द्रिय सुख
शक्तियोगित्वात्
द्रव्य गुण और पर्यायों
प्रतिपत्तिनिब
जे
वं
* उपरक्त
* उपरक्त = विकृत; मलिन,
हिसादि
निस्तरंग
युक्त
होनेके
व्यापका
(ज्ञानीको)
शुद्धात्म
प्रवृत्ति
निश्चय-
ज्ञातृत्व
होनेसे जिसने
सूत्रैरिमैः
शिच्छदा
सुद्ध
थाजयन्
सारं
लाथे
भव
नाममय
चित्तमणि

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल नं० 2 श्री
लेखके अष्टन-प्रचर
शीर्षक श्री प्रवचनसार
खण्ड ४०२५ क्रम संख्या

दिनांक	लेने वाले के हस्ताक्षर	वापसी का दिनांक